सिंघी जैन ग्रन्थमाला

[ग्रन्थांक ३६]

संस्थापक

स्व० श्रीमद् बहादुर सिंहजी सिंघी

संरक्षक

श्री राजेन्द्र सिंह सिंघी तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिंघी

*

प्रधान सम्पादक तथा संचालक

आचार्य जिनविजय मुनि



कविराज - स्वयम्भूदेव - विरचित

पउमचरिउ

[अपभ्रंशभाषाग्रथित महाकाव्यात्मक जैन रामायण]

तृतीय भाग

(युद्धकाण्ड एवं उत्तरकाण्ड)

•

संपादनकर्ता

डॉ. हरिवल्लभ चूनीलाल भायाणी, एम्. ए., पी.एच्. डी.

(प्राध्यापक, भारतीय विद्याभवन, बम्बई)

[प्रकाशनकर्ता]

सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापीठ

भारतीय विद्या भवन, बम्बई. ७

वि. सं. २०१७] 卐 [मूल्य रू. १०/५०

स्वर्गवासी साधुचरित श्रीमान् डालचन्दजी सिंघी



बाबू श्री बहादुर सिंहजी सिंघीके पुण्यश्लोक पिता

जन्म-वि. सं. १९२१, मार्ग. वदि ६ 卐 स्वर्गवास-वि. सं. १९८४, पोष सुदि ६

दानशील - साहित्यरसिक - संस्कृतिप्रिय

स्व० बाबू श्री बहादुर सिंहजी सिंघी



अजीमगंज-कलकत्ता

जन्म ता. २८-६-१८८५]   [मृत्यु ता. ७-७-१९४४

सिंघी जैन ग्रन्थ माला

[ग्रन्थांक ३६]

कविराज-स्वयम्भूदेव-रचित

पउमचरिउ

[अपभ्रंशभाषाग्रथित महाकाव्यात्मक जैन रामायण]

[तृतीय भाग]



SINGHI JAIN SERIES

[NUMBER 36]

PAUMACARIU

[A Jainistic Rāma-Epic in Apabhraṁśa]

COMPOSED BY

Kavirāja Svayambhūdeva

[THIRD PART]

कलकत्तानिवासी

साधुचरित-श्रेष्ठिवर्य श्रीमद् डालचन्दजी सिंघी पुण्यस्मृतिनिमित्त

प्रतिष्ठापित एवं प्रकाशित

सिंघी जैन ग्रन्थमाला

[जैन आगमिक, दार्शनिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, कथात्मक–इत्यादि विविधविषयगुम्फित प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राचीनगूर्जर, -राजस्थानी आदि नाना भाषानिबद्ध सार्वजनीन पुरातन वाङ्मय तथा नूतन संशोधनात्मक साहित्य प्रकाशिनी सर्वश्रेष्ठ जैन ग्रन्थावलि]

प्रतिष्ठाता

श्रीमद्-डालचन्दजी-सिंघीसत्पुत्र

स्व० दानशील-साहित्यरसिक-संस्कृतिप्रिय

श्रीमद् बहादुर सिंहजी सिंघी



प्रधान सम्पादक तथा संचालक

आचार्य जिनविजय मुनि

अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापीठ

निवृत्त ऑनररि डायरेक्टर

भारतीय विद्या भवन, बम्बई

*

संरक्षक

श्री राजेन्द्र सिंह सिंघी तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिंघी

प्रकाशक

अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापीठ

भारतीय विद्या भवन, बम्बई

जयन्तकृष्ण ह. दवे, ऑनररी डायरेक्टर, भारतीय विद्या भवन, चौपाटी रोड, बम्बई, नं. ७, द्वारा प्रकाशित
तथा – लक्ष्मीबाई नारायण चौधरी, निर्णयसागर प्रेस, २६–२८ कोलभाट स्ट्रीट, बम्बई, नं. २, द्वारा मुद्रित

कविराज-स्वयम्भूदेव-विरचित

पउमचरिउ

[अपभ्रंशभाषाग्रथित महाकाव्यात्मक जैन रामायण]

विविध पाठभेद, प्रस्तावना, विशिष्ट शब्दकोष, परिशिष्टादि समन्वित

❀

संपादनकर्ता

डॉ. हरिवल्लभ चूनीलाल भायाणी, एम्. ए., पीएच्. डी.

(प्राध्यापक, प्राकृत एवं गुजराती साहित्य, भारतीय विद्याभवन, बम्बई)

तृतीय भाग

(युद्ध काण्ड एवं उत्तर काण्ड)

❀

प्रकाशनकर्ता

अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापीठ

भारतीय विद्याभवन, बम्बई

विक्रमाब्द २०१६] प्रथमावृत्ति, पंचशत प्रति [खिस्ताब्द १९६०

ग्रन्थांक ३६] सर्वाधिकार सुरक्षित [मूल्य रु० १०/५०

SINGHI JAIN SERIES

A COLLECTION OF CRITICAL EDITIONS OF IMPORTANT JAIN CANONICAL, PHILOSOPHICAL, HISTORICAL, LITERARY, NARRATIVE AND OTHER WORKS IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRAMSHA AND OLD RAJASTHANI-GUJARATI LANGUAGES, AND OF NEW STUDIES BY COMPETENT RESEARCH SCHOLARS

•

ESTABLISHED

IN THE SACRED MEMORY OF THE SAINT LIKE LATE SETH

ŚRĪ DĀLCHANDJĪ SINGHĪ

OF CALCUTTA

BY

HIS LATE DEVOTED SON

DANASILA - SAHITYARASIKA - SANSKRITIPRIYA

ŚRĪ BAHADUR SINGH SINGHI

•

DIRECTOR AND GENERAL EDITOR

ĀCHĀRYA JINA VIJAYA MUNI

ADHIṢṬHĀTĀ, SINGHĪ JAIN ŚĀSTRA ŚIKṢHĀ PĪṬHA

(Retired Honorary Director, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay.)

•

PUBLISHED

UNDER THE PATRONAGE OF

ŚRĪ RAJENDRA SINGH SINGHI

AND

ŚRĪ NARENDRA SINGH SINGHI

BY THE ADHIṢṬHĀTĀ

SINGHI JAIN SHASTRA SHIKSHAPITH

BHARATIYA VIDYA BHAVAN, BOMBAY

PAUMACARIU

OF

KAVIRĀJA SVAYAMBHŪDEVA

(A pre-tenth century Jainistic Rāma epic in Apabhraṁśa)
Critically edited for the first time with an elaborate
Introduction, Index Verborum and Appendices.

BY

HARIVALLABH C. BHAYANI, M. A., Ph. D.
(Professor of Prakrit and Gujarati, Bharatiya Vidya Bhavan)

•

THIRD PART

(YUDDHA KĀṆḌA AND UTTARA KĀṆḌA)

•

PUBLISHED BY

Adhiṣṭhātā, Singhi Jain Śāstra Śikṣāpīṭha

BHARATIYA VIDYA BHAVAN
BOMBAY

V. E. 2016] First Edition [A. D. 1960

Vol. No. 36] [Price Rs. 10/50

॥ सिंघीजैनग्रन्थमालासंस्थापकप्रशस्तिः ॥

अस्ति बङ्गाभिधे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । मुर्शिदाबाद इत्याख्या पुरी वैभवशालिनी ॥ १

बहवो निवसन्त्यत्र जैना ऊकेशवंशजाः । धनाढ्या नृपसम्मान्या धर्मकर्मपरायणाः ॥ २

श्रीडालचन्द इत्यासीत् तेष्वेको बहुभाग्यवान् । साधुवत् सच्चरित्रो यः सिंघीकुलप्रभाकरः ॥ ३

बाल्य एव गतो यश्च कर्तुं व्यापारविस्तृतिम् । कलिकातामहापुर्यां धृतधर्मार्थनिश्चयः ॥ ४

कुशाग्रीयया सद्बुद्ध्या सद्वृत्त्या च सन्निष्ठया । उपार्ज्य विपुलां लक्ष्मीं कोट्यधिपोऽजनिष्ट सः ॥ ५

तस्य मन्नुकुमारीति सन्नारीकुलमण्डना । जाता पतिव्रता पत्नी शीलसौभाग्यभूषणा ॥ ६

श्रीबहादुरसिंहाख्यो गुणवाँस्तनयस्तयोः । सञ्जातः सुकृती दानी धर्मप्रियश्च धीनिधिः ॥ ७

प्राप्ता पुण्यवता तेन पत्नी तिलकसुन्दरी । यस्याः सौभाग्यचन्द्रेण भासितं तत्कुलाम्बरम् ॥ ८

श्रीमान् राजेन्द्रसिंहोऽस्य ज्येष्ठपुत्रः सुशिक्षितः । यः सर्वकार्यदक्षत्वात् दक्षिणबाहुवत् पितुः ॥ ९

नरेन्द्रसिंह इत्याख्यस्तेजस्वी मध्यमः सुतः । सूनुर्वीरेन्द्रसिंहश्च कनिष्ठः सौम्यदर्शनः ॥ १०

सन्ति त्रयोऽपि सत्पुत्रा आप्तभक्तिपरायणाः । विनीताः सरला भव्याः पितुर्मार्गानुगामिनः ॥ ११

अन्येऽपि बहवस्तस्याभवन् स्वस्रादिबान्धवाः । धनैर्जनैः समृद्धः सन् स राजेव व्यराजत ॥ १२

अन्यच्च –

सरस्वत्यां सदासक्तो भूत्वा लक्ष्मीप्रियोऽप्ययम् । तत्राप्यासीत् सदाचारी तच्चित्रं विदुषां खलु ॥ १३

नाहंकारो न दुर्भावो न विलासो न दुर्व्ययः । दृष्टः कदापि यद्गेहे सतां तद् विस्मयास्पदम् ॥ १४

भक्तो गुरुजनानां स विनीतः सज्जनान् प्रति । बन्धुजनेऽनुरक्तोऽभूत् प्रीतः पोष्यगणेष्वपि ॥ १५

देश-कालस्थितिज्ञोऽसौ विद्या-विज्ञानपूजकः । इतिहासादि-साहित्य-संस्कृति-सत्कलाप्रियः ॥ १६

समुन्नत्यै समाजस्य धर्मस्योत्कर्षहेतवे । प्रचाराय च शिक्षाया दत्तं तेन धनं घनम् ॥ १७

गत्वा सभा-समित्यादौ भूत्वाऽध्यक्षपदान्वितः । दत्त्वा दानं यथायोग्यं प्रोत्साहिताश्च कर्मठाः ॥ १८

एवं धनेन देहेन ज्ञानेन शुभनिष्ठया । अकरोत् स यथाशक्ति सत्कर्माणि सदाशयः ॥ १९

अथान्यदा प्रसङ्गेन स्वपितुः स्मृतिहेतवे । कर्तुं किञ्चिद् विशिष्टं स कार्यं मनस्यचिन्तयत् ॥ २०

पूज्यः पिता सदैवासीत् सम्यग्-ज्ञानरुचिः स्वयम् । तस्मात् तज्ज्ञानवृद्ध्यर्थं यतनीयं मयाऽप्यरम् ॥ २१

विचार्यैवं स्वयं चित्ते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम् । श्रद्धेयानां स्वमित्राणां विदुषां चापि तादृशाम् ॥ २२

जैनज्ञानप्रसारार्थं स्थाने शा न्ति नि के त ने । सिंघीपदाङ्कितं जै न ज्ञा न पी ठ मतिष्ठिपत् ॥ २३

श्रीजिनविजयः प्राज्ञो मुनिनाम्ना च विश्रुतः । स्वीकर्तुं प्रार्थितस्तेन तस्याधिष्ठायकं पदम् ॥ २४

तस्य सौजन्य-सौहार्द-स्थैर्यौदार्यादिसद्गुणैः । वशीभूय मुदा येन स्वीकृतं तत्पदं वरम् ॥ २५

कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण स्वीयपावनपाणिना । रस-नागाङ्क-चन्द्राब्दे तत्प्रतिष्ठा व्यधीयत ॥ २६

प्रारब्धं मुनिना चापि कार्यं तदुपयोगिकम् । पाठनं ज्ञानलिप्सूनां ग्रन्थानां ग्रथनं तथा ॥ २७

तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंघीकुलकेतुना । स्वपितृश्रेयसे चैषा प्रारब्धा ग्रन्थमालिका ॥ २८

उदारचेतसा तेन धर्मशीलेन दानिना । व्ययितं पुष्कलं द्रव्यं तत्तत्कार्यसुसिद्धये ॥ २९

छात्राणां वृत्तिदानेन नैकेषां विदुषां तथा । ज्ञानाभ्यासाय निष्कामसाहाय्यं स प्रदत्तवान् ॥ ३०

जलवाय्वादिकानां तु प्रातिकूल्यादसौ मुनिः । कार्यं त्रिवार्षिकं तत्र समाप्यान्यत्रावासितः ॥ ३१

तत्रापि सततं सर्वं साहाय्यं तेन यच्छता । ग्रन्थमालाप्रकाशाय महोत्साहः प्रदर्शितः ॥ ३२

नन्द-निध्यङ्क-चन्द्राब्दे कृता पुनः सुयोजना । ग्रन्थावल्याः स्थिरत्वाय विस्तराय च नूतना ॥ ३३

ततो मुनेः परामर्शात् सिंघीवंशनभस्वता । भा वि द्या भ व ना येयं ग्रन्थमाला समर्पिता ॥ ३४

आसीत्तस्य मनोवाञ्छाऽपूर्वग्रन्थप्रकाशने । तदर्थं व्ययितं तेन लक्षावधि हि रूप्यकम् ॥ ३५

दुर्विलासाद् विधेर्हन्त ! दौर्भाग्याच्चात्मबन्धूनाम् । स्वल्पेनैवाथ कालेन स्वर्गं स सुकृती ययौ ॥ ३६

विधु-शून्य-ख-नेत्रा-ब्दे मासे आषाढसञ्ज्ञके । कलिकातानगर्यां स प्राप्तवान् परमां गतिम् ॥ ३७

पितृभक्तैश्च तत्पुत्रैः प्रेयसे पितुरात्मनः । तथैव प्रपितुः स्मृत्यै प्रकाश्यतेऽधुना त्वियम् ॥ ३८

सैषा ग्रन्थावलिः श्रेष्ठा प्रेष्ठा प्रज्ञावतां प्रथा । भूयाद् भूत्यै सतां सिंघीकुलकीर्तिप्रकाशिका ॥ ३९

विद्वज्जनकृताह्लादा सच्चिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्वियं लोके श्रीसिंघी ग्रन्थमालिका ॥ ४०

*

॥ सिंघीजैनग्रन्थमालासम्पादकप्रशस्तिः ॥

स्वस्ति श्रीमेदपाटाख्यो देशो भारतविश्रुतः । रूपाहेलीति सन्नाम्नी पुरिका यत्र सुस्थिता ॥ १
सदाचार-विचाराभ्यां प्राचीननृपतेः समः । श्रीमच्चतुरसिंहोऽत्र राठोडान्वयभूमिपः ॥ २
तत्र श्रीवृद्धिसिंहोऽभूद् राजपुत्रः प्रसिद्धिभाक् । क्षात्रधर्मधनो यश्च परमारकुलाग्रणीः ॥ ३
मुञ्ज-भोजमुखा भूपा जाता यस्मिन् महाकुले । किं वर्ण्यते कुलीनत्वं तत्कुलजातजन्मनः ॥ ४
पत्नी राजकुमारीति तस्याभूद् गुणसंहिता । चातुर्य-रूप-लावण्य-सुवाक्-सौजन्यभूषिता ॥ ५
क्षत्रियाणीं प्रभापूर्णां शौर्योद्दीप्तमुखाकृतिम् । यां दृष्ट्वैव जनो मेने राजन्यकुलजा त्वियम् ॥ ६
पुत्रः किसनसिंहाख्यो जातस्तयोरतिप्रियः । रणमल्ल इति चान्यद् यन्नाम जननीकृतम् ॥ ७
श्रीदेवीहंसनामाऽत्र राजपूज्यो यतीश्वरः । ज्योतिर्भैषज्यविद्यानां पारगामी जनप्रियः ॥ ८
आगतो मरुदेशाद् यो भ्रमन् जनपदान् बहून् । जातः श्रीवृद्धिसिंहस्य प्रीति-श्रद्धास्पदं परम् ॥ ९
तेनाथाप्रतिमप्रेम्णा स तत्सूनुः स्वसन्निधौ । रक्षितः शिक्षितः सम्यक्, कृतो जैनमतानुगः ॥ १०
दौर्भाग्यात् तच्छिशोर्बाल्ये गुरु-तातौ दिवंगतौ । विमूढः स्वगृहात् सोऽथ यदृच्छया विनिर्गतः ॥ ११

तथा च-

भ्रान्त्वा नैकेषु देशेषु संसेव्य च बहून् नरान् । दीक्षितो मुण्डितो भूत्वा जातो जैनमुनिस्ततः ॥ १२
ज्ञातान्यनेकशास्त्राणि नानाधर्ममतानि च । मध्यस्थवृत्तिना तेन तत्त्वातत्त्वगवेषिणा ॥ १३
अधीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजाः । अनेका लिपयोऽप्येवं प्रत्न-नूतनकालिकाः ॥ १४
येन प्रकाशिता नैके ग्रन्था विद्वत्प्रशंसिताः । लिखिता बहवो लेखा ऐतिह्यतथ्यगुम्फिताः ॥ १५
बहुभिः सुविद्वद्भिस्तन्मण्डलैश्च स सत्कृतः । जिनविजयनाम्नाऽयं विख्यातः सर्वत्राभवद् ॥ १६
तस्य तां विश्रुतिं ज्ञात्वा श्रीमद्गान्धीमहात्मना । आहूतः सादरं पुण्यपत्तनात् स्वयमन्यदा ॥ १७
पुरे चाहम्मदाबादे राष्ट्रीयः शिक्षणालयः । विद्यापीठ इति ख्यात्या प्रतिष्ठितो यदाऽभवत् ॥ १८
आचार्यत्वेन तत्रोच्चैर्नियुक्तः स महात्मना । रस-मुनि-निधीन्द्वब्दे पुरातत्त्वाख्यमन्दिरे ॥ १९
वर्षाणामष्टकं यावत् सम्भूष्य तत् पदं ततः । गत्वा जर्मनराष्ट्रे स तत्संस्कृतिमधीतवान् ॥ २०
तत आगत्य सँल्लग्नो राष्ट्रकार्ये च सक्रियम् । कारावासोऽपि सम्प्राप्तो येन स्वातन्त्र्यसङ्गरे ॥ २१
क्रमात् ततो विनिर्मुक्तः स्थितः शान्तिनिकेतने । विश्ववन्द्यकवीन्द्रश्रीरवीन्द्रनाथभूषिते ॥ २२
सिंघीपदयुतं जैनज्ञानपीठं तदाश्रितम् । स्थापितं तत्र सिंघीश्रीडालचन्दस्य सूनुना ॥ २३
श्रीबहादुरसिंहेन दानवीरेण धीमता । स्मृत्यर्थं निजतातस्य जैनज्ञानप्रसारकम् ॥ २४
प्रतिष्ठितश्च तस्यासौ पदेऽधिष्ठातृसञ्ज्ञके । अध्यापयन् वरान् शिष्यान् ग्रन्थयन् जैनवाङ्मयम् ॥ २५
तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंघीकुलकेतुना । स्वपितृश्रेयसे ह्येषा प्रारब्धा ग्रन्थमालिका ॥ २६
अथैवं विगतं तस्य वर्षाणामष्टकं पुनः । ग्रन्थमालाविकासादिप्रवृत्तिषु प्रयस्यतः ॥ २७
बाणे-रत्ने-नवेन्द्वब्दे मुंबाईनगरीस्थितः । मुंशीति बिरुदख्यातः कन्हैयालाल-धीसखः ॥ २८
प्रवृत्तो भारतीयानां विद्यानां पीठनिर्मितौ । कर्मनिष्ठस्य तस्याभूत् प्रयत्नः सफलोऽचिरात् ॥ २९
विदुषां श्रीमतां योगात् पीठो जातः प्रतिष्ठितः । भारतीय पदोपेत विद्याभवन सञ्ज्ञया ॥ ३०
आहूतः सहकार्यार्थं स मुनिस्तेन सुहृदा । ततःप्रभृति तत्रापि तत्कार्ये सुप्रवृत्तवान् ॥ ३१
तद्भवनेऽन्यदा तस्य सेवाऽधिका ह्यपेक्षिता । स्वीकृता च सद्भावेन साऽप्याचार्यपदाश्रिता ॥ ३२
नन्दे-निध्यङ्क-चन्द्राब्दे वैक्रमे विहिता पुनः । एतद्ग्रन्थावलीस्थैर्यकृते नूतनयोजना ॥ ३३
परामर्शात् ततस्तस्य श्रीसिंघीकुलभास्वता । भाविद्याभवनायेयं ग्रन्थमाला समर्पिता ॥ ३४
प्रदत्ता दशसाहस्री पुनस्तस्योपदेशतः । स्वपितृस्मृतिमन्दिरकरणाय सुकीर्तिना ॥ ३५
दैवादल्पे गते काले सिंघीवर्यो दिवंगतः । यस्तस्य ज्ञानसेवायां साहाय्यमकरोत् महत् ॥ ३६
पितृकार्यप्रगत्यर्थं यत्नशीलैस्तदात्मजैः । राजेन्द्रसिंहमुख्यैश्च सत्कृतं तद्वचस्ततः ॥ ३७
पुण्यश्लोकपितुर्नाम्ना ग्रन्थागारकृते पुनः । बन्धुज्येष्ठो गुणश्रेष्ठो ह्यर्द्धलक्षं धनं ददौ ॥ ३८
ग्रन्थमालाप्रसिद्ध्यर्थं पितृवत् तस्य कांक्षितम् । श्रीसिंघीसत्पुत्रैः सर्वं तद्गिराऽनुविधीयते ॥ ३९
विद्वज्जनकृताह्लादा सच्चिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्वियं लोके जिनविजयभारती ॥ ४०

*

SINGHI JAIN SERIES

अद्यावधि मुद्रितग्रन्थ नामावलि

१ मेरुतुङ्गाचार्यरचित प्रबन्धचिन्तामणि मूल संस्कृत ग्रन्थ.
२ पुरातनप्रबन्धसंग्रह बहुविध ऐतिह्यतथ्यपरिपूर्ण अनेक प्राचीन निबन्ध संचय.
३ राजशेखरसूरिरचित प्रबन्धकोश.
४ जिनप्रभसूरिकृत विविधतीर्थकल्प.
५ मेघविजयोपाध्यायकृत देवानन्दमहाकाव्य.
६ यशोविजयोपाध्यायकृत जैनतर्कभाषा.
७ हेमचन्द्राचार्यकृत प्रमाणमीमांसा.
८ भट्टाकलङ्कदेवकृत अकलङ्कग्रन्थत्रयी.
९ प्रबन्धचिन्तामणि – हिन्दी भाषांतर.
१० प्रभाचन्द्रसूरिरचित प्रभावकचरित.
११ सिद्धिचन्द्रोपाध्यायरचित भानुचन्द्रगणिचरित.
१२ यशोविजयोपाध्यायविरचित ज्ञानबिन्दुप्रकरण.
१३ हरिषेणाचार्यकृत बृहत्कथाकोश.
१४ जैनपुस्तकप्रशस्तिसंग्रह, प्रथम भाग.
१५ हरिभद्रसूरिविरचित धूर्ताख्यान. (प्राकृत)
१६ दुर्गदेवकृत रिष्टसमुच्चय. (प्राकृत)
१७ मेघविजयोपाध्यायकृत दिग्विजयमहाकाव्य.
१८ कवि अब्दुल रहमानकृत सन्देशरासक. (अपभ्रंश)
१९ भर्तृहरिकृत शतकत्रयादि सुभाषितसंग्रह.
२० शान्त्याचार्यकृत न्यायावतारवार्तिक-वृत्ति.
२१ कवि धाहिलरचित पउमसिरीचरिउ. (अप०)
२२ महेश्वरसूरिकृत नाणपंचमीकहा. (प्रा०)
२३ श्रीभद्रबाहुआचार्यकृत भद्रबाहुसंहिता.
२४ जिनेश्वरसूरिकृत कथाकोषप्रकरण. (प्रा०)
२५ उदयप्रभसूरिकृत धर्माभ्युदयमहाकाव्य.
२६ जयसिंहसूरिकृत धर्मोपदेशमाला. (प्रा०)
२७ कोऊहलविरचित लीलावई कहा. (प्रा०)
२८ जिनदत्ताख्यानद्वय. (प्रा०)
२९ स्वयंभूविरचित पउमचरिउ. भाग १ (अप०)
३० ,, ,, ,, २ ,,
३१ सिद्धिचन्द्रकृत काव्यप्रकाशखण्डन.
३२ दामोदरपण्डित कृत उक्तिव्यक्तिप्रकरण.
३३ भिन्नभिन्न विद्वत्कृत कुमारपालचरित्रसंग्रह.
३४ जिनपालोपाध्यायरचित खरतरगच्छ बृहद्गुर्वावलि.
३५ उद्द्योतनसूरिकृत कुवलयमाला कहा. (प्रा०)
३६ गुणपालमुनिरचित जंबुचरियं. (प्रा०)
३७ पूर्वाचार्यविरचित जयपायड–निमित्तशास्त्र. (प्रा०)
३८ भोजनृपतिरचित शृङ्गारमञ्जरी. (संस्कृत कथा)
३९ धनसारगणीकृत–भर्तृहरशतकत्रयटीका.
४० कौटल्यकृत अर्थशास्त्र - सटीक. (कतिपयअंश)
४१ विज्ञप्तिलेखसंग्रह विज्ञप्तिमहालेख - विज्ञप्तित्रिवेणी आदि अनेक विज्ञप्तिलेख समुच्चय.
४२ महेन्द्रसूरिकृत नर्मदासुन्दरीकथा. (प्रा०)
४३ हेमचन्द्राचार्यकृत–छन्दोऽनुशास.
४४ स्वयंभुकविरचित पउमचरिउ. भा० ३

Shri Bahadur Singh Singhi Memoirs

Dr. G. H. Bühler's Life of Hemachandrāchārya.

Translated from German by Dr. Manilal Patel, Ph. D.

1 स्व. बाबू श्रीबहादुरसिंहजी सिंघी स्मृतिग्रन्थ [भारतीयविद्या भाग ३] सन १९४५.
2 Late Babu Shri Bahadur Singhji Singhi Memorial volume BHARATIYA VIDYA [Volume V] A. D. 1945.
3 Literary Circle of Mahāmātya Vastupāla and its Contribution to Sanskrit Literature. By Dr. Bhogilal J. Sandesara, M. A., Ph. D. (S.J.S.33.)
4-5 Studies in Indian Literary History. Two Volumes. By Prof. P. K. Gode, M. A. (S. J. S. No. 37-38.)

संप्रति मुद्यमाणग्रन्थनामावलि

१ विविधगच्छीय पट्टावलिसंग्रह.
२ जैनपुस्तकप्रशस्तिसंग्रह, भाग २.
३ कीर्तिकौमुदी आदि वस्तुपालप्रशस्तिसंग्रह.
४ गुणचन्द्रविरचित मंत्रीकर्मचन्द्रवंशप्रबन्ध.
५ गुणप्रभाचार्यकृत विनयसूत्र. (बौद्धशास्त्र)
६ रामचन्द्रकविरचित-मल्लिकामकरन्दादिनाटकसंग्रह
७ तरुणप्रभाचार्यकृत षडावश्यकबालावबोधवृत्ति.
८ प्रद्युम्नसूरिकृत मूलशुद्धिप्रकरण-सटीक.
९ कुवलयमाला कथा, भाग २
१० छन्दोऽनुशासन, भाग २

मुनि श्री जिनविजयजी को

जिनका समग्र जीवन
सारस्वत यज्ञ एवं श्रम-यज्ञ के
समन्वय का एक सुभग प्रतीक-सा रहा है

सादर सस्नेह समर्पितं

हरिवल्लभ भायाणी

Table of Contents

General Editor's Foreword

Parts One and Two of Svayambhūdeva's *Paumacariu* were published in 1953 as Volumes No. 34 and 35 respectively of the Singhi Jain Series. At that time it was expected that Part Three would be ready for publication in about two years' time. But it is after an interval of some seven years that I have been able to put this last part before the public. It is commonplace, but on that account not any less reassuring, to observe that successful completion of extensive and hard undertakings rests on the conjuction of numerous favourable factors, not a few of which habitually elude us or go beyond our control. I feel, therefore, a profound sense of satisfaction at seeing at last the full fructification of my long-cherished desire to put within the reach of a larger public, the pleasures and treasures of *Paumacariu*, the *kāvyacūḍāmaṇi* of Svayambhū. And even though the work of publication was spread over a period of about fifteen years, I consider myself, in view of my quite ripe age, to be in this regard more fortunate than the poet Svayambhū, who had to leave the composition of the *Paumacariu* unfinished, and whose son Tribhuvana took on himself to bring it to completion.

In my foreword to the First Part, I have already referred in brief to the great literary, linguistic and culture-historical worth of the *Paumacariu*, to my long-standing interest in that work, and to the periodical efforts made to create conditions favouring its publication. The Singhi Jain Series, all through its existence, has been striving, among other things, to make available to the scholars and lovers of India's priceless past, some unique works of Prakrit and Apabhraṁśa literatures. And towards fulfilment of that end, the Series has brought out works like the *Kathākośaprakaraṇa*, *Dhūrtākhyāna*, *Saṁdeśarāsaka*, *Paumasiricariu*, *Nāṇapañcamīkahāo*, *Nammayāsundarikahā*, *Līlāvaikahā*, *Kuvalayamālā-kahā*, *Uktivyakti-prakaraṇa* and *Jambucariya* - all of them enjoying singular distinction in more than one ways. Svayambhū's Apabhraṁśa Rāmāyaṇa too, in virtue of its several exclusive distinctions, goes to serve the same end. Svayambhū's poetry has earned high encomiums for itself from his distinguished contemporaries and successors, as well as from modern lovers of Classical literature. His rich and vivid imagery, fluency of style and confident mastery of poetic craftmanship are for anybody to perceive and appreciate. He would certainly appropriate a place of pride in any account of Classical Indian literature.

*

In fine, I offer my congratulations to my dear pupil and colleague Prof. H. C. Bhayani for bringing a long and arduous task to a successful end. He has fulfilled his assignment with creditable devotion and patience. Aside from preparing an authentic text of the epic, he has studied critically and exhaustively, several of its important aspects. Vastness of the work and considerations of time and space inevitably imposed limits on the number and extent of the aspects he studied, but even then in his introductions and glossaries to the different parts of the *Paumacariu* much valuable information has been extracted and systematically presented. In several ways he has specialized in Apabhraṁśa studies and through his distinguished contributions to Middle Indo-Aryan and especially Apabhraṁśa scholarship he has earned a creditable status for himself. I could not but say these few words even at the cost of repeating what I said in my Foreword to the First Part. His keen and ever-ready cooperation has made it possible to present *Paumacariu* to the public in a form consistent with the scholarly standards of the Singhi Jain Series. My good wishes are always with him in all his prospective scholarly undertakings, and I pray that he may have a long and active life so that the scholarly world may see numerous such research works accomplished at his hands.

The Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs, Government of India, have contributed a share towards the cost of publication of this work. We are thankful to them for this appreciation of the work of the Singhi Jain Series and the Bharatiya Vidya Bhavan.

JINA VIJAYA MUNI

PREFACE

This third and last part of the *Paumacariu* (PC.), containing twentyone Sandhis of the Yuddha Kāṇḍa and thirteen Sandhis of the Uttara Kāṇḍa, completes the long-standing work of editing and publishing this earliest available and quite an outstanding Apabhraṁśa Purāṇic epic. Even though it had started printing already in 1953 when the second part appeared, the printing was frequently held up for long stretches due to various causes. Any way, for me it is a matter of no small satisfaction that the work could be at long last completed, *jaṇaṇayaṇāṇanda-jaṇeriyaĕ, āsīsaĕ savvahŏ keriyĕ* 'with the delighting blessings of all', to use Svayambhū's own words. Due to its early age and manifold importance PC. has aroused very keen interest in several scholars, as can be judged from their relevant writings.[1] But several aspects of the work remain yet to be systematically exploited and explored, and some students are in fact currently occupied with a few of them. The quality and range of Svayambhū's poetry too cannot but charm an ever-widening circle of lovers of our classical literature.

There remains now the most pleasant duty of acknowledging obligations. Keen personal interest and invaluable guidance of Acharya Shri Jina-Vijayaji have been the prime inspiring factor in this undertaking from its start to finish. His vast knowledge of the rich documentary sources of Ancient and Medieval Indian culture, as also his great experience accumulated over a life-time that has been given to searching out, editing and interpreting those sources, was always readily available to me. Above all there was the highly inspiring example of his personal life, plain, straightforward, generous to a fault and dedicated to the cause of learning to such an extent that single-handed, it has achieved what would require work of several life-times. My multiple indebtedness to him cannot be recounted in full, let alone the question of repaying it. The one consolation I can

1. Besides the accounts, articles etc. of V. M. Kulkarni, Harivamsh Kochar, Rahul Sankrityayan, Bholashankara Vyas and others, there has appeared a Hindi translation of the first 57 Sandhis prepared by Devendrakumara Jain. The translation, however, unfortunately gives the impression of having been done in a hurry and with frequent misunderstanding and rough-handling. This observation applies also with equal force to the PC. text reproduced to accompany that translation. But despite these limitations the effort is to be commended for putting Svayambhū's work within the reach of a wider public.

take in this matter is that my labours could serve to realize Muniji's long-cherished desire to place Svayambhū's great work before the public. But public acknowledgement of indebtedness has always a formal ring about it, and due to my long association with Muniji and due to his personal interest in my work, I seem to have by now acquired something like a right, by constant use, over his affection and generosity. I can only earnestly wish that for many years to come he may continue to inspire, guide and bless us and offer at the shrine of Sarasvatī the prize fruits of his life-long labours.

Next I may take this opportunity to acknowledge the debt of my various predecessors in general in the field of Apabhraṁśa studies, and here special mention should be made of L. Alsdorf of Hamburg University. His masterly *Harivaṁśa-Purāṇa* is in several ways a pioneering work in Apabhraṁśa textual editing and text-based studies. The clear stamp of that work would be readily recognised on the method, form and character of text-editing and general studies presented in the *Paumacariu*. Of course no presumptuous comparison is to be suspected in these words. I am only trying to say that I have greatly benefited by Alsdorf's method, insights and results as revealed by his edition of the Harivaṁśa portion of Puṣpadanta's *Mahāpurāṇa*.

For the loan of Mss. and other materials used in editing the text, and for the printing of the book, my sincere thanks are due to the following persons and institutions: The Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona and Dr. P. K. Gode, the learned and ever-helpful Superitntendent of the Mss. department; the Trustees of the Godikā Jain Temple Mss. Collection, Sanganer and Dr. Hiralal Jain, Director, Vaishali Institute of Prakrit and Jainology, Muzaffarpur; the Managing Committee and the Secretary of the Śrī Digambar Atiśay Kṣetra Śrī Mahāvīrjī, Jaipur; the trustees of the Digambar Jain Terahpanthī Baṛā Mandir Śāstra Bhaṇḍār, Jaipur; late Pandi Nathuram Premi, the then General Secretary of the Manikyacandra Digambar Jain Granthamala; the Trustees of the Ailaka Pannalal Sarasvati Bhaṇḍār, Bombay; the Manager and the workers of the Nirnayasagar Press, Bombay.

Great credit goes to Śrī Rajendra Singh Singhi and Śrī Narendra Singh Singhi for their continued patronage to the Singhi Jain Series, which has since long become indispensable to

all students of India's past. I cannot feel grateful for the inclusion of this Third Part also in the Series for publication.

To the Bharatiya Vidya Bhavan I owe so much that it would be futile to put it here in words. I have received unhampered research and other facilities throughout my association with it. But when we think of the inestimable and multiform contributions made and still being made by Dr. K. M. Munshi, the illustrious President of the Bhavan, through his vast number of creative, scholarly and critical-reflective writings, and through institutional activities, towards the cause of resuscitating and radiating the basic values of India's culture, Bhavan's encouragement to and manifold interest in the scholarly research is nothing to be wondered at. In giving voice here, however, to my sense of gratitude to the Bhavan, I feel the satisfaction of discharging a genuine duty.

Kartika Shuddha Pratipada
V. S. 2017.
Bombay.

H. C. BHAYANI.

INTRODUCTION

1. A BRIEF OUTLINE OF THE NARRATIVE IN SANDHIS LVII - XC

YUDDHA - KĀṆḌA

Sandhi LVII. Vibhīṣaṇa Insulted by Rāvaṇa, Goes over to Rāma.

On hearing the sound of Rāma's war-drums Vibhīṣaṇa met Rāvaṇa and tried to persuade him to give up Sītā and save himself from sin, and all others from destruction. Rāvaṇa first confessed he was a slave of his senses. But Indrajit flared up against Vibhīṣaṇa for intimidating them in Rāma's name. Vibhīṣaṇa persisted in the same vein. Now Rāvaṇa too got wild. He ordered Vibhīṣaṇa to leave Laṅkā. Smarting under the insult Vibhīṣaṇa along with his army, went over to Rāma. On Hanumat's advice, Rāma welcomed him and promised him the throne of Laṅkā. At that moment Bhāmaṇḍala too arrived along with his army, one thousand Akṣauhiṇī strong.

Sandhi LVIII. Aṅgada's Mission of Conciliation.

Rāma in a final bid to save peace sent Aṅgada to Rāvaṇa with an appeal to return Sītā. But Lakṣmaṇa urged him to adopt an aggressive attitude. Accordingly Rāma, Lakṣmaṇa, Vibhīṣaṇa, Sugrīva, Hanumat and others sent provocative challanges to Rāvaṇa through Aṅgada. Aṅgada approached Rāvaṇa. The latter ridiculed Rāma's proposal. Indrajit supported him. Aṅgada delivered the challanges and returned.

Sandhi LIX. Description of Rāvaṇa's Forces Poised for Battle.

List of prominent warriors; parting scences; spirited vows. Hasta and Prahasta were appointed to command the army, four thousand Akṣauhiṇī strong.

Sandhi LX. Description of Rāma's Forces Poised for Battle.

List of prominent warriors; their strength, spirit and achievements; the army was two thousand Akṣauhiṇī strong. The heavenly nymphs, come there as spectators, argued as to which of the two sides would win.

Sandhi LXI. Fall of Hasta and Prahasta in the First Day's Battle.

The opposite armies joined in battle. In the first encounter Rāma's forces were compelled to retreat. But shortly they rallied, and forced the enemy ranks to disperse. Thereupon Hasta and Prahasta rushed to the van, confronted Nala and Nīla and eventually got killed by them. At sunset the fighting stopped for the day.

Sandhi LXII. High Morale of Rāvaṇas Generals.

Jāmbūvat reassembled Rāma's forces to form the impenetrable Lion Array (siṁha-vyūha). Rāvaṇa on his secret nightly inspection got a glimpse of the high morale of his loyal generals, whom he honoured with presents.

Sandhi LXIII. The Second Day's Engagements.

The next day hostilities were resumed. Santāpana, Prathita, Ākrośa, Durita and Vighna from Rāma's side fell fighting. At the day's end Rāvaṇa's side rejoiced. Rāma's side smarted under the setback.

Sandhi LXIV–LXV. The Third Day's Engagements.

Fighting between Śārdūla and Vajrodara, Bāhubali (and later Vijaya and Svayambhū) and Siṁhadamana, Saṁkrodha and Khavicārin, Vilāpin and Vidhi, Viśālatejas and Śambhu, Hanumat and Mālin (and later, Vajrodara, Jambūmālin and Mahodara)—the former from Rāma's side, the latter from Rāvaṇa's. Eventually Hanumat was surrounded all at once by a host of Rāvaṇa's warriors.

Single-handed Hanumat repulsed their attack. Jāmbūvat and others rushed to his help. Kumbhakarṇa came out to counter their onslaught. He spread a reign of terror. All the chief warriors of Rāma fell upon him in concert. But with a magic missile, he put all the hostile forces to sleep. Sugrīva countered it with its anti-missile. Thereafter Vajraṇās, Ghanavāhana and Indrajit respectively engaged Virādhita, Bhāmaṇḍala and Sugrīva. The latter two were discomfited. Fettered by means of the Serpent-Missile, they were captured alive. Kumbhakarṇa caught Hanumat, but Aṅgada fell upon him and removed his clothes. Hanumat escaped. Vibhīṣaṇa informed Rāma about the capture of Sugrīva and Bhāmaṇḍala. Rāma used Garuḍa-Vidyā and effected their release.

Sandhi LXVI. The Fourth Day's Battle : Lakṣmaṇa Struck with Śakti.

Nala and Nīla pressed hard on the enemy ranks. Each one from both the sides sought out his match and got engaged with him. Rāvaṇa was engaged by Vibhīṣaṇa. Lakṣmaṇa caught Indrajit, while Rāma captured Kumbhakarṇa. Finding himself in great difficulty, Rāvaṇa threw a powerful Śakti on to Vibhīṣaṇa, but Lakṣmaṇa intervened, and was struck senseless.

Rāma fell upon Rāvaṇa and worsted him six times over. At evening the hostilities ceased for the day.

Sandhi LXVII. Rāma's Grief. Rāvaṇa's Incorrigibility.

Rāma's grief and lament. The whole of the camp was aggrieved. Sītā too, when told about Lakṣmaṇa's condition, lamented. Rāvaṇa was pained to learn Kumbhakarṇa captured. But this did not make him budge from his position. Within a day the fate of the battle would be decided, he thought. Rāma was somehow consoled. He vowed to kill Rāvaṇa the very next day, if Lakṣmaṇa did not come round. Sugrīva organised the forces to form an impenetrable protective fortress around Lakṣmaṇa's body.

Sandhi LXVIII. The Story of Viśalyā.

At that juncture, Prince Praticandra from Devasaṅgītapura arrived there and told Rāma to fetch the ablution waters of king Droṇaghana's daughter Viśalyā and sprinkle Lakṣmaṇa with them. Once he himself, battered by an enemy and fallen within the precincts of Ayodhyā, was revived and cured by Bharata by means of those magic waters. Bharata had learnt about them from Droṇaghana during a raging epidemic, when the latter's city alone in the whole kingdom had remained unaffected. The story behind the wonderful properties of Viśalyā's waters was unfolded by a holy monk. In her previous birth Viśalyā was a Vidyādhara princess called Anaṅgaśarā. Punarvasu took her by force, but unable to counter the attack of the pursuing army, he dropped her in a wilderness and fled. She practised austerities for thousands of years. Once when she was being swallowed by a python, Saudāsa offered to kill the beast. But she stopped him, consistently with her vow of Ahiṃsā. Having died, she was reborn as Viśalyā, while Punarvasu was reborn Lakṣmaṇa.

Sandhi LXIX. Viśalyā is Brought. Lakṣmaṇa Revives.

Hanumat offered to fetch the healing waters before dawn. Sugrīva and Bhāmaṇḍala became his assistants. They left by their aerial cars. Passing over the ocean, the mountains Malaya and Kiṣkindha, rivers from Kṛṣṇaveṇā to Narmadā, and the Vindhyas, they reached Ayodhyā and informed Bharata about Lakṣmaṇa's condition. Bharata's lament. The Royal harem and the people too were aggrieved. At Kaikeyā's request, Droṇaghana sent Viśalyā herself along with one thousand girls to

Lakṣmaṇa. As the aerial car fetching her approached Laṅkā, the śakti left Lakṣmaṇa and fled with a promise never to return. Viśalyā's ablution waters revived and healed the whole of Rāma's army. Lakṣmaṇa's marriage with Viśalyā.

Sandhi LXX. Rāvaṇa Seeks Conciliation, but in vain.

On learning the news of Lakṣmaṇa's revival Mandodarī pressed Rāvaṇa to compromise with Rāma. Ministers supported her proposal. Rāvaṇa sent an envoy to Rāma with the offer of his abdication in lieu of Rāma's agreeing to give up Sītā. The offer was rejected. The envoy boasting about Rāvaṇa's strength was thrown out. Shaken by the report of Rāma's invincibility Rāvaṇa engaged himself in acquiring the magic power Buhurūpiṇī. He undertook an eight-days' meditation and ordered intensive religious activities thoughout Laṅkā on the occasion of the Nandīśvara festival.

Sandhi LXXI. The Nandīśvara Festival. Aṅga and Aṅgada Undertake to Disturb Rāvaṇa's Meditation.

The spring described. Rāvaṇa followed by the people went to the Śāntinātha temple. Description of the worship. He sat in meditation for the acquisition of Bahurūpiṇī. On receiving the news, Aṅga and Aṅgada at the head of a battalion, entered Laṅkā, threatening and wrecking. An army of Yakṣas, however, attacked them and pursued them in their retreat to Rāma's camp. Rāma denounced the Yakṣas for supporting immoral acts of Rāvaṇa. They apologized.

Sandhi LXXII. Rāvaṇa's Acquisition of the Magic Power Bahurūpiṇī.

Aṅga, Aṅgada and other chiefs reentered Laṅkā. Description of the glory of Laṅkā, of Rāvaṇa's palace, queens. The chiefs harassed the meditating Rāvaṇa and molested the queens. Queens' piteous appeals for protection failed to disturb Rāvaṇa's concentration. Thereupon Bahurūpiṇī was mastered. Rāvaṇa consoled the queens and promised to avenge them.

Sandhi LXXIII. Rāvaṇa's Change of Heart.

Description of Rāvaṇa's luxurious bath, dinner. He visited Sītā and tried to persuade her to accept him. Sītā's firm refusal and swooning caused a change of heart in him. He decided to return Sītā to Rāma the next day immediately after he achieved victory over him.

Sandhi LXXIV. The Last Battle.

Rāvaṇa started for a final show-down with Rāma. Seeing ill-omens Mandodarī tried to dissuade him, but to no avail. Description of Rāvaṇa going to the battle-field. Lakṣmaṇa and others on the opposite side were all prepared. A very fierce fighting ensued. Descriptions of the dust raised, of the heroic deeds of the fighting warriors.

Sandhi LXXV. The Fall of Rāvaṇa.

Mṛga worsted Hanumat, Bhāmaṇḍala, Sugrīva and Vibhīṣaṇa in successive encounters. Rāma pushed back Mṛga. Rāvaṇa intervened. Their fighting continued incessantly for seven days, when Lakṣmaṇa intervened. Rāvaṇa used Bahurūpiṇī which endlessly multiplied his form and renewed amputated limbs. After ten days' incessant battle Rāvaṇa threw the most powerful Cakra at Lakṣmaṇa. The Cakra, instead of killng, acknowledged him as its master. Struck with the same Cakra by Lakṣmaṇa, Rāvaṇa fell dead.

Sandhi LXXVI. Grief of Rāvaṇa's Family.

Laments of Vibhīṣaṇa, of Mandodarī and other queens, of Kumbhakarṇa, Indrajit etc.

Sandhi LXXVII. Rāvaṇa's Cremation.

Rāma consoled Vibhīṣaṇa. Funeral pyre was prepared. Rāvaṇa's body was laid thereon. The pyre was lighted. Description of the burning pyre. Rāvaṇa's relatives performed obsequies. Rāma affirmed his trust in Vibhīṣaṇa.

UTTARA-KĀṆḌA

Sandhi LXXVIII. Reunion with Sītā. Triumhhal Entry into Laṅkā. Departure for Ayodhyā.

On hearing Monk Aprameyabala's impressive sermon on the all-devouring and inescapable Kāla, Indrajit, Ghanavāhana, Mṛga, Kumbhakarṇa, Mārīci, Mandodarī and others took ordination. At the instance of Vibhīṣaṇa, Rāma met Sītā and received her with great feeling and admiration.

Description of the triumphal entry into Laṅkā. Rāma sang a hymn at the Śāntinātha temple. Vibhīṣaṇa was crowned king of Laṅkā. All the princesses Rāma and Lakṣmaṇa had acquired on their way from Ayodhyā came over to Laṅkā. Rāma spent there six years. Nārada gave the news of Rāma and Lakṣmaṇa to suffering Sukośalā and going to Laṅka conveyed to Rāma her

grief due to long separation from him. Rāma decided to return to Ayodhyā at once. Vibhīṣaṇa transformed Ayodhyā into a golden city. On their way to Ayodhyā Rāma showed to Sītā from their aerial car all the places below, rich in associations of their eventful past.

Sandhi LXXIX. Return to Ayodhyā. Bharata renounces the world.

Bharata gave a warm welcome to Rāma. Glorious entry into Ayodhyā. Reunion of Rāma and Lakṣmaṇa with their mothers. Once Bharata became disgusted with the ephemeral worldly pleasures and expressed his decision to renounce them. On Rāma's instruction the young ladies of the harem tried to allure Bharata to sensual pleasures, but he was unmoved. The Royal elephant Trijagadvibhūṣaṇa once ran amuck, but on seeing Bharata he recalled his previous birth and was pacified. But he gave up food and drink. This mystery of the strange behaviour of the elephant was solved by the monk Kulabhūṣaṇa by narrating to Rāma a previous birth of Bharata. Thereupon Bharata along with Kaikeyā and many others renounced the world. Rāma was crowned king.

Sandhi LXXX. Śatrughna's Conquest of Mathurā.

Rāma honoured each of his associates with a share of his territories. Śatrughna decided to win for himself Mathurā from king Madhu. He besieged the city. In the battle that ensued, Madhu's son Lavaṇamahārṇava was killed, and Madhu too was fatally wounded by Śatrughna, who now became the lord of Mathurā.

Sandhi LXXXI. Sītā's Exile. Birth of Lavaṇa and Aṅkuśa.

Rāma satisfied Sītā's pregnancy-longing for performing a ceremonial worship of the Jina. In the meanwhile people's representatives approached Rāma and complained that loose women had been justifying their behaviour with the instance of Rāma's acceptance of Sītā even when she had been kept by Rāvaṇa for a year. Rāma was shocked by this, but not to displease the people and giving consideration to inborn fickleness of women, he ordered his commander, inspite of Lakṣmaṇa's protests, to take away Sītā and abandon her in wilderness. Sītā, shattered with grief and lonely, bewailed her tragic lot in the terrific wilderness. Vajrajaṅgha, Rāma's sister's husband, happened to pass through that

region. He took Sītā with him and gave her shelter as to a sister. Sītā gave birth to twins. They were named Lavaṇa and Aṅkuśa. They grew up, strong and powerful.

Sandhi LXXXII. Exploits of Lavaṇa and Aṅkuśa. Their Conflict with Rāma and Lakṣmaṇa.

As king Pṛthu spurned Vajrajaṅgha's proposal to give his daughters in marriage to Lavaṇa and Aṅkuśa, Vajrajaṅgha took an invasion against him. He first defeated Pṛthu's ally Vyāghraratha. Later Pṛthu also surrendered and married his daughters to Lavaṇa and Aṅkuśa. They conquered all those kings who had not so far yielded even to Rāma's might. Thereafter being incited by Nārada, who narrated to them their mother's tragic story, they decided to take revenge on Rāma and invaded Ayodhyā. Accepting their challange Rāma and Lakṣmaṇa offered battle. In their combat with Lavaṇa and Aṅkuśa respectively, Rāma and Lakṣmaṇa got into serious difficulties. At last Lakṣmaṇa released the Cakra,over and over again, against Aṅkuśa, but every time it returned without harming the latter. Then Nārada revealed to Rāma and Lakṣmaṇa the identity of the two princes. The hostilities ended.

Sandhi. LXXXIII. Sītā's Ordeal and Renunciation.

Lavaṇa and Aṅkuśa were given a royal welcome to Ayodhyā. Hanumat and others pressed Rāma to accept Sītā back. Vibhīṣaṇa called Trijaṭā to Ayodhyā, for testifying to Sītā's purity. On her advice Rāma decided to hold an ordeal for Sītā, who though unwilling, was persuaded by Vibhīṣaṇa and others to come to Ayodhyā. Sītā undertook to pass the fire–ordeal. Rāma got prepared a terrible fire. Sītā entered it fearlessly. Through her power of chastity the blazing pyre was transformed into a beautiful surging lake. Sītā was seated in its midst on a divine throne. All those present there paid their homage to her. Rāma offered ample apologies and readily declared his reacceptance of her. But Sītā, disgusted with the world, took ordination from the monk Sarvabhūṣaṇa. Thereupon Rāma swooned. Reviving, he rushed to attack Sarvabhūṣaṇa. But as he approached the enlightened sage, his anger subsided.

Sandhi LXXXIV. Accounts of Previous Births of the Principal Characters

On Vibhīṣaṇa's request monk Sakalabhūṣaṇa narrated the previous births of Rāma, Lakṣmaṇa and all other chief personages.

Merchant Sāgaradatta in Kṣemapurī promised to give his daughter Guṇavatī in marriage to Nayadatta's elder son Dhanadatta. But his wife Ratnaprabhā wanted her to be given to Śrīkānta, who was wealthier. Coming to know this Dhanadatta's younger brother Vasudatta, on the advice of his father's Brahmin friend Yajñabali, once attacked Śrīkānta. Both died fighting and were reborn as deers. Dhanadatta, feeling depressed due to these developments, left his home to see the world. Guṇavatī could not bring her mind to marry anybody else. She somehow developed an utter dislike for monks and religion. Having died, she was born as a female deer in the same place where those two deer lived. They fought with each other for her sake, died and thereafter passed through a series of animal births, cursed every time with the spirit of vengeance.

Dhanadatta on his wanderings once accepted Aṇuvratas from a monk. After his death, he was reborn as a god and thence as a merchant's son named Padmaruci. Once he recited the Namaskāras to a dying bull, who was on that account reborn as prince Vṛṣabhadhvaja in the same city. Remembering his previous birth, he got a temple constructed on the very spot where he had died as a bull and got the dying scene painted on the walls. As Padmaruci happening to see it showed signs of interest, he was indentified as the benefactor of the previous birth. They became friends, did many pious deeds, died and were reborn as gods. Thence passing through a few more births, Padmaruci was born as Prince Śrīcandra. He practised numerous vows and austerities and was reborn as a god and finally as Daśaratha's son Rāma. Vṛṣabhadhvaja was reborn as Sugrīva. Śrīkānta wandering through many births was reborn as prince Śambhu and similarly Vasudatta was reborn as his preceptor Śrībhūti. Guṇavatī due to the merits earned by hearing Namaskāras in her elephant birth, was reborn as Śrībhūti's daughter Vegavatī. Śambhu killed Śrībhūti for refusing to give him Vegavatī, and thereafter raped her. She cursed that she would be the cause of his death. She became a nun, and after her death was reborn in Brahma Heaven. Śambhu went to hell, and thereafter wandered through many low births. Once in his birth as a Brahmin's son he became a monk, practised austerities and died with a longing to be born as a Vidyādhara. He was reborn as Rāvaṇa. Śrībhūti, in his birth as the Vidyādhara Punarvasu practised austerities and was reborn as Lakṣmaṇa. Guṇavatī's brother has been born ulti-

mately as Bhāmaṇḍala. Yajñabali has become Vibhīṣaṇa. Guṇavatī has become Sītā. In her birth as Vegavatī, she first circulated a false charge about a monk, but later on, punished with a swelling face by the Śāsana-devatā, she owned up her falsehood; in consequence Sītā had to suffer false accusation.

Vālin, in his previous birth as a deer had died while hearing sacred texts; in his birth as a Jain layman he led a very pious life; and in his birth as a prince practised many austerities. Hence he was born with extraordinary powers.

Sandhi LXXXV. Previous Births of Lavaṇa and Aṅkuśa. Kṛtāntavaktra's Renunciation. Sītā is Reborn as Indra.

Lavaṇa and Aṅkuśa in their previous birth as sons of a Brahmin offered food to a pious monk. Hence they passed through various high births and were now born as Sītā's sons.

These accounts of various rebriths proved highly instructive to the audience. Rāma's commander Kṛtāntavaktra renounced the world with a promise to Rāma to enlighten him at proper time. Rāma, repenting his treatment of Sītā, went to her and paid his homage. All returned to Ayodhyā. Rāma and Lakṣmaṇa missed Sītā very much. Sītā practised rigorous austerities. She died and was born as Indra in the sixteenth heaven.

Sandhi LXXXVI. Svayamvara of the Princesses of Kāñcanasthāna. Fate of Bhāmaṇḍala and Hanumat.

Lavaṇa and Aṅkuśa were chosen by the princesses Mandākinī and Candrabhāgā in a Svayamvara. Feeling offended by this Lakṣmaṇa's sons were about to strike up a row, but their eight elder brothers dissuaded them. Feeling dejected, they renounced the world.

Once in the rainy season, Bhāmaṇḍala was struck dead by lightning.

Hanumat once while returning from a pilgrimage saw a meteor fall and disappear, and being at once thrown into the mood of renunciation, he gave up the world, and his wives, along with Pavanañjaya and Añjanā followed. Hanumat practised austerities and attained omniscience.

Sandhi LXXXVII. Lakṣmaṇa's Death.

Once Indra talked before the gods about the great merits of the human birth which could lead to liberation. One god pointed

out the infatuations the human beings were prone to, citing Rāma as a good illustration. Indra explained that Rāma did not give up the world out of unbounding love for Lakṣmaṇa, who cannot endure separation from Rāma even for a moment. Two gods, out of curiosity, went to Rāma's palace and loudly uttered the words 'Alas, Rāma died,' so as to reach Lakṣmaṇa's ears. That very moment he fell dead. Taken aback, the repenting gods hurried back to the heaven. Laments of Lakṣmaṇa's queens and mothers. Overwhelmed with the grief, Lavaṇa and Aṅkuśa renounced the world. Rāma's lament; the whole of Ayodhyā wept. Vidyādhara kings, on receiving the news, rushed to Ayodhyā. Vibhīṣaṇa tried to console Rāma.

Sandhi LXXXVIII. Rāma's Loss of Reason and Renunciation.

Due to great grief Rāma went out of his mind. Under the delusion that Lakṣmaṇa was alive, he daily bathed and clothed and fed the corpse and carrying it on his shoulders he wandered for six months. Taking advantage of his plight, the sons of Indrajit and Sunda invaded Ayodhyā. But Jaṭāyin and Kṛtāntavaktra, born as gods, drove them away by creating a magic army. Then Kṛtāntavaktra, with a view to cure Rāma, appeared before him as indulging in many an absurd activity. Jaṭāyin too appeared, carrying a corpse on his shoulders. These opened Rāma's eyes. The two gods exhorted him. Being asked by Rāma, they revealed their identity. Rāma renounced the world. So did Śatrughna, Vibhīṣaṇa, Sugrīva and others, including Rāma's mothers. Rāma practised austerities on the Koṭiśilā.

Sandhi LXXXIX. Rāma Attains Omniscience.

Seeing Rāma practising austerities, Sītendra, out of attachment, tried to tempt him by assuming the form of Sītā and inviting him to share choice pleasures in her company. Ten thousand Vidyādhara damsels were also created to lure Rāma. But he remained steadfast in his meditation and conseqnently attained Kevala. Sītendra apologized, and thence went to hell to exhort Lakṣmaṇa. Śambuka, Rāvaṇa and Lakṣmaṇa were suffering torments of hell and still fighting with each other. Sītendra exhorted them to give up anger. They were pacified. His effort to lift them from hell failed. He returned to Rāma after persuading Rāvaṇa and Lakṣmaṇa to accept Samyaktva. Rāma admonished him to give up attachment.

Sandhi XC. Liberation of Rāma and Others.

In reply to Sītendra's enquiry, Rāma narrated the destinies of Daśaratha, Lavaṇa, Aṅkuśa, Aparājitā and others. Bhāmaṇḍala had once created a magic city in order to help three monks stranded in wilderness during a rainy season. He also used to feed monks. As a reward for those good deeds, he was reborn in the Southern Kuru-land. Rāma also narrated the future births of Rāvaṇa, Lakṣmaṇa and of Sītendra himself. The latter, after pilgrimage and a visit to Brāmaṇḍala, returned to his heaven. Lavaṇa, Aṅkuśa, Indrajit, Ghanavāhana, Kumbhakarṇa and Rāma all attained Nirvāṇa in due course.

---

†

Sandhi XC. Liberation of Rāma and others

In reply to Śreṇika's enquiry, Rāma narrated the destinies of Daśaratha, Lavaṇa, Aṅkuśa, Aparājitā and others. Bhāmaṇḍala had once created a magic city in order to help three monks stranded in wilderness during a rainy season. He also used to feed monks. As a reward for these good deeds, he was reborn in the Southern Kuruland. Rāma also narrated the future births of Rāvaṇa, Lakṣmaṇa and of Sītendra himself. The latter, after pilgrimage and a visit to Rāmaśāla, returned to his heaven. Lavaṇa, Aṅkuśa, Indrajit, Ghanavāhana, Kumbhakarṇa and Rāma all attained Nirvāṇa in due course.

II METRES OF PAUMACARIU, SANDHIS 57—90

A. *Metres of the Kaḍavaka-commencing piece.*

No.	Name	Type	Rhymescheme	No. of moras per Pāda	Gaṇa-scheme	Place of occurrence (Sandhi No. with Kaḍ. if any).
1.	Helā (Dvipadī)	Samā Dvipadī	*a,b*	22	6 + u – u + 4 + u – u + – –	59, 63, 85
2.	Kāmalekhā	" "	"	27	6 + u – u + 4 + 4 + 4 (u – u avoided) + u – –	66
3.	Dvipadī	" "	"	28	6 + u – u + 4 + 4 + 4 + u – u –	70, 75
4.	Jambheṭṭikā	" Catuṣpadī	*a, b; c, d* (see remarks)	9	4 (u – u avoided) + – u –	81
5.	Apsarovilasita	" "	*a, b; c, d*	12	6 + 4 (u – u avoided) + uu	77
6.	Vadanaka (See remarks)	" "	"	16	6 + 4 + 4(u – u avoided) + 2	72
7.	Mātrā–Mañjarī	Dvibhaṅgī of a Viṣamā Pañcapadī and a Samā Dvipadī	*c,e; f,g*		*a*: 5 + 5 + 4 + u *b, d*: 4 + 4 + uuu *c, e*: 5 + 5 + u – uu *f, g*: 3 + 3 + 4 + 4 + 4 (u – u avoided) + u –	79

B. *Metres of the Yamakas or the Kaḍavaka-body*

(*a.*) The Principal Metres

No.	Name	Type	Rhymescheme	No. of moras per Pāda	Gaṇa-scheme	Place of occurrence
8.	Pāraṇaka	Samā Dvipadī	*a,b*	15	4 + 4 + 4 + uuu	60·9; 61·3; 62·2 – 5, 7, 9 – 13; 63·8, 9; 64·3, 5; 65, 10 – 13; 66·2, 12, 14; 68·1 – 7, 9–13; 71·3, 4, 12 – 14, 16; 17; 74·1, 4, 9 (ll. 4, 8), 16, 18, 78·1 – 10, 12–20; 80. 1 – 7, 9, 10, 12, 13; 84·7, 23; 85·7; 87·7, 10, 11; 88·9, 10; 89·6; 90·1, 2, 8, 9, 10.

No.	Name	Type	Rhymescheme	No. Pāda per Pádá		Place of occurrence (Sandhi No. with Kad. if any).
9.	Paddhaḍikā	„ „	„	16	4+4+4+u–u	58; 59·9; 60·2 (?), 8 (ll. 7, 8), 10–12; 61·1, 5, 7, 9–14; 63, 1–5, 7; 64·1; 2, 4–7, 9–15; 65, 1–9; 66·3, 7, 10, 11; 69; 71. 7, 8, 10; 72·1–14; 74.1 (ll. 7, 8), 2, 5, 9 (ex. ll. 4, 8), 10–12, 14, 17; 75·1, 2, 4–9, 11–22; 79·14; 82·1–13, 15–19; 84·1, 13, 16; 85·3 4, 10; 86·1–4, 6, 8–14, 16–18; 88·2, 3, 6, 7, 8, 12, 13; 89·7, 9, 12; 90·4.
10.	Vadanaka	„ „	„	„	6+4+4+uu	57·1, 2, 12; 60·8 (ll. 1–6); 61. 2, 6, 8; 62·6, 8, 14; 63·6, 10–12; 66·1, 6, 9, 13; 67; 68·8; 70; 71·1, 2; 73·1, 2, 4–6, 81–4; 74·3, 6–8, 13, 15; 76; 77; 79·1–13; 81·1–8, 11–15; 83; 84·2–6, 8–12, 14, 15, 17–22; 24, 25; 85·1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 86·19; 87·1–5, 12, 15; 88·1, 5, 11; 89·1–5, 8, 10, 11, 13; 90·3, 5–7, 11, 12.

(b.) The Variation Meteres

(a) Non-repetitive Mātrā Metres.

11.	Rayaḍā	Samā Dvipadī	a, b	16	4+4+4+4	59·4, 60·3
12.	Māgadhapratyadhikā	„	„	„	4+4+4+ – –	60·1
13.	Mattamātaṅga	„	„	„	6+4+4+2	59·3, 60·4
14.	Aḍillā	„	„ (Yamaka)	„	„	57·4, 6, 8, 10

No.	Name	Type	Rhymescheme	No. of moras per Pāda	Gaṇa-scheme	Place of occurrence (Sandhi No. with Kad. if any).
15.	Utprahāsinī	„	„	„	6 + 4 + u – u –	60.6
16.	Vilāsinī	„	„	„	3 + 3 + 4 + 3 + u –	57.3, 5, 7, 9, 11; 64.8; 75.3; 81.10; 86.7
17.	Helā	„	„	22	6 + 4 + 4 + 4 + – –	66.5
18.	Utsāha	„	„	24	4 + 4 + u – u + 4 + u – u – –	88.4
19.	Dvipadī	„	„	28	6 + u—u + 4 + 4 + 4 + u – u –	60.7; 86.15
20.	Bhramarapada	(see remarks)	rhyme-scheme of the Ṣaṭpadī	28	10 + 8 + 10	86.5

(b.) Repetitive Mātrā and Akṣaragaṇa Metres.

No.	Name	Type	Rhymescheme	No. of moras per Pāda	Gaṇa-scheme	Place of occurrence
21.	Pramāṇī (Nārāca)	Samā Dvipadī	*a, b*	8 syl.	four times u –	59.7; 61.4; 71.6, 11 (ll. 25 – 32); 73.7; 80.8; 82.14
22.	Samānī (Tomara)	„	„	„ „	„ – u	59.2
23.	Dodhaka	„	„	11 „	thrice (– uu) + – –	59.8; 71.11 (ll. 1 – 8);
24.	Mātrāsamaka	„	„	16 moras	four times uu uu	71.5
25.	Toṭaka	„	„	12 syl.	„ uu –	59.6
26.	Manthāna	„	„	10 moras	twice uu uu u	75.10
27.	Somarājī	„	„	6 syl.	„ u – –	66.4; 78.11
28.	Madanāvatāra	„	„	20 moras	I four times uu uu u	71.9
					II „ uu u uu	60.5; 66.8; 72.3 (ll. 1 – 4); 81.9
					III „ u uu uu	59.1
29.	Bhujaṅgaprayāta	„	„	12 syl.	„ u – –	59.10, 71.11 (ll. 17 – 24); 80.11
30.	Caṇḍakāla Daṇḍaka	„	unrhymed	Uariable	uuuuu + any number of – u –	71.15, 72.15, 73.3 (ll. 5 – 8)

(c.) Non-repetitive Akṣaragaṇa Metres.

No.	Name	Type	Rhymescheme	No. of moras per Pāda	Gaṇa-scheme	Place of occurrence
31.	Kumāralalitā	Samā Dvipadī	*a, b*	7 syl.	u – u u u – –	71.11 (ll. 9 – 16)
32.	Parivanditā (Svāgatā)	„	„	11 „	– u – u u u – u u – –	59.5

C. *Metres of the Ghattā or the Kaḍavaka-closing piece.*

33.	Siṁhavijṛmbhita	Antarasamā Catuṣpadī	*a, b*	6,13	63
34.	Manmathatilaka	,,	,,	7, 13	65, 66
35.	Abhisārikā	,,	,,	8, 12	60
36.	Ratnāvalī	,,	,,	8, 16	77
37.	Ketakīkusuma	,,	,,	9, 14	85
38.	Trivalītaraṅgaka	,,	,,	9, 16	72
39.	Kāminīhāsa	,,	,,	11, 12	62
40.	Premavilāsa	,,	,,	11, 14	70
41.	Kāñcanamālā	,,	,,	11, 15	73
42.	Abhinavavasantaśrī	,,	,,	13, 9	89
43.	Bhramaravilāsa	,,	,,	13, 10	80
44.	Sahakārakusumamañjarī	,,	,,	13, 14	68, 82
45.	Kāminīkrīḍanaka	,,	,,	13, 15	79
46.	Kāminīkaṅkaṇahasta	,,	,,	13, 16	57, 76, 86
47.	Anaṅgalalitā	,,	,,	14, 13	61 (ex. 1, 2), 67, 83, 84, 90
48.	Manmathavilasita	,,	,,	15, 13	69, 75, 78, 81, 87
49.	Kuñjaravilasita	Ardhasamā Catuṣpadī	*a, b; c, d*	14, 12	64
50.	Pāraṇaka	Sarvasamā Catuṣpadī	,,	15	74
51.	Paddhaḍikā	,,	,,	16	59. 88
52.	——	Ṣaṭpadī (see remarks)	*a,b; d,e; c,f*	6, 8, 13	61 (1, 2)
53.	Chaḍḍaṇikā	,,	,,	10, 8, 13	58
54.	Rasanādāma	,,	,,	12, 8. 13	71

Remarks—No. 4 is called Jaṁbhiṭṭiā in the Mss. P, S. In the first Kaḍavaka the rhyme scheme is *a, b, c, d* and the refrain *tĕṇa tĕṇa tĕṇa citteṁ* is repeated after each Pāda. For all the remaining Kaḍavakas the refrain is absent in the Mss. The rhyme *a, b, c, d,* is found in the head stanzas of Kaḍ. 1 to 6 and 14 only. For the rest the scheme is *b, d.* No. 6 also is said by the Mss. to be Jaṁbheṭṭiā. But in that case, the opening piece would consist of two stanzas or eight lines. Morastructure too has to be adjusted to suit the scheme of Jaṁbhiṭṭiā. It appears to me now more logical to look upon the commencing piece of Sandhi 72 rather as Vadanaka, and consequently the lines are to be read as sixteen-moraic instead of eight-moraic as printed. The same remarks apply to the metre of the commencing piece of Sandhi 48 in supercession of what has been said on p. 18 of the introduction to Part II. No. 20 can also be looked upon as a Ṣaṭpadī (as is suggested in the text by spacing) with the scheme 10, 8, 9. Similarly No. 52 can be taken to be the same as No. 47 with internal rhymes.

APPENDIX I

Conspectus of all the Metres of PC. Sandhis I—XC

I Metres of the Kaḍavaka-commencing piece.

No.	Name	Type	Rhyme-scheme	No. of moras per pāda	Occurrence (Sandhi No.)
1.	Mañjarī	Samā Dvipadī	a, b	21	19, 45
2.	Helā	„	„	22	17, 25, 59, 63, 85
3.	Sālabhañjikā	„	„	24	46
4.	Kāmalekhā	„	„	27	66
5.	Dvipadī	„	„	28	13, 40, 51, 70, 75
6.	Āranāla (with internal rhymes)	„	a, b; d, e; c, f. partly	30 (12 + 8 + 10 or 10 + 8 + 12)	53
7.	Jambheṭṭikā „	Catuṣpadī	a, b; c, d, partly b, d.	9	81
8.	Apsarovilasita	„	a, b; c, d	12	77
9.	Gandhodakadhārā	„	a, b; c, d	13	3, 49
10.	Pāraṇaka	„	„	15	50
11.	Vadanaka	„	„	16	48, 72
12.	Nidhyāyikā	„	„	19	52
13.	Dohā	„	b, d	13,11	54
14.	Mātrā-Mañjarī	Dvibhaṅgī of an Antara Samā Pañcapadī and a Samā Dvipadī	c, e; f, g	15, 11; 21	74

II Metres of the Yamakas or the Main Body of the Kaḍavaka.

A. The Principle Metres.

Their description is as follows:

Name	type	shyme scheme	No. of mosas per Pāda
Pāraṇaka	Samā Dvipadī	a, b	15
Paddhaḍikā (Paddhaḍiā)	„ „	„	16 (end uuuu)
Vadanaka	„ „	„	16 (end uu—uu)

Their places of occurrence are as follows:

15. Pāraṇaka—1 (1, 3), 5 (6), 6, 9 (1, 11, 13, 14), 12, 15, 19, 23 (1, 10), 25 (8),
(= No. 10) 26 (16), 27 (1–8, 10–14), 29 (6), 30 (1, 3, 5, 6), 32 (7, 11), 33, 34 (1–2, 4–9, 11), 36, 39 (1–9, 11–12), 43 (1–3, 11, 13, 14, 16–19), 44 (14), 45 (5, 6, 10, 11), 47 (2), 53 (6), 54 (1–6, 12, 16), 60 (9), 61 (3), 62 (2–5, 7, 9–13), 63 (8, 9), 64 (3, 5), 65 (10–13), 66 (2, 12, 14), 68 (1–7, 9–13), 71 (3, 4, 12–14, 16, 17), 74 (1, 4, 9 11. 4, 8; 16, 18), 78 (1–10, 12–20), 80 (1–7, 9, 10, 12, 13), 84 (7, 23), 85 (7), 87 (7, 10, 11), 88 (9, 10), 89 (6), 90 (1, 2, 8–10).

16. Paddhaḍikā–1 (4–11, 13, 15, 16), 3 (13), 4, 7, 10, 13, 16, 18, 22, 23 (13), 24
(Paddhaḍiā) (9, 10), 25 (2, 5, 9, 10, 17), 27 (15), 29 (9–11), 30 (8–11), 31 (3–10, 13–16), 32 (2, 6), 37, 39 (10), 40 (4, 13, 15, 18), 43 (4–10, 12, 15), 45 (1–3, 7, 13), 48, 49 (8), 51 (1, 3–10, 12–13, 15), 54 (7,

9, 13–14), 56 (3–6, 8–12, 14–15), 58, 59 (9), 60 (2 ? 8 ll. 7, 8; 10–12), 61 (1, 5, 7, 9–14), 63 (1–5, 7), 64 (1, 2, 4–7, 9–15), 65 (1–9) 66 (3, 7, 10, 11), 69, 71 (7, 8, 10), 72 (1–14), 74 (1 ll. 7, 8; 2, 5, 9 ex. ll. 4, 8; 10–12, 14, 17), 75 (1, 2, 4–9, 11–22) 79 (14), 82 (1–13, 15–19), 84 (1, 13, 16), 85 (3, 4, 10), 86 (1–4, 6, 8–14, 16–18), 88 (2, 3, 6, 7, 8, 12, 13), 89 (7, 9, 12), 90 (4).

17. Vadanaka–1 (2, 12, 14), 2, 3 (2–12), 5 (1–5, 7–16), 8, 11, 14, 17 (1, 7, 9, 11, (= No. 11) 13–15, 17, 18), 20, 21, 23 (2–7, 9, 11, 12, 14, 15), 24 (1, 3–8, 11–15), 25 (1, 3, 4, 6, 7, 11–16, 15–20), 26 (1–15, 17–20), 28, 29 (1 ll. 1, 2, 12; 2–5; 7, 8), 30 (2, 4, 7), 31 (1, 2, 11, 12), 32 (1, 4, 5, 8–10, 12–14), 34 (3, 10, 12, 13), 35, 38, 40 (5, 11, 14), 41, 42 (1–9, 12), 44 (1–4, 6–13, 15, 16), 45 (4, 12, 14, 15), 46 (9), 47 (1, 3–10), 49 (1–7, 9–20), 50, 52, 53 (2, 4, 5, 7–12), 54 (8, 10, 11, 15), 55 (1–4, 6–12), 56 (2, 13), 57 (1, 2, 12), 60 (8 ll. 1–6), 61 (2, 6, 8), 62 (6, 8, 14), 63 (6, 10–12), 66 (1, 6, 9, 13), 67, 68 (8), 70, 71 (1, 2), 73 (1, 2, 4–6, 8–14), 74 (3, 6–8, 13, 15), 76, 77, 79 (1–13), 81 (1–8, 11–15), 83, 84 (2–6, 8–12, 14, 15, 17–22, 24, 25), 85 (1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12), 86 (19), 87 (1–5, 12, 15), 88 (1, 5, 11), 89 (1–5, 8, 10, 11, 13), 90 (3, 5–7, 11, 12).

B. The Variation Metres.

(*a*). Non-repetitive Mātrā Metres.

Samā Dvipadī

No.	Name	No. of moras per Pāda	Place of Occurrence
18.	Karimakarabhujā–I	8 (end uuuu)	27 (9), 40 (8), 51 (14)
19.	" –II	" (end uuuu)	40 (7)
20.	Vasudvipadī	8 (=3+5)	29 (1 ll. 3 – 11)
21.	(A variation of Pāraṇaka ?)	15 (=4+4+4+u – ; Jagaṇa excluded)	56 (7)
22.	Rayaḍā	16 (=4+4+4+4)	59 (4), 60 (3)
23.	Māgadhapratyadhikā	16 (=4+4+4+ – –)	60 (1)
24.	Mattamātaṅga	16 (=6+4+4+2)	59 (3), 60 (4).
25.	Aḍillā (= Nos. 11 & 17 with yamaka)	16 (=6+4+2+uu uu)	57 (4, 6, 8, 10)
26.	Utprahāsinī	16 (=6+4+u – u –)	60 (6)
27.	Vilāsinī –I	16 (=3+3+4+3+u –)	17 (12), 23 (8), 40 (2), 42 (11), 46 (1–3, 5, 7–8), 55 (5), 57 (3, 5, 7, 9, 11), 64 (8), 75 (3), 81 (10), 86 (7).
28.	Helā (= No. 2)	22	60 (5)
29.	Candralekhā (?) –I (with internal rhymes & caesuras at 10, 18)	24 (=6+uuuu+4+uuuu +4+ –)	40 (16)
30.	Candralekhā (?) –II (with internal rhymes & caesuras at 10, 18)	24 (=6+uuuu+4+uuuu +4+ –)	53 (1, 3)

31. Sālabhañjikā (= No. 3)	24 (=3+3+4+4+4+ 3+3)	42 (10)
32. Dvipadī (= No. 5)	28 (6+4+4+4+4+4+–)	60 (7), 86 (15)
33. Bhramarapada (with internal rhymes at 10, 18)	28 (6+4+4+4+4+4+–), jagaṇa excluded)	86 (5)

Viṣamā Dvipadī

34. Sārdha-Paddhaḍikā (?) –I (= Karimakarabhujā–I & Paddhaḍikā)	8, 16	17 (8)
35. Sārdha Paddhaḍikā (?)–II (= Paddhaḍikā & Karimakarabhujā)	16, 8	40 (9)
36. Sārdha-Vadanaka (= Vadanaka & Karimakarabhujā II)	16, 8	40 (10)

(*b*). Repetitive Mātrā Metres.

No.	Name	No. of moras per Pāda	Place of occurrence
37.	Manthāna	10 (= uu uu u twice)	75 (10)
38.	Madanāvatāra–I	20 (= uu u uu four times)	3 (1), 9 (12), 24 (2), 46 (4, 6), 60 (5), 66 (8), 72 (3 ll. 1–4), 81 (9)
39.	Madanāvatāra–II	20 (= uu uu u four times)	46 (10), 71 (9)
40.	Madanāvatāra–III	20 (= u uu uu ,, ,,)	59 (1)
41.	Mātrāsamaka	16 (uu uu ,, ,,)	71 (5)

(*c*.) Non-repetitive Akṣaragaṇa Metres.

Samā Dvipadī.

No.	Name	Scheme	Place of Occurrence
42.	Kumāralalitā	u – uuu – –	71 (11 ll. 9–16)
43.	Parivanditā (= Svāgatā)	– u – uuu – uu – –	59 (5)

(*d*). Repetitive Akṣaragaṇa Metres.

Samā Dvipadī

No.	Name	Scheme	
44.	Pramāṇī (= Nārāca)	u – four times	17 (16), 32 (3), 40 (12), 44 (5), 45 (8), 53 (9 ll. 4–7), 59 (7), 61 (4), 71 (6, 11 ll. 25-32), 73 (7), 80 (8), 82 (14,
45.	Samānī (= Tomara)	– u four times	40 (6), 45 (9), 59 (2)
46.	Somarāji	u – – twice	66 (4), 78 (11)
47.	Bhujañgaprayāta	u – – four times	40 (3), 56 (1), 59 (10), 71 (11 ll. 17–24), 80 (11).
48.	Toṭaka	uu – four times	59 (6)
49.	Dodhaka	– uu thrice + – –	59 (8), 71 (11 ll. 1–8)

‡

Visamā Dvipadī

No.	Name	Scheme	Place of Occurrence
50.	Vilāsinī -II and Pramāṇī	odd Pāda : u – twice even ,, : u – four times	40 (1)

Daṇḍaka

51.	Mixture of Jīmūta and Līlākara	uuuuuu + 11 or 12 raganas	51 (2)
52.	Mixture of Uddāma, Śaṅkha and Samudra	uuuuuu + 13, 14 or 15 raganas	40 (17)
53.	Caṇḍakāla (unrhymed)	uuuuu + any no. of raganas	71 (15), 72 (15), 73 (3 ll. 5–8)

III *Metres of the Ghattā or the Kaḍavaka-closing piece.*

Antarasamā Catuṣpadī

54.	Siṁhavijṛmbhita	6, 13	63
55.	Manmathatilaka	7, 13	65, 66
56.	Abhisārikā	8, 12	60
57.	Madanodaya	8, 14	25, 26, 53
58.	Ratnāvalī	8, 16	77
59.	Madhukaravṛnda	9, 13	7, 42, 54
60.	Ketakīkusuma	9, 14	22, 36, 38, 41, 42 (opening), 46, 85
61.	Trivalītaraṅgaka	9, 16	72
62.	Navapuṣpaṁdhaya 12. See f. n. 9, p. 20	10, 13	16
63.	Kāminīhāsa	11, 12	5, 23, 24, 62
64.	Premavilāsa	11, 14	2, 55, 70
65.	Kāñcanamālā	11, 15	73
66.	Abhinavavasantaśrī	13, 9	89
67.	Bhramaravilāsa	13, 10	1, 8)
68.	Mukhapālanatilaka	13, 14	39, 45, 68, 82
69.	Vasantalekhā	13, 15	8, 11, 19, 21 50, 79
70.	Madhurālāpinīhasta	13, 16	6, 28, 51, 57, 76, 86
71.	Anaṅgalalitā	14, 13	13, 44, 49, 56, 61 (except 1, 2), 67, 83, 84, 90
72.	Rājahaṁsa	15, 12	10
73.	Manmathavilasita	15, 13	43, 69, 75, 78, 81, 87

Ardhasamā Catuṣpadī

74.	Kuñjaravilasita	14, 12	64

Sarvasamā Catuṣpadī

75.	Dhruvaka	9	33
76.	Pāraṇaka	15	9, 18, 27, 48, 74
77.	Paddhaḍikā	16	34, 35, 47, 59, 88

Ṣaṭpadī

78. A Ṣaṭpada Jāti	6, 6, 12	3
79. A Ṣaṭpada Upajāti	8, 8, 12	15 (1, 2, 3)
80. A " "	8, 8, 14	14
81. —	6, 8, 13	61 (1, 2)
82. —	8, 6, 12	15
83. (Hariṇīpada)	9, 7, 12	12
84. (Skandhakasamā ?)	9, 7, 14	32
85. (Chaḍḍaṇikā)	10, 8, 13	17, 20, 31, 37, 40, 52, 58
86. (Mauktikadāma)	12, 8, 12	4
87. (Rasanādāma)	12, 8, 13	71
88. (Upagandharva)	13, 7, 14	29, 30

APPENDIX II

METRES OF *SVAYAMBHŪ'S* RIṬṬHAṆEMICARIU *

The 112 Sandhis of the Riṭṭhaṇemicariu, containing a grand total of 1937 Kaḍavakas, are distributed over four Kāṇḍas : Yādava (13), Kuru (19), Yuddha (60), Uttara (20). All the 112 Sandhis of the Riṭṭhaṇemicariu (further here shortened as Rc.) are not Svayambhū's work. After the completion of the ninety-ninth Sandhi, the composition was intercepted by his death. His son Tribhuvana undertook to complete the work and composed the rest, viz., the portion covered by the Sandhis 100 to 112. Further, in the fifteenth century one Yaśaḥkīrti Bhaṭṭāraka filled up a few gaps (possibly due to missing folios in the MSS. of Rc. then available) he found in the portion covered by the Sandhis 105 to 112. These interpolations (or substitutions) probably did not extend beyond a limited number of Kaḍavakas. Definite information on this point, however, can be derived only from a critical study of the text.

The Rc. is unpublished so far. The present account is based on two MSS :

1. MS. No. 1117 of 1891-95 from the Government MSS. collection at the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona dated V. S. 1582.
2. A MS. from the Ailaka Pannalal Sarasvati Bhandar collection, Bombay, dated V. S. 1991; this being a recent copy of an older MS. dated V. S. 1582.

Only an outline analysis is prepared for the present purpose. Individual details about these metres and especially the exact scheme of the tentatively identified Ghattās from the eight rehandled Sandhis can be derived only from a critical text.

Information about all the metres of the Riṭṭhaṇemicariu, employed in the three sections of the Kaḍavaka, viz., the opening piece, the Yamakas or the main body and the Ghattā or the closing piece is tabulated below in that order.

I. METRES OF THE KAḌAVAKA-OPENING PIECE.

No.	Name	Occurs in Sandhi	No. of Moras per Pāda	Gaṇa-Scheme	Rhyme-scheme	Type	Class
1.	Helā	17,31,60,103	22	6 + u'uuu + 4 + u'uuu + – –	a/b	Samā Dvipadī	Khañjaka
2.	Dvipadī (Pk. Duvai)	43,74,88,105	28	6 + u'uuu + 4 + 4 + 4 + u'uuu + –	"	"	"
3.	Āranāla	37	30	6 + u'uuu + – /2 + u,'uuu + – /2 + u,' uuu + – –	a/b with internal rhyme before the cæsuras	Samā Dvipadī	Khañjaka
4.	Mātrā-cum-Mañjarī	62	Odd Pādas of Mātrā: 15 Even Pādas of Mātrā: 11	1. Pāda of Mātrā: 5 + 5 + 4 + 1; 3&5 Pādas of Mātrā: 5 + 5 +	c/e, f/g	Dvibhaṅgī of a Pañcapadī and a Samā Dvipadī	Śīrṣaka

* Reprinted with appropriate changes from *Bhāratiya Vidyā*, 18, 1–2, 1960, pp. 86–94.

			Mañjarī: 21	u'uuu + 1; 2&4 Pādas: 4 + 4 + 3; Mañjarī: 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 3			
5.	Dohā (Sk. Dvipathaka)	107	Odd Pādas: 13 Even: 11	Odd Pādas: 6 + 4 + uuu; Even Padas: 6 + 4 + u;	b/d	Antarasamā Catuṣpadī	Dhruvā
6.	Gandhodaka-dhārā	16, 63, 64, 66	13	6 + 4 + uuu	a/b,c/d	Samā Catuṣpadī	"
7.	Pāraṇaka	104	15	4 + 4 + 4 + uuu	"	"	"
8.	Jambheṭṭikā	68,73	8	4+ – uu	"	Samā Dvipadī	Shorter Dvipadī

Remarks—This shows that eighteen Sandhis in all out of a total of one hundred and twelve have the Kaḍavaka-opening piece. For Dohā and Mātrā see Jacobi, Sanatkumāracarita, 20–25, Alsdorf, Kumārapālapratibodha, 70–72, Bhayani, Sandeśarāsaka, Introduction, 62–64, 66–68. Mañjarī alone is used in Paumacariu 19, 45, while Mātrā combined with Mañjarī is used in Paumacariu 74. Āranāla also in the same form is found in Paumacariu 53 and Mahāpurāṇa 16. It differs from one described by the Chandonuśāsana, which does not include rhyme-distinguished internal caesuras and the form u⏑⏑u for the third caturmātra, among the characteristics of Āranāla. In the form in which it is found in the three epics, it is undistinguishable from a Ṣaṭpadī. Most of the Dvipadis, too, defined at Svayambhūcchandas 6, 163 ff can well pass of as Ṣaṭpadīs.

II. METRES OF THE YAMAKAS OR THE MAIN BODY OF THE KAḌAVAKA.

A. *The Principle metres*

Paddhaḍiā (Paddhatikā), Vadanaka and Pāraṇaka are the principle metres of the Apabhraṁśa epic. They are of the Samā Dvipadī type with the rhyme-scheme a/b. They have the following schemes:

3. See the discussion further below in this appendix.

Paddhaḍiā:	4	4	4 uuuu	(16 moras per verse-line)
Vadanaka:	6	4 + uu — + uu		(" " " ")
Pāraṇaka:	4	4	4 uuu	(15 " " ")

Their places of occurrence in the Ro. are as follows:

Name — Occurs in Sandhi

9. Vadanaka 1 (4), 3 (6), 5, 9 (ex. 8, 14, 18), 12, 14 (ex. 14), 15, 16 (ex. 4, 6–10), 18 (ex. 9), 20, 23 (ex. 3), 26 (ex. 4), 29 (ex. 7), 32, 34, 37 (ex. 1), 39, 41, 43 (ex. 3–6), 45, 47, 49, 51, 53 (ex. 6), 55 (ex. 3, 4, 5, 6, 17, 23, 24, 25, 27, 29), 58, 59, 61, 63, 64, 65 (ex. 10, 16–18), 66 (12, 14, 15, 21), 67, 69, 71 (1, 4, 8, 11, 13, 15, 17), 74, 76, 78, 80, 82, 84 (ex. 2), 86, 88 (ex. 4, 8), 90, 92 (ex 5, 9), 94 (ex. 12), 95 (3, lines 10–16), 96 (ex. 2, 10), 98, 99 (ex. part of 17), 100 (ex. 12–13), 102 (2), 103 (9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23–25), 104 (3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 21, partly 22, 23), 105 (4, 6–16), 106 (1, 2, 4–8, 11, 14–16, 20–24),

107 (3–7, 9, 10), 108 (12, 16), 109 (2–4), 110 (2, 12), 111 (3, 4, 6–8, 10, 15, 23, 26–29), 112 (17).

10. Paddhaḍiā
(Paddhatikā) 2 (ex. 1, 2, 10), 6, 8, 13 (ex. 2, 13), 22, 24, 27, 31, 35, 38, 42, 43 (3–6), 46, 48, 52 (ex. 5, 6, 12, 15), 54, 55 (4, 24, 27), 60, 62 (1–5), 65 (16–18), 66 (3–5, 8), 70, 71 (7, 18, 20), 72, 75 (ex. 5), 79, 83, 87 (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17), 89 (ex. 4, 7, 9, 12, 13), 93, 97, 100 (12, 13), 101 (1, 4–7), 102 (3, 4, 12, 14, 16), 103 (11, 20, 22), 104 (8, 10, 15, 16, 19, 20, 22 last four lines, 24, 25), 105 (1–3), 106 (22, 23, 26, 28), 107 (8, 11), 108 (1–10, 13–15, 18–20), 109 (7, 9, 10, 13, 14), 110 (1, 3, 5, 6, 7 partly, 8–11), 111 (1, 2, 5, 11, 12, 14, 16, 18–22, 24, 25, 30, 31, 33–35), 112 (1–4, 6, 8–11, 13, 15, 16).

11. Pāraṇaka 1 (ex. 4, 12), 4, 7 (ex. 3, 6, 14), 10, 11, 14 (14), 16 (4, 6–10), 17 (2, 3), 19 (ex. 8), 21, 25, 28, 30 (ex. 11), 33, 36, 40, 44, 50, 52 (12), 55 (3, 25, 29), 56, 57, 62 (ex. 1–5), 66 (ex. 3–5, 8, 12, 14, 15, 21), 68, 71 (19), 73, 77, 81, 85, 91, 95 (ex. 2, part of 3, 11–12), 101 (2, 3, 8, 9, 12–18), 102 (1, 11, 13, 14, 15, 19), 102 (18), 103 (1, 2, 14, 16), 104 (14–17), 106 (10, 12, 13, 17, 21), 107 (2), 108 (17), 111 (17), 112 (7).

Remarks: Vadanaka predominates over Paddhaḍiā and Pāraṇaka. The latter two among themselves are equally favoured.

B. The Variation metres.

(a) Non-repetitive Mātrā Metres.

i. *The Samā Dvipadī type.*

	Name	Occurs in	No. of Moras per pāda	Gaṇa scheme
12.	Candralekhā—I	7 (3), 71 (6)	8	4 + u – u
13.	Karimakarabhujā	52 (6), 71 (5), 109 (12)	8	4 + 4
14.	Aḍillā	104 (6)	16	6 + 4 + 4 + 2 with yamaka
15.	Mattamātaṅga	103 (3)	16	6 + 4 + 4 + 2
16.	Pādākulaka	103 (4)	16	4 + 4 + 4 + 4, Jagaṇa mostly avoided.
17.	Apsarā	94 (12, lines 9–10)	16	5 + 5 + 3 + 3
18.	Vilāsinī	9 (8), 18 (9), 30 (11), 52 (5), 55 (6), 71 (2), 87 (6), 89 (13)	16	3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3, Caesura after the 8th mora.
19.	Āvalī	103 (7)	20	6 + uuuu + 4 + uuuu + –
20.	Rāsaka	112 (5)	21	6 + 4 + 4 + 4 + uuu
21.	Māgadhanarkuṭī	103 (6)	22	6 + uuuu + 4 + uuuu + – –
22.	Candralekhā—II	102 (6, 7)	24	6 + 4 + 4 + 4 + 4 + 2
23.	Utsāha	102 (10) (?), 108 (11)	24	4 + 4 + uuuu + 4 + uuuu + 4

24.	Duvai (Dvipadī)	2 (1), 102 (10), 103 (8), 104 (2), 105 (5, two lines), 106 (9)	28	6+uuuu+4+4+4 +uuuu+ –

ii. *The Viṣamā Dvipadī type.*

25.	Māgadhikā	103 (5)	14, 16	*a:* 4+4+u–u– *b:* 6+4+u–u–
26.	Candralekhā—I + Paddhaḍiā	71 (9), 106 (19), 111 (9)	8, 16	*a:* 4+u–u *b:* 4+4+4+u–u
27.	Paddhaḍiā + Candralekhā—I	106 (25, 27)	16, 8	*a:* 4+4+4+u–u *b:* 4+u–u
28.	Karimakarabhujā + Vadanaka	102 (17)	8, 16	*a:* 4+4 *b:* 6+4+uu – +uu
29.	Gāthā	four stanzas between 13 & 14	30, 27	*a:* 4+4+4+4+4+4+ uuuu+4+ – *b:* 4+4+4+4+4 +u+4+ –; the forms uuuu are forbidden for the odd Gaṇas
30.	Mālāgātha	95 (2)	94, 27	*a:* 23 times 4+ –; 6th caturmātra is uuuu *b:* 4+4+4+4+4+ u+4+ –

iii. *The Ṣaṭpadī type.*

31.		109 (6), 112 (12)	10, 8, 5
32.		102 (8)	10, 8, 9
33.		111 (32)	10, 8, 13

(b) Repetitive Mātrā or Akṣaragaṇa Metres.

34.	Pramāṇī	1 (12), 7 (14, lines 5-11), 19 (8), 23 (4), 29 (7), 55 (17, 23) 87 (2), 92 (9), 96 (2), 94 (12, lines 5 to 8)	8 syllables	four times u –
35.	Pañcacāmara	88 (4)	12 „	six times u –
36.	Samānī	2 (2), 3 (6), 53 (8), 71 (12), 87 (4)	8 „	four times u –
37.	Somarāji	37 (1), 107 (1)	6 „	Twice u – –
38.	Bhujaṅgaprayāta	2 (10), 65 (10), 71 (10), 87 (16), 95 (11-12), 109 (5)	12 „	four times u – –
39.	Manthāna	7 (6), 87 (14), 105 (5 partly), 106 (18), 107 (12), 109 (8)	10 moras	5(=uu uuu)+5(= uu uuu)

40.	Madanāvatāra—I[1]	55 (5), 89 (4), 92 (5), 109 (1), 110 (4), 111 (13)	20 „	four times uu u uu
41.	Madhukarī—I[2]	71 (16), 84 (2)	25 „	five times uu u uu
42.	Mauktikadāma	106 (3), 112 (4)	16 „	four times u—u
43.	Cāru	52(5), 87(8)	10 „	5(= uu u uu) + 5(= uu u –)
44.	Madanāvatāra – II[1]	26(4), 89(9,12)	20 „	four time uuuu u
45.	Madhukarī—II[2]	96(10), 71(14),75(5)	25 „	five times uu uu u
46.	Acaladhṛti	88(8), 89(7), 99(17, few lines after the first)	16 „	four times uuuu
47.	Sarvalaghu (?)	71(3)	20 „	four times uuuuu
	The Daṇḍakas			
48.	Līlākara	94(12, first four lines)	66 „	6 + twelve time uu u uu
49.	Dhruva	102(5)	81 „	6 + fifteen times uu u uu
50.	?	7(14, first four lines)	102 „	6 + twelve times u uu u uu uu
51.	?	104(1)	64 „	eight times (4 + uu uu)
	(c) Non-repetitive Akṣara-gaṇa Metres.			
52.	Kumāralalitā	87(12)	7 syllables	u – uuu – –
53.	Sāriṇī	87(10)	11 „ (Variation 12)	uuuuuu – u – – u –
54.	Indravaṁśā	105(5, lines 3-6)	12 syllables	u – u – – uu – u – uu
55.	Pṛthvī	9(14,18)	17 „	u – uuu – u – /uuu – u – – u – with yamaka at the pauses.

III. METRES OF THE GHATTĀ OR CLOSING PIECE.

A. *The Antara-samā Catuṣpadī.*

	No. of moras in different pādas	Place of occurrence (Sandhi)	Remarks
56.	8, 12	60,61 (last but one Kaḍavaka)	Even pāda scheme: 3 + 5 + 4
57.	8, 14	37, 80	
58.	8, 15	61(15)	Odd pāda scheme: 4 + uu uu
59.	9, 10	13	Even pāda scheme: 4 + 4 + 2
60.	9, 13	7,34,44,57,76,82,87,93	Odd pāda same as in 59. Even pāda ending in uu

1. According to Svayambhū and Hemacandra Madanāvatāra has four groups of five moras. The form of the five-moraic Gaṇa is not specified in the definitions. But in the illustration they give, the five-moraic Gaṇa has different structures. The basic unit of Svayambhū's Madanāvatāra illustration is uu u uu, while that of Hemacandra's is uu uu u. Consequently, to underline this distinction, the forms have been labelled with numbers.

Similarly Madhukarī is given by Hemacandra as a cover term for all the metre having five five-moraic gaṇas of any form. Meters of this type with basic units of differens forms have been distinguished here as Madhukarī—I and Madhukarī—II.

2. The term 'sarvalaghu' is found employed for the metre containing 16 shorts as welt as for one with 20 shorts. So it is a description rathei than a designation. The former type is known as Acaladhṛti after Jayadeva. The latter I have been unable to find in Prakrit metrical works. Hence the general term sarvalaghu is adopted as a make-shift.

61.	9, 14	28, 40, 45	Odd pāda same as in 59
62.	11, 12	1, 25, 38, 75. 86	Odd pāda scheme: 6 + uu – + u In 38 at times the end is a –
63.	11, 14	12, 22, 59, 102	Odd pāda as in 62
64.	11, 15	2	Odd pāda as in 62 Even pāda ending in uuu
65.	12, 14	63	
66.	13, 10	43	Odd pāda scheme: 6 + 4 + 3
67.	13, 13	6, 23	Odd pāda ending in – u (casually – – in 23); even pāda scheme: 6 + 4 + uuu
68.	13, 14	5, 11, 16, 27, 36, 62, 68, 73, 85, 90, 94, 99	Odd pāda scheme: 6 + 4 + uuu Even pāda; 4 + 4 + 4 + uu (Occasionally 13, i.e. ending in – u)
69.	13, 15	24, 67	
70.	13, 16	14, 19, 29, 35, 39, 41, 48, 58, 79	Odd pāda scheme: 6 + 4 + uuu Even pāda scheme: 4 + 4 + 4 + uu $\overline{uu}$
71.	14, 13	9, 15, 42, 47, 49, 69, 72, 84, 91 (except 10), 96(?), 97(?)	Odd pāda: 4 + 4 + 4 + 2 Even pāda: 6 + 4 + uuu
72.	15, 12	101 (13, 15, 16)	
73.	15, 13	10, 18, 20, 31, 46, 64, 65, 66, 72, 88, 92, 101 (except 13, 14, 15, 16)	Odd pāda : 4 + 4 + 4 + 3 Even pāda: 6 + 4 + uuu
74.	15, 16	101 (14)	

B. *The Ardha-samā Catuṣpadī.*

(Rhyme-scheme: a/b, c/d).

75.	12, 14	56	

C. *The Sarva-samā Catuṣpadī*

(Rhyme-scheme: a/b, c/d).

76.	14	77	
77.	15	26, 98	Gaṇa-scheme: 4 + 4 + 4 + uuu
78.	16	8, 17, 61, 100, 110	„ 4 + 4 + 4 + uu $\overline{uu}$

D. *The Ṣaṭpadī.*

(Rhyme-scheme: a/b, d/e, c/f).

79.	6, 8, 12	54	8 = 4 + – uu
80.	6, 8, 13	55, 91 (10)	12 = 4 + 4 + 4
81.	8, 6, 12	70	
82.	9, 7, 14	81, 83	
83.	9, 7, 15	95	
84.	10, 8, 13	4, 30, 52, 53, 74, 89	10 = 6 + — uu, 8 = 4 + — $\overline{uu}$
85.	12, 8 12	3, 33, 50, 71	12 = 3 + 5 + uu $\overline{uu}$ Sandhi 33 has casually 12, 8, 13 also.
86.	12, 8, 13	21, 51	12 = 6 + 4 + 2

§

The Ghattās of *Sandhis 103 to 112* (except 110) appear to have been greatly interfered with. In view of a considerable degree of uncertainty about their structure, they have been excluded from the above classification. A highly tentative analysis of them is given below:

103: 8, 14 in the majority; 10, 12; 15, 13 (last but one); 15, 12 (=last) in stray Kaḍavakas

104: 11 or 12 (end —u), 12 (end ——), except in the 1. Kaḍ., which seems to have 15, 12.

105: 13, 9 (Kaḍ. 1 to 4 ?); 9, 12 (Kaḍ, 5, 10, 11 (?), 12, 13); 11, 12 (Kaḍ. 6): 15, 12 (Kaḍ. 7, 8, 9, 15, 16); 10, 8, 13 (Kaḍ. 14).

106: 15, 13 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 18); 9, 12 (8, 9, 12, 22, 27); 6, 6, 13 (10); 9, 7, 12 (11); 10, 8, 13 (13, 23–26); 9, 13 (?) (14–15); 15, 12 (16, 17, 19, 21); 6, 8, 13 (20). The text of Ghattās to Kaḍ. 7, 28 seems to be corrupt.

107: 13, 11 (=Dohā; Saṁdhi-opening stanza); 10, 8, 13, (Kaḍ. 1); 10, 13 (Kaḍ. 2); 15, 12 (Kaḍ. 3, 4, 6, 9, 10); 9, 12 (Kaḍ. 5, 7, 11, 12); 15, 15 (?) (Kaḍ. 8).

108: 15, 13 (Opening, Kaḍ. 2–4); 9, 13 (Kaḍ. 1, 5); 11 (?), 12 (Kaḍ. 6–9, 16, 17); 16 all with the rhyme-scheme a/b, c/d (Kaḍ. 10–15); 15, 12 (Kaḍ. 19); 10, 8, 13 (Kaḍ. 20).

109: 10, 8, 13 (Opening, Kaḍ. 1, 4, 5, 8, 9); 19, 8, 12 (Kaḍ. 2, 3, 7, 10, 11, 13, 14); 12, 8, 12 (Kaḍ. 6); 6, 8, 13 (Kaḍ. 12).

111: 10, 8, 12 (Opening Kaḍ. 1, 16, 28, 30); 15, 13 (Kaḍ. 2, 22, 23); 13, 16 (Kaḍ. 3–11 13, 24, 25); 11, 16, (Kaḍ. 12); 10 (?), 8, 12 (Kaḍ. 14); 12 (?), 16 (Kaḍ. 15); 14, 13 (Kaḍ. 17, 19, 20); 14, 12 (Kaḍ. 18); 11, 13 (Kaḍ. 26). 10, 8, 13 (Kaḍ. 27, 29); 6, 8, 12 (Kaḍ. 31); 15, 12 (Kaḍ. 32–34); Gāthā (Kaḍ. 35); the text of Ghattā to 21 seems to be corrupt.

112: 15, 16 (Opening, Kaḍ. 1–4, 6); 13, 16 (Kaḍ. 5, 8, 9, 16); 14, 13 (Kaḍ. 7, 13) 15 (?) or 13 (?)—, 16 (Kaḍ. 10, 11, 12, 14); 10, 8, 13 (Kaḍ. 17)

A special observation is to be made concerning the Ṣaṭpadī class of metres Primarily, while discussing the metres and the metrical practice of Svayambhū's Paumacariu, attention was drawn in Part I to the problem of the Dvipadī Ghattā in the Apabhraṁśa epic. All prosodic authorities have consistently treated Dvipadī Ghattās too besides the Ṣaṭpadī and Catuṣpadī types. But the actual practice of the Apabhraṁśa epic poets appeared on this point to be at variance with the theory, because Dvipadī Ghattās could not be identified from the works of Svayambhū and Puṣpadanta, who are among the earlier and most representative of the epic poets. But it appears now that if we examine the structure of the Dvipada Dhruvakas as defined by Svayambhū (Svayambhūcchandas 6, 163–203), many of them, in view of their caesura-bound middle section of eight moras and their rhyme-marked internal caesuras, are indistinguishable from Ṣaṭpadas. Accordingly the metres of those Ghattās only which have the first, second, fourth and fifth sections of the same structure and containing 7, 8 or 9 moras would have to be identified as Ṣaṭpadīs. Others, even though they have an identical rhyme-scheme (viz. a/b, d/e, c/f) would have to be identified as Dvipadīs. But matters are not that simple. In several cases actually occurring in the Apabhraṁśa epics, the first and fourth sections contain 6, 7 or 9 moras (or the third and fifth contain less than seven moras) with second and fifth containing 8. These cases can come neither under the Ṣaṭpadī type nor under the Dvipadī. Perhaps they are to be looked upon as so many variations of the seventh type of Chaḍḍaṇiā described at Svayambhūe-

chandas, S, 20–23. The pro blem remains to be investigated more thoroughly. For the time being the practice of calling all the Ghattā metres with the rhyme-scheme a/b, d/e, c/f Ṣaṭpadīs has been continued.

If we consider the distribution of the above metres over the three sections of the Apabhraṁśa epic from the view-point of the classification in Gāthā, Galitaka, Khañjaka, Śīrṣaka and Apabhraṁśa sections as found, for example, in the manuals of Svayambhū and Hemacandra, we see that most of the metres figuring in the Kaḍavaka-opening piece are found together in the Khañjaka or occasionally in the Śīrṣaka section. Further most of the variation metres are either from the 'Shorter' Dvipadī group, or Khañjakas, or from the Mātrā and Akṣara-Gaṇa metres of the repetitive type (with a few non-repetitive type of Akṣara-Gaṇa metres thrown in). Lastly for the metres of the Ghattā the manuals have a special sub-section in their Apabhraṁśa section. It seems that the Gāthā and Galitaka classes of metres were exclusively for Prakrit composition, the Khañjaka and Śīrṣaka classes were current in Prakrit as well as Apabhraṁśa, while the metres of the Apabhraṁśa section were exclusive to that literature.

III Miscellanea

Find of another Ṭippaṇa on the PC.

The materials used to constitute the text of the Yuddha and Uttara Kāṇḍa of Svayambhū's *Paumacariu* are the same as used for the earlier Kāṇḍas—with only one exception. For the portion from Sandhi 67 to the end, a manuscript of the *Paumacariya-Ṭippaṇa* has been used. When I learnt about the existence of that manuscript, the text of Sandhis 37 to 66 was already printed. So the manuscript could be utilized only for the rest of the text. The description of the Ms. is as under:

Paumacariya Ṭippaṇa: No. 1399 (p. 249) in the Rājasthān-ke Jaina Śāstra Bhaṇḍārõ-kī Granth Sūcī, Part II, prepared by Kasturchand Kaslival (Jaipur). Wrapper No. 942. Belonging to the Mss. Collection of the Terahpantha Digambar Jain Baḍā Mandir of Jaipur. No. of folios—56, of which folios No. 5, 7, 17, 20, 21, 26, 28, 39, 42, 53 are missing, while only the first half of folios No. 10 and 13 is preserved. Size—11 × 4 inches; 9 to 11 lines per side; 36 to 40 letters per line. Bold and neat handwriting. Beginning: ॐनमः सर्वज्ञाय। स्वायंभुवं महावीरं प्रणिपत्य जगद्गुरुं। रामायणस्य वक्ष्यामि टिप्पणं मतिशक्तितः। End: इति रामायणे नवतिः संधिः समाप्ता ॥ छ ॥ ॥ छ ॥ Then in a different, irregular and uncouth hand: श्रीमूलसंघे नंद्याम्नाये सरस्वतीगच्छे श्रीकुंदकुंदाचार्यान्वये भटारक श्रीपद्मनंदिदेवा तत्पटे भटारक श्रीशुभचंद्रदेवास्तत्पटे जिनचंद्रदेवास्तच्छिष्यमुनिश्रीरत्नकीर्तिस्तच्छिष्यमुनिश्रीहेमचंद्र। तदाम्नाये षंडेलवालान्वये श्रीमेत्रे (?) (illegible) सं. केला (illegible) जयसी (?) इदं पुस्तकं लिख......रत्याय प्रदत्तं ॥

Some of the letters of the colophon are illegible because of the superimposed impression of the writing from some other Ms. folio transferred through contact. The Ms. does not give any date of composition or copying. Nor is mentioned the name of the author. The major portion of the glosses is common between the Ṭippaṇa in the manuscript P (called here PT.) and the present Ṭippaṇa (called here JT.). But there are numerous omissions and extra glosses in JT. I have formed an impression that JT. is based on PT., but at present I am not in a position to point out any definite evidence in support of this guess.

The additional glosses of JT. are all noted down for Sandhis 67.6 to 90. The same for the earlier portion of the *Paumacariu*, viz., Sandhis 1 to 67.5 have been given at the end of the text in the form of an appendix (Appendix IV, p. 293-305).

§

JT. has proved valuable from several points of view. Aside from giving meanings of certain rare and otherwise obscure words, and removing textual obscurities or corruption of some of the glosses of PT., it also serves to some extent the purpose of an additional Ms. of PC., as it reproduces in original the words and expressions it translates. It would be readily seen that the MS. before the author of JT. and that before the author of PT. belonged to the same family. Even a casual glance at the appendix giving JT. glosses would suffice to reveal the very close correspondence between the readings as found with JT. and PT. But that does not mean that the text before JT. was just another copy of P. Like PT., JT. too knows and occasionally records variants, only a part of which correspond to the readings of A.

Works ascribed to Svayambhū

Futher importance of JT. lies in the fact that at two places it casually gives some information about the author of PC. Explaining the word *puṇu* in the opening stanza of the first Sandhi, the gloss says[1]: *puṇu* - 'once more' i. e. after having composed a Sanskrit and Prakrit grammar, a manual of prosody, a double-meaning (*dvisandhāna*) Kāvya, and the Bhārata'. According to this statement, already before writing PC. Svayambhū had to his credit four works. Of these 'the Bhārata' of the glossator is the same as the *Harivaṁsa-purāṇu* or *Riṭṭhaṇemicariu*. The 'Chandas' can be easily identified with the *Svayambhūcchandas*. Regarding the *dvisandhāna*, we are not in a position to say whether it was the same as the *Suddhayacariya* referred to in the much-discussed stanza[2] found in the beginning of Svayambhū's *Riṭṭhaṇemicariu*, Sandhi 100, or it was altogether a different work. Lastly there remains the Sanskrit-Prakrit grammar. The point of crediting Svayambhū with writing a grammar has been already considered by me in the introduction to Part I (p. 29). Jain and Premi have expressed the view that Svayambhū might have been the author of a grammar. Jain is inclined to credit Svayambhū also with works on Rhetorics and Lexicography. The references on which these inferences are based are of quite a general nature, and it was possible to read too much into them. But now the statement of the author of JT. lends some strength to the inferences of Jain and Premi about Svayambhū's authorship of a grammar, and makes it likely that Tribhuvana's

---

1 पुणु = पुनः, संस्कृत-प्राकृत-व्याकरण-छन्दो-द्विसन्धान-भारत-सूत्रकानन्तरम् ।

2 काऊण पोमचरियं सुद्धयचरियं च गुणगणग्घवियं । हरिवंसमोहहरणे सरस्सई सुढियदेह-व्व ॥

allusion to *Svayambhūvyākaraṇa* may have some specific reference. But even now, inspite of the express statements of the glossator, I find it difficult to quite dispel my scepticism about this matter. The reason is twofold. Firstly the glossator of J. is silent about Svayabhū's supposed works on Koṣa and Alaṅkāra[3]. The possible alternative of these works being according to the glossator successors of the PC. is to be ruled out, because he (i. e. the glossator) informs us, in the gloss on one of the Praśasti stanzas at the end of Sandhi 83[4], that Mahākavi Svayambhū went to heaven after that much of PC. had been composed. This means that according to the glossator PC. was the last work of Svayambhū, which death did not allow him to finish.

Secondly, as this very statement of the glossator shows, the traditions about Svayambhū and his works reported by him are not quite reliable, for we have unimpeachable evidence to believe that *Svayambhūchhandas* containing actual quotations from the PC., and the *Riṭṭhaṇemicariu* making a direct reference to the PC. were composed *after* the same. It cannot be, therefore, the last work of Svayambhū. On this point the glossator's report is in conflict with the actual facts. This would caution us against putting too much reliance on the statement listing Svayambhū's works. Some more definitive evidence is required before we can take Svayambhū's grammar for a positive fact. But the glossator's statement has certainly lifted it out of the realm of mere speculation. In this connection, however, the following Praśasti stanza, found at the beginning of Sandhi 67 of the Rc., appears to be significant:

गज्जंति ताम्व कइमत्तकुंजरा लक्ख-लक्खण-विहीणा ।
जा सत्त-दीह-जीहं सयंभु-सीहं ण पेच्छंति ॥

'The proud poet-elephants, ignorant of of the Śāstric subjects and expositions, roar only so long as they do not sight the Svayambhū-lion, with seven long tongues'.

'The seven tongues' can be taken to allude to Svayambhū's seven works. 1. Suddhayacariya, 2. Paumacariu, 3. Svayambhucchandas, 4. Riṭṭhaṇemicariu : these four are definite. If the *dvisandhānakāvya* mentioned by the glossator in JT. is different from the *Suddhayacariya* it would be the fifth work. If we credit Svayambhū with the authorship of a grammar it would be the sixth. Some

3 Even if we take सृत्रक in the above citation to mean one of these, there would still be discrepancy of one.

4 इति कृते रामचरिते स्वयंभुमहाकविर्देवलोकीबभूव ।

work on Kośa or Alaṁkāra or some *stotra* would be the seventh. Only some more reliable source of information can dispel the fog of speculation.

Find of another MS. of the Svayambhūcchandhandas

In the section on the *Svayambhūcchandas* (Sc.) in the introduction to Part I, I had examined the question of the scope and contents of the lost portion of the Sc. and had come to the conclusion that it did contain a section on the Prakrit metres strictly so called. Happily this conclusion has been now borne out in full by the find of the fragments of a fresh MS. of the Sc. from a Tibetan monastery[5]. The script of of the Tibetan Ms. is Old Bengali and even though several folios are missing, it gives us a fair idea of the Pk. metres treated in the Sc. The Prakrit section has all its sub-divisions with which we are familiar from the prosodic manuals of Hemacandra and others, viz., Gāthā, Galitaka, Khañjaka and Śīrṣaka sections, besides the well known Varṇavṛtta. Illustrative citations are given from a host of Prakrit poets, most of them coming to our knowledge for the first time. There are citations from Pravarasena's *Setubandha* (3,9) and Harṣa's *Ratnāvalī* (1, 13–15). Several Gāthās known to us from collections like the *Sattasaī* and *Vajjālagga* are ascribed to specific authors[6].

Some doubts had been raised, in the introduction to Part I, about the authenticity of certain ascriptions of Sc. Certain

5 The Ms. has been utilized by Prof. H. D. Velankar in his new edition of the Sc. prepared for the Singhi Jain Series.

6 e. g. *Sattasaī* 1, 75 (*ua pommarāa-maragaa-* etc.) is ascribed to Pālitta (= Pādalipta, the author of the lost Prakrit Kathā *Taraṅgavaī*); *Sa.* 2, 97 = *Vajja.* 476 (*paura-juāṇo gāmo* etc.), to Bhogika; Vajjā 431 (*Suhaa gaaṁ tuha virahe* etc.) to Caudana; *Līlāvaī* 1294 (omitted in some Mss. of that work and cited at *Chandonuśāsana*, I 10. 1), to Varmaputra (Vammautta). *Paramātmaprakāśa* 2, 117 (*te-ccia suhaā* etc.), to Vidagdha. The last-noted case is interesting also from another point of view. Sc. cites it with the specifically stated purpose of illustrating in Pk. prosody the non-position-making character of consonant clusters with a posterior *r*-.Hence the authenticity of the *dr* clusters of *vodrahadraha* in the stanza in question are beyond any doubt. This is further supported by *Siddhahema* 8, 2, 80 and *Chandonuśāsana* 1, 7, 6 (the Paryāya Ṭippaṇaka on this cites the whole stanza). But the stanza as found cited in the *Paramātmaprakāśa* has the *r*-clusters assimilated. This means that either the scribes of the MSS. of the PP. affected that change or that the stanza was known to the author of the PP. in a changed form—in a form later than that known to Svayambhū. The second alternative suggested here would gain support from some other facts (frequency of the pleonastic suffix *ḍa*, relatively late words like *jamala* 'near', *vari* over, clearly derivative character of some stanzas, etc.) regarding the language and the text of the *Paramātmaprakāśa*.

illustrative stanzas ascribed by the Ms. of the Sc. to Caturmukha were shown to be actual citations from one of Svayambhū's own works, viz., the PC. Two similar cases in further support of that point can be now cited with the help of the present part of the PC. The passage cited at Sc. I 156 and 157 under the names of Māuradeva and Rajjautta to illustrate a variety of the Daṇḍaka called Caṇḍavāla are identical respectively with PC. 73 3 5-8 and 72 15 5-6[7]. As the passages in question occur in the midst of a Kaḍavaka as its integral part, the possibility of their being outright borrowings on the part of Svayambhū appears very unlikely, and the ascriptions in the Sc. text as available to us at present (based on a single and late Ms.) are to be considered erroneous. Incidentally this brings the number of passages of the Sc. identified from the PC. to fourteen.

A stotra by Svayambhū

One more identification, though quite accidental, may be also noted here. Sc. 8, 41 cites a regular Kaḍavaka made up of 8 yamakas of Paddhaḍikā closed with a Ṣaṭpadī Ghattā to illustrate the Sandhi-opening Paddhaḍikā and Chaḍḍaṇikā. Now along with the folios of *Paumacariya-Ṭippaṇa* Ms. JT. (described at the start of the present section) there were found mixed up a few stray leaves of some other MSS. One of these stray leaves appears to have belonged to a MS. containing a collection of Jain stotras. The contents of that single leaf are as follows :

1. Last lines of a 'Padmāvatīdevī Stotra'. 2 'Pārśvanātha-stotra' or 'Yamaka-stotra' in Sanskrit by Padmaprabhadeva, possibly a disciple of Padmanandin. 3. An incomplete Jina-stotra in Apabhraṁśa. The third item in the above list of contents, viz., the Jina-stotra turns out to be identical with the illustration of the Sandhi-Paddhaḍikā and Sandhi-Chaḍḍaṇikā cited at the *Svayambhū-cchandas* 8, 41-45, except that the Sc. citation omits the opening stanza. The stray leaf contains the text of the stotra only up to the third line of the fourth Paddhaḍī stanza and so the sequel and colophon are missing. Both the versions are reproduced in Appendix III. As portions of the stotra are anonymously cited in the Sc., it is quite likely that Svayambhū himself was its author.

7 See, Bhayani H. C., 'Caturmukha, one of the earliest Apabhraṁśa epic poets', Journal of the Oriental Institute, Baroda, 7, 3, 1958 p. 218. The paper considers Caturmukha's works as the probable source of some epic citations in the Ap. section of the Sc.

Svayambhū's date

In the discussion of Svayambhū's date in Part I (pp. 7-9) of PC. the range between A. D. 677 and 960 could not be narrowed down in any definite manner for want of some positive clue. Such a clue is now fortunatey available from the text included in this Part. In the description of Hanumat's journey from Laṅkā to Ayodhyā (69.1 to 69.8), there is a reference to Seuṇadesa. 69 6 3 reads as follows:

puṇu sari Bhīmarahi jal'oha-phāra /
jā Seuṇa-desahŏ amiya-dhāra //

It means: 'Further (they saw) the river Bhīmarathī, carrying a vast mass of waters; it was a veritable stream of nectar for the Seuṇa-country'.

Now we know from a copper-plate grant of Seuṇacandra II[8] that Seuṇacandra I, son of Dṛḍhaprahāra (who was the founder of the Yādava dynasty of Devagiri), founded the city called 'Seuṇapura' in Sindinera.

Bhagvanlal Indraji and other authorities place this Dṛḍhaprahāra in the first half of the 9th cent A. D.[9] As the date of Seuṇacandra II is 1069, and as he is seventh in line after Seuṇacandra I, the latter is likely to have flourished in about A. D. 860, if we count 30 years on an average for each generation. This is further supported by the fact that making a similar calculation on the basis of the date of Vaḍḍiga[10] (c. A. D. 916), who is third from Seuṇacandra I, we reach about A. D. 826. Accordingly if Seuṇacandra I founded the Seuṇapura (after which the region over which he ruled came to be known as 'Seuṇadeśa') in, say, about A. D. 840, it could have become fairly well-known by about A. D. 860. In that case we can reasonably assign Svayambhū to a period approximately between A. D. 840–920. The latter half of the ninth century can be taken as his literarily active period. Half a century later appeared the poet Puṣpadanta. Incidentally the above reference from the PC. throws some fresh light on the location of the Seuṇadeśa. Bhagvanlal Indraji identified Sindinera (where-

8 Ed. by Pandit Bhagvanlal Indraji in *Indian Antiquary* 12, 1883, pp. 119 ff.

9 op. cit., p. 126; 'The Struggle for Empire' = The History and culture of the Indian People, Vol. v.), 1957, Bombay, p. 185.

10 IA., 12, pp. 126; 128.

¶

in Seuṇapura is said to have been situated) with modern Sinnar, about twenty miles south of Nasik. D. C. Ganguly says that Seuṇadeśa 'was situated on the confines of Daṇḍaka, and included Devagiri, modern Daulatābād, in the Aurangābād District.'[11] But according to Svayambhū the river Bhīmarathī i. e. Bhīmā was 'like a stream of nectar to the Seuṇadeśa'. This means that the Seuṇadeśa should have been on the Bhīmā river i. e. further south than has been so for understood.

Does Svayambhū's going out of the way in specially describing the river Bhīmarathī as 'a stream of nectar to the Seuṇadeśa' imply anything—say, for example, a close association of Svayambhū with the Seuṇadeśa or Seuṇapura? This is more than we can say. True, the Seuṇas were vassals of the Rāṣṭrakūṭas of Mānyakheṭa and of the Cālukyas of Kalyāṇa for more than three hundred years,[12] and some of the Rāṣṭrakūṭa kings are known to have given patronage to Jainism. The great Apabhraṁśa poet Puṣpadanta (mid-tenth century) had a Rāṣṭrakūṭa minister for his patron. Even one of the Seuṇa kings himself, viz., Seuṇacandra III, was sympathetic towards Jainism, as is shown by his donation, in A. D. 1141, of three shops for maintaining the temple of Tīrthaṁkara Candraprabha at Añjanerī, near Nasik.[13] These facts may not be quite without significance. But in the absence of any more substantial data it would be unsafe to speculate any further in this matter.

Part II of PC. has two passages, significant on account of their reference to various contemporary geographical place names. The first passage (Sandhi 45, Kaḍavaka 4) describes the famous products of various places that were available as commodities in the market of Lakṣmīnagara or Śrīnagara, the capital of the Vidyādhara king Hanumat in the Hanuruha Dvīpa. The places and products are tabulated below:

11 'The Struggle for Empire', 185.

12 The Struggle for Empire', 185.

13 See the stone inscription from the Jain temple edited by Bhagvanlal Indraji at IA., 12, 1883, pp. 126–129.

Place	*Its famous product*
Deulavāḍaya (Devakulapāṭaka)	paṇṇa (betel leaf)
Cei (Cedi ?)[14]	phopphala (betel-nut)
Karahāḍaya (Karahāṭaka)	jāihulla cuṇṇa (chunam perfumed with jasmine ?)
Cittauḍa (Citrakūṭa; modern Chitor).	kañcua (*choli*)
Rāmaura (Rāmapura)	gula (*gul*)
Paiṭhāṇa (Pratiṣṭhāna; modern Paiṭhan)	sara (arrow ?)[15]
Aivaḍḍa (=Aṇahila-pattana, acc. to the gloss; modern Patan)	bhujaṅga (paramour ?)
Abbua (Arbuda; modern Abu)	addha-vesa (?) (v. l. andhidesa, andhivesa)
Kaṇṇāḍaya (Karṇāṭaka)	jovvaṇa (=youth ?)
Harikelaya (=Vaṅga; modern Bengal)[16]	celaya (precious cloth)
Vaḍḍāyara	lavaṇa (rock salt)
Vairāyara (Vajrākara)	vaira (diamond)
Siṁghala (Siṁhala; modern Ceylon)	maṇi (jewel)
Nevāla (Nepāla)	katthūrī (musk)
Sañjāṇa (modern Sanjan)	mottiya-hāra (pearl necklace)
Vajjara	khara (donkey)
Kekkāṇa (Kaykān)	haya (horse)
Pauṇāra	kāviṭṭhi ('scented powder', according to the gloss)
Nandurabāra (=Nandurbar)	vāṇī (speech ?)
Kañcī (=Kāñcī;modern Conjeevaram)	ṇayara (?)
Cīṇa (=China)	ṇetta (fine fabric)

The second passage (Sandhi 49, Kaḍavaka 8) names various places along with the beautiful parts of the body for which their ladies were famous. These are tabulated below:

---

14 The Apabhraṁśa adjective actually used is 'ceullau', which is taken to mean 'belonging to Cei.'

15 The gloss meanniglessly takes this to be 'a lake' or 'water'.

16 cf. 'Vaṅgās tu Harikelīyāḥ', Hemacandra's 'Abhidhānacintāmaṇi', 957.

Place	Part of the body
Paunāra	pāya-tala (soles of feet)
Simghala (Simhala; Ceylon)	ṇaha (nails)
Ceī[17] (= Cedi ?)	aṅguliya (fingers)
Golla (= Mahārāṣṭra ?)	guppha (ankles)
Māyandi (= Mākandī)	poṭṭari[18] (calves)
Siripavvaya (= Śrīparvata)	maṇḍiya (knees)
Nippāla (= Nepāla)	uru-jua (thighs)
Karahāḍaya (Karahāṭaka)	kaḍi (waist)
Kañcī (Kāñcī)	soṇi (hips)
Gambhīra (Gambhīrā)	ṇāhiya (navel)
Siṅgāriya (v. l. sigāriya, sivāriya ?)	puṭṭhi (back)
Elaura (= Elāpura; Ellora)	thaṇa (breasts)
Majjhima-desa (= Madhyadeśa)	vacchayala (chest)
Pacchima-desa (= Paśchimadeśa)	bhua-sihara (shoulders)
Vāramaī (= Dvārāvatī; Dwarka)	vāhula (arms)
Sindhava (= Sindhu; Sind)	maṇivandha (wrists)
Kacchāyaṇa (= Kaccha; Cutch)	gīva (neck)
Goggaḍa (v. l. Kokkaṇiya)	uṭṭha (lips)
Kannāḍa (Karṇāṭaka)	dasaṇa (teeth)
Kārohaṇa (= Kāyāvarohaṇa; Karvan)	jīha (tongue)
Tuṅga-visaya (for Tuṇḍa-visaya i. e. Toṇḍaināḍ or Toṇḍamaṇḍalam ?)	ṇāsa (nose)
Gambhīra(Gambhīrā)	loyaṇa (eyes)
Ujjeṇi (Ujjayinī; Ujjain)	bhauhā (eyebrows)
Cittaūḍa (= Citrakūṭa; Chitor)	bhāla (forehead)
Kāsi (Kāśī; Banaras)	kavola (cheeks)
Kaṇṇāujja (=Kānyakubja; Kanouj)	kaṇṇa (ears)
Kāola (v. l. Kāvila ?)	kesa (hair)
Dāhiṇa-desa (= Dakṣiṇadeśa)	viṇaya (courteous manners)

The lists offer quite a tempting topic for investigation. But for fear of delaying the already over-delayed publication of the present volume, I leave them untouched.

17 The reading at 59 8 3 is to be corrected as *Ceullieh̄ī* (A.'s reading) in the light of 45 4 2.

18 cf. Hemacandra's 'Pariśiṣṭaparvan', 8, 194. cf. Konkani, *poṭrī* 'calf;' Marathi *māḍī* 'lap'.

Svayambhū's *Riṭṭhaṇemicariu* is likely to contain various clues and suggestions significant from the point of view of his date or personal account. For instance consider the following line describing Mount Ūrjayanta:

तउ तेहिँ दिट्ठो गिरि उज्जयंतो, करिंद व्व चंदक्क-घंटा घुणंतो। (Rc. 95 11 1)

These are quite obviously based on *Śiśupālavadha* 4,20 which dercribes Mount Raivataka.

The following passages are important for the consideration of Svayambhū's creed:

(1). णं हरिहरवंभाणेहिँ तिहि मि पहाणेहिँ मंदरु सायरेँ मुक्कउ। (71, 2 Ghattā) which directly alludes to the trinity and the ocean-churnig episode of the Hindu mythology.

(2). In 67 1 Ghattā, Janārdana (i. e. Kṛṣṇa), Sātyaki, Bībhatsa (i. e. Arjuna) and Vṛkodara (i. e. Bhīmasena) are compared to Paramātman, Pitāmaha (i. e. Brahmā), Hari and Hara.

(3). तं पाविवि दइयंवरिय दिक्ख, सिक्खेवी पुणु णिरवज्ज सिक्ख। (RC. 48 12 6) has a clear reference to the Digambara sect.

Caturmukha and Svayambhū

In the paper referred to in footnote 7, I have attempted to show Caturmukha's works on Rāmāyaṇa and Mahābhārata as the probable sources of some of the citations in the *Svayambhūcchandas*. This view can be further strengthened by a careful scanning of Svayambhū's *Riṭṭhaṇemicariu* for parallels. In a casual reading I have been able to spot a few more parallels. (1) 'Ko mahũ jīantahũ *ṇei dhaṇu*' (SC. IV 4) cited under the name of Caturmukha; and 'mahu marai puraṁjau, jai-vi dhaṇaṁjau, sahu goviṁdeṁ *ṇei dhaṇu*' (RC. 30 1 Ghattā *b*). (2) 'Nīla ṇa [d]īsai, paramappaṁ jiha viṇu ṇāṇeṁ' (SC. VI 65); and 'kaha va ṇa dīsai, ṇikkalu jiha viṇu jāṇeṁ' (RC. 71 13 Ghattā *e. f.*) (3) 'koṭṭhaṭṭhālĕṇa (koṭṭuggālĕṇa), saṇṇahavi dasāṇaṇa ṇiggao' (SC. VI 68), and 'Macchāhivai...koṭṭuggāleṁ ṇīsariu' (RC. 29 4 Ghattā). (4) 'suvvai dūre saṁkhu, haṇumanta ṇa dīsai/saccai saa[ḍa]-vūhe, ekkaraha paisai' (SC. VI. 155), and 'kaicindhu ṇa dīsai rahu(? vu), para suvvai mahumahajalayarahŏ/Saccai paṭṭhaviu (RC. 64 opening stanza). (5) The rhyme 'Ajjuṇu/kahiṃ piṇu (for 'puṇu')' of Sc. VI 58[19] is found at RC. 51 20 Ghattā:

19 This passage has been considered in § 17 of my above-mentioned paper on Caturmukha. There I had suggested to amend 'kahiṁ piṇu' of the text to 'kaheppiṇu' and had translated the passage accordingly. In the light of the RC. passage cited above we can now suggest 'kahiṁ puṇu' as a more probable emendation. The corresponding translation would be 'but (he may be) somewhere in heaven.'

dharau ko-vi chuḍu ajju-vi *Ajjuṇu*
Dharmma-puttu mahu jāi *kahiṁ puṇu*

(6) The illustration at SC. VI 152 (which is preserved in a better form at Hemacandra's *Chandonuśāsana* 6 21. 2) contains the compound 'Kira-Kaṇṇa-Kaliṁga' (corrupt for the *Chandonuśāsana* reading 'Kṛva-Kaṇṇa-Kaliṁga'). The same is found in RC. 26 6 1 b: thiya Kiva-Kaṇṇa-Kaliṁga-Jayaddhaha.' cf. also RC. 67 11 2 b: Bhūrisava-Kaliṁga-Kiva-Kaṇṇĕhĩ.

In view of such matters one can easily see the great value of making Svayambhū's Mahābhārata epic available in print as early as possible.

*

Appendix III

(See p. 40)

1. An Apabhraṁśa Stotra by Svayambhū (?) found on a fragmentary MS. leaf from Jaipur.

रिद्धिविद्धिवरमंगलु सुष्ठगुणगा(?)लु सुवकलत्तमणरंजणि ।
घरि होईं सुसंपईं गणहरु जंपइ विहनरोरुदुहखंडणि ॥ छ ॥
जिणणामें मयगलु मुवइ दप्पु केसरि वसि होइ ण डसइ सप्पु ।
जिणणामें डहइ ण धगधगंतु हुइवहु जालासइपज्जलंतु ॥
जिणणामें जलणिहि देइ थाहु आरणि चंडि णवि वहइ वाउ (?) ।
जिणणामें भरसइसंकलाईं तुट्टेवि जंति खणि मोकलाईं ॥
जिणणामें पीडइ गहु ण कोइ दुम्मइपिसाउ ओसरइ सोइ ॥
जिणणामें दुरियह खयहु जंति परिपुण(ण्ण) मणोरह णिरु हवंति ॥
जिणणामें छिज्जइ मोहजालु उप्पज्जइ देवहं सामिसालु ॥
जिणणामें णासइ सयल वाहि गलगुंमगंड ण (Here the second side of the folio ends and the text remains incomplete)

2. The text of the above as found at Svayambhūcchandas 8, 41–45.

(पद्धडिआ जहा:—)

जिणणामे मअगल मुअइ दप्पु केसरि वस हो[इ] ण डसइ सप्पु ॥
जिणणामे डहइ ण धगधगन्त हुअवह जालासअपज्जलन्त ॥ ४१ ॥
जिणणामे जलणिहि देइ थाहु आरण्णे वण्णु ण वधइ वाहु ॥
जिणणामे भवसअसंखलाइं तुट्टन्ति होन्ति खण मोक्कलाइं ॥ ४२ ॥
जिणणामे पीडइ गहु ण को वि दुम्मइपिसाउ ओसरइ सो वि ॥
जिणणामे दुग्गअ खहिज्जन्ति (?) अणुदिण वरपुण्णइं उब्भवन्ति ॥ ४३ ॥
जिणणामे छिन्देवि मोहजालु उप्पज्जइ देवल्लसामिसालु ॥
जिणणामे कम्मइं णिद्दलेवि मोक्खग्गे पइसिअ सुह लहेवि ॥ ४४ ॥

(छड्डणिआ जहा—)

जिणणामपवित्तें दिवसुव्वन्तें पाउ असेसु वि छज्जइ ।
जं जं मणें भावइ तं सुह पावइ दीणु ण कासु वि किज्जइ ॥

*

पउमचरिउ

चतुर्थ-पञ्चम काण्ड रूप

– तृतीय भाग –

Sandhis 57 to 82 by Svayambhū
The rest of Sandhis 83 to 90 (called Paumacariya-sesa)
by Tribhuvana.

卐

कइराय - सयम्भुएव - किउ

पउमचरिउ

चउत्थं जुज्झकण्डं

*

[५७. सत्तवण्णासमो संधि]

हंसदीवेँ थिएँ[1] राम-वलेँ　　खोहु जाउ णिसियर-सङ्घायहोँ ।
झत्ति महीहर-सिहरु जिह　　णिवडिउँ[2] हियउ दसाणण-रायहोँ[3] ॥

[१]

तूरहोँ सद्दु सुणेवि रउद्दहोँ　　खुहिय लङ्क णं वेल समुद्दहोँ ॥ १
एहँएँ[4] कालेँ अणेयइँ जाणँउ[5]　　मणेँण विसण्णु विहीसणु राणँउ[6] ॥ २
'णं कुल-सेलु समाहउ वज्जें　　पुरि णन्दन्ति णट्ठ विणु कज्जें ॥ ३
कलेँ जि मेरउ ण किउ णिवारिउ　　एवहिँ[१] दूसन्थवँउ[7] णिरारिउ ॥ ४
तो वि सणेहें परिहच्छाँवमि[२][8]　　उँप्पहेँ[9] थियउ सुपन्थें लावमि ॥ ५
जइ कया वि उवसँमइ[10] दसाणणु　　पावें छाइउ पँर[३]-महिलाणणु ॥ ६
एम वि जइ महु णँ[11] कियउ वुत्तउ　　तो[12] रिउ-साहणेँ मिलमि णिरुत्तउ ॥ ७
अँप्पाणु[४] वि ण होइ[13] संसारिउ　　परिहरिएँवउ[14][५] पारायारिउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सुहि जें सूलु पँडिकूलँणउ[६][15]　　परु जें सहोयरु जो अणुअँत्तइ[16] ।
ओसहु दूरुप्पँण्णउ[17] वि　　वाहि सरीरहोँ कहेँवि घत्तइ[18]' ॥ ९

1. 1 P S वि थिए, A त्थिए. 2 P हिअवउ पडिउ, S हियवउ पडिउ. 3 A ध्रुवकं at the end. 4 P तेहए, S तेहइ. 5 A जाणउं. 6 P A राणउं. 7 P S दूसंथविउ. 8 A परिअच्छावमि. 9 P S A उप्पहि. 10 A उवसमइं. 11 A किण्ण पउत्तउ. 12 P S ता. 13 A होमि. 14 P S परिहरिउ वि होइ परयारिउ. 15 P A पडिकूलणउं. 16 A अणुअत्तइं. 17 A दूरुप्पणउं. 18 A घत्तइं.

[१] १ दुष्करम्. २ संबोधयामि. ३ परस्त्रीचौरः. ४ आत्मीयो एव न भवति बन्धुस्नेहवान्. ५ (P. 's reading) परिहारितोऽपि. ६ शत्रुः.

[२]

जो[1] परतिय-परदव्वाहिंसणु मणेँ परिचिन्तेँवि एम विहीसणु ॥ १
अहिमुहु वलिउ[2] दसाणण-रायहोँ णं गुण-णिवहु दोस-सङ्घायहोँ ॥ २
'भो भो भू-भूसण भड-भञ्जण खलहु मि खल सज्जणहु[3] मि सज्जण ॥ ३
रावण किण्ण गणहि महु वयणइँ किण्ण णियहि णन्दन्तइँ सयणइँ[4] ॥ ४
किं स-गेहु णिय-णयरु ण इच्छहि [5]किं वज्जासणि सिरेँण पडिच्छहि ॥ ५
किं देवावहि सेण्णु दिसा-वलि किं उरेँ धरहि जलणँ[6]-जालावलि ॥ ६
किं आरोडहि राहव-केसरि किं जाणन्तु खाहि विस-मञ्जरि ॥ ७
किं गिरि-समु वड्डत्तणु खण्डहि किं चारित्तु सीलु वउ छण्डहि ॥ ८
किं विहडन्तउ कज्जु ण सन्धहि तइयएँ[7] णरएँ आउँ[8] किं वन्धहि[9] ॥ ९
एक्कु अजसु[10] अण्णेक्कु अमङ्गलु[11] जाणइ[12] देन्तह पर गुणु केवलु' ॥ १०

॥ घत्ता ॥

भणइ दसाणणु 'भाइ सुणि जाणमि पेक्खमि णरयहोँ सङ्कमि ।
णवर[13] सरीरेँ वसन्ताइँ पञ्चिन्दियइँ [14]'जिणेवि ण सक्कमि' ॥ ११

[३]

सो[1] जण-मण-णयणा[1]हिरावणो पर-णरवर-हरिणाइ[2]रावणो ॥ १
दुद्धर-धर[3]णिधर-धरावणो भड-थड-कडमद्दण-करावणो ॥ २
दुज्जण-जण-मण-जज्जरावणो करिवर-कुम्भथलँ[2]-कप्परावणो ॥ ३
धणय-पुरन्दर-थरहरावणो सरणाइय-भय-परिहरावणो ॥ ४
दाणविन्द-दुद्दम-डँरावणो अमर-मणोहरँ-वहुअँ[3]-रावणो ॥ ५
दाणेँ[4] महाहयणे तुरावणो णिसुणिउ जं जम्पन्तु रावणो ॥ ६

॥ घत्ता ॥

भणइ विहीसणु कुइय-मणु वयणु णिएँवि[5] दसाणण-केरउ ।
'मरण-कालेँ आसण्णेँ[6] थिएँ सव्वहोँ होइँ[7] चित्तु विवरेरउ ॥ ७

2. 1 P S जो. 2 P S चलिउ. 3 P खलहं, S खलह, A खलहुं. 4 A सुयणइं. 5 A. omits this line. 6 P S जलणि. 7 P S तइए. 8 P S किं आउ. 9 P णिवंधहिं, S णिवंधहि, A वंधहिं. 10 P S वि जसु. 11 P S वि मंगलु. 12 P A जाणइं देंतहं. 13 P S णवरि. 14 P S धरेवि.

3. 1 P S ᵒणाइरावणो. 2 P S A ᵒत्थलᵒ. 3 P S ᵒवहुपरावणो. 4 P S दाण महाहयणित्तुरावणो. 5 P S सुणेवि. 6 P S आसण्ण किए. 7 P S चित्तु होइ.

[३] १ अभिरामः. २ एरावतः शक्रराजः (?). ३ पर्वतानां नृपतीनां वा उद्धारकः. ४ भयोत्पादकः. ५ (P.'s reading) मनोहरवधूनां प्रकर्षेणानन्दकारकः । अमर-मनोहरवधूकानां रावणः प्रक्रंदकारकः.

[४]

पुणु वि गरुउ [1]संताउ [१]विहीसणेँ   काइँ णिवारिउ ण किउ विहीसणेँ ॥ १
काइँ णरिन्दऽ[2]प्पाणउँ [२][3]सोसहि   एण णिहेण [4]पइट्ठु [३]विसोसहि ॥ २
जणय-विदेहि-धीय [४]पइ-सारिय   पइँ सयणहुँ भवित्ति पइसारिय ॥ ३
एह ण सीय [५]वणेँ ट्ठिय भल्ली   [5]सव्वहुँ हियएँ [6]पइट्ठिय [६]भल्ली ॥ ४
एह ण [७]सीय [८]सोय-संपत्ती   लङ्कहेँ वज्जासणि [९]संपत्ती ॥ ५
एह ण सीय दाढ वर-सीहहोँ   गय-गण्डत्थल-[7]वहल-[१०]रसीहहोँ ॥ ६
एह ण सीय जीह जमरायहोँ   केवल हाणि [११]जसुज्जम-रायहोँ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

णन्दउ लङ्क स-तोरणिय   [१२]अणुणहि रामु पमायहि जुज्झु ।
जाणइ [8]सिविणा-रिद्धि जिह   [9]णँ हुअ ण होइ ण होसइ तुज्झु' ॥ ८

[५]

तं सुणेवि सत्तुत्त-मद्दणो   स-पुरन्दर-विजयन्त-मद्दणो ॥ १
रयणासव-[२]वंसाहिणन्दणो   [३]दहमुह-दिट्ठिविसाहि-णन्दणो ॥ २
[1]इन्दई णिय-मणे [2]विरुद्धओ   जेण हणुउ पहरेवि रुद्धओ ॥ ३
हुअवहो व्व जालोलि-भासुरो   [४][3]हरँ सणेँ व्व कुइओ [4]वि भासुरो ॥ ४
केसरि व्व उद्ध[5]सिय-[५]कन्धरो   [६][6]पाउसो व्व उण्णइय-कं-धरो ॥ ५
'तं विहीसणा पइँ पजम्पियं   दहमुहस्स ण [7]कयाइ जं पियं ॥ ६

॥ घत्ता ॥

को तुहुँ कें [8]वोल्लावियउ   को सो लक्खणु को किर रामु ।
जइ तहोँ अप्पिय जणय-सुय तो [9]हउँ ण वहमि इन्दइ णामु' ॥ ७

---

4. 1 P S संतविउ. 2 P °प्पणु, S °प्पाणु. 3 P S वि सोसहि, A सोसहिं. 4 A पइट्ठवि सेसहि. 5 P सव्वहु, S सव्वहो, A सव्वहं. 6 P S पइट्ठी. 7 A व्व हलसीहहो. 8 P S सुइणा.° 9 P S A णहु अण्ण.

5. 1 P S इंदई. 2 P S अइविरुद्धउ. 3 A हरि सणो. 4 A इ. 5 P उद्धुसिय°, S उड्डुसिय°. 6 A पाउसे. 7 P A कयाइं. 8 P S वोल्लाविउ. 9 A ण वहंमि हउं.

---

[४] १ हे विगतभीः. २ कदर्थयसि. ३ विषौषधीः. ४ भर्तुः रामस्योत्तमा, अथवा पतिः सारो यस्याः सा पतिसारिका. ५ वने स्थिता न मनोज्ञा. ६ काण्डविशेषः. ७ नैषा श्रीः. ८ ते शोक-संपदेयम्. ९ संप्राप्ता. १० बहुलं प्रचुरं रसो रक्तमीहते यः. ११ यशस्योद्यमस्य राज्यस्य त्रयाणां हानिः. १२ अनुनीयसि (?).

[५] १ शत्रोः भावः शत्रुत्वं, शत्रुत्वं विद्यते येषां ते शत्रुत्वमन्तः, तेषां 'दणो' दानवः. २ अभिवृद्धिकारकः. ३ दशमुख इव दृष्टिविष-सर्पः, तस्य नन्दनः पुत्रः. ४ महादेवः शब्दे कुपितोऽपि भासुरो यथा गौरीरतिकाले. ५ ग्रीवा. ६ मेघो अन्नाशाद् भिंन्न प्रहृष्टं कम् आत्मानम् धरतीति उद्भिन्नकंधरो.

[६]

तं णिसुणेवि विहीसणु जम्पइ 'विरुवउ[1] णिन्दिउ सीयहेँ जं पइ[1] ॥ १
पप्फुल्लिय-[2]अरविन्द-प्पह-रणेँ दुद्धर-णरवरिन्द-[2]दप्प-[3]हरणेँ ॥ २
दुद्दम-[4]दाणव-विन्द-प्पहरणेँ [5]णीसरन्त-वलहद्दहोँ पहरणेँ ॥ ३
अणुहरमाण-वाण-फरुसक्कहोँ[6] जे भञ्जन्ति मडप्फरु सक्कहोँ ॥ ४
[7]ते रणेँ जाएँ णिवारेँवि सक्कहोँ तुम्हहुँ मज्झेँ सत्ति परिसंकहोँ[8] ॥ ५
जेण सम्वु मुहेँ छुड्डु कियन्तहोँ[4] [5]मिलेँवि असेसेँहिँ काइँ कियं[6] तहोँ ॥ ६
जेण खरहोँ सिरु खुडिउ जियन्तहोँ चउदह-सहसेँहिँ काइँ कियं[6] तहोँ ॥ ७
सो हरि सारहि जसु पवराहउ[9] दुज्जउ केण परज्जिउ राहउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अण्णु वि हणुवहोँ काइँ किउ तुम्हहँ तणएँ पइट्ठउ जो वणेँ[7] ।
दक्खवन्तु णिय-चिन्धाइँ जिह वियड्डु[8] कण्णाडिहेँ जोव्वणेँ[9]' ॥ ९

[७]

तं णिसुणेँवि रूसिउ[1] दसाणणो जो सयं सुरिन्दस्स हाणणो ॥ १
करेँ समुक्खयं चन्दहासयं विप्फुरन्तमिव चन्दहासयं ॥ २
'मरु पाडमि महि-मण्डले सिरं मम[2] णिन्दयरं पर-पसंसिरं' ॥ ३
तहिँ अवसरेँ कुइओ विहीसणो जो जणेँ सुकुइओ[2] [3]विहीसणो ॥ ४
लइउ खम्भु मणि-रयण-भूसिओ दहवयणस्स जसो[3] व्व भू-सिओ ॥ ५
वे वि पधाइयं[4] एक्कमेक्कहो जणु जम्पइ सियँ ए-क्कमे क्कहो ॥ ६

॥ घत्ता ॥

मण्ड धरन्त-धरन्ताहुँ स-तरु स-खग्ग विहीसण-रावण ।
णाइँ परोप्परु ओवडिय उद्ध-सोण्ड अइरावय-वारण[5] ॥ ७

6. 1 A विरुयउ. 2 P S णरवरविंदप्पहरणे. 3 P परसक्कहो. 4 A कयंतहो. 5 P S transpose this and the next Pāda. 6 A कयं. 7 P S व्वणि, A व्वणु corrected as व्वणे. 8 P S वियड्ढ, A विड्डु. 9 A जोव्वणु, P S जोव्वणि.

7. 1 P S रोसिओ. 2 P संवुकुइओ, S सुंकुइओ. 3 A जमो. 4 P S धाइया. 5 P °रावण, S रावणा.

[६] १ रामः. २ रणस्य विशेषणमिदम् । किंविशिष्टे रणे । अभिनव-प्रफुल्लारविन्दवदुज्ज्वलानि नवनिशितानि प्रहरणानि प्रहरणे नियचरेण (?) तस्मिन् । ३ (P. 's reading) अभिमुख-प्रहरणं घातदानं यत्र रणे. ४ दुर्दमशत्रुवृन्दानां अप[ह]रणं मारणं यत्र रणे तस्मिन्. ५ अभिमुखागच्छद्रामनायकप्रहरणे रणे. ६ निष्ठुरादित्यस्य. ७ तान् जयाशक्त्या. ८ यदि शक्यते. ९ 'एसक्कहो' एषाकस्य (एतस्य ?)। अत्र ककारस्य वर्णागमः. १० प्रचुरा आहवा संग्रामा यस्य.

[७] १ वधकः. २ मम निन्दाकारकम्. ३ विगतभयः. ४ यश इव गृहीतं भूमौ लोके स्थितं शुभ्रम्. ५ जनो ब्रवीति एकमेकस्मिन् क्रमे संग्रामलक्षणे कस्य श्री भविष्यति.

[८]

नरवइ धरिउ कडच्छएँ मन्तिहिँ   '[1]करेँ अवराहु भडारा '[१]मं तिहिँ ॥ १
विहिँ भाइहिँ अं[2]ण्णेक्कहों तणयहों   जो '[२]जीवियहों सारु तउ तणयहों' ॥ २
तो वि ण थक्कइ अमरिस-कुद्धउ   जो चउ-जलहि-विहूसिय-कु[३]-द्धउ ॥ ३
'अरेँ खल खुद्द पिसुण अ[४]कल[3]ङ्कहेँ   मरु मरु णीसरु णीसरु ल[4]ङ्कहेँ' ॥ ४
भणइ विहीसणु 'जण-अहिरामहों   जइ अच्छमि तो दोहउ रामहों ॥ ५
णवरि णरिन्द मूढ अ[५]वियप्पउ   जिह स[5]क्कहि तिह रक्खहि अप्पउ' ॥ ६
एम भणेप्पिणु गउ णिय-भवणहों   णाइँ गइन्दु र[६]म्भ-खम्भ-वणहो ॥ ७
तीसक्खोहणीहिँ ह[७]रि-सेण्णहों   णिग्गउ णिद्दलन्तु ह[८]रिसें ण[6]हो ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सहइ विहीसणु णीसरिउ   सुहि-सामन्त-मन्ति-प[7]रियरि[य]उ ।
जसु मुहु मइलेँवि रा[8]वणहों   रामहों संमु[9]हु णाइँ णिसरियउ ॥ ९

[९]

'[१]हंसदीव-तीरोवर-त्थयं   वर-तुरङ्ग-वर-करि-व[२]रत्थयं ॥ १
सु[३]हड-सुहड-संखोह-भासुरं   पडह-भेरि-संखोह-भासुरं ॥ २
णिऍवि सेण्णु र[४]वि-मण्डल-ग्गए   देइ दिट्ठि ह[५]रि मण्डलग्गऍ ॥ ३
दुण्णिवार-वइरी स[६]रा[1]सणे   राहवो वि स[2]-सरे स[७]रास[3]णें ॥ ४
ताव तेण वहु-पु[८]ण्णभाइणा   स-विणएण दहवयण-भाइणा ॥ ५
दण्डपाणि पट्ठ[९]विउ म[१०]हव[4]लो   जहिँ स-कण्हु पडिवक्ख-म[१०]ह-व[5]लो ॥ ६
पणविऊण विण्णविउ राहवो   जो '[११]विमु[6]क्क-सर-णिट्ठुराहवो ॥ ७
एक्कु वयणु पभणइ '[१२]विहीसणो   'तुम्ह भिच्चु एवहिँ विहीसणो ॥ ८

॥ घत्ता ॥

ण किउ णिवारिउ रावणेँण   लज्ज वि माणु वि मणेँ परिचत्तउ ।
परम-जिणिन्दहों इन्दु[7] जिह   तेम विहीसणु तुम्हहँ भत्तउ' ॥ ९

8\. 1 A खमि. 2 A. अण्णेक्कु वि तणयहुं. 3 P S अकलंकहो. 4 P S लंकहो. 5 P S जाणहि. 6 P S A हरिसे णहो. 7 P S A °परियरिउ. 8 P S रामणहो. 9 S समुहु, A समुहुं.

9\. 1 P सिरासणे, S सरासणो. 2 P समरे, S गहियं. 3 S सरासणो. 4 P महव्वलो, S महावलो. 5 P S महव्वलो. 6 A विमुक्कु. 7 A भविउ.

[८] १ माऽत्र प्राणानामपराधं कुरु. २ त्वदीयस्य जीवित[स्य] यः सारः. ३ कुस्थित–ध्वजा यस्य. ४ लंकायाः. ५ विकल्प-रहितं यथा भवति. ६ कदलीस्तम्भोपलक्षितवनस्य. ७ लक्ष्मण-कटकस्य. ८ हर्षेण 'णहु' आकाशं निर्दलयन्.

[९] १ हंसद्वीपतीरस्योपरिस्थकं स्थितं सैन्यम्. २ उत्तम–रणकम्. ३ सुभटा रथास्तैर्भीष्मम्. ४ आदित्यमण्डलगते. ५ लक्ष्मणः खड्गाग्रे. ६ (P.'s reading) वैरिशिरःखण्डनः. ७ धनु(नुरु)पलक्षितः. ८ पुण्यभाजिना. ९ दूतः. १० महान् बलो बलिभद्रः. ११ विमुक्ताः 'सराः' बाणाः निष्ठुरा मारणात्मका आहवे येन सः. १२ विधेर्यमस्येव स्वनः शब्दो यस्य सः.

[१०]

तं णिसुणेवि वयणु तहोँ जोहहोँ जे जे के वि राय [१]रज्जोहहोँ ॥ १
ते ते [1]मिलिया रणेँ इ सुमन्तहोँ [२]मइकन्तेण वुत्तु सामन्तहोँ ॥ २
'[३]इच्छहोँ वलहोँ '[2]देव पत्ति [४]ज्जइ तो ण णिसायराहँ पत्तिज्जइ ॥ ३
एयहुँ तणउँ[3] चारु को जाणइ जेहिँ छलेण छलिय वणेँ जाणइ' ॥ ४
पभणइ मइसमुद्दु '[६]इमु[4] आवइ एत्तिउ वलु पर[5]-पुण्णेँहिँ आवइ ॥ ५
पत्तिय एवहिँ रावणु [6]जिज्जइ णिय-मणेँ सयल सङ्क वज्जिज्जइ ॥ ६
'[7]किङ्कर-वहुएँहिँ एँहु जि[8] पहुच्चइ ताहँ[9] मि[10] साहणेँ एँहु जि[11] पहुच्चइ ॥ ७
मिलिउ विहीसणु लङ्क पईसहोँ लग्गउ करयलेँ सीय हलीसहोँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

दिज्जउ रज्जु विहीसणहोँ जेण वे वि जुज्झन्ति परोप्परु ।
अम्हहुँ काइँ महाहवेँण परु जेँ परेण जाउ सय-सक्करु' ॥ ९

[११]

तं णिसुणेविणु[1] पचविउ[१] मारुई [2]जो किर [२]वेम्महु मयणु मा[3]-रुई ॥ १
'देव देव देविन्द[३]-सासणं सच्चउ[4] कलहेँ[5] वि महु दसासणं ॥ २
आउ[6] विहीसणु परम-सज्जणो विणयवन्तु दुण्णय-विस[7]ज्जणो ॥ ३
सच्चवाइ जिण-धम्म[8]-वच्छलो सयल-काल-परिचत्त-[४]वच्छलो ॥ ४
मइँ समाणु एणासि जम्पियं तं करेमि हलहर[10]होँ जं पियं ॥ ५
जइ महु वुत्तउ ण किउ [11]राएँणं तो रिउ-साहणेँ मिलमि राएँणं' ॥ ६

॥ घत्ता ॥

तं णिसुणेप्पिणु राहवेँण पेसिउ दण्डपाणि हक्कारउ ।
आउ विहीसणु गह-सहिउ एयाँरहमु[12] णाइँ [६]अङ्गारउ ॥ ७

10. 1 P S कारणे मिलिया मंतहो. 2 S A देव. 3 P A तणउं. 4 P महु; S किं. 5 P परिपुण्णेहिं, S परिपुण्णेहि. 6 P S भिज्जइ. 7 P S किं किर. 8 P S पहु रुचइ. 9 P ताहं, A ताहिं. 10 P S दसाणणे. 11 wanting in P. S.

11. 1 P S णिसुणेवि, पचविउ. 2 This Pāda is wanting in A. 3 P S मारुइ. 4 A सच्चउं. 5 P S जे (S.जि) कलहे वि दसाणणं. 6 P S अण्णु. 7 P S °विवज्जणो. 8 P S °वयण°. 9 A °पडिवण्ण°. 10 A हलहरसं. 11 S रावणं. 12 P S एयारहसमु, A एयारहमुह.

[१०] १ राज्यसमूहस्य. २ राममन्त्रिणा. ३ प्रतिपद्यध्वं यूयं. ४ (P.'s reading) ददाति पत्नी सीता यदि. ५ जाम्बवन्त-नामेदम्. ६ किं आपदा नौ (?) (cf. S 's reading). ७ मेयते. ८ लङ्काप्रवेशवाञ्छकस्य रामस्य.

[११] १ जल्पितः हनूमन्तः. २ मदनस्योत्कृष्टो (?) मा लक्ष्मी तस्या रुचिर्यस्य. ३ देवेन्द्रहिंसकेन. ४ परित्यक्त-वाक्य(? क्)च्छलः. ५ रागेन. ६ मङ्गलः.

[१२]

जय-जय-सद्दें मिलिउ विहीसणु विहि मि परोप्परु किउ संभासणु ॥ १
भणइ रामु 'णउ पइँ लज्जावमि णीसावण्ण लङ्क भुञ्जावमि ॥ २
सिरु तोडमि रावणहों जियन्तहों संपेसमि पाहुणउ कयन्तहों' ॥ ३
तेण वि वुत्तु 'भडारा राहव सुहड-सीह णिव्वूढ-महाहव ॥ ४
जिह अरहन्त-णाहु पर-लोयहों तिह तुहुँ सामिसालु इह-लोयहों' ॥ ५
एव जाम्वं पचवन्ति परोप्परु ताम 'विदेहहें णयण-सुहङ्करु ॥ ६
अक्खोहणि-सहासु भामण्डलु णाइँ सुरेंहिँ समाणु आंखण्डलु ॥ ७
आउ णहङ्गणें णाणा-जाणेंहिँ मणि-मोत्तिय-पवाल-अपमाणेंहिँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

मणें परितुट्ठें राहवेंण णरवइ-विन्दु सयलु ओसारेंवि ।
अवरुण्डिउ पुप्फवइ-सुउ सरहँसु स इँ भु अ-जुअलु पसारेंवि ॥ ९

❀

[५८. अट्ठवण्णासमो संधि]

भामण्डलें भीसणें मिलिएँ विहीसणें कुणय-कुबुद्धि-विवज्जियउ ।
अत्थाणें दसासहों लच्छि-णिवासहों अङ्गउ दूउ विसज्जियउं ॥

[१]

वलएवें पभणिउं जम्बवन्तु 'एत्तियहुँ मज्झें को वुद्धिवन्तु ॥ १
किं गवउ गवक्खु सुसेणु तारु किं अञ्जणेउ रणें दुण्णिवारु ॥ २
किं णलु किं णीलु किमिन्दु कुन्दु किं अङ्गउ किं पिहुमइ संहिन्दु ॥ ३
किं कुमुउ विराहिउ रयणकेसि किं भामण्डलु किं चन्दरासि' ॥ ४
जं एव पपुच्छिउ राहवेण विण्णविउ णवेप्पिणु जम्ववेण ॥ ५
'पेसणें सुसेणु विणंए वि कुन्दु पच्चङ्गें मन्तें मइसमुद्दु ॥ ६
अङ्गङ्गय दूअत्तणें महत्थ णल-णील पयाणएँ सइं समत्थ ॥ ७
महुमहणु हणुवु आंहव-वमालें सुग्गीउ तुहु मि पुणु विजय-कालें' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं णिसुणेंवि रामें णिग्गय-णामें अङ्गउ जोत्तिउ दूअ-भरें ।
'भणु "किं वित्थारें समउ कुंमारें अज्ज वि रावण सन्धि करें" ॥ ९

12. 1 A रामणहो. 2 A पाहुणउं. 3 P S कियंतहो. 4 P S जाव. 5 P विदेहिहे, S विदेहहि. 6 A आहंडलु. 7 A °सु. 8 Wanting in A.

1. 1 P S सत्थाणु. 2 A reads ध्रुवकं at the end of this line. 3 A पभणिउं. 4 P S मइंदु. 5 P विणएण, S विणयेण. 6 Wanting in A.

[१२] १ समस्त.

[१] १ संग्रामकाले कलकलावर्ते. २ विख्यातः. ३ लक्ष्मणकुमारेण सह.

[२]

अण्णु मि सन्देसउ णेहि तासु वहु-दुण्णय-वन्तहोँ रावणासु ॥ १
वुच्चइ "लङ्केसर[1] चारु चारु को पर-तिय लेन्तहोँ[2] पुरिसयारु ॥ २
जइ सच्चउ रयणासवहोँ पुत्तु तो एउ काइँ वंवहरेंवि[3] जुत्तु ॥ ३
हउँ लग्गउ कुढेँ लक्खणहोँ जाम पइँ छम्मेँवि णियं[१] वइदेहि ताम ॥ ४
एत्तिय वि तो वि तउ थाउ[4] वुद्धि अहिमाणु मुएप्पिणु करहि सन्धि" '॥ ५
तं णिसुणेँवि भड-कडमद्दणेण णिब्भच्छिउ रामु जणद्दणेण ॥ ६
'दाढियउ[5] जासु जसु वाहु-दण्ड जसु वलेँ एत्तिय णरवर पयण्ड[6] ॥ ७
सो दीण-वयणु पहु चवइ[7] केवँ एक्कल्लउ[8] करेँ सन्धाणु देव ॥ ८

॥ घत्ता ॥

आएँहिँ आलावेँहिँ गलिय-पयावेँहिँ हउँ तुम्हहँ वाहिरउ किह ।
वायरणु सुणन्तहुँ सन्धि करन्तहुँ ऊदन्ताइ[२][9]-णिवाउ[10] जिह' ॥ ९

[३]

जं सन्धि ण इच्छिय दुद्धरेण तं वज्जावत्त[1]-धणुद्धरेण ॥ १
हरि-वयणेँहिँ अमरिस-कुद्धएण सन्देसउ दिण्णु विरुद्धएण ॥ २
'भणु "दहमुह-गयवरेँ गिल्ल[2]-गण्डेँ किय-कुम्भयण्ण[3]-उद्दण्ड-सोण्डेँ[4] ॥ ३
हत्थ-प्पहत्थ-दारुण[5]-विसाणेँ सुयसारण[२][6]-घण्टा-रुण्टमाणेँ ॥ ४
णीवडेसइ तहिँ वलएव-सीहु हणुवन्त-महन्त-ललन्त-जीहु ॥ ५
कुन्देन्दु-कण्ण-सोमित्ति-वयणु विप्फारिय-गवय-गवक्ख-णयणु ॥ ६
णल-णील-वियड-दाढा-करालु जम्वव-भामण्डल-केसरालु ॥ ७
अङ्गङ्गय-तार-सुसेण-णहरु साहण-णङ्गूल[7]ग्गिण्ण-पहरु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सो राहव-केसरि णिवडेँवि उप्परि णिसियर-करि-कुम्भत्थलइँ[8] ।
लीलएँ जेँ दलेसइ कहेँवि लेसइ जाणइ-जस-मुत्ताहलइँ" '॥ ९

2. 1 P S लंकेसरु. 2 S लिंतहो, A लिंतहं. 3 P S पइं (S °इ) किउ अजुत्तु. 4 P S थाइ. 5 P S दिड्ढ (S °ढु) हिअ(S °य)उ जासु दिढु(S °ढ)वाहुदंड. 6 P S पचंड. 7 S केव, A केम. 8 P S एक्केल्लउ. 9 P S उंदंताए. 10 F णिवाउं.

3 1 P वज्जावत्तु, S वज्जावन्तु. 2 P S गिल्लि°. 3 P S कुभयण्णु. 4 P S °सुंडे. 5 P S °दारुणे. 6 P S सुयसारणि. 7 P S लग्गिण्णपयरु. 8 A त्थलहु.

[२] १ नीतः (ता). २ उदन्ता[दि]–निपातो यथा.
[३] १ रामेण. २ मन्त्रीनामेदम्.

[४]

समरङ्गणें एक्कें लक्खणेण   सन्देसउ पेसिउ तक्खणेण ॥ १
'भणु "जहिँ जें जहिँ जें तुहुँ कुमुअ-सण्डु तहिँ तहिँ सो दिणयरु तेय-पिण्डु ॥ २
जहिँ जहिँ तुहुँ गिरिवरु [1]सिहर-खण्डु तहिँ तहिँ सो [१]वासव-कुलिस-दण्डु ॥ ३
जहिँ जहिँ आसीविसु [2]वि सफणिन्दु तहिँ तहिँ सो [3]भीसणु वर-खगिन्दु ॥ ४
[4]जहिँ जहिँ तुहुँ गलगज्जिय-गइन्दु   तहिँ तहिँ सो वहु-माया-मइन्दु ॥ ५
[5]जहिँ तुहुँ [२]हवि तहिँ [३]जलणिहि-णिहाउ [6]जहिँ तुहुँ [४]घणु तहिँ सो पलय-वाउ ॥ ६
जहिँ तुहुँ उब्भडु तहिँ सो [7]विणासु जहिँ तुहुँ [५]च-सद्दु तहिँ सो समासु ॥ ७
जहिँ तुहुँ णिसि तहिँ सो पवर-दिवसु जहिँ तुहुँ तुरङ्गु तहिँ सो वि महिसु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

[8]जलें थलें पायालेंहिँ   विसम-खयालेंहिँ   तुहुँ जर-पायवु जहिँ जें जहिँ ।
लग्गेसइ घित्तउ   झत्ति पलित्तउ [9]लक्खण-हुअवहु तहिँ जें तहिँ"'॥ ९

[५]

एत्थन्तरें रण-भर-[1]भीसणेण   सन्देसउ दिण्णु विहीसणेण ॥ १
'भणु "रावण जाइँ कियइँ [2]छलाइँ   दरिसावमि ताइँ [3]महाफलाइँ ॥ २
[4]जें हत्थें कड्ढिउ चन्दहासु   जें हत्थें वइरिहिँ [5]किउ विणासु ॥ ३
जें हत्थें [१]पणइहुँ दिण्णु दाणु   जें हत्थें धणयहों मलिउ माणु ॥ ४
जें हत्थें साहुक्कारु लद्धु   जें हत्थें सुरवइ समरें वद्धु ॥ ५
जें हत्थें सइँ समलद्धु अङ्गु   जें हत्थें वरुणहों कियउ भङ्गु ॥ ६
जें हत्थें कड्ढिय राम-घरिणि   पञ्चाणणेण वणें [6]जेम हरिणि ॥ ७
तहों हत्थहों आइउ पलय-कालु   मइँ उप्पाडेवउ जिह मुणालु" ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अण्णु वि [7]सविसेसउ   [8]कहि सन्देसउ   "पइँ [9]पेसेंवि जम-सासणहों ।
राहव-संसग्गी   पुरि [२]ओवग्गी   होसइ [10]परऍ [३]विहीसणहों"'॥ ९

4. 1 P S सिंग. 2 A तुहुँ. 3 A omits the portion from भीसणु to तुहुँ (sixth line). 4 P S जहि जहि तुहु. 5 P S जहि. 6 P S जहि तुहु. 7 S विसाणु. 8 P S जलथल. 9 P S लक्खणु.

5. 1 A भयभीसावणेण. 2 P छलइं, S छलइ. 3 P महप्फलइं, S महप्फलइ. 4 A repeats lines 3 and 4. 5 P S किअ(Sय)उ णासु. 6 P S जेव करिणि. 7 P S संदेसउ. 8 P S कहमि विसेसउ. 9 P S पेसमि. 10 P कल्ले, S कल्लि.

[४] १ वज्रम्. २ अग्निः. ३ समुद्र-संघातः. ४ मेघः. ५ धवश्च पलाशश्च तेषु स्थानेषु च-शब्दस्तस्य समासे विनाशो यथा धवखदिरपलाशा इति.

[५] १ याचकानाम्. २ स्वाधीना समस्ता वा रामस्य कल्ले भविष्यति. ३ विभीषणस्यैतत् संदेशकम्.

[६]

एत्थन्तरेँ दिण्णु स-मच्छरेण सन्देसउ [१]'किक्किन्धेसरेण ॥ १
'भणु "रावण कल्लएँ कवणु चोज्जु सुग्गीउ करेसइ समरेँ भोज्जु ॥ २
दुप्पेक्ख-तिक्ख-णाराय-भत्तु कण्णिय-खुरुप्प-[२]अंग्गिमउ देन्तु ॥ ३
मुक्केक्क-चक्क-चोप्पडय-धारु सर-झसर-सत्ति-सालणय-सारु ॥ ४
तीरिय-तोमर-तिम्मण-णिहाउ मोग्गर-मुसुं[1]ण्ढि-[३]गँय-पत्त-साउ ॥ ५
सव्वल-हुलि-हल-करवाल-इक्खु फर-कणय-कोन्त-कल्लवण-तिक्खु ॥ ६
तं तेहउ भोज्जु अकायरेहिँ भुञ्जेवउ [४]परएँ णिसायरेहिँ ॥ ७
इन्दइ-घणवाहण-रावणेहिँ हत्थ[2]-पहत्थ-सुयसारणेहिँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

भुत्तोत्तर-कालेँहिँ रणउह-[3]सालेँहि दीहर-णि[4]द्दएँ भुत्तएँहिँ ।
अच्छेवउ [५]सावेँहिँ विगय-पयावेँहिँ महु सर-से[5]ज्जहिँ सुत्तएँहिँ"'॥ ९

[७]

पुणु पच्छलेँ सुर-करि-कर-भुएण सन्देसउ दिज्ज[1]इ [१]मरु-सुएण ॥ १
'भणु इन्दइ "इच्छिउ देहि[2] जुज्झु हणुवन्तु भिडेसइ प[3]रएँ तुज्झु ॥ २
णिड्डुरिय-णयण-वयणुब्भ[4]डाहँ भञ्जन्तु मडप्फरु रिउ-भडाहँ ॥ ३
अलि-चुम्बिय-लम्बिय-मुहवडाहँ असि-घाय देन्तु सिरेँ गय-घडाहँ ॥ ४
पडिकूल-पवर-[5]पवणुच्छडाहँ मोडन्तु दण्ड धुअ-धयवडाहँ ॥ ५
विहडप्फड-कडम[6]द्दण-कराहँ भञ्जन्तु पसरु रुणेँ रहवराहँ ॥ ६
दिढ गुड तोडन्तु तुरङ्गमाहँ पर-वलु वलि देन्तु वि[7]हङ्गमाहँ ॥ ७
दरिसन्तु चउदिसु भड-चियाइँ धूमन्तइँ जिह दुज्जण-मुहाइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

इय[8] लीलएँ साहणु रह-गय-वाहणु जिह उववणु तिह णिट्ठवमि ।
जें पन्थें अ[9]क्खउ [२]णिउ दुप्पेक्खउ [३]तेण पाव प[10]इँ पट्ठवमि"'॥ ९

---

6. 1 P S °मुसंढि°. 2 P S हत्थ°. 3 P °सालिहिं, S सालिहि, A सालहि. 4 P S °णिद्दय, A निद्दए. 5 P S °सेज्जए.

7. 1 Wanting in A. 2 P S देमि. 3 P समरि, S समरे. 4 P °णुब्भडाहुं, S °णुब्भडाहु and similarly in the following occurrences. 5 P S °णुब्भडाहुं (S °हु). 6 A °कडवंदण°. 7 P विहंगमाहुं, S विहंगमाहु, A विहंगमाहि. 8 P S इह. 9 A अक्खउं. 10 A मइं, S पइ.

---

[६] १ सुग्रीवेन. २ भग्गु प्रयसेतु प्रकर्षेण(?). ३ गदा-प्राप्त-स्वादः(?). ४ प्रभाते. ५ सर्वैः.
[७] १ हनूमता. २ नीतः. ३ मार्गेण.

[८]

पुणु दिण्णु अभग्ग-मडप्फरेण   सन्देसउ सीय-सहोवरेण ॥ १
'भणु "एसइ अजउ अलद्ध-थाहु   कल्लएँ भामण्डल[1]-जलपवाहु ॥ २
पहरण-कर-णरवर-जलयरोहु   धुय-धवल-छत्त-डिण्डीर-सोहु ॥ ३
उत्तुङ्ग-तुरङ्ग-तरङ्ग[2]-भङ्गु   पवणाहय-धय-उड्डिर[3]-विहङ्गु ॥ ४
चक्कोहरुरुह[4](?)-सुंसुयर-पयरु[5]   गज्जन्त-मत्त-मायङ्ग-मयरु ॥ ५
करवाल-पहर-परिहच्छ[6]-मच्छु   णिव-णक्क-ग्गाह-फरोह-कच्छु[१] ॥ ६
कुम्भयल-सिलायल-विसम-तूहु[२]   सिय-चमर-वलायावलि[३][7]-समूहु ॥ ७
तेहउ[8] भामण्डल[9]-जलपवाहु[४]   रेल्लन्तु लङ्क पइसइ[10] अथाहु"' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वुच्चइ णल-णीलेंहिँ   दूसम-सीलेंहिँ   'अङ्गय गम्पिणु एम भणेँ ।
"अरेँ हत्थ-पहत्थहोँ   पहरण-हत्थहोँ   जिह सक्कहोँ तिह थाहु रणेँ"' ॥ ९

[९]

णिय-वइरु सरेवि जसाहिएण   सन्देसउ दिण्णु विराहिएण ॥ १
भणु "रावण जिह पइँ किउ अकज्जु   चन्दोयरु मारेंवि लइउ रज्जु ॥ २
वायरणु जेम जं पुज्जणीउ   वायरणु जेम स[१]-विसज्जणीउ ॥ ३
वायरणु जेम आयम[२]-णिहाणु   वायरणु[1] जेम आएस-थाणु ॥ ४
वायरणु जेम अत्थुव्वहन्तु   वायरणु जेम गुण-विद्धि देन्तु ॥ ५
वायरणु जेम विग्गहु[2]-समाणु   वायरणु जेम सन्धिज्जमाणु ॥ ६
वायरणु जेम अव्वय-णिवाउ   वायरणु जेम किरिया-सहाउ ॥ ७
वायरणु जेम परलोय-करणु   वायरणु जेम गुण-लिङ्ग[३]-सरणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं रज्जु महारउ   गुण-गरुआरउ   दिण्णु जेम खर-दूसणहुँ ।
तिह धीरु[3] म छड्डहि[4] अङ्गु समोड्डहि   मम[5] णारायहुँ[6] भीसणहुँ[7]"' ॥ ९

8. 1 P A भामंडलु. 2 wanting in A. 3 P S °उड्डिय°. 4 A °रुकह°. 5 P S °पवरु. 6 P S °परिहच्छु. 7 °लिसमूहु wanting in A. 8 wanting in A. 9 P S भामंडलु; wanting in A. 10 P एसइं.

9. 1 The portion from 4 b to 7 b is wanting in A. 2 P S विग्गहु. 3 A चीरु or वीरु. 4 P च्छड्डुहि, S चछंडहि, A च्छड्डुहिं. 5 S मग्ग, A यम. 6 P णारायहु, S णरायहु, A नरायहु. 7 P S A भीसणहु.

[८] १ कच्छपः. २ तटः. ३ बलाकावली. ४ समुद्रः. ५ (P's reading) आगमनं करिष्यति

[९] १ दूत-हेरिक-सहितो, अन्यत्र बिन्दु-द्वयं विसर्जनीय-युक्तम्. २ द्रव्यागमं, अन्यत्र प्रसिद्धागमम्. ३ चिह्नम्.

[१०]

अवरो वि को वि जो जासु मल्लु जो जसु उप्परि उव्वहइ[1] सल्लु[2] ॥ १
समरङ्गणेँ[3] जेण समाणु जासु सन्देसउ पेसिउ तेण तासु ॥ २
भीसावणु रावणु राउ जेत्थु गउ अङ्गउ दूउ पइट्ठु तेत्थु ॥ ३
'भो सयल-भुवण-एक्कल्ल-मल्ल हरि-हर-चउराणण-हियय-सल्ल ॥ ४
जम-धणय-पुरन्दर-मइयवट्ट णिल्लोट्टाविय-दुग्घोट्ट[4]-थट्ट ॥ ५
दुद्दम-दणुवइ-णिद्दलण-सील तियसिन्द-विन्द[5]-पक्कन्द-लील ॥ ६
थिरे-थोर-हत्थि[6]-णिट्ठुर-पवट्ठ कइलास-कोडि-कन्दर-णिहट्ठ ॥ ७
दिवेँ दिवेँ किय[7]-तइलोक्केक्क-सेव सन्धाणु पयत्तें करहि देव ॥ ८

॥ घत्ता ॥

विज्जाहर-सामिय अम्वर-गामिय वन्दिण-विन्द[5]-णरिन्द-थुअ ।
चन्दङ्किय-णामहुँ[8] लक्खण-रामहुँ धुउ[9] अप्पिज्जउ जणय[10]-सुअ' ॥ ९

[११]

तं णिसुणेँवि हसिउ दसाणणेण 'किं वुज्झिय[1] सन्धि समासु केण ॥ १
केँ लक्खणु केण पमाणु सारु किं वलु किं साहणु दुणिवारु[9] ॥ २
जो ण खलिउ देवेँहिँ दाणवेहिँ तहोँ कवणु गहणु किर माणवेहिँ ॥ ३
जइ होइ सन्धि गरुडोरगाहुँ[2] सुर-कुलिस-णिहाय-महाणगाहुँ[3] ॥ ४
जइ होइ[4] सन्धि हुअवह-पयाहुँ पञ्चाणण-मत्त-महागयाहुँ ॥ ५
जइ होइ सन्धि ससि-कञ्जयाहुँ दिणयर-करोह-चन्दुज्जयाहुँ[6] ॥ ६
जइ होइ सन्धि खर-कुञ्जराहुँ[5] खयकाल-पहञ्जण-जलहराहुँ[6] ॥ ७
जइ होइ सन्धि संवरि-दिणाहुँ जइ होइ सन्धि वम्मह-जिणाहुँ[7] ॥ ८

॥ घत्ता ॥

ललियक्खर-अंत्थहुँ दूर-वरत्थहुँ अणउ[8](?) णव[9]-पणस-रायणहुँ ।
जइ सन्धि पहावइ को वि घडावइ[10] तो रणेँ राहव[11]-रावणहुँ' ॥ ९

---

10. 1 P S जो जसु कएण परिवहइ. 2 A सव्वलु. 3 A समरंगणु. 4 P S °दुग्घट्ट°. 5 A °वंदि°. 6 P °हत्थ°, S °हत्थु. 7 A कय°. 8 P S °णामहु, A °नामहु. 9 P S लहु. 10 A धणय°.

11. 1 P S वुज्झिउ. 2 P S A °रगाहु. 3 P S A °णगाहु. 4 A होदि. 5 P S °कुंजराहु, A °कुंजराहं. 6 P S °हराहु, A °हराहं. 7 P S °जिणाहु, A °जिणाहं. 8 P S अण्णउ, A अणउं. 9 P S दुव्वयणसरासणहुं (S °हु). 10 A यडावइ. 11 P °रामणहुं, S °रावणहु, A °रावणहं.

---

[११] १ लक्ष्मणः (?). २ वज्रः. ३ पर्वतानाम्. ४ अपाम्. ५ कमलानाम्. ६ गद-हूलानाम् (?). ७ वायुः. ८ मेघानाम्. ९ रात्रेः. १० गृहीतानां यथा ऊंकारा मुनी साधू (?).

[१२]

तं णिसुणेंवि समरें[1] अभङ्गएण   पुणु पुणु वि पवोल्लिउ अङ्गएण ॥ १
'भो रावण किं गलगज्जिएण   णिप्फलेंण[2] परक्कम-वज्जिएण ॥ २
भणु सीय ण देन्तहों[3] कवणु लाहु   किं जो सो सज्जण-हियय-डाहु ॥ ३
किं जो सो सम्बुकुमार-णासु   किं जो सो पर-गय-सूरहासु ॥ ४
किं जो सो चन्दणही-पवञ्चु   किं जो सो खर[4]-वल-वलि-विरञ्चु[5] ॥ ५
किं जो सो आसालन्तकालु   किं जो सो विणिहय-कोट्टवालु ॥ ६
किं जो सो पवरुज्जाण-भङ्गु[6]   किं जो सो हउ[7] वलु चाउरङ्गु ॥ ७
किं जो सो उप्परि दिण्णु पाउ   किं जो सो मोडिउ[8] घर-णिहाउ ॥ ८
किं जो सो एक्को घर-विभेउ   किं जो सो कल्लएँ पाण-छेउ' ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तं णिसुणेंवि रावणु   भय-भीसावणु   अमरिस-कुद्धउ अङ्गयहों ।
उद्धूसिय[9]-केसरु   णहर-भयङ्करु   जिह पञ्चमुहु[10] महग्गयहों[11] ॥ १०

[१३]

'महु अग्गएँ भंड-चक्केहिँ[1] काइँ   सक्कन्ति जासु रणेँ सुर-सयाइँ ॥ १
दाहिणेँ करेँ कड्ढिएँ[2] चन्दहासेँ   मइँ सरिसु कवणु तिहुअणेँ असेसेँ ॥ २
किं वरुणु पवणु वइसवणु खन्दु[3]   किं हरि हरु वम्भु फणिन्दु चन्दु ॥ ३
जं चुक्कइ हरु तं कलुणु[4] भाउ   मं गउरिहेँ होसइ कहि[5] मि घाउ ॥ ४
जं चुक्कइ वम्भु[6] महन्त-वुद्धि   तं किर वम्भणेँ[7] मारिएँ ण सुद्धि ॥ ५
जं चुक्कइ जमु जेण-सणिवाउ[2]   तं को किर एत्तिउ लेइ पाउ ॥ ६
जं चुक्कइ ससि सारङ्ग[3]-धरणु   तं किर रयणिहेँ उज्जोय-करणु ॥ ७
जं तवइ भाणु ववगय-तमालु   तं किर एँहु[8] पञ्चमु लोयपालु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

दिट्ठएँ रहुणन्दणेँ   स-धएँ स-सन्दणेँ   जइ एक्क वि पउ ओसरमि ।
तो भय-भीसाणहेँ[9](?)   धगधगमाणहेँ(?)   हुअवह[10]-पुञ्जेँ पईसरमि' ॥ ९

12. 1 A समर अहंगएण. 2 F S विफलेण. 3 P S A देंतहु. 4 A पर°. 5 P °विरंसु, A °विरिंचु. 6 P S °रुज्जाणु भग्गु. 7 P S वलु हउ, A हयवल°. 8 A मोडिय°. 9 P S उद्धूलिय°. 10 A पंचाउहुं. 11 P S महागयहो, A महग्गए.

13. 1 P S °वोक्केहि. 2 P S कड्ढिय°, A कट्टिए. 3 A °खंडु. 4 P S करुणु. 5 P S कहि वि, A कहिं मि. 6 P वम्हु, S वंम्हु. 7 P S वंभण. 8 P S पंचमु एहु. 9 P S °भीसाणहि. 10 P हुअवहे, S हुयवहे.

[१२] १ विभीषण-विभेदः.
[१३] १ कार्त्तिकेयः. २ जनसंतापकारी अतीव पापी मत्वा. ३ मृगधारकः.

[१४]

तियसिन्द-विन्द-कन्दावणेण   जं सन्धि न इच्छिय रावणेण ॥ १
तं इन्दइ-मुहें णीसरिउ वक्कु   'पर सन्धिहें कारणु अत्थि एक्कु ॥ २
जइ मणें परियच्छेंवि [1]पउमणाहु   आमेल्लइ सीयहें[1] तणउ गाहु ॥ ३
तो तहों ति-खण्ड महि एक्क-छत्त   चउरद्ध णिहिउ रयणाइँ सत्त ॥ ४
सामन्त[2]-मन्ति-पाइक्क-[2]तन्तु[3]   रहवर-णरवर-गय-तुरय-वन्तु ॥ ५
अन्तेउरु परियणु पिण्डवासु   स-कलत्तु स-वन्धउ हउ मि दासु ॥ ६
कुस-दीउ चीर-वाहणु असेसु   वज्जरउ चीणु छोहार-देसु ॥ ७
ववरउलु जवणु सुवण्ण-दीउ[4]   वेलन्धरु हंसु सुवेल-दीउ[4] ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अण्णइ मि पएसइँ   लेउ असेसइँ   गिरि वेयड्डु[5] जाम्व धरेंवि ।
रावणु मन्दोयरि   सीय किसोयरि   तिण्णि[6] वि वाहिराइँ करेंवि' ॥ ९

[१५]

तं णिसुणेंवि रोस-वसं-गएण   णिब्भच्छिउ इन्दइ अङ्गएण ॥ १
'खल खुद्द पिसुण पर-णारि-ईह   सय[1]-खण्ड केवँ तउ ण गय जीह ॥ २
जसु तणिय घरिणि तासु जें ण देहि   राहवें जियन्तें जम्मेंवि ण लेहि ॥ ३
जो रक्खइ पर-परिहव-सयाइँ   सो णिय[2]-कज्जें[3] ओसरइ काइँ' ॥ ४
जे[4] दिण्ण विहीसण-हरि-वलेहिँ   सुग्गीव-हणुव-भामण्डलेहिँ ॥ ५
सन्देसा ते वज्जरेंवि तासु   गउ अङ्गउ वल-लक्खणहँ[5] पासु ॥ ६
'सो रावणु सन्धि ण करइ देव   सहुँ सरेण [1]अमी-ईयारु[6] जेम्व' ॥ ७

॥ घत्ता ॥

तं णिसुणेंवि कुद्धेंहिँ[7]   जय-जस-लुद्धेंहिँ   कइकइ-अपरजिय[8]-सुएँहिँ ।
वेहि मि वे चावइँ   अतुल-पयावइँ   अप्फालियइँ स[9]इं भुएँहिँ ॥ ८

❀

14. 1 A सीयह तणउं. 2 A सावंत°; missing in S. 3 S °असेसतंतु. 4 P °दीवु. 5 PS वेयड्ढ. 6 A विण्णि.

15. 1 A सियलखंडु. 2 P S णियय°. 3 S A कज्जे. 4 P जें, S जिं. 5 P S °लक्खणहु. 6 A समीईकारु. 7 P S विहि कुद्धेहिं (S °हि). 8 A °अपराजिय. 9 S सयं, A सइ.

[१४] १ रामः. २ समूहम्.

[१५] १ कामेन सह 'अमियारु' जिनः । अथवा, 'अमी' शब्दः स्वरेण सह यथा ईकारः संधिं न इच्छते.

[५९. एक्कुणसट्ठिमो संधि]

दूआगमणेँ परोप्परु कुद्धइँ जय-सिरि-रामालिङ्गण-लुद्धइँ ।
किय-कलयलइँ समुब्भिय-चिन्धइँ रामण-राम-बलइँ सण्णद्धइँ ॥

(धुवकम्[1])

[१]

ग[2]एँ अङ्गय-कुमारेँ उग्गिण्ण-चन्दहासो ।
सइँ सण्णहेँवि णिग्गओ सरहसो दसासो ॥ १ (हेला[1]दुवई)
धुरे अङ्गलक्खो समारुद्ध-वयणो धए [3]वन्धुरो [१]रक्खसो रत्त-णयणो ॥ २
रहे रावणो दुण्णि[4]वारो अ[5]सज्झे कयन्तु व खयकाल-[२]मच्चूण [6]मज्झे ॥ ३
थिर-त्थोर-भुव-पञ्जरो [३]वियड-वच्छो सु-भीसावणो भू-लया-भङ्गुरच्छो ॥ ४
महा-पलय-कालो व कहकहकहन्तो स[४]मुप्पाय-जलणो व धगधगधगन्तो ॥ ५
समालोवणे [५]सणि व मुह-विप्फुरन्तो फणिन्दो व फर-फार-फुं[7]क्कार देन्तो ॥ ६
गइन्दो व मुक्कङ्कुसो गुलगुलन्तो मइन्दो व मेहागमे थरहरन्तो ॥ ७
समुद्दो व पक्खुहणेँ मज्जाय-चत्तो सुरिन्दो व वहु-रण-रसुब्भिण्ण-गत्तो ॥ ८
णहेँ अस[8]णि-जलउ व धुक्खुक्खुवन्तो महा-विज्जु-पुञ्जो व तडतडतडन्तो ॥ ९
(मयणावयारो [9]णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

अमर-वरङ्गण-जण-जूरावणेँ सरहसेँ सण्णज्झन्तएँ रावणेँ ।
किङ्कर-साहणु कहि मि न मन्तउ णिग्गउ पुर-पओलि भे[10]ल्लन्तउ ॥ १०

[२]

[1]के वि जय[2]-जस[3]-लुद्ध सण्णद्ध वद्ध-कोहा ।
के वि सुमित्त-पुत्त-सुकलत्त-चत्त-मोहा ॥ १ (हेलादुवई)
के वि [4]णीसरन्ति वीर [१]भूधर व तुङ्ग धीर ॥ २
सायर व अप्पमाण कुञ्जर व दिण्ण-दाण ॥ ३
केसरि व उद्ध-केस चत्त-सव्व-जीवियास ॥ ४

---

1. 1 A exchanges धुवकं and हेलादुवई. 2 P S गय. 3 A धुंधुरो. 4 P दुन्निवारे, S दुण्णिवारे. 5 A असज्झो. 6 A मज्झो. 7 A °मुक्कार. 8 P S असिणिजाल. 9 missing in P S. 10 P पेल्लंतउ, S पिल्लंतउ.

2. 1 A reads हेला, S हेलादुवई in the beginning. 2 missing in P S. 3 A सद्धि°. 4 A णीसरंत.

---

[१] १ रावणः (?). २ मृत्यूनाम् -मध्ये. ३ विस्तीर्णः. ४ कल्पान्ताग्निरिव. ५ शनीश्वरः.
[२] १ पर्वत इव.

के वि सामि-भत्ति-वन्त मच्छर[5]ग्गि-पज्जलन्त ॥ ५
के वि आहवे अभङ्ग कङ्कुमं[6]-प्पसाहियङ्ग ॥ ६
के वि सूर साहिमाणि सत्ति-सूल-चक्क-पाणि ॥ ७
के वि [२]गीढ-वारुणत्थ तोण-वाण-चाव-हत्थ ॥ ८
कुद्ध जुद्ध[7]-लुद्ध के वि णिग्गया सु-सण्णहेवि ॥ ९
(तोमरो[8] णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

को वि[9] पधाइउ हणु-हणु-सद्दें परिहइ कवउ को वि आणन्दें ।
रण-रसियहों रोमञ्चुब्भिण्णहों उरें सण्णाहु ण माइउ अण्णहों ॥ १०

[३]

प[1]भणइ का वि कन्त 'करि-कुम्भें जेत्तडाइं ।
मुत्ता[2]हलइँ लेवि महु दे[3]ज्ज तेत्तडाइं ॥ १ (हेलादुवई)
का वि कन्त चिन्धइँ[१] अप्पा[4]हइ का वि कन्त णिय-कन्तु पसा[5]हइ ॥ २
का वि कन्त मुहँ[३][6]-पत्ति करा[7]वइ का वि कन्त दप्पणु दरिसावइ ॥ ३
का वि कन्त पिय-णयणइँ अञ्जइ का वि कन्त रण-तिलउ पउञ्जइ ॥ ४
का वि कन्त स-वियारउ जम्पइ का वि कन्त तम्वोलु समप्पइ ॥ ५
का वि कन्त विम्वा[8]हरें लग्गइ का वि कन्त आलिङ्गणु मग्गइ ॥ ६
का वि कन्त ण गणेइ णिवारिउ सुरयारम्भु करेइ णिरारिउ ॥ ७
का वि कन्त सिरें वन्धइ फुलइँ व[9]त्थइँ परिहावेइ असु[10]ल्लइँ ॥ ८
का वि कन्त आहरणइँ ढोय[11]इ का वि कन्त प[12]रें-मुहु जें पलोयइ ॥ ९
(मत्तमायङ्गो णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

[13]कहें वि अङ्गें रोसो जें[14] ण मा[15]इउ पि[16]यँ-रणवहुयएँ सहुँ ईसा[17]इउ ।
'जइ तुहुँ तहें अणुराइउ व[18]ट्टहि तो महु णह-वय देवि पय[19]ट्टहि' ॥ १०

5 P S मच्छिर°. 6 P S कुंकुमंप°. 7 P लुद्धयुद्ध, S लुद्धजुद्ध. 8 P S तोमरणामछंद (S °दः). 9 P S इ.

3. 1 P S read हेलादुवई, A हेला in the beginning. 2 P S मुत्ताहलाइ. 3 P S आणेज्जहि. 4 P अप्पाहइं. 5 P पसाहइं. 6 P S मुहयंति. 7 P करावइं. 8 P S विंवाहर. 9 P S A वत्थइ. 10 P S असुल्लइ, A असोल्लइ. 11 P ढोयइं, A ढोइउ. 12 P S परमुहइ पजोयइ, A मुहुं जे. 13 P S कह. 14 P S रोसहु. 15 P माइय, S माया. 16 A पिउ. 17 P ईसाइय, S ईसाइया, A इसाइउ. 18 P S वट्टइ. 19 P S पयट्टइ.

२ गजारूढः (?).

[३] १ आढवति. २ श्रृङ्गारयति. ३ (P' s reading) मुख-कान्तिम् अनुरागादिकम्.

[४]

[1]प[2]भणइ को वि वीरु 'जइ चवहि एव भज्जे ।
तो वरि [3]ताहँ देमि जा [4]जुत्तु सामि-कज्जे' ॥ १ (हेलादुवई)

को वि भणइ 'गय-ग[5]ण्ड वलग्गइँ [6]आणविँ मुत्ताहलइँ धयग्गइँ' ॥ २
को वि भणइ '[7]ण वि लेमि पसाहणु जाम ण भञ्जमि राहव-साहणु ॥ ३
को वि भणइ 'मुह-[8]पत्ति ण इच्छमि जाम ण सुहड-झ[9]ंडक्क पडिच्छमि ॥ ४
को वि भणइ 'ण णिहालमि दप्पणु जाम्व ण रणेँ विणिवाइउ लक्खणु ॥ ५
को वि भणइ 'णउ [10]णयणइँ अञ्जमि जाम्व ण सुरवहु-जण-मणु रञ्जमि' ॥ ६
को वि भणइ 'मुहेँ प[11]ण्णु ण लायमि जाम्व ण रुण्ड-णिवहु णच्चावमि' ॥ ७
को वि भणइ 'णउ सुरउ समाणमि जाम्व ण भडहुँ कुल-क्खउ आणमि' ॥ ८
को वि भणइ 'धणेँ फुल्ल ण [12]वन्धमि जाम्व ण [13]सरवर-धोरणि सन्धमि' ॥ ९
(रयडा णा[14]म छन्दो)

॥ घत्ता ॥

को वि भणइ धणेँ[15] 'णउ आलिङ्गमि जाम्व ण [16]दन्ति-दन्तेँ आलग्गमि' ।
को वि [17]करइ णिवित्ति आह[18]रणहोँ जाम्व ण दिण्ण सीय दहवयणहोँ ॥ १०

[५]

[1]गरुअ-पओह[2]राएँ अच्चन्त-णेहिणीए ।
रणेँ पइसन्तु को वि सिक्खविउ गेहिणीए ॥ १ (हेलादुवई)

'णाह णाह समर[3]ङ्गण-काले तूर-भेरि-दडि-सङ्ख-वमाले ॥ २
उत्थरन्त-वर-वीर-[4]समुद्दे सीह-णाय-णर-णाय-[5]रउद्दे ॥ ३
मत्त-हत्थि-गलगज्जिय-सद्दे [6]अब्भिडिज्ज पर राहवचन्दे' ॥ ४
का वि णारि [9]परिहासइ [7]एमं 'तेम जुज्झु णउ लज्जमि [8]जेमं' ॥ ५
का वि णारि पडिवोहइ [9]णाहं 'भग्गमाणेँ पइँ जीवमि णाहं' ॥ ६
का वि णारि पडिचुम्वणु देइ को वि वीरु अवहेरि करेइ ॥ ७

4. 1 P S read हेलादुवई, A हेला in the beginning. 2 A भणइं. 3 P तहे जे, S तहि जे. 4 P S जुत्त. 5 A °दंड. 6 P S आणवि, A आणइं. 7 P S णउ. 8 P S °विति. 9 P °क्क, S °च्छडक्क. 10 P S अंक्खिउ. 11 A पण्ण. 12 P S वंधवि. 13 P S रणे सरधोरणि संधवि. 14 Missing in P S. 15 A धणे णउ. 16 P S दंति दंति आलिं(Sलें)गमि, A दंते. 17 P S करवि. 18 P S आहारहो.

5. 1 P S read हेलादुवई, A हेला in the beginning. 2 P °पओहरीए, S °पउहरीए. 3 P S समरंगणे. 4 S °समुद्दहो. 5 S °रउद्दहु. 6 A अब्भिट्टेजे. 7 A एम्व. 8 S जेवं, A जेम्व. 9 P णारें, S णाहें.

[५] १ ब्रवीति.

'कन्तें कन्तें मइँ[10] मण्ड लएवी [11]अज्ज वि कित्ति-वहुअ चुम्वेवी' ॥ ८
का वि णाहें[12] णवकारु करेइ को वि वीरु रणे[13]-दिक्ख लएइ ॥ ९
(परियन्दियं णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

ताम्व भयङ्करु विप्फुरियाणणु पवर-विमाणु तिसूल-प्पहरणु ।
णिग्गउ कुम्भयण्णु मणें कुइयउ[14] णहयलें धूमकेउ णं उइयउ ॥ १०

[६]

[1]णिग्गएँ कुम्भयण्णें मारीइ[2]-मलवन्ता ।
जम्वव-जम्वुमालि-वीभच्छ-वज्जणेत्ता ॥ १ (हेलादुवई)

धरणिद्धर[3]-कुवॅर-वज्जधरा खल-खुद्द-विन्द-खयकाल[5]-करा ॥ २
जय-दुज्जय-दुद्धर[4]-दुद्दरिसा दुहउम्मुह-दुम्मुह-दुम्मरिसा ॥ ३
दुरियाणण-दुस्सर-दुव्विसहा ससि-सूर-मऊर-कुरूर-गहा ॥ ४
सुअसारण-सुन्द-णिसुन्द-गया करि-कुम्भ-णिसुम्भ[6]-वियम्भ-भया ॥ ५
सिव-सम्भु-सयम्भु-णिसुम्व[7]-विहू पिहुआसण-पिञ्जर-पिङ्ग वि हू[8] ॥ ६
कडुआल-कराल-तमाल-तमा जमघण्ट-सिही-जमदण्ड-समा[9] ॥ ७
जमणाय-समुग्गणिणाय-लुली हल-हाल-हलाउह-हेल-हुली ॥ ८
मयरङ्क[10]-ससङ्क-मियङ्क-रवी फणि-पण्णय[11]-णक्कय-सक्क-हवी ॥ ९
(तोट्टको णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

सीहणियम्व-पलम्व-भुवग्गल वीर गहीर-णिणाय महवल ।
एवमाइ सण्णहेंवि विणिग्गय पञ्चाणण-रह पञ्चाणण-धय ॥ १०

[७]

[1]धुन्धुं[2]द्धाम-धूम-धूमक्ख-धूमवेया ।
डिण्डिम-डमर-डिण्डिरह[3]-चण्डि-चण्डवेया ॥ १ (हेलादुवई)

डवित्थ-वित्थ-डम्वरा जमक्ख-डाहडम्वरा ॥ २
सिहण्डि-पिण्डि[4]-पण्डवा वितण्डि-तुण्ड-मण्डवा ॥ ३

10 P S A मइ. 11 P S कित्तिवहुअ (S °य) रणे (S °णि) परिचुंवेवी. 12 P S का वि णाहि. 13 P S रणे. 14 P S कुइउ.

6. 1 P S read हेलादुवई, A हेला in the beginning. 2 P S मारिच्चि°. 3 P S धरणीधर°. 4 A °दुद्धर°. 5 P S °खयखग्ग°. 6 P S °वियंभ°. 7 A °णिसुंभ°. 8 P S °पिहू. 9 P °ममा, S °जमा. 10 A मयरक्क°. 11 P S °पत्तय°.

7. 1 P S read हेलादुवई, A हेला in the beginning. 2 P धुंव°, S धूव°. 3 A °डिंडिहर. 4 missing in A.

पचण्ड-कुण्डमण्डला[5] कवोल-कण्[6]ण-कुण्डला ॥ ४
भयाल-भोल-भुम्भला[7] विसालचक्खु-कोहला ॥ ५
कियन्त-ढङ्क-ढण्ढरा[8] [9]कवालचूल-सेहरा ॥ ६
चकोर-चारु-चारणा सिलिन्ध[10]-गन्धवारणा ॥ ७
पि[11]यंक्क-णिक्क-सीहया णिरीह[12]-विज्जुजीहया ॥ ८
सुमालि-म[13]च्चु-भीसणा दुरन्त-दुद्दरीसणा ॥ ९
(णाराउ णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

वज्जोयर-वियडोयर-घङ्घल असणिणिघोस-हूल-हालाहाल ।
इय णरवइ सण्णद्ध समुण्णय वग्घ-महारह वग्घ-महाधय ॥ १०

[८]

[1]महुमह-अं[2]कइत्ति-सद्दूल-सीहं[3]णाया ।
चञ्चल-चडुल-चवल-चल-चोल-भीमकाया ॥ १ (हेलादुवई)

हत्थ-विहत्थ-पहत्थ-महत्था सुत्थ-सुहत्थ-सुमत्थ-पसत्था ॥ २
दारुण-रुद्द-रउद्द-णिघोरा हंस-पहंस-किरीडि-किसोरा ॥ ३
मन्दिर-मन्दर-मेरु-मयं[3]त्था गन्धविमद्दण-रुच्छं[4]-विहं[5]त्था ॥ ४
अण्ण-महण्णव-गण्ण-विगण्णा धोरिय-धीर-धुरन्धर-धण्णा ॥ ५
भीम-भयाण[6]य-भीमणिणाया कद्दम-कोव[7]-कयम्व-कसाया ॥ ६
कञ्चण-कोञ्च-विकोञ्च-पवित्ता कोमल-कोन्तल-चित्त-विचित्ता ॥ ७
माह[8]व-माह-महोअ[9]र-मेहा पायव-वायव-वारुण-देहा ॥ ८
सीहवियम्भिय-कुञ्जरलीला विब्भम-हंसविलास-सुसीला[10] ॥ ९
(दोद्धकं णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

मल्हण-लं[11]डहोल्हास-उल्हावण पत्त-पमं[12]त्त-सं[13]तुसन्तावण ।
एम्व णराहिव अण्ण वि णिग्गय हत्थि-महारह हत्थि-महाधय ॥ १०

---

5 P S °मण्डवा. 6 A °वण्ण°. 7 A भुंभुला. 8 S reads ववालधूलकेसरा extra after this. 9 P S कवालधूल°. 10 P S सिलिम्ब°. 11 A मयंकनक्क°. 12 A नहीर°. 13 P S °मच्च°.

8. 1 P S the हेलादुवई, A हेला in the beginning. 2 This portion is missing in A. 3 P S °मयच्छा. 4 P S °कच्छ°. 5 A °मयच्छा. 6 P S °भयाणण°. 7 P S °कोय°. 8 P S माहव्व°. 9 A °माससहोअर°. 10 After this P S read सीयविभीयसु (P°सुं°)कुंजरलीला extra. 11 A °लडह°. 12 S A °मपत्त°. 13 P S °पत्त°.

[९]

संझ्झ-पसंझ्झ-रत्त-भिण्णञ्जण-प्पहङ्गा ।
पुक्खर-पुप्फचूड-घंण्टाउह-प्पिहङ्गा ॥ १ (हेलादुवई)
पुप्फासवाण-पुप्फक्खयरा फुल्लोअर-फुल्लन्धुअ-भमरा ॥ २
वम्मह-कुसुमाउह-कुसुमसरा मयरद्धय-मयरद्धयपसरा ॥ ३
मयणाणल-मयणारसि-हुसमा वरकामावत्थ-कामकुसुमा ॥ ४
मयणोदय-मयणोयर-अमया एए तुरङ्ग-रह तुरय-धया ॥ ५
अवरे वि के वि मिग-सम्वरेहिँ विस-मेस-महिस-खर-सूअरेहिँ ॥ ६
ससहर-सल्लकइ-विसहरेहिँ सुंसुअर-मयर-मच्छोहरेहिँ ॥ ७
अवरे वि के वि गिरि-रुक्ख-धरा हवि-वारुण-वायव-वज्ज-करा ॥ ८
ताणन्तरेँ भड-कडमद्दणाहुँ णीसरियउ दहमुह-णंन्दणाहुँ ॥ ९
(पद्धडिया णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

रहसुच्छलियहुँ रणेँ रसियड्ढहुँ रक्खस-धयहुँ विमाणारूढहुँ ।
इन्दइ-घणवाहण-सुअ-सारहुँ पञ्च-अद्ध-कोडीउ कुमारहुँ ॥ १०

[१०]

गय रण-भूमि जा[म] खञ्चियइँ वाहणाइं ।
थिउ वलु वित्थरेवि पञ्चास-जोयणाइं ॥ १ (हेलादुवई)
विमाणं विमाणेण छत्तेण छत्तं धयग्गं धयग्गेण चिन्धेण चिन्धं ॥ २
गइन्दो गइन्देण सीहेण सीहो तुरङ्गो तुरङ्गेण वग्घेण वग्घो ॥ ३
जणाणन्दणो सन्दणो सन्दणेणं णरिन्दो णरिन्देण जोहेण जोहो ॥ ४
तिसूलं तिसूलेण खग्गेण खग्गं वले एवमण्णोण्ण-घट्टिज्जमाणे ॥ ५
कहिम्पि प्पएसे विसूरन्ति सूरा रणङ्के चिरङ्के चिरा वीर-लच्छी ॥ ६
कहिम्पि प्पएसे विमाणेहिँ धन्तं भडा सूरकन्तेहिँ जाणन्ति अण्णं ॥ ७

9. 1 P S read हेलादुवई, A हेला in the beginning. 2 P S °रसरव. 3 P S संघट्टा (S°संट्टा°)-उह पियंगा. 4 A °कामावत्त°. 5 P A °सल्लकइ. 6 A °कडवंदणहुं. 7 P S °णंदणाहु, A °णंदणहु. 8 P S A °धयहु. 9 P S A °सारहु. 10 P पंचमअद्ध°, S पंचमद्ध°. 11 P A °कुमारहु, S कुमारहो.

10. 1 P S read हेलादुवई, A हेला in the beginning. 2 P S ढुक्क, A जा. 3 P S वित्थरेण. 4 P S जोहा. 5 P S वलं. 6 P S °घट्टिज्जमाणो. 7 A कहिंन्वि. 8 P S भडो, 9 A सूरकोंतेहिं.

[९] १ अग्निः. २ इंद्रजित् (?).
[१०] १ अन्धकारम्.

कहिम्पि प्पएसे सुपासेइअङ्गा　　गइन्दाण कण्णेहिँ पावन्ति वायं ॥ ८
सहस्साइँ [10]चत्तारि अक्खोहणीहिं　　वले जत्थ तं वण्णिउं कस्स सत्ती ॥ ९
(भुअङ्ग[11]प्पयाओ णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

हत्थ-पहत्थ ठवेप्पिणु[12] अग्गएँ　　रावणु देइ दिट्ठि णिय-खग्गएँ ।
णं खय-कालु जगहों आरूसेंवि　　थिउ सङ्गाम-भूमि स इँ भू सेंवि ॥ १०

※

[६०. सट्ठिमो संधि]

पर-वलेँ दिट्ठएँ　　राहववीरु पयट्टउ ।
[1]अइ-रण-रहसेंण　　उरेँ सण्णाहु विसट्टउ[2] ॥

[१]

[1]सो[3] राहवेँ पहरण-हत्थाए　　दणुवइ-णिद्दलण-समत्थाए ॥ १
दीहर-मेहल-गुप्पन्ताए　　चन्दण-कद्[4]दम-खुप्पन्ताए ॥ २
विच्छोइय-मणहर-कन्ताए　　किय-मायासुग्गीवन्ताए ॥ ३
रण-रहसुद्धूसिय-गत्ताए　　अप्फालिय-वज्जावत्ताए ॥ ४
आवीलिय-तोणा-जुयलाए　　किङ्किणि-ललन्त-चल-मुहलाए ॥ ५
कङ्कण-णिवद्ध-कर-कमलाए　　वित्थि[5]ण्णुण्णय-वच्छयलाए ॥ ६
कुण्डल-मण्डिय-गण्डयलाए　　चूडामणि-चुम्बिय-भालाए ॥ ७
भासुल-फुलिआहल-वयणाए　　रत्तुप्पल-सण्णिह-णयणाए ॥ ८
जं सेण-सणद्धएँ दिट्ठाए　　तं लक्खणे वि आ[6]लुट्ठाए ॥ ९
(मागधप्रत्यधि[7]का णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

झत्ति पलित्तउ　　अणुहरमाणु हुआसहों ।
णाइँ समुट्ठिउ　　मत्थासूलु दसासहों ॥ १०

---

10 A चारित्त.　11 P S भुयंगप्पयावो, A भुअंगप्रयाओ.　12 S ठवेविणु.

1. 1 P S रइ°. 2 A reads ध्रुवकं after this stanza. 3 P S सो राहव, A मल्लाहवे. 4 P S °कद्दमे. 5 P S A विच्छिण्णु°. 6 P S आलुद्धाए, A यलुट्ठाए. 7 A माधवप्रत्यतिका नाम छंदः.

---

[१] १ सो राघवः प्रहरणहस्तौ (स्तो) । मागधिकायामाकारस्यैकारो भवत्यग्रेप्येवम् ।

[२]

सो वज्जयण्ण-आणन्दयरु सीहोयर-माण-मरट्ट-हरु ॥ १
कल्लाणमाल-दंसण-पसरु विञ्झाहिव-विक्कम-मलण-करु ॥ २
वणमालालिङ्गिय-वच्छयलु जियपउम-णाम-पङ्कय-भसलु ॥ ३
अरिदमण-णराहिव-सत्ति-धरु कुलभूसण-मुणि-उवसग्ग-हरु ॥ ४
चन्दणहि-[१]तणय-सिर-णिद्दलणु [२]सूरन्तय-सूरहास-हरणु ॥ ५
खर-दूसण-तिसिर-सिरन्तयरु कोडिसिला-कोडि-णिहट्ठ[1]-उरु ॥ ६
सो लक्खणु पुलय-विसट्ट-तणु सण्णज्झइ अमरिस-कुइय-मणु ॥ ७
पुणु रावण-वलु णिज्झाइयउ णं सयलु जें दिट्ठिहें माइयउ ॥ ८
(पद्धडिया णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

जासु किसोअरें[३] जगु जि [3]गिरोमउ[3] जेत्तिउं[4] ।
तासु विसालहुँ णयणहुँ तं वलु केत्तिउं[5] ॥ ९

[३]

तहिँ तेहएँ अवसरेँ ण किउ[१] खेउ सण्णज्झइ सरहसु अञ्जणेउ[२] ॥ १
जो रणेँ माहिन्दि-महिन्द-धरणु जो स-रिसि-कण्ण-उवसग्ग-हरणु ॥ २
जो आसालियहेँ विणास-कालु जो वज्जाउह-वणेँ जलण-जालु ॥ ३
जो लङ्कासुन्दरि[३]-थण-णिहट्ठु जो णन्दणवण-मद्दण-[४]पवट्ठु[1] ॥ ४
जो णिसियर[2]-साहण-सण्णिवाउ जो अक्खकुमार-कयन्त[3]राउ ॥ ५
जो [५]तोयदवाहण-वल-विणासु जो खण्ड[4]-खण्ड-किय-[६]णागवासु ॥ ६
जो विमुहिय-णिसियर-सामिसालु जो दहमुह-मन्दिर-पलयकालु ॥ ७
जो जस-लेहडु एक्कल-वीरु सो मारुइ रोमञ्चिय-सरीरु ॥ ८
(रयडा णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

पुणु पुणु वग्गइ पेक्खेंवि राव[5]ण-साहणु ।
'अज्जु सइच्छऍ करमि कयन्तहों[6] [७]भोअणु' ॥ ९

---

2. 1 A णिहिट्ठ°. 2 P S सहोयरो. 3 A °रोसहुं. 4 P जेत्तिअउं, S जेत्तियउ. P marginally records a variant for the first half of the Ghattā: जासु किसोयरि जगु जि गिरोसहु जित्तउ. 5 P केत्तिअउ, S कित्तियउ.

3. 1 A °पवड्ढु. 2 A किंकर. 3 P S कियंत°. 4 P खंडइ खंड°. 5 A रामण°. 6 P S कियंतहो.

---

[२] १ संवुकुमारस्य. २ सूरांतकः. ३ (P's reading) अजमोदस्य मध्यबीजम्.

[३] १ विलंघु(वु). २ हनूमंतः. ३ स्तनाभ्यां निघृष्ट-हृदयः. ४ दक्षः. ५ घणवाहणः. ६ नागपासः. ७ भोजनं भाजनं वा.

[४]

एम भणेवि वीर-चूडामणि पँउ[1]मप्पह-विमाणेँ थिउ पावणि ॥ १
तहिँ अवसरेँ सुग्गीउ विरुज्झइ भामण्डलु सरोसु सण्णज्झइ ॥ २
सज्जियाइँ चउ हंस-विमाणइँ जिणवर-भवणहोँ अणुहरमाणइँ ॥ ३
[2]गयँ[3]-रयाइँ णं सिद्धहँ थाणइँ भङ्ग-जणइँ णं कुसुमहोँ वाणइँ ॥ ४
मन्दर-सेल-सिहर-सच्छायइँ किङ्किणि-घग्घर-घण्टा-णायइँ ॥ ५
अलि-मुहलिय-मुत्ताहल-दामइँ विज्जु-मेह-रवि-ससिपह-णामइँ ॥ ६
हरि-वलहदहुँ वे[4] पट्ठवियइँ वे अप्पाणहोँ कारणेँ ठवियइँ ॥ ७
जिणु जयकारेँवि चडिउ विहीसणु जो भय-भीय-जीवँ[5]-सम्भीसणु ॥ ८
(मत्तमायङ्गो णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

पुरउ परिट्ठिय सेण्णहोँ भय-परिहरणहोँ ।
णं धुर-धोरिय छँ वि[6] समास वायरणहोँ ॥ ९

[५]

के वि सण्णद्ध समरङ्गणे दुज्जया के वि भामण्डलाइच्च-चन्द-द्धया ॥ १
के वि सिरि-सङ्ख-आवेँ[1]रिय-कलस-द्धया के वि कारण्ड-करहंस-कोञ्च-द्धया ॥ २
के वि अँ[1]लियल्ल-मायङ्ग-सीहद्धया के वि खर-तुरय-विसमेस-महिस-द्धया ॥ ३
के वि सस-सरह-सारङ्ग-रिञ्छ-द्धया के वि अहि-णउल-मय-मोर-गरुडद्धया ॥ ४
के वि सिव-साण-[2]गोमाउ-पँ[3]मयँ[2]-द्धया के वि घण-विज्जु-तरु-कमल-कुलिसद्धया ॥ ५
के वि सुंसुअर-करि-मयर-मच्छ-द्धया के वि णक्कोहर-ग्गाह-कुम्म-द्धया ॥ ६
णील-णल-णहुस-रँ[3]इमन्द-हत्थुब्भवा जम्वु-जम्वुक्क-अम्भोहि-जव-जँ[4]म्ववा ॥ ७
पँ[5]त्थउप्पित्थ-पत्थार-दप्पुद्धरा पिहुल-पिहुकाय-भूभङ्ग-उब्भङ्गुरा ॥ ८
(मयणावयारो णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

एए णरवइ गँय-सन्दणेँहिँ पँरिट्ठिय[6] ।
समुह दसासहोँ णं उवसग्ग सँ[7]मुट्ठिय ॥ ९

---

4. 1 P S पउमप्पहे. 2 This line is wanting in A. 3 S °जणइ. 4 S अत्तणहो, A अत्ताणहो. 5 P S °सीय°. 6 P S छव्विह.

5. 1 A °आयरिय. 2 P °पमह°, S °पमहय°. 3 P S °रहुमंदहत्थुब्भया. 4 P S °जंवया. 5 P S पत्त°, A पच्छ°. 6 P S परिट्ठियइं (S °इ). 7 P परिट्ठिअइं, S परिट्ठियइ,

---

[४] १ पद्मप्रभविमाने. २ हनूवंतः. ३ गतपापानि. ४ द्वौ विमानौ विभीषणेन रामलक्ष्मणयोः. प्रेषितः. ५ अव्ययी-द्वंद्व-तत्पुरुष-बहुव्रीहि-कर्मधारय-अलुक्-षट्प्रकार-समासाः.

[५] १ चित्रकः, व्याघ्रः. २ श्रृगाल. ३ मर्कट. ४ हस्ती(?)-रथ(ाः).

[६]

कुमुआवत्त-महिन्द-मण्डला सूरसमप्पह-भाणुमण्डला ॥ १
रइवद्धण[1]-सङ्गामचञ्चला दिढरह-सव्वप्पिय-करामला ॥ २
मित्ताणुद्धर-वग्घसूअणा एए णरवइ वग्घ-सन्दणा ॥ ३
कुद्ध-दुट्ठ-दुप्पेक्ख-रउरवा अप्पडिहाय-समाहि-भइरवा ॥ ४
पियविग्गह-पञ्चमुह-कडियला विउल-वहल-मयरहर-करयला[2] ॥ ५
पुण्णयन्द-चन्दासु-चन्दणा एए णरवइ सीह-सन्दणा ॥ ६
तिलय-तरङ्ग-सुसेण-मणहरा विज्जुकण्ण-सम्मेय-महिहरा[3] ॥ ७
अङ्गङ्गय-काल-विकाल-सेहरा तरल-सील-वलि-वल-पओहरा ॥ ८
(उप्पहासिणी[4] णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

एए णरवइ सयल वि तुरय-महारह[5] ।
णाइँ णिसिन्दहों कुद्धा कूर महागह[6] ॥ ९

[७]

चन्दमरीचि-चन्द-चन्दोअर-चन्दण[1]-अहिअ-अहिमुहा
गवय-गवक्ख-दुक्ख-दसणावलि-दामुद्दाम-दहिमुहा ॥ १
हेड[2]-हिडिम्व-चूड[3]-चूडामणि-चूडावत्त-वत्तणी
कन्त-वसन्त-कोन्त-कोलाहल-कोमुइवयण-वासणी ॥ २
कञ्जय-कुमुअ-कुन्द-इन्दाउह-इन्द-पडिन्द-सुन्दरा
सल्ल-विसल्ल-मल्ल-हल्लिर-कल्लोलुल्लोल-कुव्वरा ॥ ३
धामिर-धूमलक्खि-धूमावलि-धूमावत्त-धूसरा
दूसण-चन्दसेण-दूसासण-दूसल-दुरिय-दुक्करा ॥ ४
दुप्पिय-दुम्मरिक्ख[4]-दुज्जोहण-तार-सुतार-तासणा
हुल्लुर[5]-ललिय-लुंच[6]उल्लूरण-तारावलि-गयासणा ॥ ५
ताराणिलय-तिलय-तिलयावलि-तिलयावत्त-भञ्जणा
जरविहि-वज्जवाहु-मरुवाहु-सुवाहु-सुरिट्ठ-अञ्जणा ॥ ६
(दुवई-कडवयं णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

एए णरवइ समर-सएँहिँ 'णिव्वूढा ।
चलिय असेस वि पवर-विमाणारूढा ॥ ७

6. 1 P रइवघण°, S रइवंधण°. 2 P S °कलयला. 3 P S °महीहरा. 4 P ओप्पहासिणी, A उपहणी. 5 P S °महारहा. 6 P S °महागहा.

7. 1 P S °णंदण°. 2 P S हेडि°. 3 P °वेय°, S °वेड°. 4 P °दुमरिक्क°, S °घसमरिक्क°. 5 P S हुल्लर°. 6 P S °लुंचु°.

[७] १ दत्तस्कन्धाः.

[८]

रहवर-गयवरेहिँ एक्केक्केंहिँ   तिहिँ तुरएँहिँ पञ्चहिँ पाइक्केंहिँ ॥ १
वुच्चइ पत्ति सेण तिहिँ पत्तिहिँ   सेणामुहु तिहिँ सेणुप्पत्तिहिँ ॥ २
गुम्मु [1]ति-सेणामुह-अहिणाणेंहिँ   वाहिणि तीहिँ गुम्म-परिमाणेंहिँ ॥ ३
तिहिँ वाहिणिहिँ अं[2]ण्ण तिहिँ पियणेंहिँ तं च[3]मु णामु पगा[4]सिउ णिउणेंहिँ ॥ ४
तिहिँ चमूहिँ पभणन्ति [5]अणिक्किणि   दसहिँ [6]अणिक्किणीहिँ अक्खोहणि ॥ ५
एव्वँ[7]ऽक्खोहणीहिँ वि सहासइँ   जाइँ भुवणेँ णिय-णाम-पगासइँ ॥ ६
चउ कोडीउ सत्ततीस लक्ख   चालीस सहस रह-गयहुँ सङ्ख ॥ ७
सत्तासी लक्ख स-मच्छराहुँ   वलेँ एक्कवीस कोडिउ णराहुँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तेरह कोडिउ   वारह लक्ख अहङ्गहुँ ।
वीस सहासइँ   इउ परिमाणु तुरङ्गहुँ* ॥ ९

[९]

संचलेँ राहव-साहणेँण   रोमञ्चुच्छलिय-पसाहणेँण ॥ १
आलाव हूअ हरिसिय-मणहोँ   गयणङ्गणेँ सुर-कामिणि-जणहोँ ॥ २
एक्कएँ पवुत्तु 'वलु कवणु थिरु   जं सामि-कज्जेँ ण गणेइ सिरु ॥ ३
कवणहिँ वलेँ पवर-विमाणाइँ   कञ्चणगिरि-अणुहरमाणाइँ ॥ ४
कवणहिँ पक्खरिय तुरङ्ग थड   कवणहिँ मुक्कङ्कुस हत्थि-हड ॥ ५
कवण[1]हिँ सर-धोरणि दुव्विसह   कवण[2]हिँ महिहर-सङ्कास-रह ॥ ६
कवण[1]हिँ सारहि सन्दण-कुसल   कवणहिँ सेणावइ अतुल-वल ॥ ७
कवण[3]हिँ पहरणइँ भयङ्क[4]रइँ   कवण[3]हिँ चिन्धाइँ णिर[5]न्तरइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

कवणु रणङ्गणेँ   वाणहुँ साइउ देसइ ।
रावण-रामहुँ   जयसिरि कवणु लएसइ' ॥ ९

8. 1 P S तिसेण्णु णामु अहिहाणेहिं (S°हि). 2 P S पियणहि अण्ण तिहि, A अण्णु तिहिं पिअणेहिं. 3 A चउ. 4 P S पगासिय. 5 P अणिकिहि, S अण्णिक्किहि, A अणिक्किहिं. 6 P S अणिक्किहिणीहिं (S°हि). 7 P S एव अ°.

9. 1 P कवणए, S कवणइ. 2 P S कवणए. 3 P S कवणइ. 4 P S भयंकराइं (S° इ). 5 P S णिरंतराइ.

[८] * १ हस्ती, १ रथ, ३ असवार, ५ पाइक=एका पत्तिः । ३ पत्ति=सेणा । ३ [सेणा]=सेणा. मुखु । ३ सेनामुखि एकु गुल्मु । ३ गुल्मि एका वाहिणी । ३ वाहिणी एक पृतना । ३ पृतना=१ चमू । ३ चमू=१ अनीका । १० अनीका=एक [अ]क्षोहिणी । एकत्र राम-बले ४ कोडिउ ३७ लक्ष ४० सहस्र गजा रथाश्व । २१ कोडि ८७ लक्षः मनुष्याः । १३ कोडि १२ लक्ष २० सहस्र अश्वानि । सर्वसेना एतत् प्रमाणम् । अक्षोहणी-प्रमाणम्–२१८७० गजसंयुते, २१८७० रथसंयुते, ६५६१० अश्वसंयुते, १०९३५० पाइके=२१८७०० । वडी दूजी [अ]क्षोहिणी–(The figures that follow are confused)

[१०]

अण्णेक्कऍ दीहर-णयणियाऍं पभणिउ पप्फुल्लिय-वयणियाऍं ॥ १
‘हलें वेण्णि मि अतुल-महा[2]वॅलाइँ वेण्णि मि परिवड्ढिय-कलयलाइँ ॥ २
वेण्णि मि कुरुडाइँ[1] स-मच्छराइँ वेण्णि मि दारुण-पहरण-कराइँ ॥ ३
वेण्णि मि सवडम्मुह किय-गमाँइँ[3] वेण्णि मि पक्खरिय-तुरङ्गमाइँ ॥ ४
वेण्णि मि गलगज्जिय-गयघडाइँ वेण्णि मि पवणुद्धुअ-धयवडाइँ ॥ ५
वेण्णि मि सञ्जोत्तिय-सन्दणाइँ वेण्णि मि सुर-णयणाणन्दणाइँ ॥ ६
वेण्णि मि सारहि-दुद्दरिसणाइँ वेण्णि मि सेणा[4]वइ-भीसणाइँ ॥ ७
वेण्णि मि छत्तोह-णिरन्तराइँ वेण्णि मि भड-भिउडि-भयङ्कराइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

विण्णि मि सेण्णइँ अ[5]णुसरिसाइँ महाहवें ।
विजउ ण जाणहुँ किं रावणें किं राहवें’ ॥ ९

[११]

तं वयणु सुणेंवि वहु-मच्छराऍं [1]अण्णाऍं णिब्भच्छिय अच्छराऍं ॥ १
‘जहिँ रण-धुर-धोरिउ कुम्भयण्णु सहुँ भीमें भीमणिणाउ अण्णु ॥ २
जहिँ मउ म[2]ारीचि सुमालि मालि जहिँ तोयदवाहणु जम्वुमालि ॥ ३
जहिँ अक्ककित्ति महु मेहणाउ जहिँ मयरु महोयरु भीमकाउ ॥ ४
जहिँ हत्थु पहत्थुँ[3] महत्थु वीरु जहिँ घुग्घुरुँ[4] घुग्घुद्धाम धीरु ॥ ५
जहिँ सम्भु सयम्भु णिसुम्भु सुम्भु जहिँ सु[5]न्दु णिसुन्दु णिकुम्भु कुम्भु ॥ ६
जहिँ सीहणियम्वु पलम्ववाहु जहिँ डिण्डिमु डम्वरु नक्कगाहु ॥ ७
जहिँ जमु जम[6]घण्टु जमक्खु[7] सीहु जहिँ मल्लवन्तु जहिँ विज्जुजीहु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जहिँ सुउ सारणु वज्जोअरु हालाहलु ।
तहिँ रावण-वलें कवणु गहणु राहव-वलु’ ॥ ९

---

10. 1 P variously विन्नि वि, वेन्नि वि, S consistently विण्णि वि, A variously वेण्णि or विण्णि, मि or वि. 2 P S °वलइ वलाइं (S वालाइ). 3 A °रमाइं. 4 P S सेण्णइ अइभीसणाइं (S °इ). 5 P S अणुसरियाइं.

11. 1 P S णिब्भच्छिय अच्छर अच्छराए. 2 P S मारिचि. 3 P S महत्थु महत्थ. 4 P S A घुघुरुघुघु. 5 P S सुंडणिसुंड. 6 P जमहंसु. 7 P S A जमक्ख.

---

[१०] १ क्रूरानि.

[१२]

तं णिसुणेंवि विप्फुरियाणणाएँ　　अण्णेक्कएँ वुत्तु वरङ्गणाएँ ॥ १
'जहिँ राहउ विडसुग्गीव-महणु　　जहिँ गवउ गवक्खु विवक्ख-वहणु ॥ २
जहिँ लक्खणु खर-दूसण-विणासु　　जहिँ भामण्डलु जयसिरि-णिवासु ॥ ३
जहिँ अङ्गउ अङ्गु सुसेणु तारु　　जहिँ णीलु णहुसु णलु दुण्णिवारु ॥ ४
जहिँ अहिमुहु दहिमुहु मइसमुद्दु　　मइकन्तु विराहिउ कुमुउ[1] कुन्दु ॥ ५
जहिँ जम्वउ जम्वव-रयणकेसि　　जहिँ कोमुइ-चन्दणु-चन्दरासि ॥ ६
जहिँ मारुइ णन्दणवण-कयन्तु　　जहिँ रम्भु महिन्दु विहीस-वन्तु ॥ ७
जहिँ सुहडु विहीसणु सूल-हत्थु　　सेणावइ सइँ सुग्गीउ जेत्थु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं [2]वॅलु हलें सहि　　एत्तिउ एउ करेसइ ।
रावणु पाडेंवि　　लङ्क स इं भु ञ्जेसइ' ॥ ९

*

[६१ एक्कसट्ठिमो संधि]

जस-लुद्धइँ　अमरिस-कुद्धइँ　हय-तूरइँ किय-कलकलइँ ।
अब्भिट्टइँ　रहस-विसट्टइँ　ताम्वं[1] राम्व-रामण-वलइँ[3] ॥

[१]

वइदेहिहेँ कारणेँ अतुल-वलइँ　　अब्भिट्टइँ रामण-राम-वलइँ ॥ १
णं जुअ-खएँ महियल-गयणयलइँ　　सविमाणइँ विज्जुल-वेय-चलइँ ॥ २
पडु-पडह-भेरि-गम्भीर-सरइँ　　अवरोप्परु अहिणव-रोस-भरइँ ॥ ३
सिल-पाहण-तरु-गिरि-गहिय-करइँ　　सव्वल-हुलि-हल-करवाल-धरइँ ॥ ४
उग्गामिय-भामिय-भीम-गयइँ　　ओरालि[4]-गरुअ-गज्जन्त-गयइँ ॥ ५
पडिपेल्लिय-रह-हिंसन्त-हयइँ　　धुअ[5]-धवल-छत्त-धूवन्त-धयइँ ॥ ६
साहीण-पाण-परिचत्त-भयइँ　　पम्मुक्क-घाय-सङ्घाय-सयइँ ॥ ७
समुहेक्कमेक्क[6]-सच्छुद्ध-पयइँ　　सयवार-वार-उग्घुट्ठ[7]-जयइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

स-पयावइँ　कड्ढिय-चावइँ　सर-सन्धन्त-मुअन्ताइँ ।
णं घडियइँ　विण्णि वि भिडियइँ　पयइँ सुवन्त[1]-तिङन्ताइँ[8] ॥ ९

12. 1 P S कुमउ. 2 A तंवोलु.
1. 1 P ताइं राम रामण°, S ताइ राम रावण°. 2 A reads ध्रुवकं ॥ at the end. 3 P S हुल. 4 P S ओरालिय°. 5 P S धुव°. 6 P S °मुक्क°. 7 P S उघट्टु, A उरघुट्ठ°. 8 P S A तिडंताइं.

[१] १ स्यादि-त्यादि के पद.

[२]

तहिँ तेहएँ समरङ्गणेँ दारुणेँ   कुङ्कुम-केसुअ-अरविन्दारुणेँ ॥ १
को वि वीरु णं[1]सङ्कइ पाणहुँ   पुणु पुणु अङ्कु समोडइ वाणहुँ ॥ २
को वि वीरु पडिपहरइ पर-वलेँ   पुरउ धाइ पउ देइ ण पच्छलेँ ॥ ३
को वि वीरु असहन्तु रणङ्गणेँ   झम्प देइ पर-णरवर-सं[2]न्दणेँ ॥ ४
को वि वइरि करेँ धरेँवि प[3]कड्डइ   पहरेँ पहरेँ परिओसु प[4]वड्ढइ ॥ ५
को वि सराहउ पडइ विमाणहोँ   णावइ विज्जु-पुञ्जु णिय-थाणहोँ ॥ ६
को वि धरिज्जइ वाणेँहिँ एन्तउ   णं गुरूहिँ णरु णरएँ पडन्तउ ॥ ७
को वि दन्ति-दन्तेँहिँ आलग्गइ   करणु देवि कोँ वि उवरि वलग्गइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

गउ मारेँवि   कुम्भु वियारेँवि   जाइँ ताइँ कुन्दुज्जलइँ ।
गुणवन्तहेँ   पाहुडु क[5]न्तहेँ   को वि लेइ मुत्ताहलइँ ॥ ९

[३]

हेमुज्जल-दण्ड-वलग्गाइँ   केण वि तोडियइँ धयग्गाइँ ॥ १
ण समिच्छिउ जेण पियहेँ तणउ[1]   तें रु[2]हिरेँ लइउ पसा[3]हणउ ॥ २
मुहपत्तिं[4] ण इच्छिय जेण घरेँ   किय तेण सुहड भञ्जेँवि समरेँ ॥ ३
चिरु जेण ण इच्छिउ दप्पणउ   रहेँ तेण णिहालिउ अ[5]प्पणउ ॥ ४
मुहेँ पण्णइँ जेण ण लावियइँ   तें रुण्ड-सयइँ णच्चावियइँ ॥ ५
चिरु जेण ण सुरउ समाणियउ   तें [6]रण-[7]वहुअएँ स[8]हुँ माणि[9]यउ ॥ ६
णिय-णारि ण इच्छिय आसि जेँण   आलिङ्गिय गय-घड वहुय तेँण ॥ ७
जो णहइँ ण दे[10]न्तंउ णिय-पियाएँ   सो फाडिउ समरङ्गण-तियाएँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सम्मा-दाण-रिण-भरियउ   अच्छिउ जो झू[11]रन्तु चिरु ।
सो रणउहेँ सुहडु प[12]णच्चिउ   सामिहेँ अग्गएँ देवि[13] सिरु ॥ ९

[४]

कहिंचि[1] घोर-भण्डणं   सिरोह-देह-खण्डणं ॥ १
णरिन्द-विन्द-दा[2]रणं   तुरङ्ग-म[3]ग्ग-वारणं ॥ २

2. 1 P S णउ संकइ. 2 A °साहणे. 3 S पयट्टइ. 4 S पवट्टइ. 5 S दैंतहे.

3. 1 A तणउं. 2 A ते रुहिरे. 3 A पसाहणउं. 4 P S मुहयंति ण इच्छिउ. 5 P A अप्पणउं. 6 P S तं. 7 P रणे वहुअउ, S रणवहुअउ. 8 P S सइ. 9 A माणियउं. 10 P S देंत्तउ, A देंतउ. 11 P झूरंत, A जूरंतु. 12 P S पणच्चिअ(S य)उ. 13 P S ठविवि.

4. 1. P वि. 2 P S °दारुणं. 3 P S °मत्त°.

दिसग्ग-भग्ग-सन्दणं　　भमन्त-सुण्ण-चा[4]रणं ॥ ३
भिडन्त-वीर-णिब्भरं　　चवन्त-णिट्ठुरं खरं ॥ ४
विमुक्क-चक्क-सव्वलं　　तिसूल-सत्ति-सङ्कुलं ॥ ५
अणेय-घाय-जज्जरं　　पडन्त-वाहु-पञ्जरं ॥ ६
मुअ[5]न्त-हक्क-डक्क[6]यं　　हणं[7]न्त-एक्कमेक्कयं ॥ ७
लुणन्त-अं[8]ड्डु-हड्डुयं　　कुणन्त-खण्डखण्डयं ॥ ८
पडन्त जोह-विम्भ[9]लं　　ललन्त-अन्त-चुम्भलं ॥ ९
गलन्त-लोहिओहयं　　मिलन्त-पक्खि-जूहयं ॥ १०
कहिं चि[10] आहया हया　　महीयलं गया गया ॥ ११
कहिं जि भासुरा सुरा　　पहार-दारुणारुणा ॥ १२
कहिं चि[10] विद्धया धया　　जसोह-भूरिणा धया[11] ॥ १३

॥ घत्ता ॥

तहिँ आहवेँ पढम-भिडन्तउ　　राहव-साहणु भग्गु किह ।
दिवेँ दिवेँ दुवियड्ढहोँ माणेँण[12]　　पोढ-विलासिणि सुर[13]उ जिह ॥ १४

[५]

राहव-वलु रावण-वलेँण भग्गु　　णं दुग्गइ-गमणेँ सुगइ-मग्गु ॥ १
णं कलि-परिणामेँ परम-धम्मु　　णं घोराचरणें मणुअ-जम्मु ॥ २
वियलिय-पहरणु णिय-मणेँ विसण्णु　　भज्जन्तउ पेक्खेँवि राम-सेण्णु ॥ ३
किउ कलयलु कमल-दलक्खिएहिँ　　सुर-वहुअहिँ रावण-पक्खिएहिँ ॥ ४
‘[1]हलेँ पेक्खु पेक्खु णासन्तु सिमिरु　　णं रवि-यर-णियरहोँ र[2]यणि-तिमिरु ॥ ५
सुट्ठु वि सीयालु महन्त-काउ　　किं विसहइ केसरि-णहर-घाउ ॥ ६
सुट्ठु वि जोइङ्गणु तेयवन्तु　　किं तेण तवणु जिज्जइ तवन्तु ॥ ७
सुट्ठु वि सुन्दर रासहहोँ कील　　किं पावइ व[3]इर-मायङ्ग-लील ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सुट्ठु वि भूगोयरु दुज्ज[4]उ　　किं पुज्जइ विज्जाहरहोँ ।
सुट्ठु वि वा[1]लाहिउ वड्डुउ　　किं सरिसउ रयणायरहोँ’ ॥ ९

4 P S वाहणं. 5 S मुवंत°. 6 P S °ढक्कयं. 7 P S कणंत°. 8 P S °हअड्डुअड्डुयं, A अट्ट°. 9 A °भेभलं. 10 A जि. 11 P S रिणा. 12 P S माणिणि. 13 P S हियउ, P marginally records सुरउ as a variant.

5. 1 This pāda is not found in A. 2 P S तिमिर(P रि)णियरु. 3 P S पर, A र. 4 A दुजइ.

[५] १ सरोवर झीलरा (?).

[६]

तांव तुरङ्गम-रह-गय-वाहणु   वलिउ पडीवउ राहव-साहणु ॥ १
णं उच्छलिउ खय-सायर-जलु   आहय-तूर-णिवहु किय[2]-कलयलु ॥ २
उब्भिय-कणय-दण्डु धुय[3]-धयवडु   उद्ध-सोण्ड[4]-उद्धङ्कुस[5]-गय-घडु ॥ ३
जुत्त-तुरङ्गम-वाहिय-सन्दणु   जाउ पडीवउ भड-कडमद्दणु ॥ ४
धाइय णरवर णरवर-विन्दहुँ   सीहहुँ सीह गइन्द गइन्दहुँ ॥ ५
रहियहुँ रहिय धयग्ग धयग्गहुँ   रह रहवरहुँ तुरङ्ग तुरङ्गहुँ ॥ ६
धाणुक्कियहुँ भिडिय धाणुक्किय   फारक्कियहुँ पवर फारक्किय ॥ ७
असिवर-हत्था असिवर-हत्थहुँ   एम्व हूअ '[१]किलिविण्डि समत्थहुँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

दुग्घोट्ट-थट्ट-सङ्घट्टण   पाडिय[7]-मुह-वड पडिय-गुड ।
अड्डाउह[8] अवसरें[9] फिट्टएँ   वालालुञ्चि करन्ति[10] भड ॥ ९

[७]

किय[1]-कुरुड[2]-भिउडि-भड[3]-भासुराइँ   पहरन्ति परोप्परु णिट्ठुराइँ ॥ १
उभय-वलइँ रुहिर-जलोल्लियाइँ   [१]तम्मिच्छ[4]-वणइँ णं फुल्लियाइँ ॥ २
एत्थन्तरें जण-मण-भाविणीउ[5]   कलहन्ति गयणें सुर-कामिणीउ ॥ ३
'हलें वासवयत्तें[6] वसन्तलेहें   हलें कामसेणें हलें कामलेहें ॥ ४
हलें कुसुम-मणोहरि हलें अणङ्गें   चित्तङ्गें वरङ्गणें हलें वरङ्गें ॥ ५
जो दीसइ रणउहें सुहडु एहु   कण्णिय-खुरुप्प-कप्परिय-देहु ॥ ६
सव्वउ[7] मिलेवि एँहु[8] मज्झु देहु   रणें अण्णु गवेसवि[9] तुम्हें लेहु' ७
अण्णेक्कएँ हरिसिय-गत्तियाएँ   पभणिउ[10] पप्फुल्लिय-वत्तियाएँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

'जो दन्ति-दन्तें आलग्गेंवि   उरु[11] भिन्दाविउ अप्पणउ[12] ।
हलें धावहि काइँ[13] गहिल्लिएँ   एँहु भत्तारु महु त्तणउ[14]' ॥ ९

---

6. 1 A ताम. 2 P S किउ, A कय°. 3 P S धयधयवडु, A धुयवडु. 4 A सोंडु. 5 P S उद्धंकुसु. 6 P transposes the pādas in this line. 7 P S फाडिय. 8 S आट्टाउह, A अंडाउह. 9 P S अवसरि, A अवसर. 10 P S करंत.

7. 1 A णिय°. 2 P S °कुरुडु°. 3 A °भय°. 4 P S तामिच्छ°. 5 P S भामिणीउ. 6 A वासायत्ते. 7 P S सव्वो वि. 8 S यहु, A इमु. 9 P S गवेसइ. 10 P A पभणिउं. 11 A रिउ. 12 A अप्पणउं. 13 P S A काइ. 14 P तणउ, A तणउं.

---

[६] १ कन्दलम्, सङ्ग्रामम्.
[७] १ अगस्तिवृक्षा हड्ड (?) तरु.

[८]

जाम्व वोल्ल सुर-कामिणि-सत्थहोँ ताव वलेण समरेँ काकुत्थहोँ ॥ १
भग्गु असेसु वि रावण-साहणु वियलिय-पहरणु गलिय-पसाहणु ॥ २
विहुणियकर-मुहकायर-णरवरु वुण्ण-तुरङ्गमु मोडिय-रहवरु ॥ ३
चत्तछत्त-आमेल्लिय-धयवडु गरुय-घाय-कडुवाविय-गय-घडु ॥ ४
जं णासन्तु पदीसिउ पर-वलु राहव-पक्खिएहिँ किउ कलयलु ॥ ५
'हलेँ हलेँ वारवार जं वण्णेंहि[1] जेण समाणु अण्णु णउ मण्णेंहि[2] ॥ ६
तं वलु पेक्खु पेक्खु भज्जन्तउ णं उववणु दुव्वाएं छित्तउ ॥ ७
णं सज्जण-कुडुम्वु खल-सङ्गें णाइँ कुमुणिवर-चित्तु अणङ्गें ॥ ८

॥ घत्ता ॥

रिउ-हरिण-जूहु हिण्डन्तउ पुण्णहिँ कहँ[3] व समावडिउ ।
णासेप्पिणु कहिँ जाएसइ[4] राहव-सीहहोँ कमेँ पडिउ' ॥ ९

[९]

एत्थन्तरेँ वलेँ मम्भीस देवि वित्थक्का[1] हत्थ-पहत्थ वे वि ॥ १
णं पलऍ[2] समुट्ठिय चन्द-सूर णं राहु-केउ अच्चन्त-कूर ॥ २
णं पलय-हुआसण पवण-चण्ड णं मत्त महग्गय गिल्ल-गण्ड ॥ ३
णं सीह समुद्धूसिय-सरीर णं खय-जलणिहि गम्भीर धीर ॥ ४
दुव्वार-वइरि-सङ्घारणेहिँ उत्थरियाणेऍहिँ पहरणेहिँ ॥ ५
अग्गेऍहिँ वारुण-वायवेहिँ सिल-पाहण-पव्वय-पायवेहिँ ॥ ६
जहिँ जहिँ भिडन्ति तहिँ मणेँ विसण्णु साहारु ण वन्धइ राम-सेण्णु ॥ ७
विहडप्फडु णासइ पाण लेवि तहिँ अवसरेँ थिय णल-णील वे वि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

णं पवर-गइन्दु गइन्दहोँ सीहहोँ सीहु समावडिउ ।
णलु हत्थहोँ णीलु पहत्थहोँ सरहस[3]-पहरणु अब्भिडिउ ॥ ९

[१०]

णल-हत्थ वे वि रणेँ ओवडिया[1] वेण्णि वि गय-सन्दणेहिँ चडिया ॥ १
वेण्णि वि अभङ्ग[2]-मायङ्ग-धया वेण्णि वि सुपसिद्ध लद्ध-विजया ॥ २

---

8. 1 A वण्णहिं. 2 P A मण्णहिं. 3 P S कहि भि°. 4 A णासेइ.

9. 1 P ते त्थक्का, S ते थक्का. 2 P S A पलय. 3 P S सरहसु, A सहरिस°.

10. 1 S. reads all the end syllables of the pādas here as short; so also P. except in lines 4 to 6; A reads them long except in lines 1, 2, and 8. 2 P S अहंग.

वेण्णि वि भिउडी-भङ्गुर-वयणा वेण्णि वि गुञ्जाहल-सम-णयणा ॥ ३
वेण्णि वि पचण्ड-कोवण्ड-धरा वेण्णि वि अणवरय-विमुक्क-सरा ॥ ४
वेण्णि वि धणु-विण्णाणन्त-गया वेण्णि वि सयवारोच्छिण्ण-धया ॥ ५
वेण्णि वि समरङ्गणेँ दुव्विसहा वेण्णि वि सयवार-हूय-विरहा ॥ ६
वेण्णि वि थिय अहिणव-रहवरेहिँ वेण्णि वि पोमाइय सुरवरेहिँ ॥ ७
वेण्णि वि णीसन्दण पुणु वि किया वेण्णि वि विमाण-वाहणेँहिँ थिया ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वेण्णि वि करन्ति रणेँ णिक्कँउ[3] पहु-सम्माण-दाण-रिणहोँ ।
पडिपहरेँ पहरेँ णिवडन्तएँ वेण्णि वि णाँभु[4] लेन्ति जिणहोँ ॥ ९

[११]

एत्थन्तरेँ आयामिय-णलेण पय-भारक्कन्त-रसायलेण ॥ १
हय-तूर-पउर-किय-कलयलेण ओरसिय-सङ्ख-दडि-काहलेण ॥ २
हरिणिन्द-[1]रुन्द-कडि-कडियलेण सुन्दर-रङ्खोलिर-मेहलेण ॥ ३
दिढ-कढिण-वियड-वच्छत्थलेण पारोह-सोह-सम-भुअवलेण ॥ ४
छण-चन्द-रुन्द-मुह-मण्डलेण घोलन्त-कण्ण-मणिकुण्डलेण ॥ ५
तोणीरहोँ रावण-किङ्करेण कड्ढिउ भड-भिउडि-भयङ्करेण ॥ ६
विउरुवण-सरु रणेँ दुण्णिवारु गुण-सन्धिय-मेत्तउ[1] सय-पयारु ॥ ७
आमेल्लिँ[2]ज्जन्तु सहास-भेउ थोवन्तरेँ णवर अलद्ध-छेउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जलेँ थलेँ पायालेँ णहङ्गणेँ वाण-णिवहु सन्दरिसियउ ।
रिउ-जलहरु सर-धाराहरु णल-कुलपव्वएँ वँरिसियउ[3] ॥ ९

[१२]

तं हत्थहोँ केरउ वाण-जालु पूरन्तु असेसु दियन्तरालु ॥ १
आयामेँवि णलेँण दुद्[1]दरिसणेण आकरिसिउ सरेँ[2]णाकरिसणेण ॥ २
धारा-तिमिरु व किरणायरेण मीणत्थेँ जगु व सणिच्छरेण ॥ ३
दहिमुह-पुरेँ रिसि-कण्णोवसग्गेँ हणुवेण व सायर-जलु ख-मग्गेँ ॥ ४

3 P णिक्खवडं, S णिक्खउ. 4 P S णाउ.

11. 1 A गुणसयमित्तडं गुणसयवयारु. 2 P S आमि(P °मे°)ल्लिय जंतु. 3 P S वरासियउ (P °उं).

12. 1 P S A दुद्दरि°. 2 P S A सरिणा°.

[११] १ विस्तीर्णः.

अण्णेक्कें वाणें छिण्णु चिन्धु   अण्णेक्कें रिउ वच्छयलें विद्धु ॥ ५
विहलङ्घलु महियलें पडिउ हत्थु   णं दहवयणहों जेवँणउ[3] हत्थु ॥ ६
एँत्तहेँ[4] वि वे वि रण-भर-समत्थ   ओवडिय भिडिय णील-प्पहत्थ ॥ ७
वेण्णि वि स-रोस वेण्णि वि पचण्ड   वेण्णि वि गञ्जोल्लिय-वाहुदण्ड ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पच्चारिउ णीलु पहत्थेंण   'पहरु पहरु एक्कहों जणहों ।
जय-लच्छि देउ आलिङ्गणु   जिम रामहों जिम रामणहों' ॥ ९

[१३]

एत्थन्तरें णीलें ण किउ खेउ   णाराउ विसज्जिउ चण्ड-वेउ ॥ १
गुण-धम्मामेल्लिउ चलिउ केम   विन्धणउ[1] सहावें पिसुणु जेम्व ॥ २
सो एन्तु पहत्थें कुद्धएण   करिवर-सन्दणेंण करि[2]-द्धएण ॥ ३
छक्खण्डइँ किउ छहिँ सरवरेहिँ   णं महियलु[3] आगमें मुणिवरेहिँ ॥ ४
चउवीस णवर णीलेण मुक्क   एक्केक्कहों वे वे वाण ढुक्क ॥ ५
विहिँ करि कप्परिय समोत्थरन्त[4]   विहिँ सारहि विहिँ धय थरहरन्त ॥ ६
रहु एक्कें एक्कें कवउ छिण्णु   धउ एक्कें एक्कें हियउ भिण्णु ॥ ७
विहिँ वाहु-दण्ड विहिँ विलुअ पाय   एवं तहों मरणावत्थ जाय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सिर-कम-करोरु[5] छक्खण्डइँ   जाउ सिलीमुह[6]-कप्परिउ ।
लक्खिज्जइ[7] सुहडु पडन्तउ   णं भूअहँ वलि विक्खिरिउ[8] ॥ ९

[१४]

जं विणिहय हत्थ-पहत्थ वे वि   थिउ रावणु मुहेँ कर-कमलु[1] देवि ॥ १
णं मत्त-महागउ गय-विसाणु   णं वासरेँ तेय-विहीणु भाणु ॥ २
णं णी-ससि-सूरउ गयण-मग्गु   णं इन्द-पडिन्द-विमुक्कु सग्गु ॥ ३
णं मुणिवरु इह-पर-लोय-चुक्कु   णं कुकइ-कव्वु लक्खण-विमुक्कु ॥ ४
थिउ वलु वि[2] णिरुज्जमु गलिय-गाँउ[3]   राहव-वलु परिवड्ढिय[4]-पयावु[5] ॥ ५

3 S जीवणउ, A जेवणउं°. 4 A उत्तहे.

13 1 A विंधणउं. 2 A कइ°. 3 P महिभले, S महिभले. 4 P S समोरसंत. 5 A सिरु कम-करो. 6 P S सिलिम्मुह°. 7 S लज्जिज्जइ 8 P S वि(S ह्नि)करिउ.

14. 1 P S करयलु करेवि. 2 A जि णिरुज्जउ. 3 P S °गव्वु. 4 P पवड्ढिय°, S परिवड्ढिय 5 P S °पयव्वु.

[१३] १ विजयार्द्धेन गंगासिंधुभ्यां यथा षट्खंडाः कृताः.

एत्तहेँ स-पडह णीसद्द सङ्ख एत्तहेँ अप्फालिय तूर-लक्ख ॥ ६
एत्तहेँ वलेँ हाहाकारु सुट्ठु एत्तहेँ पुणु जयजय-सद्दु घुट्ठु ॥ ७
एत्तहेँ वि गयणेँ अ[6]त्थमिउ मित्तु णं हत्थ-पहत्थहँ त[7]णउ मित्तु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जुज्झन्तइँ वेण्णि वि सेण्णइँ रयणिऍ णाइँ णिवारियइँ ।
भूऍहिँ स इँ भू अ-सहासइँ रणेँ भोयणेँ हक्कारियइँ ॥ ९

*

[६२. बासट्ठिमो संधि]

पाडिऍ हत्थेँ पहत्थेँ वलइँ वे वि परियत्तइँ ।
णाइँ समत्तऍ कज्जेँ मिहुणइँ 'णिसु[1]ढिय- ग[2]त्तइँ ॥

[१]

गऍ रावणेँ णिय-मन्दिरेँ पइट्ठेँ हरि-हलहरेँ रणे[3]-वाहिरेँ णिविट्ठेँ ॥ १
तहिँ अवसरेँ जगे[4]-वित्थिण्ण-णामु जोक्कारिउ णल-णीलेहिँ रामु ॥ २
तेण वि वहु-रयण-समुज्जलाइँ दिण्णइँ णीलहोँ मणि-कुण्डलाइँ ॥ ३
इयरहोँ वि मउडु मणि-तेय-भिण्णु जो रामउरिहिँ जे[5]क्खेण दिण्णु ॥ ४
जं वे वि पपुज्जिय राहवेण पञ्चङ्गु वूहु किउ जम्ववेण ॥ ५
णर दाहिणेण हय उत्तरेण गय पुव्वें रह [2]अवर[6]त्तणेण ॥ ६
विरइयइँ विमाणइँ गयण-मग्गेँ थिय हरि-हलहर सीहासणग्गेँ ॥ ७
[7]देवहुँ[8] मि[9] अच्छेउ अभेउ वूहु [10]णं थिउ मिलेवि पञ्चमुहु जूहु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

ताव रणङ्गण-मज्झेँ पुणु पुणु सिव फेक्कारइ ।
'रामण दुज्जउ रामु[11]' णाइँ समा[12]सऍ वारइ ॥ ९

[२]

कत्थ वि सिव का वि कलुणु लवइ 'रणु[1] थोवउ जइ अण्णु वि हवइ' ॥ १
कत्थ वि सिव का वि समल्लियइ णं जोअइ 'को मुउ को जियइँ[2]' ॥ २

---

6 A अत्थमिउं. 7 A तणउं.

1. 1 P णिसुट्ठिअ°, S णिसुड्डिय°, A सुढिय°. 2 A reads ध्रुवकं ॥ at the end. 3 P S वाहिरे सइं(S °इ). 4 P S जगे. 5 S जक्खेहि. 6 P अवरत्तरेण, A °वरु उत्तरेण. 7 A transposes the pādas in this line. 8 P S देवहु. 9 wanting in S. 10 A कियउ हयगयरहनरवरसमूहु. 11 A राउ. 12 P S समासइ, A समासइं.

2. 1 A रवणु थोडउ. 2 S जीयइ, wanting in A.

---

[१] १ शिथिलः. २ पश्चिमभागे.

[3]कत्थ वि सिव सुहडहों डीण सिरें   विवरो[4]क्खएँ अ[5]ण्णुएँ भुत्ति [6]करें ॥ ३
[7]कत्थ वि सिव चुम्वइ मुह-कमलु   णं पोढ-विलासिणि अहर-दलु ॥ ४
कत्थ वि सिव भडहों लेइ हियउ   पुणु मे[8]ल्लइ '[7]मरु अ[9]ण्णहें हियउ' ॥ ५
कत्थ [10]वि रणें भूअहुँ क[11]लहणउ   'सिरु तुज्झु कवन्धु महु [12]त्तणउ' ॥ ६
अब्भिडइ अण्णु अण्णेण सहुँ   'एँउ भडु आवग्गउ देहि महु' ॥ ७
अण्णें वुच्चइ 'खण्डु वि ण तउ   छुड्डु एक्कु गासु महु होउ गउ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

भूअहुँ भोअण-लील   रामहों वयणु समुज्जलु ।
सीयहेँ मणें परिओसु   णिसियर-वलहों अमङ्गलु ॥ ९

[३]

जं णिसुणिउ हत्थु पहत्थु [1]हउ   णल-णील-सरेंहिँ तम्वारु गउ ॥ १
तं पलय-कालु ओ[2]वत्थियउ   [3]पुरेँ हाहाकारु स[4]मुत्थियउ ॥ २
णं पक्खि[5]उलेण विमुक्क रडि   णं णिवडिय महिहर-सि[6]हरें तडि ॥ ३
तं णउ घरु जेत्थु ण रुवइ धण   उब्भिय-कर धाहाविय-वयण ॥ ४
सो [7]णउ भडु जासु ण अङ्गें वणु   सो णउ पहु जो णउ विमण-मणु ॥ ५
सो णउ रहु जो ण वि कप्पियउ   सो णउ हउ जो [8]णं वि सर-भरिउ ॥ ६
सो ण वि गउ जासु ण असि-पहरु   सो ण वि हरि जो अभग्ग-णहरु ॥ ७
जणें एम कणन्तें परिट्ठि[9]यएँ   दुक्खाउरें णिद्दा-वसिकि[10]यएँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अद्धरत्ते पडि[11]वण्णें   विज्जाहर-परमेसरु ।
[12]पुरें पच्छण्ण-सरीरु   भमइ णाइँ जोगेसरु ॥ ९

[४]

पप्फुल्लिय-कु[1]वलय-दल-णयणु   करवाल-भयङ्करु दहवयणु ॥ १
आहिण्डइ रयणिहिँ घरेंण घरु   पेक्ख[2]हुँ को केहउ चवइ णरु ॥ २
पइसइ अच्चन्त-मणोहरइँ   पवरइँ वर-कामिणि-रइहरइँ ॥ ३

3 This line is not found in A. 4 P S °क्कए. 5 S अण्णुइ. 6 P किरे. 7 This pāda is not found in A except the last two letters. 8 P S मेल्लए. 9 P अण्णए, S अण्णइ. 10 P A इं, S इ. 11 A कलहणउं. 12 P तणउं, A त्तणउं.

3. 1 A मुउ. 2 P S णं उट्ठियउ. 3 पुणु. 4 P S समुच्छलिउ. 5 P S संखउलेहिं (S °हि). 6 P S °यंत. 7 A ण वि. 8 A ण सरहं. 9 A °यइं. 10 S कियइ, A कियइं. 11 P S पडिवण्णए. 12 A पुणु.

4. 1 P S °दलकोमल°. 2 P S पेक्खहु, A पेक्खहं.

[२] १ फिट्ट.

जहिँ सुरयारम्भु णट्ट-सरिसु [3]जिह तं तिह तिं (?) वड्ढिय-हरिसु ॥ ४
जिह तं तिह भू-भङ्गुर-वयणु जिह तं तिह चल-चालिय-णयणु ॥ ५
जिह तं तिह आयड्ढिय-णहरु जिह तं तिह उग्गामिय-पहरु ॥ ६
जिह तं तिह गल-गम्भीर-सरु जिह तं तिह दरिसिय-अ[1]ङ्गहरु ॥ ७
जिह तं तिह करण-वन्ध-पउरु जिह तं तिह छन्द-सद्द-गहिरु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पेक्खेँवि सुरयारम्भु णट्टहों अणुहर[4]माणउ ।
सीय स[2]रेवि दसासु परिणिन्दइ अप्प[5]णउ ॥ ९

[५]

थोवन्तरु जाव परिब्भमइ सहुँ कन्तएँ 'को वि वीरु चवइ ॥ १
'सुन्दरि मिग-णयणेँ मराल-गइ तं पहु-पसाउ किं वीसरइ ॥ २
तं पेसणु तं ओलग्गियउ [1]तं [1]'जीवियँ[2]-दाणु अमग्गियउँ[3] ॥ ३
तं उच्चासण-मं[2]णि-वेयडिउ तं मत्त-गइन्द-खन्धेँ चडिउ ॥ ४
तं मेहलु तं कण्ठाहरणु तं चेलिउँ[4] तं जेँ समालहणु ॥ ५
तं फुल्लु सहत्थेँ तम्वोलु तं असणु सु-परिम[5]लु कच्चोलु ॥ ६
तं चीरु भारु चामीयरहों अवर वि पसाय लङ्केसरहों ॥ ७
एयहुँ जसु एक्कु ण[6] आवडइ सो सत्तमेँ णरयण्णवेँ पडइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तहों उव[7]गारहों कन्तेँ णि[8]क्कउ करमि महाहवेँ ।
लाँ[9]वमि वण्णे[10]-विचित्त थरहरन्त सर राहवेँ' ॥ ९

[६]

तं णिसुणेँवि गउ रावणु तेत्तहेँ मन्दोअरि-जणेरु मउ जेत्तहेँ ॥ १
जाल-गवक्खएँ थिउ एकन्तएँ [2]णिसुउ चवन्तु सो वि सहुँ कन्तएँ ॥ २
'धणेँ विहाणेँ मइँ एउ करेवँउ[3] तं वड्डुं[4] प्फर-जूउ रमेवउ ॥ ३

3 This pāda is not found in A. 4 A अणुहरमाणउं. 5 P A अप्पाणउं.

5. 1 This pāda is not found in A. 2 P S जीविउ. 3 P °यउं. 4 S चेलिउं. 5 d S सपरियलु. 6 P S इ णावडइ. 7 P S उअयारहो. 8 P S णिक्खउ. 9 A लायमि. 10 A वण्णि°.

6. 1 P S गउ. 2 P S णिसुणिउ सहु चवंतु सो कंतए. 3 P करेवउं; S has here all such forms with व्व. 4 P S वड्डु फरु, A वड्डुप्फरु.

[४] १ उभयत्र करणभेदः. २ स्मरयित्वा.

[५] १ जीवितदानम्. २ मणिजडितः.

दारुणु रण-कडित्तु मण्डेवउ   जीविउ [1]'विसरिसु[5][2] ठउलु[6] ठवेवउ[7] ॥ ४
चाउरङ्गु वलु चउ-धुर देवी[8]   जाणइ खडिया[9]-जुत्ति[10] लएवी[11] ॥ ५
पडिकत्तउ रहवर ताडेवा   हय-गय-जोह-छोह पाडेवा ॥ ६
खग्ग-लट्ठि करेँ[12] कत्ति करेवी   जयसिरि-लीह दीहँ[13] कड्ढेवी ॥ ७
सुहड-कवन्धु लेक्खु [3]'पिण्डेवउ   जीवगाहि रिउ-गहणु लएवउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

दण्डासहिउ कियन्तु[14]   लुहउ लीह पिसुण-यणहोँ ।
पर-वलु जिणेँवि[15] असेसु   अप्पेवउ दहवयणहोँ' ॥ ९

[७]

तं णिसुणेँवि रावणु तुट्ठ-मणु   सञ्चलिउ मारिचहोँ भवणु ॥ १
पच्छण्णु परिट्ठिउ पवर-भुउ   सहुँ कन्तएँ सो वि चवन्तु सुउ ॥ २
'कलएँ सोणिय-सम्मज्जणएँ   पइसेवउ मइँ रण-मज्जणएँ ॥ ३
रह-गय-वड्ढिय-गन्धामलएँ   वर-असिवर-कङ्का[1]-थामलएँ ॥ ४
णरवर-विहुरङ्ग[2]-भङ्ग-करणेँ   जस-उव्वट्टणेँ वहु-मल-हरणेँ ॥ ५
जयलच्छि-हरिद्द-विहूसियएँ   समरङ्गणेँ कुण्ड-पदीसियएँ ॥ ६
परवल-जलोहेँ मेलाँवियएँ[3]   पहरण-दवग्गि-सन्तावियएँ ॥ ७
भूगोयरेँ[4]-रुहिर-तोअ-भरिएँ   असिधारा-णियरेँ[5] पवित्थरिएँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वइसेँवि करि-सिर-वीढेँ   ण्हाँमि[6] पेरएँ[2] णीसङ्कउ ।
जेण ण ढुक्कइ कन्तेँ   जम्मेँ वि अयस-कलङ्कउ' ॥ ९

[८]

[1]'तं णिसुणेँवि वयणु अदयावणु   सुअ-सारणहँ घरइँ गउ रावणु ॥ १
एक्केँ वुत्तु पुरउ णिय-भज्जहेँ   'कलएँ चडमि कन्तेँ रण-सेज्जहेँ ॥ २
भुअण-त्तयहोँ मज्झेँ विक्खायहेँ   चाउरङ्ग-साहण-चउपायहेँ[2] ॥ ३

5 A विसरिस. 6 A ठवलु. 7 P करेवउ, S करेव्वउ, A ठवेउ. 8 A एवी. 9 A खंडिया°. 10 P S °दुत्ति. 11 P करेवी, S करेव्वी. 12 S करि, A कर कत्त. 13 P S पुणु वि. 14 A कयंतु. 15 P लइउ, S लयउ, A जिणिवि.

7. 1 P S थावलए, A कंकच्छामलए. 2 P S °विहुरंग°. 3 A मेल्ला°. 4 P S भूगोयरे. 5 S णिवहे. 6 P S ण्हावि.

8. 1 A तं णिसुणेविणु दसाणणु. 2 A °पासहे.

[६] १ अद्वितीयम्. २ दायम्. ३ एकत्रकरणम्.
[७] १ कंकया (?) स्थाने. २ प्रभाते.

गयवर-गत्त[3]-पईहर-गत्तहँ अन्त-ललन्त-सुम्भ[4]-सञ्जुत्तहँ ॥ ४
हड्ड-रुण्ड-विच्छड्डुत्थरियहँ करि-कुम्भोवहाण[2]-वित्थरियहँ ॥ ५
जस-वँडाय[3]-हत्थिणिया-रूढहँ वारण-मत्तवारणालीढहँ' ॥ ६
अण्णेक्केण वुत्तु 'सुणु सुन्दरि गुरु-णियम्बँ वियड-उरेँ किसोअरि ॥ ७
रहवर-गयवर-णरवर[5]-वलियहँ धय-तोरणहँ समर[6]-वाहलियहँ[7] ॥ ८

॥ घत्ता ॥

असि-चोवाण लएवि हणुहणुकारु करेवउ ।
कल्लएँ सुहड-सिरेहिँ मइँ झिन्दुएँण रमेवउ' ॥ ९

[९]

दुव्वार-वइरि-विणिवारणहुँ तं वयणु सुणेंवि सुअ-सारणहुँ ॥ १
स-कलत्तहोँ गहिय-पसाहणहोँ गउ मन्दिरु तोयदवाहणहोँ ॥ २
थिउ जाल-गवक्खएँ वइसरेंवि णं केसरि गिरि-गुंह[1] पइसरेंवि ॥ ३
णिय-णन्दणु गलगज्जन्तु सुउ वयणुब्भडु रहसुब्भिण्ण[2]-भुउ ॥ ४
'णिय लील कन्तेँ तउ दक्खवमि हउँ कल्लएँ रण-वसन्तु रवमि[3] ॥ ५
रिउ-सोणिय-घुसिणेँ-चच्चियउ सज्जण-चच्चरि-परिअञ्चियउ ॥ ६
जसु देमि[4] विहँज्जेवि[5] सुरवरहुँ जम-वरुण-कुवेर-पुरन्दरहुँ ॥ ७
रावण-मण-णयण-सुहावणिय दावमि दणु-दवणा-[1]भञ्जणिय[6] ॥ ८

॥ घत्ता ॥

करि[7]-कुम्भ-त्थल[8]-वीढेँ असि वार-त्ती सन्धमि ।
लक्खण-राम-सरेहिँ घणेँ हिंदोला[9] वन्धमि' ॥ ९

[१०]

तं वयणु सुणेंवि घणवाहणहोँ दुज्जयहोँ अणिट्ठिय-साहणहोँ ॥ १
गउ रावणु[1] पर-मण-उद्दहणु[2] जहिँ जम्बुमालि पइजारुहणु ॥ २
तेण वि गलगज्जिउ गेहिणिहेँ सीहेण व अग्गएँ सीहिणिहेँ ॥ ३
'सुणु कन्तेँ कल्लेँ काइँ[3] करमि जिह खय-पाउसु तिह उत्थरमि ॥ ४
मज्जन्त-मत्त-मयगल-घणेँहिँ दडि-दद्दुर-भेरी-वरहिणेँहिँ ॥ ५

3 P S °मत्त°. 4 P S °सुंभु°. 5 A °णरवह लिहे. 6 P S A समरे. 7 A वाहिलियहे.
9. 1 P S °गुहे. 2 P S रहसुच्छलिय°. 3 P S रममि. 4 S तिमिरु. 5 P S विहंजमि, 6 P S A °भंजणिया, A °हंजणिय. 7 P S करे. 8 P S °त्थले. 9 P S हिंदोलउ.
10. 1 P S रामणु. 2 P S °उड्डहणु. 3 P S A काइ.

[८] १ शरीरया. २ गंडूक इव शिरोवष्टंभ. ३ पताकया.
[९] १ सीता (?).

वन्दिणेंहिँ लवन्तेंहिँ 'वप्पिहेंहिँ पहरण-दुव्वा[4]एँहिँ वहु-विहेंहिँ ॥ ६
रहवर-पवरभाडम्बरेंहिँ असिवर-विज्जलेंहिँ भयङ्करेंहिँ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

छत्त-व[5]लाया-पन्ति धणु-सुरधणु दरिसन्तउ ।
वरिसमि सर-धारेहिँ पर-वलें पलउ करन्तउ' ॥ ८

[११]

तं णिसुणेंवि गउ लङ्केसु तहिँ स-कलत्तउ इन्दइ-राउ जहिँ ॥ १
तेण वि गलगज्जिउ णिय-भवणें णावइ खल-जलहरेण गयणें ॥ २
'हउँ कलऍं पलय-हुआसु घणें लग्गेसमि राहव-सेण्ण-वणें ॥ ३
पहरण-सिप्पीर-पह[1]र-पउरें दुद्धर-णरवर-तरुवर-णियरें ॥ ४
भुवदण्ड-चण्ड-जा[2]लोलि-धरें करयल-पल्लव-णह-कुसुम-भरें ॥ ५
मणहर-कामिणि-लय-वेलहलें छत्त-द्धय-सु[3]क्क-रुक्ख-वहलें ॥ ६
हय-गय-वणयर-णाणाविहऍं रिउ-पाण-समुड्डाविय-विहऍं ॥ ७
उत्तट्ठ-तुरङ्गम-हरिण-हरें हरि-हलहर-वर-पं[4]व्वय-सिहरें ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तहिँ हउँ पलय-दवग्गि कलऍं वणें लग्गेसमि ।
पर-वल-काणणु सव्वु छारहों पुं[1]ञ्जु करेसमि' ॥ ९

[१२]

तं वयणु सुणेंवि सच्चलु तहिँ भडु कुम्भयण्णु णिय-भवणें जहिँ ॥ १
तेण वि पवुत्तु '[1]हे हंसगइ कलऍं रण-णहयलें 'भाणुवइ ॥ २
दुप्पेक्खु भयङ्करु दुप्पगउ सइँ होसमि जोइस-चक्कु हउँ ॥ ३
करिकुम्भ-कुम्भु कोवण्ड-धणु दुव्वार-वीर-वारुव्वहणु ॥ ४
णरवर-णक्खत्तु गइन्द-गहु भड-रुण्ड-खण्ड-रा[3]सी-णिवहु ॥ ५
अ[2]ब्भिट्ट-जोह-सामन्त-दिणु सिरिदिट्ठि[3](?)-गयासणि-दड्ढ-दिणु ॥ ६
सा[4]हण-उत्तर-दाहिण-[4]अयणु अण्णण्ण-महारह-सङ्कमणु ॥ ७
दहमुह-[5]विडप्प-आरुट्ठ-मणु हरि-हलहर-चन्द-सूर-गहणु ॥ ८

4 A °दुव्वारेहिं. 5 A °वलाहियवंति.

11. 2 1 P S °पयर°, A °पहार°. 2 P चंडलालोलि., S चंडालोलि°. 3 P S °सुक्ख°. 4 A सिरिगिरिवर°.

12. 1 P दुप्पगउं. 2 P S आभिट्ट°. 3 P S समदिट्ठि°. 4 P S A साहणु.

[१०] १ ववीहाभिः

[११] १ भस्म-समूहे (?)

[१२] १ भानुमती-नामा तस्य राज्ञी. २ बाणाः. ३ कुंभमीनादि. ४ अयनष (?) द्वे ति (?) ५ संक्रांतिविशेषः. ६ राहुणा (?).

॥ घत्ता ॥

रह गय[5] घट्टन्तु[6] हउँ पुणु कहि[7] मि ण सण्ठमि ।
सव्वहों[8] पलउ करन्तु धूमकेउ जिह उट्ठमि[9]' ॥ ९

[१३]

भड-वोक्कउ णिसुणेंवि दहवयणु हरिसिय-भुउ पप्फुल्लिय-णयणु[1] ॥ १
अप्पउ सिङ्गारेंवि णीसरिउ लहु णिय-अन्तेउरें पइसरिउ ॥ २
णेउर-झङ्कार[2]-घोर-सरएँ कञ्ची-कलाव-रङ्खोलिरएँ ॥ ३
मणि-कडय-मउड-चूडाहरणें सिय-हार-फार-भारुव्वहणें ॥ ४
कुण्डल-केऊर-विहूसियएँ विब्भम-विलास-अहिविलसियएँ ॥ ५
ससि-मुहें मिग-णयणें हंस-गमणें णं भसलु पइट्ठउ भिसिणि-वणें ॥ ६
चुम्वन्तु वराणण-सयदलइँ कप्पूर-दूरगय-परिमलइँ ॥ ७
उक्कोवण-केसर-णियर-वसु गेण्हन्तउ रय-मयरन्द-रसु ॥ ८
पहु[3] एमन्तेउरें परिभमिउ सुविहाणु भाणु ता[4] उग्गमिउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

हत्थ-पहत्थहुँ जुज्झें भड-मडएहिँ ण धाइउ[5] ।
णाइँ पडीवउ कालु भोयण-कङ्खएँ आइउ[6] ॥ १०

[१४]

जेहिँ जेहिँ रयणिहिँ गलगज्जिउ जेहिँ जेहिँ णिय-कज्जु विवज्जिउ ॥ १
जेहिँ जेहिँ लङ्काहिउ इच्छिउ जेहिँ जेहिँ रण-भारु पडिच्छिउ ॥ २
ताहँ ताहँ पप्फुल्लिय-वयणें पेसिय णिय पसाय दहवयणें ॥ ३
कासु वि कुण्डल-जुअलु णिउत्तउ कहों वि कडउ कण्ठउ कडिसुत्तउ ॥ ४
कहों वि मउडु कासु वि चूडामणि कहों वि माल कासु वि इन्दाइ[1]णि ॥ ५
कहों वि गइन्दु तुरङ्गमु कासु वि थोडउ[2] कहों वि दिणार-सहासु वि ॥ ६
कहों वि भारु तुल कहों वि सुवण्णहों अण्णहों लक्ख कोडि पुणु अण्णहों ॥ ७
कहों वि फुल्लु[3] तम्वोलु स-हत्थें कहों वि पसाहणु सहुँ वर-वत्थें ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जे पट्ठविय पसाय ते णरवरेंहिँ पचण्डेंहिँ ।
णामेंवि[4] सिर-कमलाइँ लइय स इं[5] भु अ-दण्डेंहिँ ॥ ९

*

5 P S गय हय. 6 P घडंतु. 7 P S कह मि ण संठवमि. 8 P S A सव्वहु. 9 P S उट्ठवमि.

13. 1 P S °वयणु. 2 P S °रुग्घोसिरए. 3 A वट्टुएवं॰ 4 P णहे, S णहि. 5 P S धाइयउ. 6 P S आयउ.

14. 1 wanting in A. 2 P S थोडं. 3 P S फुल्ल. 4 P णावेवि, S णाविवि. 5 P S सयं.

[१४] १ इन्द्रमणि आभरण.

[६३. तिसट्ठिमो संधि]

रवि-उग्गमेँ अहिणव-गहिय-पसाहणइँ ।
सण्णद्धइँ [1]राम-दसाणण-साहणइँ ॥

[१]

[2]सो णीसरिउ रामणो समउ साहणेणं ।
र[3]ह-गय-तुरय-जोह-पञ्चमुह-वाहणेणं[4] ॥ १

पडु-पडह-सङ्ख-भेरी-रवेण कंसाल-ताल-दडि-रउरवेण ॥ २
कोलाहल-काहल-णीसणेण पच्चवियं[5]-मउन्दा-भीसं[6]णेण ॥ ३
घुम्मुक्[7]क-करड-टिविला-धरेणं[8] झल्लरि-रुञ्जा-डमरुअ-करेण ॥ ४
पडिढक्क-हुडुक्का-वज्जिरेण घुम्मन्त-मत्त-गयं[8]-गज्जिरेण ॥ ५
तण्डविय-कण्ण-विहुणिय-सिरेण गुमुगुमुगुमन्त-[9]इन्दिन्दिरेणं[10] ॥ ६
पक्खरिय-तुरय-पवणुब्भडेण धूवंत-धवल-धु[11]अ-धयवडेण ॥ ७
मण-गमणामेल्लिय-सन्दणेण जम-वरुण-कुवेर-विमद्दणेण ॥ ८
वन्दिण-जयकारुग्घोसिरेण सुरवहुअ-सत्थ-परिओसिरेणं[12] ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सहुँ सेण्णेँणं[13] सहइ दसाणणु णीसरिउ ।
छण-चन्दु व तारा-णियरें परियरिउ ॥ १०

[२]

[1]सण्णज्झन्ति जाहे सण्णद्धए दसासे ।
खुहिय-महोवँ[2]हि व्व सुं[3]-समुट्ठिए विणासे ॥ १

सण्णज्झइ सरहसु जम्बुमालि डिण्डिमु डामरु उड्डमरु मालि ॥ २
सण्णज्झइ मउ [4]मारीचि अण्णु इन्दइ घणवाहणु भाणुकण्णु ॥ ३
सण्णज्झइ जरु अहिमाण-खम्भु पञ्चमुह णियम्वु सइम्भु सम्भु ॥ ४
सण्णज्झइ चन्दुं[5]दामु अक्कु धूमं[6]क्खु जयाणणु मयरु णक्कु ॥ ५
पडिवं[7]क्खें वि सण्णज्झन्ति वीर अङ्गङ्गय-गवय-गवक्ख धीर ॥ ६

1\. 1 P S वे वि राम°. 2 A reads हेला in the beginning. 3 P हय corrected as रह°; S हय°. 4 A reads ध्रुवकं at the end. 5 P S वड्डीभमुउंदा°. 6 A °हासणेण. 7 P S घमुक्क°. 8 P S °रवेण. 9 missing in A. 10 P S °इंदीवरेण. 11 P S °धयधूवडेण. 12 P S °परितोसणेण. 13 P S सेण्णें.

2\. 1 P S read दुवई in the beginning. 2 A °महोअहि. 3 P S समुट्ठिए. 4 P S मारिचि. 5 P S °हाणु, A °हाम. 6 P S घुम्मुक्कु. 7 P पडिपेखेवि, S पडिपेक्खिवि.

---

[१] १ भ्रमरैः.

णल-णील-विराहिय-कुमुअ-कुन्द जम्बव-सुसेण-दहिमुह-महिन्द ॥ ७
तारावइ-तार-तरङ्ग-रम्भ[8] सोमित्ति-हणुव अहिमाण-खम्भ ॥ ८
अक्को[9]स-दुरिय-सन्ताव-पहिय णन्दण-भामण्डल राम-सहिय ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सण्णद्धइँ एम राम[10]-रावण-वलइँ ।
आलग्गइँ णं खय-कालें उ[11]वहि-जलइँ ॥ १०

[३]

[1]भिडियइँ वे वि सेण्णइं जाउ जुज्झु घोरो[2] ।
कुण्डल-कडय-मउड-णि[3]वडन्त-कणय-दोरो ॥ १

हणहणहणकारु महा-रउद्दु [4]छंणछणछणन्त-गुण-सि[5]न्धि-सद्दु ॥ २
करकर[6]यरन्त-कोदण्ड-पयरु थरथरह[7]रन्त-णाराय-णियरु ॥ ३
खणखणख[8]णन्त-तिक्खग्ग-खग्गु हिलिहिलिहिलन्त-हय-चञ्चलग्गु ॥ ४
गुलुगुलुगुलन्त-गयवर-विसालु हणुहणु-भ[9]णन्त-णरवर-वमालु ॥ ५
पु[10]प्फस-वस-णिग्गन्तन्त-मालु धावन्त-कलेवर-सव-करालु ॥ ६
झलझलझलन्त-सोणिय-पवाहु छिज्जन्त-चलण-तुट्टन्त-वाहु ॥ ७
णिवडन्त-सीसु णच्चन्त-रुण्डु[11] ओणल्ल-तुरय-धय-छत्त-द[12]ण्डु ॥ ८
तहिँ तेहएँ रणेँ रण-भर-समत्थु राहव-किङ्करु वर-चा[13]व-हत्थु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

[1]सीहद्धउ धव[14]ल-सीह-सन्दणेँ चडिउ ।
सन्तावणु स[15]हुँ मारिच्चें अब्भिडिउ ॥ १०

[४]

वेण्णि वि सीह-सन्दणा वे वि सीह-चिन्धा ।
वेण्णि वि चाव-करयला वे वि जगेँ पसिद्धा ॥ १

---

8 P S °भंग. 9 P S अक्कोव°. 10 wanting in P S A. 11 A उअहि°.

3. 1 P S read दुवई in the beginning. 2 P S घोरु. 3 A °णिवडंति, P S कडय-डोरु. 4 P S mostly read this and the succeeding onomatopoetic words as ending in °उ. 5 P S °पिंच्छ°. 6 P S करकरकरंतु. 7 P S थरथरथरंतु. 8 P S A खण-खणखणंतु. 9 P S भणंतु. 10 P पोप्फस°, S पप्फस. 11 P S °रुंड. 12 P S °दंड. 13 P S °वारणत्थु. 14 P चवल°; wanting in S. 15 P S सुहु, A सहु.

---

[३] १ नामा शुभद्रः (सुभटः).

वेण्णि वि जस-लुद्ध विरुद्ध कुद्ध   वेण्णि वि वंसुज्जल कुल-विसुद्ध ॥ २
वेण्णि वि सुरवहु-आणन्द-जणण   वेण्णि वि सत्तुत्तम सत्तु-हणण ॥ ३
वेण्णि वि रण-धुर-धोरिय महन्त   वेण्णि वि जिण-सासणेँ भत्तिवन्त ॥ ४
वेण्णि वि दुज्जय जय-सिरि-णिवास   वेण्णि वि [१]पणई-यण-पूरियास ॥ ५
वेण्णि वि णिसियर-णरवर-वरिट्ठ   वेण्णि वि [1]राहव-रावणहँ इट्ठ ॥ ६
वेण्णि वि जु[2]ज्झन्ति सिलीमुहेहिँ   णं गिरि अवरोप्परु सरि-मुहेहिँ ॥ ७
मारिच्चहोँ भय-भीसावणेण   धणु [२]छिण्णु णवर[3] सन्तावणेण ॥ ८
तेण वि तहोँ चिर-पेसिय-सरेहिँ   संसारु व परम-जिणेसरेहिँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

विहिँ मि रणेँ   णिय-णिय-चावइँ चत्ता[4]इँ ।
सप्पुरिसेँहिँ   णं णिग्गुणइँ कलत्ता[5]इँ ॥ १०

[५]

घत्तेँवि धणु[1]वराइँ लइओ गयासणीओ ।
णाइँ कयन्त-दाढओ जग-विणासणीओ ॥ १

णं पिसुण-मइउ दप्पुब्भडाउ   णं असइउ पर-णर-लम्पडाउ ॥ २
णं कुगइउ भय-भी[2]सावणाउ   णं दुम्महिलउ कलहण-मणाउ ॥ ३
णं दिट्ठिउ काल-[3]सणिच्छराहँ   णं [4]कुहिणिउ दूसंवच्[5]छराहँ ॥ ४
णं दित्तिउ पलय-दिवायराहँ   णं [१]वीचिउ खय-रयणायराहँ ॥ ५
तिह लउडिउ भिउडि-[6]भयङ्कराहँ   दासरहि-दसाणण-किङ्कराहँ ॥ ६
रेहन्ति करेँहिँ रयणुज्जलाउ   णं मेह-णियम्बेँहिँ विज्जुलाउ ॥ ७
मु[7]च्चन्तिउ सङ्घट्टन्ति केम्व   गह-घट्टणेँ गह-पन्तीउ जेम्व ॥ ८
णहेँ अमर-विमाणइँ सङ्कियाइँ   [8]गय-घाय-दवग्गि-तिडि[9]क्कियाइँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

मारिच्चेँण   स-[10]रहु स-सारहि स-धउ हउ ।
सण्णूरेँवि   [11]हड्डुहँ पोट्टलु णवर[12] कउ ॥ १०

4. 1 P S रावणराहवहं (S °ह), A °रामणवरिट्ठ. 2 A वंधंति. 3 P S धणु जीउ च्छिण्णु. 4 P S चत्तइं (S °इ). 5 P S कलत्तइ.

5. 1 P S धणुहराइं. 2 P °भीसावणउं. 3 P S °सणिच्छराहु. 4 A कुहिणिउं. 5 P दुट्ठसंमच्छराहुं, S दुट्ठसमच्छराहु. 6 A भिडिउ. 7 P S मुंचंतिउ. 8 P हय° corrected as गय°. 9 P S तडक्कियाइं. 10 P सरहुं. 11 P S हड्डइ. 12 P S तेण किउ.

[४] १ याचकः. २ (P'. S reading) प्रत्यंचा.

[५] १ वेलउ.

[६]

पाडिऍ राम-किङ्करेँ रावण-किङ्करेणं ।
सीहणियम्वु कोक्किओ 'पहिय-णरवरेणं ॥ १

'मरु मरु जिह मणु सइयहेँ वञ्छहि तिह रहु वाहि वाहि किं [1]अच्छहि ॥ २
जाणइ-णयणाणन्द-जणेरा कुद्ध पाय तउ राहव-केरा' ॥ ३
एम भणेवि सरासणि पेसिय असइ व सु-पुरिसेण परिसेसिय ॥ ४
तेण वि सरेँहिँ णिवारिय एन्ती णं पर-तिय आलिङ्गणु देन्ती ॥ ५
पुणु आयामेँवि मुक्क महा-सिल णं पर-णरहोँ [2]पासेँ गय कु-महिल ॥ ६
सीहणियम्वहोँ लग्ग उर-त्थलेँ णिवडिउ मुच्छा-[3]वियँलु रसायलेँ ॥ ७
चेयण लहेँवि पडीवउ उट्ठिउ णहयलेँ धूमकेउ णं [4]दुत्थिउँ ॥ ८
कोव-हुवासण-धगधगमाणें पाहणु जोयणेक्क-परिमाणें ॥ ९

॥ घत्ता ॥

[5]आमेल्लिउ [6]गउ णिय-वेआऊरियउ ।
तें घाऍण पहिउ स-रहवरु चूरियउ ॥ १०

[७]

पाडिऍ पहिय-णरवरे [१]दणु-विमद्दणेणं ।
जरु दहवयण-किङ्करो [1]वरिउ [३]णन्दणेणं ॥ १

अब्भिट्टु जुज्झु जर-णन्द[2]णाहँ अवरोप्परु वाहिय-सन्दणाहँ ॥ २
सुरसुन्दरि-णयणाणन्दणाहँ विड-भड-थड-किय-कडमद्दणाहँ ॥ ३
सामिय-पसाय-[3]सयँ-रिण-मणाहँ वन्दि[4]यँ-जण-अणिवारिय-धणाहँ ॥ ४
कामिणि-घण-थण-परिचड्डणाहँ जयलच्छि-वहुअ-अवरुण्डणाहँ ॥ ५
पडिवक्ख-मडप्फर-भञ्जणाहँ जयवन्तहँ अयस-वि[5]सज्जणाहँ ॥ ६
णिय-सयण-मणोरह-पूरणाहँ उग्गामिय-कोन्त-प्पहरणाहँ ॥ ७
विज्जाहर-करणेँहिँ वावरेवि रुहिरारुणु दारुणु [6]रणु करेवि ॥ ८
चल-[3]चँडुल-पवाहिय-सन्दणेण जरु [7]कहँ वि किलेसें णन्दणेण ॥ ९

6. 1 P S गच्छहिं (S °हि), A अच्छहिं. 2 P S पासु. 3 P S °विहलु. 4 P S उट्ठिउ. 5 A आमेल्लियउ. 6 P राउ.

7. 1 P S घरिउ. 2 Instead of °हं, here and in the following lines, P S read °हुं or °हु. 2 P S कडमद्दणाहु, A °कडवंदणाहं. 3 P S °परिणय°. S (य°). 4 P S वंदिय°. 5 P S °विवज्जणाहुं. 6 P S जुज्झु देवि. 7 A कहेवि किलेसेहिं.

[६] १ नामेणं रामकिंकरेण.
[७] १ सीहनितंबकेन. २ रामकिंकरेण. ३ अतिशीघ्रम्.

॥ घत्ता ॥

णीसेसहुँ सुरहुँ णियन्तहुँ गयण-यलें ।
[8]विणिवाइउ कोन्तेंहिँ भिन्देंवि[9] वच्छ-यलें ॥ १०

[८]

[1]पडिए जर-णराहिवे भीम-पहरणाहुं ।
रणु आलग्गु घोरु [1]अक्कोस-[2]सारणाहुं ॥ १

ते रामण-राम-भिच्च भिडिय णं मत्त महागय ओवडिय ॥ २
णं सीह परोप्परु जणिय-कलि णं भरह-णराहिव-बाहुबलि ॥ ३
णं आसग्गीव-तिविट्ठ णर णं विडसुग्गीव-राम पवर ॥ ४
णं इन्द-पडिन्द विसुद्ध-मण णं ते वि पडीवा वे वि जण ॥ ५
अक्कोसें रोसें मुक्कु सरु णं जिणवरेण भव-गहण-डरु ॥ ६
मउडग्गें [2]लग्गु तहों सारणहों णं कुम्भें वरङ्कुसु वारणहों ॥ ७
तेण वि पडिवक्ख-खयङ्करेंण रयणासव-णन्दण-किङ्करेंण ॥ ८
दुवार-वइरि-ओसारणेंण धणु आयामेप्पिणु सारणेंण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

अक्कोसहों [3]परिवड्ढिय-कलयल-मुहलु[4] ।
सयवत्तु व खुडिउ खुरुप्पें सिर-कमलु ॥ १०

[९]

जं अक्कोसु [1]पाडिओ जय-[2]सिरी-णि[3]वासो ।
रहु दुरिएण वाहिओ [4]सुव-ण[5]राहिवासो ॥ १

ते भिडिय परोप्परु आहयणें दुग्घोट्ट-थट्ट-णिल्लोट्ट-घणें ॥ २
णर-रुण्ड-हड्डु-विच्छड्डु-पहें सन्दाणिय-भग्ग-तडत्ति-रहें ॥ ३
हय-हय-भय-तट्ठ-णट्ठ-गमणें दणु-विन्द-[6]वन्दि-बहु-वि[7]द्दवणें ॥ ४
पडु-पडह-भेरि-गम्भीर-सरें तिक्खग्ग-खग्ग-उग्गिण्ण-करें ॥ ५
धणुहर-टङ्कार-फार-वहिरें सुरवर-सुन्दरि-मङ्गल-गहिरें ॥ ६
तहिँ तेहएँ आहवेँ उत्थरिय दुप्पेच्छ अच्छि-मच्छर-भरिय ॥ ७

8 P जं विणि°. 9 P भिन्नेवि, S भिण्णिवि.

8. 1 P पाडिय, S पाडिए. 2 P S A लग्ग. 3 P S परिवड्ढिय°. 4 P S °सुहलु.

9. 1 P S प्पडिउ. 2 P S °सिरि°. 3 P S °णिवासु, A °णिवासुं. 4 P S सुअ°. 5 P S णराहिवासु, A णराहिवासुं. 6 A °विंद°. 7 A °विद्दमणे.

[८] १ रामकिंकरः. २ रावणकिंकरः.

रहु रहहोँ देवि [1]दुरिएण [2]सुउ सवङ्गिउ असि-[8]पहरेहिँ लुउ ॥ ८
तेण वि खग्गें चलणेहिँ हउ णं सन्धि-विसएँ पय-छेउ किउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

[9]दुरियाहिवु णिय-रहवरेँ ओणल्लियउ ।
दुव्वाएँण तरु जिह भज्जेँवि घल्लियउ ॥ १०

[१०]

[1]दुरियाहिवेँ पलोट्टिए वे वि साणुराया ।
[2]रावण-[3]राम-भिच्च उद्दाम-वग्घ-राया ॥ १

वे वि विरुद्ध कुद्ध वद्धाउस वेण्णि वि [4]उत्थरन्ति जिह पाउस ॥ २
आमेल्लन्ति परोप्परु [5]अत्थइँ [6]दुद्धरँ-दणु-णिद्दलण-समत्थइँ ॥ ३
कु-कलत्ता इव चडुल-सहावइँ कामिणि-णह इव चीरण-भावइँ ॥ ४
दुज्जण-मुह इव विन्धण-सीलइँ विस-हल इव मुच्छावण-लीलइँ ॥ ५
छाइउ णह-यलु पहरण-जालें णं अवुहत्तणु मोह-तमालें ॥ ६
आयामेँवि भुव-फलिह-[7]पइग्घें सरु अग्गेउ विसज्जिउ विग्घें ॥ ७
वारुणु उद्दामें आमेल्लिउ वायवु विग्घयरेण [8]पघल्लिउ ॥ ८
पुणु उद्दामें मुक्कु महीहरु [9]वाणर-वुक्करन्तु सय-कन्दरु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

[10]तं विग्घेँण विग्घु करेप्पिणु समर-मुहेँ ।
मुसुमूरेँवि जीविउ छुद्धु [11]कयन्त-मुहेँ ॥ १०

[११]

जं [1]दारिय महाहवे [2]वावरन्त सिग्घे[3]।
हय-सन्ताव-पहिय-अक्कोस-दुरिय-विग्घे[4] ॥ १

तं एवड्डु दुक्खु पेक्खेप्पिणु[5] रवि अत्थमिउ णाइँ असहेप्पिणु ॥ २
अहवइ णह-पायवहोँ विसालहा सयल-दियन्तर-दीहर-डालहोँ ॥ ३
उवदिस-रङ्खोलिर-उवसाहहोँ सञ्झा-पल्लव-णियर-सणाहहोँ ॥ ४

8 P S °पहरेण. 9 P S A दुरियाहिवो.

10. 1 A °याहवे. 2 P S रामण°. 3 A °राव. 4 P उथरंति, A ओत्थरंति. 5 P S सत्थइ. 6 P दुद्दम°, S दुद्दम°. 7 P पईग्घें, S पईवें. 8 P परिमेल्लिउ, S पमेल्लिउ. 9 P S वाणरु, A वारुण. 10 P S तें. 11 P S कियंत°.

11. 1 P S दारुण. 2 P S वावरंति. 3 A सिग्घं. 4 A विग्घं. 5 A पेक्खेविणु.

[९] १ रामकिंकरेण. २ रावणकिंकरस्य.

वहुवर्व[6] (?)-अब्भ-पत्त-सच्छायहा   गह-णक्खत्त-कुसुम-सङ्घायहों ॥ ५
पसरिय-अन्धयार-भमर-उलहों   तहों आयास-दुमहों [7]वर-विउलहों ॥ ६
णिसि-णारिऍं खुडॅुवि जस-लुद्धऍं   रवि-फलु गिलिउ णाइँ णियसद्धऍं ॥ ७
वहल-तमालें जगु अन्धारिउ   विहि मि [8]वलहँ णं जुज्झु णिवारिउ ॥ ८
वे वि वलइँ वण[9]-[1]णिसुढिय-गत्तइँ   णिय-णिय-आवासहों परियत्तइँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

रावण-घरें   जय-तूरइँ अप्फालियइँ ।
राहव-वलें   मुहइँ णाइँ मसि-मइलियइँ ॥ १०

[१२]

[1]पभणिउ को वि वीरु 'किं दुम्मणो सि देव ।
णिसियर-हरिण-जूहें पइसरमि सीहु जेम' ॥ १

को वि महावलु पर-वलु णिन्दइ   को वि भणइ 'महु कल्लऍं इन्दइ' ॥ २
को वि भणइ 'महु तोयदवाहणु'   को वि भणइ 'स-सूउ महु सारणु' ॥ ३
को वि भणइ 'णउ पइँ जयकारमि   जाम ण कुम्भयण्णु रणें मारमि'॥ ४
को वि भणइ 'हउँ मय-मारिच्चहुँ   भिडमि राहु जिह चन्दाइच्चहुँ' ॥ ५
को वि भणइ 'महु मरइ महोअरु   छुहमि कयन्त-वयणें वज्जोअरु' ॥ ६
को वि भणेइ '[2]करमि तउ पेसणु   पेसमि जम्वुमालि जम-सासणु' ॥ ७
को वि भणइ 'हय-गय-रह-वाहणु   महु आवग्गउ रावण-साहणु' ॥ ८
ताम्व विहाणु भाणु णहें उग्गउ   रयणिहें [3]तणउ गब्भु णं णिग्गउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

आहिण्डेंवि   जगु सयरायरु सिग्घ-गइ ।
सम्पाइउ   णाइँ [4]सं इं भु व णाहिवइ ॥ १०

*

6 P S °धव°. 7 A आयासमहोअरविउ. 8 P S वलेहि. 9 A वल°.

12. 1 P S पभणइ. 2 P S करेमि. 3 A तणउं भंगु. 4 P S सयं.

[११] १ शिथिली[कृत?].

[६४. चउसट्ठिमो संधि]

दणु-दारण-पहरण-हत्थइँ जयसिरि-गहण-समत्थइँ ।
रण-रस-रोमञ्च-[1]विसट्टइँ वलइँ वे वि अब्भिट्टइँ[1] ॥

[१]

अब्भिट्टइँ वे वि स-वाहणाइँ[2] वायरण-पयाइँ[3] व[4] साहणाइँ ॥ १
जिह ताइँ[2] तेम्व हल-सङ्गहाइँ[3] [5]जिह ताइँ तेम किय-[4]विग्गहाइँ ॥ २
जिह ताइँ तेम सन्धिय-सराइँ जिह ताइँ तेम प[5]च्चय-कराइँ ॥ ३
जिह ताइँ तेम [6]उवसग्गिराइँ जिह ताइँ तेम्व जस-मग्गिराइँ ॥ ४
जिह ताइँ तेम पर-लोप्पिराइँ वहु-एक्क-दु-वयण-पजम्पिराइँ ॥ ५
जिह ताइँ तेम्व [7]अत्थुज्जलाइँ परियाणिय-सयल-वलावलाइँ ॥ ६
जिह ताइँ तेम्व णासायराइँ जिह ताइँ तेम वहु-भासिराइँ ॥ ७
अण्णण्ण-सद्द-विण्णासिराइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जिह ताइँ तेम आयरियइँ [6]वाइ-णिवायहुँ चरियइँ ।
[9]दीहर-समास-अहियरणइँ वलइँ णाइँ वायरणइँ ॥ ९

[२]

तहिँ तेहएँ रणेँ रयणीयरासु [1]सद्दूलु वलिउ वज्जोअरासु ॥ १
ते भिडिय चण्ड-कोवण्ड-हत्थ सुर-समर-पवर-धुर-धर-समत्थ ॥ २
पउ [1]अग्गएँ देन्ति ण ओ[2]सरन्ति पहरन्ति ण पहरणु वीसरन्ति ॥ ३
दरिसन्ति मडप्फरु णेय पुट्ठि जीविउ सिढिलन्ति ण चाव-मुट्ठि ॥ ४
मेल्लन्ति वाण ण मुअन्ति धीरु परिहउ रक्खन्ति ण णिय-सरीरु ॥ ५
लग्गइ णाराउ ण कुलेँ कलङ्कु सरु वङ्कइ वयणु ण होइ वङ्कु ॥ ६
गुणु छिज्जइ सीसु ण दुण्णिवारु धउ पडइ ण हियउ ण पुरिसयारु ॥ ७
ओ[3]वुण्ण-तुरङ्गम-धुर-विसट्टु रहु भज्जइ भज्जइ णउ मरट्टु ॥ ८

1. 1 A reads ध्रुवकं at the end. 2 P वेण्णि वि साहणइं, S विण्णि वि साहणाइ, A सवाहणइं. 3 P S A पयाइ. 4 P S साहणइं, S साहणाइ. 5 This pāda is not found in A. 6. P S धाउणिवायह(S °हं) भरियइं(S °इ).

2. 1 P अग्गिं, S अग्गि. 2 P S ऊसरंति. 3 P S उच्चुण्ण.

[१] १ पुलकितानि. २ व्याकरणपदानि. लांगलम्, द्वि (?). ३ ककारादि-हकारपर्यंतो वर्णसमुदायः. ४ पक्षे, समासः. ५ क्रिया-अख्यात-पदं, युद्धानुष्ठानं वा. ६ प्र-परादि. ७ शस्त्रं, शब्दार्थं चिरा (?). ८ उभयत्र न्यासो. ९ दीर्घतरा सम्यक् निश्चिता या आसा(शा) तया अधिकरणोपायो बलयोः अन्यत्र हा (?)षा या वारा द्वंद्वानामधिकरणं व्याकरणं.

[२] १ रामस्य.

॥ घत्ता ॥

पडिवक्खव-पक्खव-पडिकूलहुँ　वज्जोअर-सद्दूलहुँ ।
विहिँ को गरुआरउ किज्जइ　एक्कु[4] वि जिणइ ण जिज्जइ ॥ ९

[३]

एत्तहेँ वि भिउडि[1]-भङ्गुर-वयण　ते[2] वाहुवलिन्द-सीहदमण[3] ॥ १
अब्भिट्ट वे वि वद्धामरिस　गिरिमलय-सुवेलसेल-सरिस ॥ २
हरिदमणेँ[1] 'पहरु पहरु' भणेँवि　सिरेँ मोग्गर-घाएं आहणेँवि ॥ ३
महि-मण्डलेँ पाडिउ वाहुवलि　तोसेण व परिवड्ढन्त[4]-कलि ॥ ४
पुणु चेयण लहेँवि भयङ्करेँण　आरुट्ठें[5] राहव-किङ्करेँण ॥ ५
पडिवारउ आहेँउ[6] मोग्गरेँण　वच्छत्थलेँ णं इन्दीवरेँण ॥ ६
तहिँ तेहएँ कालेँ समावडिय　भड विजय-सयम्भु वे वि भिडिय ॥ ७
रणेँ परिसक्कन्ति भमन्ति किह　चल चञ्चल विज्जुल-पुञ्ज जिह ॥ ८

॥ घत्ता ॥

आयामेँवि रावण[7]-भिच्चेँण　णिय-कुल-णह-आइच्चेँण ।
जट्ठियएँ[8] विजउ विणिभिण्णउँ　पडिउ[9] णाइँ दुमु छिण्णउ ॥ ९

[४]

रणेँ विजउ सयम्भु वि णिहउ जं जेँ　खवियारि[1]-वीर-सङ्कोहेँ[2] तं जेँ ॥ १
अब्भिट्ट परोप्परु पुलइअङ्ग　णं खर[1]-णारायण रणेँ अभङ्ग[3] ॥ २
णं रावणिन्द विप्फुरिय-तुण्ड　णं गन्धहत्थि उद्दण्ड-सुण्ड ॥ ३
एत्थन्तरेँ सुरवरहु[4] मि असक्कु　सङ्कोहें[5] मेल्लिउ पढमु[6] चक्कु ॥ ४
गयणङ्गणेँ तं पजलन्तु जाइ　अत्थइरिहेँ दिणयर-विम्वु णाइँ[7] ॥ ५
खवियारि[8]-णिवहोँ वच्छयलेँ लग्गु　जिह णलिणि-पत्तु तिह तहिँ[9] जि भग्गु ॥ ६
तेण वि पडिवक्खहोँ[10] चक्कु मुक्कु　सङ्कोहहोँ[11] णं जमकरणु ढुक्कु ॥ ७
सिरु खुडिउ मरालेँ जेम कमलु　णं[12] इन्दिन्दिरु रुण्टन्त[13]-मुहलु ॥ ८

4 P S एक्कइ, A एहु विं.

3. 1 A भिडिउ. 2 A तिह. 3 P S °सीहदवण. 4 P S परिवड्डंति, A परिवट्टंतु. 5 P S अइ रुट्ठें. 6 P S आयउ. 7 P S रामण°. 8 A जट्ठिए. 9 P विणिविण्णउ, S विण्णिविण्णउ, A विभिण्णउं.

4. 1 P सविआरि, A सवियार. 2 P S संखोह. 3 P S अहंग. 4 P A सुरवरहुं. 5 P संखोहे, S णं खोहिं. 6 P S A पढम. 7 P S णाइ, A नाइ. 8 P खविअरि, A खविआरि. 9 A तहिं. 10 P S पडिचक्कहो. 11 P S संखोहहो. 12 wanting in P S. 13 P S रुणुरुंटंत°.

[३] १ सीहदवणेन.
[४] १ खरदूसण.

॥ घत्ता ॥

सिरु गयउ कवन्धु जें [२]भण्डइ[14] | [15]मुहु भड-वोक्कें[16] ण छण्डइ ।
णिय-[17]सामिहें पेसणु [18]सरइ | [19]विउ[20]णउ णं भडु [21]पहरइ ॥ ९

[५]

वल-किङ्करु जं[१] [1]सङ्कोहु हउ | धाविउ वितावि तं रणें अजउ ॥ १
'कहिँ गच्छ[2]हि अच्छमि जाम हउँ | रहु वाहेँ वाहेँ सवडम्मुहउ ॥ २
सङ्कोहु जेम घाइउ छलेण | तिह पहरु पहरु णिय-भुव-वलेण' ॥ ३
तं वयणु सुणेंवि किर ओव[3]डइ | विहि-राउ ता[4]म्व तहों अब्भिडइ ॥ ४
ते विहि-[5]वितावि आरुट्ठ-मणा | उत्थरिय स-मच्छर वे वि जणा ॥ ५
णं पलय-कालें पलयम्वुह[6]रा | जिह[२] ते तिह स[३]र-धारा-व[7]यरा ॥ ६
जिह ते तिह प[४]रिचक्कलिय-धणु | जिह ते तिह [५]विज्जुज्जलिय-तणु ॥ ७
जिह ते तिह भीम-णिणाय-क[8]रा | जिह ते तिह सूर[9]-च्छाय-हरा ॥ ८

॥ घत्ता ॥

विहि-राएं अमरिस-कुद्धएँण | अहिणव-जयसिरि-लुद्धएँण ।
पाडिउ वितावि णाराएँण | गिरि जिह वज्ज-णिहाएँण ॥ ९

[६]

जं हउ वितावि तं ण किउ [१]खेउ | कोवग्गि-पलित्तु विसालतेउ ॥ १
विहि-रायहों भिडइ ण भिडइ जाम | हक्कारिउ सम्भु-णिवेण ताम्व ॥ २
ते वे वि परोप्परु अब्भिडन्ति | णं गिरि स[1]-परक्कम ओवडन्ति ॥ ३
एत्थन्तरें [2]सम्भुं ण [3]किउ खेउ | उरें सत्तिएँ भिण्णु विसालतेउ ॥ ४
ओणल्लिउ महियलें विगय-पाणु | णिय-साहणु पेक्खेंवि लोट्टमाणु ॥ ५
सुग्गीउ पधाइउ विप्फुरन्तु | 'लइ वलहों वलहों' समु उत्थरन्तु ॥ ६
णं णिसियर-सेण्णहों[4] मइयवट्टु | णं केसरि मिग-जूहहों विसट्टु ॥ ७
णं तिहुयण-चक्कहों[5] काल-दण्डु | णं जलहर-विन्दहों प[२]लय-चण्डु ॥ ८

---

14 P S भंडणि भिडइ. 15 P A मुहुं. 16 A °वुक्क ण छट्टइ. 17 P S °सामिय. 18 A अणुसरइ. 19 This pāda is missing in P. 20 A विउउणउं. 21 A पहरइं.

5. 1 P S संकोहु, A रणे कोहु. 2 P S कहें (S °हे) गच्छहे. 3 P S ऊवडइ. 4 P S तावि. 5 P S °विताव आ(P अ°)विट्ठमण. 6 P S °वुहरु. 7 P S °वयरु. 8 P S °कर. 9 P S सूरहो छाय°

6. 1 P सपरिक्कम. 2 P संभें, S सं. 3 P किउय, S कियउ. 4 P S सिमिरहो. 5 A °कालहो चक्क°.

---

२ (P'. S reading) संग्रामे.

[५] १ नाम. २ मेघाः. ३ बाणावली, जलधारा च. ४ प्रगुणीकृतम्. ५ विद्यया, विद्युद्(ता) वा.
[६] १ विलंबु. २ प्रलयवायुः.

॥ घत्ता ॥

विज्जाहर-वंस-पईवहों भिडमाणहों सुग्गीवहों ।
थिउ अन्तरें वाहिय-सन्दणु ताम पहञ्जण-णन्दणु ॥ ९

[७]

हणुवन्तें वुच्चइ 'माम माम तुहुँ अच्छहि जहिँ सोमित्ति-राम ॥ १
हउँ एक्कु पहुच्चमि णिसियराहुँ जिह गरुडु असेसहुँ विसहराहुँ ॥ २
जिह धूमकेउ जगेँ णरवराहुँ पलयाणलु जिह जर[2]-तरुवराहुँ ॥ ३
जिह [१]पलय-पहञ्जणु जलहराहुँ सुर-कुलिस-दण्डु जिह गिरिवराहुँ ॥ ४
[२]वॅलु णं वणु भञ्जमि रसमसन्तु वंसुज्जल-मूल-तरुक्खणन्तु ॥ ५
रयणीयर-तरुवर णिद्दलन्तु भुव-दण्[4]ड-चण्ड-डा[5]लाहणन्तु ॥ ६
सुललिय-करयल-पल्लव लुलन्तु णक्खावलि-कुसुम समुच्छलन्तु ॥ ७
धय-छत्तइँ पत्तइँ विक्खिरन्तु णरवर-सिर-फल-[6]सहसइँ खुडन्तु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

गलगविज्जेँ [३]अञ्जण-णन्दणु स-[7]कवउ स-गउ [8]स-सन्दणु ।
पर-वलेँ पइसरइ महवलु विञ्झेँ जेम दावाणलु ॥ ९

[८]

पढम-[1]भिडन्तें तेण [१]वाइणा वासुएव-[2]वल-पक्खवाइणा ॥ १
हयवरेण णवराहओ हओ गयवरेण जो आगओ गओ ॥ २
रहवरेण [२]खय-सूरहो रहो धयवडेण [3]जस-लुद्धओ धओ[4] ॥ ३
[5]णरवरेण वयणुब्भडो भडो पर-सिरेण पर-संसिरं[6] सिरं ॥ ४
करयलेण सु-भयङ्करो करो भड-कमेण स-प[7]रक्कमो कमो ॥ ५
दारुणं कयं एव [३]सञ्जुयं हड्ड-रुण्ड-वि[8]च्छड्ड-[४]सञ्जुयं ॥ ६
[५]सुहड-सुहड-[६]सन्दाणवन्त[9]यं [७]घोर-मारि-सन्दाणवन्तयं ॥ ७
जत्थ तत्थ अत्थमिय-सूरयं णिसि-णहं व अत्थमिय-सूरयं ॥ ८

7. 1 A has °हं (°ह) everywhere. 2 P S जरु. 3 P S वंसुज्जलु मूलु. 4 P S °चंडु. 5 A पलया°. 6 P °साहइ. 7 P S सकउ. 8 P S सहसंदणु.

8. 1 P S पइसरंतेण. 2 P ° वलएव°, S °वलयेव°. 3 S जमलुद्धवो. 4 wanting in S. 5 The portion beginning from this and ending with °क्कमो in line 5 is wanting in S. 6 P अवरं सिरं. 7 A सुयरक्खमो. 8 P °विच्छिड्ड°, S °संकयज्जुयं. 9 P S °वंतइं.

[७] १ प्रलयकाल-वातः. २ बलमेव नन्दनवनम्. ३ हनूसंतः.

[८] १ हनूमंतेण. २ प्रलयकालसूर्यः. ३ संग्रामं. ४ संयुक्तं. ५ सुभटा, सद्घटाश्च रथाश्च. ६ 'संदा' रथाश्च, 'आणा' घोटकाश्च. ७ रौद्रमार्या संदानं रोधनं विद्यते यत्र.

छिण्ण-वाहु-णिब्भिण्[10]ण-वच्छयं काणणं व ओणल्ल-वच्छयं ॥ ९
[८]णिरसि पाणि [९]णीविक्कमं थियं खीर-जलहि-सलिलं व मन्थियं ॥ १०

॥ घत्ता ॥

जं हणुवहोँ वलु आलग्गउ लीलएँ जिम्व [11]तिम्व भग्गउ ।
सवड[12]म्मुहु वज्जिय-सङ्कउ एक्कु मालि पर थक्कउ ॥ ११

[९]

थक्कन्तें कोक्किउ पवण-पुत्तु ‘किं कायरेहिँ स[1]हुँ भिडेंवि जुत्तु ॥ १
वलु वलु सामीरणि देहि जुज्झु मइँ मुऍवि मल्लु को अण्णु तुज्झु ॥ २
तुहुँ रामहोँ हउँ रामणहोँ दासु जिह तुहुँ तिह हउ मि महि-[2]पगासु ॥ ३
छुडु [3]एक्कु [4]मं मइलउ ‘णियय-वंसु जसु [5]रुच्चइ जय-सिरि हो[6]उ तासु’ ॥ ४
तं णिसुणेंवि उववण-मद्दणेण दोच्छिउ पवणञ्जय-णन्दणेण ॥ ५
‘तुहुँ कवणु गहणु [7]मइँ दुज्जएण हणुवन्त-कयन्तें कुद्धएण ॥ ६
किं ण सुअउ खउ वज्जाउहासु उज्जा[8]ण-भङ्गु किङ्कर-विणासु ॥ ७
अक्खहोँ कयन्तु पट्टणहोँ केउ हउँ सो जें पडीवउ अञ्जणेउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

रहु वाहि वाहि सवडम्मुहु पहरु पहरु[9] लइ आउहु ।
हउँ पइँ घाएण जि मारमि पहिलउ तेण ण पहरमि’ ॥ ९

[१०]

तं णिसुणेंवि [1]मालिं ण किउ खेउ सर-जालें छाइउ अञ्जणेउ ॥ १
णं सुअणु अणेऍहिँ दुज्जणेहिँ णं पाउसें दिणयरु णव-घणेहिँ ॥ २
हणुवेण वि सर अट्ठ-उण मुक्क पसरन्त हणन्त[2] दियन्त ढुक्क ॥ ३
आयासें ण मन्ति ण धरणि-वीढें ण धयग्गें ण रहवरें [3]हय-[4]पगीढें ॥ ४
अग्गलें पच्छलें अ-परिप्पमाण जउ जउ जें दिट्ठि तउ तउ जि वाण ॥ ५
ओसरिउ मालि णिविसन्तरेण र[5]हुँ दिण्णु ताम्व वज्जोअरेण ॥ ६
हक्कारिउ अहिमुहु पवण-जाउ ‘कहिँ जाहि पाव खय-कालु आउ ॥ ७
एत्तडेण जि तुज्झु मरट्टु जाउ जं भग्गु भिडन्तें मालि-राउ ॥ ८

10 P S °णिच्छिण्ण°. 11 P जें तें, S जं तें. 12 P A सवडम्मुहुं, S सवडम्मुह.
9. 1 P S समु. 2 P महिहे प°, S महिहि प°. 3 A एक्क. 4 P S ण. 5 A रुच्चउ. 6 P होइ. 7 P S A मइ. 8 P S उज्जाणु भग्गु, A उज्जाणं गुभं. 9 P पहरि पहरि, S पहरे पहरे.
10. 1 P S मालें. 2 P S दियं(P. °अं)त हणंत. 3 A भय°. 4 P एगीढे. 5 P S रणु.

८ असिरहितं हस्तम्. ९ निर्गतविक्रमम्.
[९] १ निजवंशं यथा.

॥ घत्ता ॥

हउँ वज्जोयरु भड-[6]मद्दणु   तुहुँ पवणञ्जय-णन्दणु ।
[7]अब्भिडहुँ वे वि भय-भासुर रणु पेक्खन्तु सुरासुर' ॥ ९

[११]

ते विण्णि वि गलगज्जन्त एम्व   मुक्कङ्कुस मत्त-[1]गइन्द जेम्व ॥ १
अब्भिट्ट महाहवेँ अतुल-मल्ल   पडिवक्ख-पक्ख-'णिक्खन्त-सल्ल ॥ २
[3]अहि[2]माण-अणुब्भड सुद्ध-वंस   सङ्गाम-सएँहिँ लद्ध-प्पसंस ॥ ३
तो णवर समीरण-णन्दणेण   [3]खर-सूर-समप्पह-सन्दणेण ॥ ४
विहिँ सरेँहिँ [3]सरासणु छिण्णु तासु   णं हियउ खुडिउ वज्जोयरासु ॥ ५
किर अवरु चाउ करेँ चडइ जाम्व   सय-खण्ड-खण्डु रहु कियउ ताम्व ॥ ६
जाम[4]ण्ण-महारहेँ चडइ वीरु   धणुहरु वि [5]ताँवँ किउ हय-सरीरु ॥ ७
त[6]इयउ कोवण्डु ण लेइ जाम   [7]वीओ' वि महारहु छिण्णु ताम ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तो वि णिसि[8]यरु जुज्झ-पि[9]यारउ   वि-रहु कियउ वे-वारउ ।
पुणु [10]पच्छलेँ वाणेँहिँ सल्लिउ   महिहरु जिह ओणल्लिउ ॥ ९

[१२]

जं हउ वज्जोअरु भग्गु मालि   तं स-रहसु धाइउ जम्बुमालि ॥ १
मन्दोअरि-णन्दणु दणु-विणासु   [1]सउ सीहहुँ रहेँ [2]संजुत्तु तासु ॥ २
ते वि[3]यड-दाढ ओ[4]रालि-वयण   उद्धुसिय-केस णिट्ठुरिय-णयण ॥ ३
कन्धर-वलग्ग-लङ्गूल-दण्ड   णह-णियर-भयङ्कर चलण-चण्ड ॥ ४
आएँहिँ करि-कुम्भ-वियारणेहिँ   जसु उज्झइ रहु पञ्चाणणेहिँ ॥ ५
सो जम्बुमालि मरु-णन्दणासु   गिव्वारवण-वण-मद्दणासु ॥ ६
आलग्गु सु-करयलेँ करेँवि चाउ   सु-कलत्तु जेम्व जं सु-प्पणाउ ॥ ७
तं आयामेँवि वहु-मच्छरेण   णाराउ विसज्जिउ णिसियरेण ॥ ८

6 P S °कडमद्दणु. 7 P अब्भिडहं, S अब्भिडह.

11. 1 P °गइंदु, S °गयंदु. 2 A अहिमाणि. 3 P खर° corrected as खय°, S खय. 4 P S जा क्षण्ण°, A जामन्न°. 5 S भावं किउ, A ताव किउ. 6 P तइअउं. 7 P S वीयउ. 8 P S णिसायरु. 9 S °पियरउ. 10 P पच्छलिं, S पच्छलें.

12. 1 P S सहु, A सय. 2 A संजुत्त. 3 P विडिय°, S भिडिय°. 4 P ओरालिय°, S उरालिय°.

[११] १ आरोपित्त-सल्ल. २ प्रमाणसहित (?). ३ धनुष्यस्य विशेषणमेतद् (?).

॥ घत्ता ॥

जण-णयणाणन्द-जणेरउ   धउ [5]हणुवन्तहोँ केरउ ।
विन्धेप्पिणु महियलेँ पाडिउ   णह-सिरि-हारु व तोडिउ ॥ ९

[१३]

जं छिण्णु महद्धउ दुद्धरेण   तं पवण-सुएण धणुद्धरेण ॥ १
दो दीहर वर-णाराय मुक्क   रिउ-रहवर-वीढासण्ण ढुक्क ॥ २
एक्केण कवउ एक्केण चाउ   विद्धंसिउ णाइँ जिणेण पाउ ॥ ३
सण्णाहु अण्णु परिहेँवि भडेण   धणुहरु वि[1] लेवि विहडप्फडेण ॥ ४
हणुवन्तु विद्धु दीहर-सरेहिँ   णं कोमल-दल-इन्दीवरेहिँ ॥ ५
हणुवेण वि मेल्लिउ अद्धयन्दु   अइ-दीहरु णाइँ समास-दण्डु ॥ ६
उज्जोत्तिय तेण समत्थ सीह   मत्ते[१]भ-कुम्भ-[२]मुत्ताहलीह ॥ ७
जगडन्त पहिण्डिय [2]वलु असेसु   ओहाइय हय-गय-णरवरेसु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

[3]उद्धुय-[4]लङ्गूल-पईहेँहिँ   [5]वलु खज्जन्तउ सीहेँहिँ ।
णासइ भय-वेविर-गत्तउ   अवरोप्परु लोट्टन्तउ ॥ ९

[१४]

वलु सयलु वि किउ भय-विहलु जाम्व हणुवन्तु [1]दसाणणेँ भिडिउ ताम ॥ १
पञ्चाणण-सन्दणु [१]पमय-चिन्धु   थिउ उड्डेँवि रण-भर-धुरहेँ खन्धु ॥ २
सो जुज्झमाणु जं दिट्ठु तेण   सण्णाहु लइउ लङ्काहिवेण ॥ ३
[2]रण-रहसु[3]च्छलियहोँ उरेँ ण माइ   सुहि-[4]सङ्गमेँ [5]गरुअ-सणेहु [6]णाइँ ॥ ४
पुणु दुक्खु दुक्खु आइद्धु अङ्गेँ   सीसक्कु करेप्पिणु उत्तमङ्गेँ ॥ ५
आयामिउ धणुहरु लइउ वाणु   पारद्धु समरु हणुवें समाणु ॥ ६
तहिँ तेहएँ कालेँ धणुद्धरेण   रहु अन्तरेँ दिण्णु महोअरेण ॥ ७
हक्कारिउ मारुइ 'थाहि थाहि   सवडम्मुहु रहवरु वाहि वाहि' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं [7]सुणेँवि महोअरु जेत्तहेँ   रहवरु वाहिउ तेत्तहेँ ।
उत्थरिय वे वि समरङ्गणेँ   णं खय-मेह णहङ्गणेँ ॥ ९

---

5 P S हणुवंतउ.

13. 1 A वलेवि. 2 P S जगु. 3 P S उद्धूय°, A उद्धुणंत°. 4 P S °णंगूल°. 5 S वहु.

14. 1 P A दसाणणि. 2 A रणे. 3 P S °च्छलियउ. 4 A °संभवे. 5 P S गुरु वि. 6 P S A णाइ. 7 P सुणिवि, S णिसुणि, A निसुणेवि.

---

[१३] १ हस्ती. २ मुक्ताफलेच्छा.

[१४] १ वानर.

[१५]

हणुवन्तें महोअरु भिडिउ जाम   सो जम्बुमालि सम्पत्तु ताम्व ॥ १
सञ्जोत्तेंवि रहवरें सयल सीह   उद्दण्ड चण्ड लङ्गूल[2]-दीह ॥ २
सहुँ तेण पराइउ मल्लवन्तु   धुन्धुरु धूमक्खु[3] कयन्तदन्तु ॥ ३
हालाहलु विज्जुलु[4] विज्जुजीहु   भिण्णञ्जणु[5] पहु भुअ-फलिह-दीहु ॥ ४
जमहण्टु[6] जमाणणु कालदण्डु   विहि डिण्डिमु डम्बरु[7] डमरु चण्डु ॥ ५
कुसुमाउहु अक्कु मयङ्कु सक्कु   खवियारि सम्भु[8] करि मयरणक्कु ॥ ६
सुउ सारणु मउ मारिच्चि[9]-राउ   वीभच्छु[10] महोअरु भीमकाउ ॥ ७
आऍहिँ लङ्काहिव-किङ्करेहिँ   वेढिउ हणुवन्तु भयङ्करेहिँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जें सव्वेंहिँ लइउ अखत्तें[11]ण   हणुवें हरिसिय-गत्तेंण ।
आयामिय समरें[12] पचण्डेंहिँ   वइरि सं[13] इं भु व-दण्डेंहिँ ॥ ९

*

[६५. पंचसट्ठिमो संधि]

हणुवन्तु रणें   परिवेढिज्जइ   णिसियरेंहिँ ।
णं गयणयलें   बाल-दिवायरु   जलहरेंहिँ[1] ॥

[१]

पर-बलु अणन्तु हणुवन्तु एक्कु   गय-जूहहों णाइँ मइन्दु थक्कु ॥ १
आरोक्कइ कोक्कइ सम्मुहु[2] थाइ[3]   जहिँ जहिँ जें थट्टु तहिँ तहिँ जें धाइ ॥ २
गय-घड भड-थड भञ्जन्तु जाइ   वंसत्थलें लग्गु दवग्गि णाइँ ॥ ३
एक्कु रहु महाहवें रस-विसट्टु   [4]परिभमइ णाइँ वलें मइयवट्टु ॥ ४
सो ण वि भडु जासु ण मलिउ माणु   [4]सो ण वि धउ जासु ण लग्गु वाणु ॥ ५
[4]सो ण वि पहु जासु ण कवउ छिण्णु   सो ण वि गउ जासु ण कुम्भु भिण्णु ॥ ६
सो ण वि तुरङ्गु जसु गुडु ण तुट्टु   सो ण वि रहु जसु ण रहङ्गु फुट्टु ॥ ७
सो ण वि भडु जासु ण छिण्णु गत्तु   तं[5] ण वि विमाणु जं[6] सरु ण पत्तु ॥ ८

15. 1 P S हणुवंतमहोयर भिडिय जाव. 2 P S णंगूल°. 3 P S धुमुक्खकियंत°. 4 P S विज्जुल, A लु. 5 A भिन्नंजणपहुं. 6 P जमदंडु, S जमदंडू. 7 P S डामरु डमर. 8 A संतु. 9 P S मारिच्चु. 10 A भीमच्छु. 11 P अखत्तेहिं. 12 P S समर. 13 P S सयं.

1. 1 A reads ध्रुवकं at the end. 2 P A सम्मुहुं. 3 A थाइं. 4 This pāda is wanting in A. 5 P तन्नवि. 6 P S जहि.

॥ घत्ता ॥

जगडन्तु वलु मारुइ हिण्डइ जहिँ जेँ जहिँ ।
सङ्गाम-मंहि[7] रुण्ड-णिरन्तर तहिँ जेँ तहिँ ॥ ९

[२]

जं जिणेँवि ण सक्किउ वर-भडेहिँ वेढाविउ मारुइ गय-घडेहिँ ॥ १
गिरि-सिहर-गहिर-कुम्भत्थलेहिँ अणवरय-गलिय-गण्डत्थलेहिँ ॥ २
छप्पय-झङ्कार-मणोहरेहिँ घण्टा-टङ्कार-भयङ्करेहिँ ॥ ३
तण्डविय-कण्ण[1]-उद्धुअं[2]-करेहिँ मुक्कङ्कुसेहिँ मय-णिब्भरेहिँ ॥ ४
जं वेढिउ रणेँ[3]-मुहेँ पवण-जाउ तं धाइउ[4] कइधय-भड-णिहाउ ॥ ५
जहिँ जम्वउ णीलु सुसेणु हंसु गउ गवउ गवक्खु विसुद्ध-वंसु ॥ ६
सन्तासु विराहिउ सूरजोत्ति पीइंकरु[5] किङ्करु लच्छिभुत्ति ॥ ७
चन्दप्पहु चंन्दमरीचि[6] रम्भु सद्दूलु विउलु कुलपवणथम्भु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

आएँहिँ भडेँहिँ मारुइ उवेड्ढावियउ ।
णं णिय-गुणेँहिँ जीउ व भंव[7] मेलावियउ ॥ ९

[३]

रण-रसिएँहिँ वेहाविद्धएहिँ पेल्लिउ पडिवक्खु कइद्धएहिँ ॥ १
णासइ विहडप्फडु गलिय-खग्गु चूरन्तु परोप्परु चलण-मग्गु ॥ २
भज्जन्तउ पेक्खेँवि णियय-सेण्णु रावणु जयकारेँवि कुम्भयण्णु ॥ ३
धाइउ भय-भीसणु भीम-काउ णं राम-वलहोँ खय-कालु आउ ॥ ४
परिसक्कइ रण-भूमिहेँ ण माइ गिरि मन्दरु थाणहोँ चलिउ णाइँ[1] ॥ ५
जउ जउ जेँ स-मच्छरु देइ दिट्ठि तउ तउ जेँ पडइ णं पलय-विट्ठि[2] ॥ ६
कोँ वि वाएं कोँ वि भिउडिएँ पणट्ठु कोँ वि ठिउ अवठम्भेँवि धरणि-वट्ठु[3] ॥ ७
कोँ वि कहेँ[4] वि कडच्छएँ णिरु[5] '[6]णिलुक्कु कोँ वि' दूरहोँ जेँ पाणेँहिँ विमुक्कु[7] ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सुग्गीव-वलेँ गरुअउ हुअउ हलंप्फलउ[8] ।
णं अंग्गहरें[9] हत्थि पइट्ठउ राउलउ ॥ ९

7 P हिहे.

2. 1 A कण्णउ. 2 P S उद्धं. 3 A रणउहे. 4 P S आउ कइद्धय°. 5 P S पीयंकरु. 6 P S चंदु. 7 P मलहं, S मलह.

3. 1 P S A णाइ. 2 A °विहि. 3 P S °वीट्टु. 4 A कहो. 5 P S णरु, A निरु. 6 wanting in P S. 7 P S मुक्कु. 8 P S हल्लोहलउ; P marginally gives हलप्फलउ. 9 S अंगरे.

[२] १ लिहकिनः (?)

[४]

उव्वेढाविउ हणुवन्तु जेहिँ   णउ सक्किउ वयणु वि[1] णिऍवि तेहिँ ॥ १
परिचिन्तिउ 'लइँ[2] आइउ विणासु   कियँ[3](?) वलु जेँ करेसइ एक्कु गासु' ॥ २
तहिँ अवसरेँ धाइउ अमियविन्दु   दहिमुहु माहिन्दु महिन्दु इन्दु ॥ ३
रइवद्धणु णन्दणु कुमुउ कुन्दु   मइकन्तु महोवहि मइसमुद्दु ॥ ४
कोलाहलु तरलु तरङ्गु तारु[4]   सुग्गीउ[5] अङ्गु अङ्गयकुमारु ॥ ५
सम्मेउ सेउ ससिमण्डलो वि   चन्दाहु कुन्दु[6] भामण्डलो वि ॥ ६
पिहुमइ वसन्तु वेलन्धरो वि   वेलच्छु सुवेलु[7] जयन्धरो वि ॥ ७
आयामेँवि[8] वइरिहि तणउ सेण्णु   समकण्डिउ सव्वेँहिँ कुम्भयण्णु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

एक्कल्लऍण   तो वि चलन्तेँ सम्मुहेँण ।
वलु तासियँउ[9]   गय-जूहु व पञ्चाणणेँण ॥ ९

[५]

जं खत्तु मुएवि कइद्धएहिँ   समकण्डिउ वेहाविद्धएहिँ ॥ १
तहिँ कइकसि-णयणाणन्दणेण[1]   रूसेँवि रयणासव-णन्दणेण ॥ २
दारुणु थम्भण-मोहण-समत्थु   पम्मुक्कु[2] '[१]दंसणावरण-अत्थु ॥ ३
सोवाविउ साहणु सयलु तेण   णं जगु अत्थन्तेँ दिणयरेण ॥ ४
को वि घुम्मइ को वि सरीरु वलइ   कासु वि किवाणु करयलहोँ गलइ ॥ ५
घुरुहुरइ[3] को वि णिद्दाऍ भुत्तु[4]   को[5] वि गब्भन्तरेँ णरु णाइँ सुत्तु[6] ॥ ६
एत्थन्तरेँ किक्किन्धाहिवेण   पडिवोहणत्थु पम्मुक्कु[7] तेण ॥ ७
उम्मोहिउ उट्ठिउ वलु तुरन्तु   'कहिँ कुम्भयण्णु वलु वलु[8]' भणन्तु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सवडम्मुहउ[9]   पुणु वि पडीवउ धावियउ ।
णं उवहि-जलु   महि रेल्लन्तु पराइयउ ॥ ९

4. 1 wanting in P S. 2 A सइ. 3 S किं. 4 P तालु. 5 A सुग्गउ. 6 P S कुंदु. 7 P S सवेलु. 8 P S आएहिं (S °यहि) आयामेवि वइरिसेण्णु. 9 P णासिउं, S णासिउ.

5. 1 P S °णंदणेहिं (S °हि). 2 P पमुक्क, S पम्मुक्क, A पमुक्कु. 3 P S घुरहुरइ. 4 A भत्तु. 5 P S को (S कु)इ गब्भब्भंतरे णाइ. 6 A सत्तु. 7 P आमुक्कु, S आमुक्क. 8 A वण्णु. 9 P S सवडम्मुहु, A सवडम्मुहउं.

[५] १ दृष्टि-आवरण.

[६]

पर-वलु णिएवि रणें उत्थरन्तु[1]	लङ्काहिवेण थरथरहरन्तु[2] ॥ १
करें कड्ढिउ णिम्मलु चन्दहासु	उग्गमिउ णाइँ[3] दिणयर-सहासु ॥ २
रिउ-साहणें भिडइ[4] ण भिडइ जाम[5]	सोण्डीर वीर णर तिण्णि ताम्व[6] ॥ ३
इन्दइ-घणवाहण-वज्जणक्क	सिर-णमिय-कियञ्जलि-हत्थ थक्क ॥ ४
'अम्हेँहिँ जीवन्तेँहिँ किङ्करेहिँ	तुहुँ अप्पणु पहरहि[7] [१]'किं करेहिँ' ॥ ५
सामिउ सम्माणेँवि वद्ध-कोह	तिण्णि मि समरङ्गणेँ भिडिय जोह ॥ ६
चण्डोअर-तणयहोँ वज्जणंकु[8]	घणवाहँणु[9] भामण्डलहोँ थक्कु[10] ॥ ७
इन्दइ सुग्गीवहोँ समुहु वलिउ	णं मेरु महोअहि [२][11]महँहुँ चलिउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

णरु णरवरहोँ	तुरयहोँ तुरउ समावडिउ ।
रहु रहवरहोँ	गयहोँ महग्गउ[12] अब्भिडिउ ॥ ९

[७]

संजुऍ[१] जय-लच्छि-पसाहणेण	[२]तिहुअणकण्टय-गय-वाहणेण ॥ १
हंकारिउ[1] सुरवइ-मद्दणेण	सुग्गीउ दसाणण-णन्दणेण ॥ २
'खल खुद्द पिसुण कइ-केउ[३] राय	लङ्काहिव-केरा कुद्ध पाय ॥ ३
जिह रावणु[2] मेल्लेंवि धरिउ रामु	तिह पहरु पहरु तउ लुहमि णामु' ॥ ४
तं णिसुणेंवि किक्किन्धेसरेण	विज्जाहर-णर-परमेसरेण ॥ ५
णिब्भच्छिउ इन्दइ 'अरें कु-मल्ल	को तुहुँ को रावणु कवणु(?)वोल्ल' ॥ ६
दोच्छन्त परोप्परु भिडिय वे वि	सुं-पंणामइँ[3] चावइँ करेंहिँ लेवि ॥ ७
दीहर-णाराऍहिँ उत्थरन्त	णं पलय-जलय णव-जलु[4] मुअन्त ॥ ८

॥ घत्ता ॥

विहिँ[5] मि जणेंहिँ	छाइउ गयणु महासरेंहिँ ।
णव-गब्भिणेंहिँ	पाउस-कालें व जलहरेंहिँ ॥ ९

6. 1 P S समुत्थरंतु. 2 P S थरहरथरंतु, A थरथरहंतु. 3 P S णाइ, A नाइ. 4 A भिडउ न भिडउ. 5 P जावं. 6 P तावं. 7 A पहरणु. 8 A वज्जकण्णु. 9 P S घणुवाहणु. 10 A क्षण्णु. 11 S A सहहु. 12 A महागउ.

7. 1 A तहिं अवस सिर णंदणेण कोक्किउ सुरवइसुउ मद्दणेण. 2 P रामणु. 3 P S सुपणामइ, A सुपणावइ. 4 A °जल. 5 P वेहिं, S वेहि.

[६] १ किं हस्तैः. २ मंथने.

[७] १ संग्रामे. २ त्रिभुवनकंटको नाम रावणस्य हस्ती संवाहनो यस्य. ३ पताका. ४ विख्यात (?).

[८]

दुद्दम-दणुवइ-दारण-समत्थु इन्दइणामेल्लिउ वारुणत्थु[१] ॥ १
अत्थक्कऍं सुर-धणु पायडन्तु गज्जन्त-जलउ तडि[२]-तडयडन्तु ॥ २
अणवरउ णीर-धारउ मुअन्तु अहिणव-कलाव-केक्कार-देन्तु ॥ ३
तं पेक्खेंवि तारावइ[३] पलित्तु धूमद्धउ णं मारुऍण[४] छित्तु ॥ ४
वायव-सरु सुग्गीवेण मुक्कु णं पलय-कालु पर-बलहों ढुक्कु ॥ ५
वाओलि[1] धूलि पाहण मुअन्तु धय-छत्तदण्ड[2]-दण्डुड्डुवन्तु[3] ॥ ६
दुग्घोट्ट-थट्ट लोट्टन्तु सव्व मोडन्तु महारह अतुल-गव्व ॥ ७
दुव्वाउ आउ जं वलॅ[4]-विणासु तेण वि आमेल्लिउ णाग-वासु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सुग्गीउ रणें वेढिउ पवर-सरेण किह ।
वलवन्तऍण णाणावरणें जीउ जिह ॥ ९

[९]

किक्किन्ध-णराहिउ धरिउ जाम घणवाहण-भामण्डलहँ ताम ॥ १
अब्भिट्टु[1] परोप्परु जुज्झु घोरु [१]सरि-सोत्त[2]-सउत्तर[3]-पहर-थोरु ॥ २
छिज्जन्त-महग्गय-गरुअ-गत्तु[4] णिवडन्त-समुद्धुय-धवल-छत्तु[5] ॥ ३
लोट्टन्त-महारह-हय-रहङ्गु[6] घुम्मन्त-पडन्त-महातुरङ्गु ॥ ४
फुट्टन्त[7]-कवउ तुट्टन्त-खग्गु णच्चन्त-कवन्धय-असि-करग्गु ॥ ५
आयामेंवि रणें रोसिय-मणेण अग्गेउ मुक्कु घणवाहणेण ॥ ६
आमेल्लिउ आइउ धगधगन्तु अङ्गार-वरिसु णहें दक्खवन्तु ॥ ७
वारुणु[8] विमुक्कु भामण्डलेण णं गिरिहिं वज्जु आखण्डलेण ॥ ८
उल्हाविउ जलणु जलेण जं जें सरु णाग-पासु पम्मुक्कु तं जें ॥ ९

॥ घत्ता ॥

[२]पुप्फवइ-सुउ दीहर-पवर-महासरेंहिं ।
परिवेढियउ मलयधरेन्दु[9] व विसहरेंहिं ॥ १०

---

8. 1 P S वाउलि. 2 P S °दंडु. 3 A °डुद्दवंतु. 4 P S वले.

9. 1 P S A अब्भिट्ट. 2 A सरसुत्त°. 3 P S °सउत्तरे. 4 A गरुयत्त. 5 A °छत्त. Similarly up to line 5, A has forms ending in °अ. 6 A °तुरंग. 7 S तुट्टंत°. 8 A वारुणों. 9 P मलयदु, S मलयगइंदु.

---

[८] १ मेघ-बाणु. २ विद्युत्. ३ सुग्रीवः. ४ पवन.
[९] १ नदीप्रवाह यथाग्रेऽग्रेऽतीवबस्छोत्तरोत्तर (?). २ भामंडलः.

[१०]

जं जिउ तारावइ पवर-भुउ   अण्णु वि भामण्डलु जणय-सुउ ॥ १
तं भग्गु असेसु वि राम-बलु   णं पवण-गलत्थिउ उवहि-जलु ॥ २
एत्तहें वि[1] ताम[2] समावडिय   मरुणन्दण-कुम्भयण्ण[3] भिडिय ॥ ३
पहरन्तहुँ[4] वइरि-वियारणइँ[5]   [6]णिट्ठियइँ अणेयइँ पहरणइँ ॥ ४
पुणु [1]बाहाउद्धें लग्ग किह   उद्दण्ड-सोण्ड [2]वेयण्ड जिह[7] ॥ ५
हणुवन्तु लइउ रयणीयरेंण   णं मेरु-महागिरि [3]जिणवरेंण ॥ ६
चरणेहिँ[8] धरेंवि उच्चाइयउ   णं गिरि-सिहरेण चडावियउ ॥ ७
पुणु लङ्का-णयरिहिँ उच्चलिउ   [4]तारा-तणएण ताम खलिउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

धुत्तत्तणेंण   सम[9]र-सएहिँ अहङ्कऍण ।
णीसङ्कु जिह   रिउ विवत्थु किउ अङ्गऍण ॥ ९

[११]

जं किउ [1]विवत्थु रणेँ रयणियरु   तं लग्गु हसेवऍ सुर-णियरु ॥ १
रावण-अन्तेउरु लज्जियउ   थिउ[2] वङ्क-वयणु दिहि-वज्जियउ ॥ २
[2]सन्थवइ जाम्व णिय-परिहणउ[3]   मारुइ विमाणु गउ अप्पणउ[4] ॥ ३
तहिँ अवसरेँ भड-भञ्जण-मणेँण   जयकारिउ रामु[5] विहीसणेण ॥ ४
'मइँ देव भिडन्तउ पेक्खु रणेँ   जिह जलणु जलन्तउ सुक्क-वणेँ ॥ ५
जइ मइलमि वयणु ण पर-बलहोँ   तो पइसमि धूमद्धऍ[6] सलहोँ' ॥ ६
गलगज्जेंवि एम [3]णिसायरेंण   किउ करेँ कोवण्डु अ-कायरेण ॥ ७
सण्णाहु लइउ रहवरेँ चडिउ   रावण-णन्दणहोँ गम्पि भिडिउ ॥ ८
हक्कारइ पहरइ णिन्दइ वि   पणवइ[7] घणवाहणु इन्दइ वि ॥ ९
'तुहुँ अम्हहँ वन्दण-जोग्गु किह   तिहिँ सञ्झहिँ परम-जिणिन्दु जिह ॥ १०

॥ घत्ता ॥

जो जणण-समु   तहोँ किं पावें चिन्तिऍण ।
किर कवणु जसु   जुज्झन्तहुँ सहुँ पित्तिऍण' ॥ ११

---

10. 1 wanting in A. 2 P S ताव तामसि चडिय. 3 A मरुणंदणु कुंभयण्णु. 4 P S पहरंतहु, A पहरंतउ. 5 P S °वियारणाइ. 6 P णिट्ठविय अणेयइं पहरणाइं, S णिट्ठविया अणेयइ पहरणाइ. 7 A मुह. 8 P S चलणेहिं (S°हि). 9 A सवर°.

11. 1 A रावणु. 2 P S थिय. 3 P °पहिरणउं, S °पहिरणउ, A °परिहणउं. 4 P A अप्पणउं. 5 A राउ. 6 A धूवद्धय. 7 A घणगइ.

---

[१०] १ बाहुयुद्धेन. २ हस्तीव. ३ श्रीवर्धमानेन मेरुः कंपं नीतः. ४ अंगदेन.
[११] १ नग्नः. २ बध्नाति. ३ वस्त्रम्. ४ विभक्षणेन.

[१२]

रणु पिच्चिएण सहुँ[1] परिहरेंवि   विण्णि वि कुमार गय ओसरेंवि ॥ १
एक्कें भामण्डलु धरेंवि[2] णिउ   अण्णेक्कें [१]तारा-पाणपिउ ॥ २
कुढें लग्गेंवि को वि ण सक्कियउ   अम्बरें अमरेंहिँ कलयलु कियउ ॥ ३
तहिँ अवसरें आसङ्किय[3]-मणेंण   वुच्चइ वलएउ विहीसणेण ॥ ४
'जइ विण्णि वि णिय णरवइ पवर   तो ण वि हउँ ण वि तुहुँ ण वि इयर ॥ ५
ण वि हय ण वि गय रहवरेंहिँ सहुँ   जं जाणहि तं चिन्तवहि लहु' ॥ ६
तं णिसुणेंवि [२]वूढ-महाहवेंण   [३]महलोयणु[4] चिन्तिउ राहवेण ॥ ७
उवसग्ग-हरणें[5] विण्णि मि जणाहुँ[6]   कुलभूसण-देसविहूसणाहुँ[7] ॥ ८

॥ घत्ता ॥

परितुट्ठएँण   विज्जउँ[8] जिह वर-गेहिणिउँ[9] ।
जं (?) दिण्णियउ   गरुड-[५]मिगाहिव-वाहिणिउँ[10] ॥ ९

[१३]

सो गरुडु देउ झाइउ मणेंण   थरहरिउ णवर सहुँ आसणेंण ॥ १
किर अवहि पउञ्जेंवि सङ्कियउ   'लइ वुज्झिउ रामें चिन्तियउ' ॥ २
पुणु चिन्तेंवि देउ समुट्ठियउ   लहु विज्जउ [१]लेप्पिणु[1] पट्ठविउ ॥ ३
[२]हरिवाहणि[2] सत्त-सएँहिँ सहिय   गारुडु ताहँ[3] वि ति-सएँहिँ अहिय ॥ ४
वे छत्तइँ ससि-सूर-प्पहइँ[4]   रयणाइँ तिण्णि रणें दूसहइँ[5] ॥ ५
गय विज्ज पत्त णारायणहों   हल-मुसलइँ [३]सीर-प्पहरणहों ॥ ६
चिन्तिय-मेत्तइँ सम्पाइयइँ   मुक्कइँ पर-वलहों पधाइयइँ ॥ ७
[6]तहें गारुड-विज्जहें दंसणेंण   गय णाग-पास णासेंवि खणेंण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

भामण्डलेंण   सुग्गीवेण वि गम्पि वलु ।
जोक्कारियउ   लाएँवि सिरें स इँ भु व-जुवलु ॥ ९

*

12. 1 P S A सहु. 2 P S धरिवि, A धरवि. 3 A ओसंकिय°. 4 A मुहलोयणु. 5 A °हरण. 6 A जणेहिं. 7 A °सणेहिं. 8 S विजउ, A विज्जिउ. 9 P णेहिं णिउ with marginally noted गे° for णे°, S णेहि णिउ, A गेहिणिउं. 10 A °वाहिणिउं.

13. 1 P S लेविणु. 2 P S हरिवाहिणि. 3 A सिंहासणी. 4 P S °पहाइ. 5 P S दूसहाइं (S° इ). 6 A तहिं.

[१२] १ सुग्रीवः. २ दृढतरसंग्रामेण. ३ विंतरदेवम्. ४ (P.'s reading) स्नेहयुक्तः. ५ सिंहवाहनी.
[१३] १ विद्ये द्वे गृहीत्वा प्रेक्षि(षि)तः. २ सिंहवाहनी. ३ रामस्य.

[६६. छासट्ठिमो संधि]

जुज्झण-मणइँ अरुणुग्गमेँ किय-कलयलइँ ।
अब्भिट्टाइँ[1] पुणु वि राम-राव[2]ण-बलइँ ॥

[१]

गयवर-तुरय-जोह-र[3]ह-सीह-विमाण-पवाह[4]णाइं ।
र[5]ण-तूरइँ हयाइँ किउ कलयलु भिडियइँ साहणाइं[6] ॥ १

जाउ महाहवु वेहाविद्धहुँ व[7]लहुँ णिसायर-वाणर-चिन्धहुँ ॥ २
दणु-विणिवारण-पहरण-हत्थहुँ अमर-वरङ्गण-गहण-समत्थहुँ ॥ ३
प[8]रिओसाविय-सुरवर-सत्थहुँ व[9]ड्ढिय-जयसिरि-विक्कम-पन्थहुँ ॥ ४
गलगज्जन्त-मत्त-मायङ्गहुँ पवण-गमण-पक्खरिय-तुरङ्गहुँ ॥ ५
दप्पुब्भडहुँ समुण्णय-माणहुँ घण्टा-घण-टङ्कार-विमाणहुँ ॥ ६
सगुड-स[10]णाहहुँ सन्दण-वीढहुँ पुव्व-वइर-मच्छर-परिगीढहुँ ॥ ७
उ[11]ब्भुव-धवल-छत्त-धय-दण्डहुँ पवर-करप्फालिय-कोवण्डहुँ ॥ ८
मेल्लिय-एक्कमेक्क-सर-जालहुँ तिक्खुग्गामिय-कर-करवालहुँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

'भिडेँ[१][12] पढमयरेँ र[२]उ चलणाहउ लइय-[३]छलु ।
णं उत्थियउँ[13] सुअण-मु[14]हइँ मइलन्तु खलु ॥ १०

[२]

खुर-खर-छ[१]ज्ज[1]माणु णं णासइ भइयएँ हयवरा[2]हुं ।
णं [3]आइउ णि[4]वारओ [5]णं हकारउ सुर[6]वराहुं ॥ १

णं पाय-पहा[7]रहोँ ओसरेँवि धाइउ णिय-परिहउँ[8] सम्भरेँवि ॥ २
णं दुज्ज[9]णु सीस-वलग्गु किउ णं उत्त[10]मु सव्वहुँ उअरि थिउ ॥ ३
सो ण वि रहु जेत्थु ण पइसरिउ सो ण वि गउ जो ण वि धूसरिउ ॥ ४

---

1. 1 P S अब्भिट्टइं. 2 P S °रामण°. 3 A °र°. 4 P S °वाहणाइं (S °इ). 5 P S रणे. 6 A reads ध्रुवकं at the end, while P S read दुवई in the beginning of this stanza. 7 missing in A. 8 A परिओ.° 9 P S वड्ढिय°. 10 P S सणाउह. 11 P S उद्धय°. 12 P भेडे, S भिडि. 13 P S उट्ठियउ. 14 P °सुहइं.

2. 1 P खुज्जमाणु, S सुज्जमाणु. 2 A नरवराहं. 3 P S णं णं. 4 P S णिवारउ. 5 P S गउ. 6 A सुराहं. 7 P S A °पहारहु. 8 P S परिभउ, A °परिहउं. 9 P S दुज्जण. 10 P S उत्तम.

---

[१] १ संग्रामे. २ धूली. ३ चरणचप्पणमेव छल.
[२] १ (P'. S reading) खन्यमानः.

सो ण वि हउ जो ण वि [२][11]मइलियउ　सो ण वि धउ जो ण वि [12]कँवलियउ ॥ ५
जउ रमइ दिट्ठि तउ [३]रय-णियरु　णउ [४]णावइ मणुसु ण [५]रयणियरु ॥ ६
तेत्तहेँ वि के वि धावन्ति भड　जेत्तहेँ गलगज्जइ हत्थि-हडँ[13] ॥ ७
जेत्तहेँ सन्दँ[14]ण दणु-मीसियइँ　सुव्वन्ति तुरङ्गम-हिंसियइँ ॥ ८
जेत्तहेँ धणुहर गुण-गहिय-सर　जेत्तहेँ [15]हुङ्कार [16]मुअन्ति णर ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तेहएँ समरेँ　[17]सूराँह मि भज्जन्ति [६]मइँ[18] ।
गय-[७]गिरिवरेँहिँ　ताम समुट्ठिय रुहिर-णइँ[19] ॥ १०

[३]

[1]गयवर-[१]गण्ड-सेल-सिहँ[2]ग्ग-विणिग्गय णइ तुरँ[3]न्ति ।
उद्धुवँ[4]-धवल-छत्त [२]डिण्डीरुप्पीलँ[5]-समुव्वहँ[6]न्ति ॥ १

पवरोज्झर-सोणिय-जल-पवाह　करि-मयर-तुरङ्गम-णक्क-गाँ[7]ह ॥ २
चक्कोहर-सँ[8]न्दण-सुंसुमार　करवाल-मच्छ-परिहच्छ-वाँ[9]र ॥ ३
मत्तेभ-कुम्भ-भीसण-सिलोह　सिय-चमर-वलँ[10]या-पन्ति-सोह ॥ ४
तं णइ तरेवि कें [11]वि वावरन्ति　वुड्डुँ[12]न्ति के वि कें वि उव्वँ[13]रन्ति ॥ ५
के वि रय-धूसर कें वि रुहिर-लित्त　कें [14]वि हत्थि-हडएँ विहुणेवि घित्त ॥ ६
कें [14]वि लग्ग पडीवा दन्त-मुसलें　णं धुत्त विलासिणि-सिहिणँ[15]-जुअलें ॥ ७
कें [14]वि णियय-विमाणहों झम्प देन्ति　णहेँ णिवडेँवि वइरिहिँ सिरइँ लेन्ति ॥ ८
तहिँ तेहएँ रणेँ सोणिय-जलेण　रउ णासिउँ[16] सज्जणु जिह खलेण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

रावण-वलेँण　किउ विवराँ[17]मुहु राम-वलु ।
पडिपेल्लियउँ[18]　णं दुव्वाएं उवहि-जलु ॥ १०

---

11 P S मालिअ(S य°)उ. 12 P मइलिअउ, A कइलियउ. 13 P S °हडा; A °जड. 14 A सं. 15 P S हुंकारु. 16 P मुअत्ति, A मुयंत. 17 P सूरहं, S सूरह, A सूराहं. 18 P A मइं. 19 P A णइं.

3. 1 P S read दुवई in the beginning. 2 A °ग्ग°. 3 P A तुरंतिया, S तरंति. 4 A अद्धुअ°. 5 °प्पील° wanting in P S. 6 P marginally corrects as समुव्वहंतिया, A समुव्वहंतिया. 7 S °ग्गाहु, A °ह. 8 A चक्कोरसद्दणं. 9 P °चार. 10 S °वलीया°, A °वलाय°. 11 S A कि वि. 12 A उड्डुंति. 13 A उव्वहंति. 14 S कि वि. 15 A अहर°. 16 P S सोसिउ. 17 P A विवरामुहुं. 18 A पडिपेल्लियओ.

---

२ (P'. reading) व्याप्तः. ३ रज(जो)निःकर. ४ न ज्ञायते. ५ राक्षसः. ६ मति. ७ गजः एव पर्वता.

[३] १ गजा एव गंडसेला लघुपर्वताः. २ फेनु.

[४]

णिसियर-पवर-पहर-पडिपेल्लिएँ वलेँ मम्भीस देवि ।
हत्थ-पहत्थ-सत्तु सेणावइ थिय णल-णील वे वि ॥ १

समालग्ग सेण्णे[1] धयँ[2]-च्छत्तँ[3]-चण्णे ॥ २
जयासावगूढे[4] विमा[5]णेहिँ वूढे ॥ ३
चलच्चामरोहे पढु[6]क्कन्त-जोहे[7] ॥ ४
कमुग्गिण्ण-सीहे[8] णहुप्पील-दीहे[9] ॥ ५
महाहत्थि-सण्डे समुद्दण्ड-सु[10]ण्डे ॥ ६
तुरङ्गोहँ[11]-सोहे घणे सन्दणोहे ॥ ७
तहिं ढुक्कमाणे वले अप्पमाणे ॥ ८
कइन्दद्धएहिं भिडन्तेहिँ तेहिं ॥ ९
दसासस्स सेण्णं कयं वाण-छि[12]ण्णं ॥ १०
ण सो छत्त-दण्डो अछिण्णो अखण्डो ॥ ११
ण तं सत्तु-चिन्धं[13] रणे जण्ण विद्धं ॥ १२
ण सो मत्त-हत्थी वणो जस्स णत्थी ॥ १३
ण तं हत्थि-ग[14]त्तं खयं जण्ण[15] पत्तं ॥ १४

॥ घत्ता ॥

सो णत्थि भडु जो ढुकइ सवडम्मु[16]हउ ।
[17]सो रहु जेँ ण वि जो रणेँ ण[18] किउ परम्मु[19]हउ ॥ १५

[५]

[1]वलेँ मम्भीस देवि रहु वाहिउ ताँ[2]व दसाणणेणं ।
अहिणव-लच्छि-वहुव-पिण्डत्थणँ[3]-परिचड्डुण-मणेणं ॥ १
अग्गि व तरुवराहँ सीहो वँ[4] कुञ्जराहं ।
भिडइ ण भिडइ जाम्व णल-णील-णँ[5]रवराहं ॥ २
ताम्व विहीसणेण रहु दिण्णु अन्तराले ।
गलगज्जन्त ढुक्क मेह व्व वरिसयाले ॥ ३

4. 1 P सण्णे. 2 S धया. 3 A च्छत्ते. 4 P S °विरूढे. 5 P S विमाणाहिरूढे. 6 In A this pāda is given after line 5. 7 P °जोहो, S जोत्ते. 8 A °सोहे. 9 A देहे. 10 P S °सोंडे. 11 P S °गोहु, A °गोव°. 12 P S °च्छिण्णं, A °च्छण्णं. 13 A विंधं. 14 A मत्तं. 15 A जं न. 16 P सवडम्मुहुं, S सवडम्मुहु, A सवडम्मुहउं. 17 P सो णवि रहु. 18 P S किउ ण. 19 A परम्मुहउं.

5. P S read दुवई in the beginning. 2 A ता. 3 P S °त्थणि. 4 P व्व. 5 P णरवराहुं, S णरवराहु.

भीसण विसहर व्व सद्दूल-वग्घ-चण्[6]डा ।
ओरालन्त मत्त हथि व्व गिल्ल-ग[7]ण्डा ॥ ४
वर-णङ्गूल-दीह सीहँ[8] व णिवद्ध-रोसा[9] ।
अचल महीहर व्व जलँ[10]हि व्व गरुअ-घोसा ॥ ५
वेण्णि वि पवर-स[11]न्दणा वे वि चाव-हत्था ।
वेण्णि वि रक्खस-द्धया समर-भर-समत्था ॥ ६
वेण्णि वि महिहर व्व ण कयावि चल-सहावा ।
[12]वेण्णि वि सुद्ध-वंस वेण्णि वि महाणुभावा ॥ ७
वेण्णि वि धीर वीर विज्जु व्व वेय-चवला ।
वेण्णि वि वाल-कमल-सोमा[8]ल-चलण-जुवला ॥ ८
वेण्णि वि वियड-वच्छ थिर-थोर-वाहु-दण्डा ।
वेण्णि वि चत्त-जीवियासा[13]हवे पचण्डा ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तहिँ एक्कु पर एत्तिउ दोसु दसाणणहों ।
जं जणय-सुअ खणु वि ण फिट्टइ णिय-मणहों ॥ १०

[६]

[1]अमरिस-कुद्धएण अमर-वरङ्गणं[2]-जूरावणेणं ।
णिब्भच्छिउ विहीसणो पढम-भिडन्तें रा[3]वणेणं ॥ १

'अरें खल दुव्वि[4]यड्ढ कुल-फंसण मइँ लङ्काहिउ मुएँवि विहीसण ॥ २
चङ्गउ सामिसालु ओलग्गिउ महि-गोअरु व[5]राउ एक्कङ्गिउ ॥ ३
उद्धुव-पुच्[6]छ-दण्डु णह-दीहरु केसरि मुएँवि पसंसिउ मिगवरु ॥ ४
सव्वङ्गिउ चामियर-पसाहणु मेरु मुएवि पसंसिउ [7]पाहणु ॥ ५
तेय-रासि णहसिरि-आलिङ्गणु भाणु मुएवि धरिउ जोइङ्गणु ॥ ६
ज़लयर-जलकल्लोल-भयङ्करु जलहि मुएवि पसंसिउ सरवरु ॥ ७
णरउ धरेँवि सिव-[8]सासउ वञ्चिउ जिणु परिहरेँवि कु-देवउ अञ्चिउ ॥ ८

---

6 P S °चंड. 7 P S °गंड. 8 Wanting in A. 9 P S व्व णिब्वद्धरोस. 10 P S ज़लहर. 11 The portion from °र संदणा up to वेण्णि वि in line 6 not found in A. 12 This pāda is not found in A. 13 P S °सा आहवे.

6. 1 P S read दुवई in the beginning. 2 P समरंगणे जगे, S जं समरंगणे जगे. 3 S रामणेण. 4 P S दुवियड्ढ. 5 A अ वराउ. 6 P S A °पुंच्छ. 7 The portion from here up to पसंसिउ in line 7 is wanting in A. 8 The portion from here up to the end of this Kadavaka is wanting in A.

जासु ण केण वि णावइ णाँ[9]उँ सो प[10]इँ गहिउ विहीसण '[1][11]राउँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

वइरिहिँ मिलेँवि[12] [13]जिह उग्गामिउ खम्भु महु ।
तिह आहयणेँ परिसर '[2]साइउ देहि [14]लहु' ॥ १०

[७]

[1]तं णिसुणेँवि सोण्डीर-वीर[2](?)-सन्तावणेणं ।
णिब्भच्छिउ दसाणणो कुइय-मणेण विहीसणेणं ॥ १

'सच्चउ जेँ आसि तु[3]हुँ देव-देव ए[4]वहिँ लहुआरउ कु-मुणि जेव ॥ २
सच्चउ जि आसि तुहुँ वर-मइन्दु एवहिँ वुण्णाणणु हरिण-विन्दु ॥ ३
सच्चउ जेँ आसि तु[3]हुँ मेरु चण्डु ए[4]वहिँ णिग्गुणु पाहाण-खण्डु ॥ ४
सच्चउ जि आसि रवि तेयवन्तु एवहिँ जोइङ्गणु जिगिजिगन्तु ॥ ५
सच्चउ जि आसि जलणिहि पहाणु ए[5]वहिँ वट्टहि गोप्पय-समाणु ॥ ६
सच्च[6]उँ जि आसि [1]सरु सारविन्दु ए[5]वहिँ पुणु तोय-तुसार-विन्दु ॥ ७
सच्चउ जि आसि तुहुँ गन्ध-हत्थि एवहिँ तउ सरिसउ खरु वि णत्थि ॥ ८
गिरि-समु खण्डिउ चारित्तु जेण किं कीरइ जीवन्तेण तेण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सच्चउ जेँ मइँ त[7]इउँ खम्भु[8] उप्पाडियउ ।
लइ एँवहिँ मि[9] केत्तहेँ जाहि अ-पाडियउ' ॥ १०

[८]

[1]तं णिसुणेवि वयणु दहवयणें असरिस-कुद्धएँ[2]णं ।
मेल्लिउ अद्धयन्दु समरङ्गणेँ जय-जस-लुद्धएँ[2]णं ॥ १

---

9 S णाउ. 10 P S पइ. 11 S राउ. 12 P S मिलिवि. 13 P marginally reads a variant जिह उग्गामिउ रणउहे तइयहु खंभु महुं. 14 P लहुं.

7. 1 The portion from the beginning up to एव° in line 5. is wanting in A. P S read दुवई in the beginning. 2 The first pāda is corrupt, as it is defective by four moras. 3 P S तुहु. 4 P S एवहि. 5 P S A एवहि. 6 P सचउं. 7 P S तइयहुं (S °हु). 8 P S खंभुप्पाडिअ (S °य) उ. 9 wanting in P S.

8. 1 P S read दुवई in the beginning; A °वच्चक्भुउ. 2 P S A °ण.

---

[६] १ रामः. २ अंकमाला.
[७] १ महासरोवरः.

[3]मुणिवरिन्दो व्व सरु मोक्ख-पय-कङ्खओ[4] ।
तरु विसोसु व्व अइ-तिक्ख-पय-सङ्खुओ[4] ॥ २
कव्व-बन्धो व्व वहु-वण्ण-वण्णब्भुओ[4] ।
कुलवहू-चित्त-मग्गो व्व सुट्ठुज्जुओ[4] ॥ ३
मुच्चं[5]माणेण कह कह वि णउ भिण्णओ ।
तेण तस्स वि धओ णवर उच्छिण्णओ ॥ ४
रावणेण वि धणुं[6] समरेँ दोहाइयं ।
ताम्व तं दन्द[7]-जुज्झं समोहाइयं ॥ ५
भिडिय मन्दोयरी-तणय-णारायणा ।
कुम्भयण्णा[1]णिली राम-घणवाहणा ॥ ६
णील-सीहयं[8]डि-दुद्धरिस[9]-वियडोअरा ।
केउ-भामण्डला कां[2]मं[10]-दिढरह वरा ॥ ७
कालि-चन्दणहरी[11] कन्द-भिण्णञ्जणा ।
सम्भु-णंल[12] विग्घ-चन्दोयराणन्दणा ॥ ८
जम्वुमालिन्द धूमक्ख-कुन्दाहिवा ।
भासुरङ्गा मयङ्गय-महोयर णिवा ॥ ९
कुमुअ-महकाय सद्दूल-जमघण्टया ।
रम्भ-विहि मालि-सुग्गीव अब्भिट्टया ॥ १०
तारँ[13]-मारिच्च सारँण[14]-सुसेणाहिवा ।
सुअ-पचण्डालि सञ्झच्छ-दहिमुह णिवा ॥ ११

॥ घत्ता ॥

अण्णेक्कहुँ[15] मि　　भुअँणेक्केक्क[16]-पहाणाहुँ[17] ।
कें[18] सक्कियउ　　गण्णं[19] गणेप्पिणु राणाहुँ ॥ १२

[९]

केण[1] वि को वि दोच्छिओ[2] 'मरु सवडम्मुहु[3] थाहि थाहि[4]' ।
केण वि को वि वुत्तु समरङ्गणेँ 'रहवरु वाहि वाहि' ॥ १

3 This and the next line are wanting in A. 4 P S °उ. 5 P S मुक्कवाणेण. 6 P S रावणेणं पि धणु. 7 P दंड°, S दंट्ठद°, A दंवजुज्झंत. 8 P S °सीहयरि. 9 S दुद्दरिस°. 10 P S कोम°. 11 P S कलियचंदण°. 12 P S °णर. 13 A तार°. 14 P साहण°. 15 A °हुं. 16 P S भवणे°. 17 P S A °पहाणाहु. 18 P S किं, A के. 19 P S णाउ.

9. 1 P S read दुवई in the beginning. 2 P S दोच्छउ. 3 P S सवडम्मुहुं. 4 S थाहु थाहु, A थाहि.

[८] १ हनूमंतः. २ हनूवंतः.

केण वि को वि महा-सर-जालें छाइउ जिह सु-[5]कालु दुकालें ॥ २
केण वि को वि भि[6]ण्णु वच्छ-त्थलें पडिउ घुलेवि[7] को वि[8] महि-मण्डलें ॥ ३
केण वि कहीँ वि सरासणु ताडिउ णं हेट्ठा-मुहु[9] हियवउ पाडिउ ॥ ४
केण वि कहीँ वि कवउ णीवट्टिउ[10] वलि जिह दस-दिसेहिँ आवट्टिउ ॥ ५
केण वि कहीँ वि महद्धउ पाडिउ णं मउ [11]माणु मडप्फरु साडिउ ॥ ६
[12]केण वि दन्ति-दन्तु उप्पाडिउ णावइ जसु अप्पणउ भमाडिउ ॥ ७
केण वि झम्प दि[13]ण्ण रिउ-रहवरें गरुडें जिह भुअङ्ग-भुवणन्तरें ॥ ८
केण वि[14] कहीँ वि सीसु अच्छोडिउ णं अवराह-रुक्ख[15]-फलु तोडिउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

केण वि समरें दिण्णु विवक्खहों हियउ थिरु ।
जीविउ [16]जमहों पहरहों उरु सामियहों[17] सिरु ॥ १०

[१०]

[1]केण वि कहीँ वि मुक्क पण्णत्ती णरवर-पुज्जणिज्जा ।
केण वि गुलगुलन्ति मायङ्गी केण वि सीह-विज्जा ॥ १

केण वि मेल्लिउ अग्गेउ वाणु केण वि वारुणु गलगज्जमाणु ॥ २
केण वि वायउ झडझडझडन्तु केण वि कुल-पव्वउ धुद्धुवन्तु ॥ ३
केण वि भय-भीसणु कुलिस-दण्डु किउ महिहरत्थु सय-खण्ड[2]-खण्डु ॥ ४
केण वि आसीविसु णाग-[3]वासु केण वि गारुडु पण्णय-विणासु ॥ ५
तहिँ तेहएँ रणें कमलेक्खणासु इन्दइणाऽमेल्लिउ लक्खणासु ॥ ६
दुद्दरिसणु भीसणु रयणि-अत्थु सोण्डीर-वीर-मोहण-समत्थु ॥ ७
कङ्काल-करालु तमाल-वहलु णच्चन्त-पेय-वेयाल-मुहलु ॥ ८
लक्खणेण पमेल्लिउँ[4] दिणयरत्थु णिसि-तिमिर-पडल-णासण-समत्थु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

दहमुह-सुएँण णाग-वासु[5] पुणु पेसियउ ।
सों वि लक्खणेंण गारुड-विज्जएँ तासियउ ॥ १०

[११]

[1]विरहु करेवि धरिउ दहमुह-णन्दणु णारायणेण ।
तोयदवाहणो वि वलएवें विप्फुरियाणणेण ॥ १

---

5 P S सुकालु. 6 P भिन्नु, A दिण्णु. 7 P S घुलंतु. 8 P णवरि, S णवर. 9 P A हेट्ठामुहुं. 10 P णिव्वट्टिउ, S णिव्वट्टिउ. 11 A अहिमाण°. 12 Lines 7.–9. are wanting in A. 13 P S दिण्णु. 14 P S कहि. 15 P S °रुक्खु. 16 A जम्महो. 17 P S उरु पहरहों सा(S भा)मियहं.

10. 1 P S दुवई in the beginning. 2 P S °खंड्ड खंड्डु, A °खंड्ड खंड्ड. 3 A कालपासु 4 P S वि मेल्लिउ. 5 A णागपासु.

11. 1 P S read दुवई in the beginning.

एत्तहेँ वि हणुउ वहु-मच्छरेण किर आयामिज्जइ णिसियरेण ॥ २
ताणन्तरेँ रामेँ सरहिँ छिण्णु जिउ कह वि किलेसें कुम्भयण्णु ॥ ३
पेक्खन्तहोँ तहोँ राव[2]ण-व[3]लासु वन्धेँवि अप्पिउ भामण्डलासु ॥ ४
अवरो वि को वि जो भिडिउ जासु परमप्पउ व्व सो सिद्धु तासु ॥ ५
एत्तहेँ वि ताव भय-भीसणेण रावण-धणु छिण्णु विहीसणेण ॥ ६
परि[4]यलिएँ-चावेँ सिय-माणणेण आमेल्लिउ सूलु दसाणणेण ॥ ७
सरवरेँहिँ तं[5] पि अक्खि[6]त्तु केम वलि भुक्खिएहिँ [7]भूएहिँ जेम ॥ ८
रोसिउ दहगीउ वि लइय [1]सत्ति णावइ दरिसावइ णियय सत्ति ॥ ९

॥ घत्ता ॥

दाहिणएँ करेँ रेहइ कइकसि-णन्दणहोँ ।
सम्पाइय (?) [8]णाइँ भवित्ति जणद्दणहोँ ॥ १०

[१२]

[1]जा गज्जन्त-मत्त-मायङ्ग-कुम्भ-णिद्दलण-सीला ।
दुद्धर-णरवरिन्द-दणु[2]इन्द-विन्द-विद्दवण-लीला ॥ १
जा वइरि-णारि-रोवावणि[3]यँ रह-तुरय-थट्ट-लोट्टावणि[3]यँ ॥ २
जा विज्जु जेम्व भीसावणि[3]यँ जम-लोय-पन्थ-दरिसावणि[3]यँ ॥ ३
जा दिण्णी वालि-तव-च्चरणेँ धरणेन्देँ कविला[4]सुद्धरणेँ ॥ ४
सा सत्ति सत्तु-सन्तासणहोँ किर मुअइ ण मुअइ विहीसणहोँ ॥ ५
तावहिँ खर-दूसण-मद्दणेँण रहु अन्तरेँ दिण्णु जणद्दणेण ॥ ६
'अरेँ खल जीवन्तु ण जाहि महु जइ सत्ति सत्ति तो मेल्लि लहु' ॥ ७
तं णिसुणेँवि रयणासव-सुएँण आमेल्लिय गज्जोल्लिय-भुएँण ॥ ८
विन्धन्तहुँ णल-णीलङ्गयहुँ अवरहु मि असे[5]सहुँ कइध[6]यहुँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तो[7] लक्खणहोँ पडिय उर-त्थलेँ सत्ति किह ।
दिहि रा[8]वणहोँ रामहोँ दुक्खुप्पत्ति जिह ॥ १०

2 P S रामण°. 3 S °सुवासु. 4 S A परियलिय. 5 A तिं. 6 P S उक्खित्तु. 7 P भुक्खिएहि भूएहि, S भुक्खियेहि भुक्खेहि, A भुक्खिवएहि. 8 A भाइ णाइं.

12. 1 P S read दुवई in the beginning. 2 °दणुइंदविंद° is not found in A. 3 P S °रोवावणिया and similarly the next three pādas end in °या. 4 P S कइलासु°. 5 P S असेस°, A असेसहु. 6 P कइद्धयहुं, S कइद्धयहु, A कइवयहुं. 7 A तो वि. 8 A रामणहो.

[११] १ शक्तीविद्या.

[१३]

[1]जं पाडिउ कुमारु महिमण्डलें तं णीसरियं[2]-णामु ।
जिह कुञ्जरें[3] मइन्दु तिह समरे सरहसु भिडिउ रामु ॥ १

रामण-राम-जुज्झु[4] अब्भिट्टउ सरहसु णिब्भर-पुलय-विसट्टउ ॥ २
अच्छर-जण-मण-णयणाणन्दहुँ अप्फालिय-सुर-दुन्दुहि-सद्दहुँ[5] ॥ ३
सन्धिय-सर[6]-वद्धिय[7]-सिङ्गारहुँ[8] वारवार-जिण-णामुच्चारहुँ[9] ॥ ४
वाणासणि-सञ्छाइय-गयणहुँ[10] पहरें पहरें पप्फुल्लिय-वयणहुँ[11] ॥ ५
तो एत्थन्तरें गय-सय-थामें किउ रिउ विरहु छ-वारउ रामें ॥ ६
पहिलउ रहवरु रासह-वाहणु वीयउ सरहसु [१]सरह-पवाहणु ॥ ७
तइयउ तुङ्ग-तुरङ्गम-चञ्चलु चउथउ घोरोरालिय-मयगलु ॥ ८
पञ्चमु वर-सद्दूल-णिउत्तउ छट्ठउ केसरि-सय-सञ्जुत्तउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

किङ्किणि-मुहल चल-वाहण धुवं[12]-धवल-धय ।
दुप्पुत्त[13] जिह छ वि रहँवर[14] णिप्फल गय (?) ॥ १०

[१४]

[1]रह[2] छह[2] छह धणूणि छ[3] छत्तइँ[4] वि[5] छिण्णइँ[6] हलहरेण ।
तो वि[7] ण दिण्ण पुट्ठि विज्जाहर-पुर-परमेसरेण ॥ १

वेण्णि वि अवरोप्परु सामरिस वेण्णि वि पउरुसें[8] साहसें सरिस ॥ २
वेण्णि वि सुर-समर-सएहिँ थिर वेण्णि वि जिण-णामें णमिय-सिर ॥ ३
वेण्णि वि पहु कइ-णिसियर-धयहुँ जिह दिस-गय सेसं[9]-महग्गयहुँ ॥ ४
जिणइ ण जिज्जइ एक्को वि जणु गउ ताम दिवायरु अत्थवणु ॥ ५
विणिवारिउ रावणु राहवेंण 'अन्धारेंएँ[10] काइँ महाहवेंण ॥ ६
ण वि तुहुँ महु ण वि हउँ तुज्झु अरि लइ णिय-णिय-णिलयहुँ जाहुँ वैरि[11]' ॥ ७

---

13. 1 P S read दुवई in the beginning. 2 A नीसरिउ नामु. 3 P S कुंजरि, A कुंजरु. 4 P S जुज्झ. 5 P S A °हु. 6 P S °सरु. 7 P विधिय°, S वंधिय°. 8 P S °सिंगारहु, A °सिंगारउ . 9 P S °चारहु, A °चारउ. 10 P S °गयणहु, A °गयणउं. 11 P °वयणहु, S °वयणहो, A वयणउं. 12 P धुय°, A धुअ°. 13 P S दुपुत्तइ. 14 P S रहवरवर, A रहधणु.

14. 1 P S read दुवई in the beginning. 2 A छ छ. 3 Wanting in P S. 4 P S A छत्तइ. 5 Wanting in S A. 6 Wanting in A. 7 P S इ. 8 P S पोरिस-मत्त°. 9 P S 10 P S अंधारें. 11 P S उवरि.

---

[१३] १ अष्टापदः.

[12]तें वयणें रणु उवसङ्घरेंवि गउ लङ्काहिउ कलयलु करेंवि ॥ ८
सीराउहो वि परियत्तु तहिँ सत्तिएँ णि[13]ब्भिण्णु कुमारु [14]जहिँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तं णिएँवि वलु सुरकरि-कर-पवरु[15]ब्भुएँहिँ ॥
णिवडिउ महिहिँ सिरु पहणन्तु [16]सँ इं भु एँहिँ ॥ १०

*

[६७. सत्तसट्ठिमो संधि]

लेक्खणें सत्तिएँ विणि भिण्णएँ लङ्क पइट्ठएँ दहवयणें ।
णिय-सेण्णहों मुहइँ णियन्तउ [1]रुअइ स-दुक्खउ रामु रणें ॥

[१]

भिण्णु कुमारु दसाणण-सत्तिएँ [2]परँ-गन्धु व गमयत्तण-सत्तिएँ ॥ १
कुकइ व सुकइ-क[3]व्व-सम्पत्तिएँ कुपुरिस-कण्णो इव पर-तत्तिएँ ॥ २
सुअणो इव खल-वयण-पउत्तिएँ पर-समउ व्व जिणागम-जुत्तिएँ ॥ ३
जिण-मग्गो इव केवल-भुत्तिएँ विसयासत्तु मुणि व्व ति-गुत्तिएँ ॥ ४
संढो इव सव्वाएँ विहत्तिएँ छन्दो इव मणहर-गा[6]यत्तिएँ ॥ ५
सेलु व वज्जासणिएँ पडन्तिएँ विञ्झो इव रेवाएँ वहन्तिएँ ॥ ६
मेहो इव विज्जुलएँ लवन्तिएँ जलणिहि व्व गङ्गाएँ मिलन्तिएँ ॥ ७
ताम समर-दंसणु अलहन्तिएँ णाइँ दिवसु ओसारिउ रत्तिएँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

दहमुह-सिरछेउ ण दिट्ठउ [3]रहुवइ-णन्दणें विजउ ण वि ।
सोमित्ति-सोय-सन्तत्तउ णं अत्थवणहों ढुक्कु रवि ॥ ९

12 P S तं. 13 P विणिभिन्नु, S विनिभिण्णु. 14 P S A जहि. 15 P °भुएहि, S °भुयेहि, °ब्भुऐहिं. 16 S सयं.

1. 1 A लक्खणेण. 2 A सिरु पहणंतु सइं भुएहिं. 3 A परमपंथु गवयतण°. 4 A सव्वो. 5 A वहंतिए. 6 P S °गाइत्तिए.

[१] १ परख्यितशास्त्रमिव गमकत्वशक्त्या. २ कर्ण इव. ३ रामचंद्रे.

[२]

दिणयरँ णह-कुसुमँ व्व[2] गलीणएँ   [3]दिणँ णिसि-वइरिएँ व्व वोलीणएँ ॥ १
सञ्झा रक्खसि[4](?)व्व अलीणएँ[5]   [6]तमँ मसि-सञ्चए व्व विक्खिण्णएँ ॥ २
कञ्चुवँ[7](?)सयणेँ वँ[8] सोआउण्णएँ   चक्क-जुवलेँ मिहुणेँ व्व परुण्णएँ ॥ ३
गँएँ[9] रावणेँ रण-रहसुब्भिण्णएँ   कियँ[10]-कलयलेँ जय-तूर-पदिण्णएँ ॥ ४
णिसियर-जणवएँ दिहि-सम्पण्णएँ   घरेँ घरेँ पुणु[11] सोहलएँ रवण्णएँ ॥ ५
लक्खणेँ सत्तिएँ हएँ 'पडिवण्णएँ   थिएँ णिच्चेयणेँ धरणि-पवण्णएँ ॥ ६
अलिउल-कज्जल-कुवलय-वण्णएँ   सुह-लक्खणेँ गुण-गण-सम्पण्णएँ ॥ ७
कइधय-साहणेँ चिन्तावण्णएँ   'हरिण-उले व्व सुट्ठु आदण्णएँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सोमित्ति-सोय-परिणामेँण[13]   रहुवइ-णन्दणु मुच्छियउ ।
जल-चन्दण-चमरुक्खेवेँहिँ   दुक्खु दुक्खु उम्मुच्छियउ ॥ ९

[३]

'हा लक्खण कुमार एक्कोअर   हा भद्दिय उविन्द दामोअर ॥ १
हा माहव महुमह महुसूअण   हा हरि कण्ह विण्हु णारायण ॥ २
हा केसव अणन्त लच्छीहर   हा गोविन्द जणद्दण महिहर ॥ ३
हा गम्भीर-महाणइ-रुम्भण[1]   हा सीहोयर-दप्प-णिसुम्भण ॥ ४
हा हा वज्जयण्ण-मम्भीसण   हा कल्लाणमाल-आसासण ॥ ५
हा हा रुद्दभुत्ति-विणिवारण   हा हा वालिखिल्ल-साहारण ॥ ६
[2]हा हा कविल-मरट्ट-विमद्दण   हा वणमाला-णयणाणन्दण ॥ ७
हा अरिदमण-मडप्फर-भञ्जण   हा जियपोम-सोम-मणरञ्जण ॥ ८
हा महरिसि-उवसग्ग-विणासण   हा आरण्ण-हत्थि-सन्तावण ॥ ९
हा करवाल-रयण-उद्दालण   सम्बुकुमार[3]-विणासँ[4]-णिहालण ॥ १०
हा खर-दूसण-चमुँ[5]-मुसुमूरण   हा सुग्गीव-मणोहर-पूरण ॥ ११
हा हा कोडिसिला-सञ्चालण   [6]हा मयरहरावत्तप्फालण ॥ १२

2. 1 P S दिणयर. 2 P S A व. 3 P S दिण, A दिणि. 4 P S रक्खसे व. 5 P S मल्लीणए, A अलियण्णए. 6 P S णहे मसिवण्ण पुव्व विक्खिण्णए. 7 A किंदुव. 8 A र. 9 S A गय. 10 P किए. 11 A जि. 12 S संपण्णए.

3. 1 A °डंभण. 2 Lines 7 to 9 are not found in A. 3 This pāda is not found in A. 4 P S °विलास°. 5 P S 'वल°. 6 P S हा हा मयरहरो उत्तारण.

[२] १ स्वीकृते. २ मृगकुल इव,
[३] १ हे भ्रातः.

॥ घत्ता ॥

कहिँ तुहुँ कहिँ हउँ कहिँ पियमय कहिँ जणेरि कहिँ जणणु गउ ।
हय-विहि विच्छोउ करेप्पिणु कवण मणोरह पुण्ण तउ' ॥ १३

[४]

हरि-गुण सम्भरन्तु विदाणउ[1] रुवइ स-दुक्खउ राहव-राणउ[2] ॥ १
'वरि पहरिउ[3] पर-णरवर-चक्कएँ वरि खय-कालु ढुक्कु अत्थक्कएँ ॥ २
वरि तं कालकूडु[4] विसु भक्खिउ वरि जम-सासणु णयणकडक्खिउ ॥ ३
वरि असि-पञ्जरेँ थिउ थोवन्तरु वरि सेविउ कयन्त[5]-दन्तन्तरु ॥ ४
झम्प दिण्ण वरि जलणेँ[6] जलन्तएँ वरि[7] वगलामुहेँ[8] भमिउ भमन्तएँ ॥ ५
वरि वज्जासणि सिरेँण पडिच्छिय वरि ढुक्कन्ति भवित्ति समिच्छिय ॥ ६
वरि विसहिउ[9] जम-महिस-झडक्किउ[10] भीसण-कालदिट्ठि-अहि-डङ्किउ[11] ॥ ७
वरि विसहिउ केसरि-णह-पञ्जरु वरि जोइउ कलि-कालु सणिच्छरु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वरि दन्ति-दन्त-मुसलग्गेँहिँ विणिभिन्दाविउ अप्पणउ[12] ।
वरि णरय-दुक्खु आयामिउ[13] णउ विओउ भाइहेँ तणउ[14]' ॥ ९

[५]

पक्कन्दन्तेँ[1] राहवचन्देँ मुक्क धाह सुग्गीव-णरिन्देँ ॥ १
मुक्क धाह भामण्डल-राएं मुक्क धाह पवणञ्जय-जाएं ॥ २
मुक्क धाह चन्दोयर-पुत्तें अण्णु विहीसणेण दुक्खत्तें[2] ॥ ३
मुक्क धाह अङ्गङ्गय-वीरेँहिँ तार-सुसेणहिँ रणउहेँ धीरेँहिँ ॥ ४
मुक्क धाह गय[3]-गवय-गवक्खेँहिँ णन्दण-दुरियविग्घ-वेलक्खेँहिँ ॥ ५
मुक्क धाह णल-णील-णरिन्देँहिँ जम्बव-रम्भ-कुमुय-कुन्देन्देँहिँ[4] ॥ ६
मुक्क धाह माहिन्द-महिन्देँहिँ दहिमुह-दढरह-सेउ[5]-समुद्देँहिँ ॥ ७
पिहुमइ-मइसायर-मइकन्तेँहिँ मुक्क धाह सव्वेँहिँ सामन्तेँहिँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

रणेँ रामेँ कलुणु रुअन्तएँण[6] सन्दीविउ सन्ताव-हवि ।
सो णत्थि कइद्धय-साहणेँ जेण ण मुक्की धाह णवि ॥ ९

4. 1 A विद्दाणउं. 2 P A °राणउं. 3 P पहरिउं. 4 P S कालकुद्धु. 5 P S कियंत°. 6 P S A जलण. 7 This pāda is not found in A. 8 P marginaly records a variant वलया°. 9 P विसहिअउं. 10 P °झडिक्किउ, A °झडप्पिउ. 11 A °डंकिउं. 12 A अप्पणउं. 13 P आयामियउ. 14 A तणउं.

5. 1 P आकंदंतें, S आकंदंतिं. 2 P A दुक्खंत्तें. 3 P S गव°. 4 P A °देंदहिं, S देंदहि. 5 P S सेय°. 6 P रुअंतिं, S रुयंतिं.

[६]

एहावत्थ जाम्व [१]हलहेइहें[1] दुद्दम-दाणविन्द-वल-खेइहें ॥ १
[२]दाणें महाहयणेंहिँ[2] परिछेइहें केण वि कहिउ ताम्व वइदेहिहें ॥ २
उर-णियम्व-गरुअहें किस-देहिहें रामयन्द-मुह[3]-दंसण-णेहिहें ॥ ३
'सीऍ सीऍ लइ अच्छइ काइं सीऍ सीऍ लइ आहरणाइं ॥ ४
सीऍ सीऍ अञ्जहि[4] णयणाइं[5] सीऍ सीऍ चउ[6] पिय-वयणाइं[7] ॥ ५
सीऍ सीऍ करें वद्धावाणउ[8] वलु लोट्टाविउ[३] सुग्गीवाणउ[9] ॥ ६
लइ दप्पणु जोवहि अप्पाणउ[10] मुहु परिचुम्वहि दहवयणाणउ[11] ॥ ७

॥ घत्ता ॥

रावण-सत्तिऍ विणिभिण्णउ[12] दुक्करु जिअइ[13] कुमारु रणें ।
[४]परिहव-अहिमाण-विहूणउ[14] लइ रामु वि मुअउ[15] जें[16] गणें' ॥ ८

[७]

तं णिसुणेंवि वइदेहि पमुच्छिय हरियन्दणेंण सित्त उम्मुच्छिय ॥ १
चेयण लहेंवि रुवन्ति समुट्ठिय 'हा खल खुद्द पिसुण विहि दुत्थिय ॥ २
लक्खणु मरइ दसाणणु छुट्टइ हियउ केम तउ उब्भु ण फुट्टइ ॥ ३
छिण्ण-सीस हा दइव दुहावह कवण तुज्झ[1] किर पुण्ण[2] मणोरह ॥ ४
हा कयन्त[3] तउ कवण सुहच्छी जं रण्डत्तणु पाविय लच्छी ॥ ५
हा लक्खण पेसणहों[4] णिउत्ती[5] कहों छड्डिय जय[6]-सिरि कुल-उत्ति ॥ ६
हा लक्खण पइँ विणु महि सुण्णी धाह मुएवि[7] सरासइ रुण्णी ॥ ७
हा लक्खण कलऍ पवराहवु[8] कहों एक्कल्लउ[9] मेल्लिउ राहउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

णिय-वन्धव-सयण-विहूणिय दुह-भायण परिचत्त-सिय ।
मइँ जेही दुक्खहँ भायण तिहुअणें का वि म होज्ज[10] तिय' ॥ ९

6. 1 P °हेयहे, S °हेयहो. 2 P S महाइयणेहि, A महाहयणे. 3 P S °मुहइं (S °यं°) दसणेहिहे (S °हि). 4 P S लइ अंजहि. 5 P णयणइं. 6 P S जंपहि. 7 P °वयणइं, S °वयणइ. 8 P वद्धावणउं, S वद्धावणउ, A वद्धावाणउं. 9 A °वाणउं. 10 P A अप्पाणउं. 11 P A °णउं. 12 A °भिण्णिउं. 13 P S जीवइ. 14 A °विहणउं, T विहूणउं. 15 P मुअउं. 16 P जे, S A जि.

7. 1 P S तुज्झु. 2 P S पूर. 3 P S कियंत. 4 P S पेसणह. 5 A निविंत्ति. 6 S जंसिरि. 7 P S करेवि. 8 S वराहउ, A अवराहउ, B अपराहउ. 9 P S एक्केल्लउ. 10 P S होउ म का वि तिय.

[६] १ रामस्य, हलायुधस्य. २ दानसन्मानरहितायाः, वा दाने युद्धे परान् जयति यस्तस्य. ३ सुग्रीवस्य बलं पातितं. ४ T परिभवाभिमानौ न जानाति स निकृष्टः अनु दीनत्वं.

[८]

तहिँ अवसरेँ सुर[1]-मिग-सन्तावणु णिय-सामन्त गवेसइ रावणु ॥ १
को मुउ को जीवइ को पडियउ को सङ्गामेँ कासु अब्भिडियउ ॥ २
को मायङ्ग-दन्त-विणिभिण्ण[2]उ को करवाल-पहर-परिछिण्ण[3]उ ॥ ३
को णाराय-घाय-जज्जरियउ को कण्णिय-खुरुप्प-कप्परियँ[4]उ ॥ ४
केण वि वुत्तु 'भडारा रावण पवण-कुवेर-वरुण-जूरावण ॥ ५
अज्ज वि कुम्भयण्णु णउ आवइ तोयदवाहणु सो वि चिरावइ ॥ ६
वत्त ण सुव्वइ इन्दइ-रायहोँ सीहणियम्वहोँ णउ महकायहोँ ॥ ७
जम्वुमालि जमघण्टु[5] ण दीसइ एक्कु[6] वि णाहिँ सेण्णेँ 'किं[7] सीसइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

लइ जेहिँ जेहिँ वग्गन्तउ ते ते विणिवाइँय[8] समरेँ ।
थिउ एवहिँ सूडिय-वक्खँउ[9] जं जाणहि तं देव करेँ' ॥ ९

[९]

तं णिसुणेवि दसाणणु हल्लिउ[1] णं वच्छ-त्थलेँ सूलें सल्लिउँ[2] ॥ १
थिउ हेट्ठामुहु रावँण[3]-राणँउ[4] हिम-हउ[5] सयवत्तु व विद्दाणँउ[6] ॥ २
रुवइ स-दुक्खउ गग्गर-वयणँउ[7] वाह-भरन्त[8]-णिरन्तर-णयणँउ[9] ॥ ३
'हा हा कुम्भयण्ण एक्कोअर हा हा मय मारिच्च महोयर[10] ॥ ४
हा इन्दइ हा तोयदवाहण हा जमहण्ट अणिट्ठिय[11]-साहण ॥ ५
हा केसरिणियम्व दणु-दारण जम्वुमालि हा सुअ हा[12] सारण' ॥ ६
दुक्खु दुक्खु पुणु मएँ[13] णिवारिउ सोय-समुद्दहोँ अप्पउ तारिउ ॥ ७
'तिक्ख-णहहोँ लङ्गूल[14]-पईहहोँ किर केत्तिय सहाय वणेँ सीहहोँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अच्छउ अच्छउ जो अच्छइ तो वि ण अप्पमि जणय-सुअ ।
किह वुच्चमि हउँ एक्कल्लउ[15] जासु सहेज्जा वीस[16] भुअ ॥ ९

---

8. 1 wanting in A. 2 A रणि भिण्णउं, B रिणिभिण्णउं. 3 A परिच्छिण्णउं. 4 P °कापरियउ, A °क्कत्तरियउ. 5 P जमहंटु (marginally °घं°), S जमहाइ. 6 P S एक्कोइ. 7 S क्किं, A को. 8 S विणिवारिय. 9 P °वक्खहिं, S °वक्खहि.

9. 1 P हल्लिउं. 2 P सल्लिउं. 3 P S रावणु. 4 A °राणउं. 5 P S °हय. 6 A विद्दाणउं. 7 A °वयणउं. 8 P S °भरंतु. 9 P S °वयणउ, A °नयणउं. 10 S A सहोयर. 11 A अहिणिय°. 12 A साहरण, B साहारण. 13 P S मणु वि. 14 P S णंगूल°. 15 S एक्केल्लउ. 16 P S वे वि.

---

[८] १ कें कथ्यते॰

[१०]

जो तहिँ सारु कइद्धय-साहणेँ सो मइँ सत्तिएँ भिण्णु रणङ्गणेँ ॥ १
एवँहिँ[1] एक्कु वहेवँउ[2] राहउ कलऍं तहोँ वि महु वि पवराँहउ[3] ॥ २
कलऍं तहोँ वि महु वि जाणिज्जइ एक्कमेक्क-णारायहिँ भिज्जइ ॥ ३
कलऍं तहोँ वि महु वि एक्कन्तरु जिम्व तहोँ जिम्व महु भग्गु मडप्फरु ॥ ४
कलऍं वद्धावणँउ[4] तहेक्कहेँ जिम्व[5] उज्झा-णयरिहेँ जिम्व लङ्कहेँ ॥ ५
कलऍं जिम्व मन्दोअरि रोवइ जिम्व जाणइ अप्पाणँउ[6] सोवइ ॥ ६
कलऍं णच्चउ गहिय-पसाहणु जिम्व महु जिम्व तहोँ केरउ साहणु ॥ ७
कलऍं हुअवह-धगधगमाणहोँ जिम्व सो जिम्व हउँ ढुक्कु[7] मसाणहोँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जिम मइँ जिम्व तेण णिहाँलिउ[8] खर-दूसण-सम्वुक्क-पहु ।
जिम मइँ जिम्व तेणालिङ्गिय कलऍं रणेँ जयलच्छि-वहु' ॥ ९

[११]

तो एत्थन्तरेँ राहव-वीरेँ[1] धीरिउ अप्पउ चरम-सँरीरेँ[2] ॥ १
धीरिउ किक्किन्धाहिव-राणँउ[3] धीरिउ जम्ववन्तु वहु-जाणँउ[4] ॥ २
धीरिउ रावण-उववण-मद्दणु सुहडु पहञ्जण-अञ्जण-णन्दणु ॥ ३
धीरिउ णलु[5] णीलु वि भामण्डलु दिढरँहु[6] कुमुउ कन्दु[7] ससिमण्डलु ॥ ४
धीरिउ रयणकेसि रइवद्धणु अङ्गउ अङ्गु तरङ्गु विहीसणु ॥ ५
धीरिउ चन्दरासि भामण्डलु हंसु वसन्तु सेउ वेलन्धरु ॥ ६
धीरिउ दहिमुहु कलुण-रसाहिउ गवउ गवक्खु सुसेणु विराहिउ ॥ ७
धीरिउ तरलु तारु तारामुहु कुन्दु महिन्दु इन्दु इन्दाउहु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अण्णु[8] वि जो [9]कोइ रुवन्तउ सो साहारेँवि सक्कियउ ।
पर एक्कुँ[10] दसासहोँ उप्परि[11] रोसु[12] ण धीरेँवि सक्कियउ ॥ ९

[१२]

विरहाणल[1]-जालोलि-पलित्तें अण्णु वि कोव-पहञ्जण[2]-छित्तें ॥ १
किय पइज्ज रणेँ राहवचन्दें 'रिउ रक्खिज्जइ जइ वि सुरिन्दें ॥ २

10. 1 P S एवहि, A एव्वहिं. 2 S वहिव्वउ. 3 P °हवु, A °हउं. 4 P S °णउं. 5 P S जेम अउज्झ°. 6 A °णउं. 7 A ढुक्क. 8 S °लियउ.

11. 1 A °वीरे. 2 A °सरीरे. 3 A °राणउं. 4 P S °जाणउं. 5 P S सणलु णीलु भामंडलु. 6 A दढ°. 7 S A कुंदु. 8 P S अण्ण इ. 9 जो कोइ wanting in A. 10 A एक्क. 11 P S उप्परे. 12 P S रोसु धरेवि ण.

12. 1 A विरहाजलण°. 2 The portion from जण to जइ वि in line 3 is wanting in S.

जइ वि जणद्दणेण[3] [१]महि-माणें   जइ वि तिलोयणेण वम्हाणें ॥ ३
जइ वि जमेण कियन्तें धणएं   [२]खन्दें जइ वि तियक्खहों तणएं ॥ ४
जइ वि पहञ्जणेण जइ वरुणें   जइ वि मियङ्कें अर्कें अरुणें[4] ॥ ५
पइसइ जइ वि सरणु कलि-कालहों   लिहक्कइ णहें जलें थलें पायालहों ॥ ६
पइसइ जइ वि विवरें गिरि-कन्दरें   सप्प-कियन्तमित्त-दन्तन्तरें ॥ ७
पेसमि सत्तु तो इ [5]सइँ हत्थें   तहों मायासुग्गीवहों पन्थें ॥ ८

॥ घत्ता ॥

कल्लएँ कुमारें अत्थन्तएँ   णिविसु वि रावणु जिअइ जइ ।
तो अ[6]प्पउ डहमि वलन्तएँ   हुववहें [३]किक्किन्धाहिवइ' ॥ ९

[१३]

पइजारूढें रामें कुल-दीवें   विरइउ वलय-वूहु सुग्गीवें ॥ १
माया-वलु वि[1] विउव्विउ तक्खणें[2]   थिउ परिरक्ख करेविणु लक्खणें[2] ॥ २
हय-गय-रह-पाइक्क-भयङ्करु   [3]णं जमकरणु सुट्ठु अइ-दुद्धरु ॥ ३
उप्परि पवर-विमाणेंहिँ छण्णउ[4]   अब्भन्तरें मणि-रयण-रवण्णउ[5] ॥ ४
सत्त पवर-पायाराहिट्ठिउ   णं अहिणव-समसरणु परिट्ठिउ ॥ ५
सट्ठि सहास मत्त-मायङ्गहुँ[6]   गयवरें गयवरें पवर-[१]रहङ्गहुँ ॥ ६
रहवरें रहवरें तुङ्ग-तुरङ्गहुँ   तुरएँ तुरएँ णरवरहुँ अभङ्गहुँ ॥ ७
विरइउ एम वूहु णिच्छिद्दउ   णं सु-कइन्द-कव्वु घण-सद्दउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

भयगारउ दुप्पइसारउ   दुण्णिरिक्खु सव्वहों जणहों ।
णं हियवउ सीयहें केरउ   अचलु अभेउ दसाणणहों ॥ ९

[१४]

पुव्व-दिसाएँ विज[1]उ जस-लुद्धउ   पहिलएँ वारें स-रहु स-[2]रहद्धउ ॥ १
वीयएँ मारुइ तइयएँ दुम्मुहु   कुन्दु चउत्थएँ पञ्चमें दहिमुहु ॥ २
छट्ठएँ मन्दहत्थु सत्तमें गउ   उत्तर-वारें पहिलएँ अङ्गउ ॥ ३

---

3 A जणद्दणे अहिमाणें. 4 P S वरुणें. 5 P S A सइ. 6 A अप्पउं.

13. 1 P S विउरुव्विउ, A वि विउच्चिउ. 2 P S A B °णि. 3 P marginally notes the following variant for this pāda: उब्भिय धवल च्छत्त च्छायंवरु । 4 S च्छिण्णउ. 5 P S A °रवण्णउं. 6 P S A °हु.

14. 1 A विजय. 2 P S सरहुद्धउ, A रहद्धउ.

---

[१२] १ पृथिव्यां पूज्यः. २ कार्तिकेय; T कार्त्तिकेयुना. ३ हे सुग्रीव. [१३] १ T रथांगानि.

वीयएँ अङ्गदु तइअएँ णन्द[3]णु चउत्थें[4](?)कुमुउ पञ्चमें रइवद्धणु ॥ ४
छट्ठएँ चन्द[5]सेणु फुरियाणणु सत्तमें चन्द[6]रासि दणु-दारणु ॥ ५
पच्छिम-वारें पहिलएँ ससिमुहु वीयएँ सुहडु परिट्ठिउ दिढरहु ॥ ६
तइअएँ गवउ गवक्खु च[7]उत्थएँ पञ्चमें तारु विराहिउ छट्ठएँ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

जो सव्वहुँ वुद्धिए वड्डुउ जासु भयङ्करु रिच्छु धएँ[8] ।
सो जम्वउ तरुवर-पहरणु वारें परिट्ठिउ सत्तमएँ ॥ ८

[१५]

दाहिण-दिसएँ परिट्ठिउ दुद्धरु [1]वारें पहिलएँ णीलु धणुद्धरु ॥ १
वीयएँ णलु वर-लउडि-भयङ्करु कुलिस-विहत्थउ णाइँ[2] पुरन्दरु ॥ २
तइअएँ वारें विहीसणु थक्कउ सूल-पाणि परिवज्जिय-सङ्कउ ॥ ३
चउथएँ वारें कुमुउ जमु जेहउ तोणा-जुअलावीलिय-देहँ[3]उ ॥ ४
पञ्चमें वारें सुसेणु समत्थउ विप्फुरियाहरु कोन्त-विहत्थउ ॥ ५
छट्ठएँ गिरि-किक्किं[4]ध-पुरेसरु भीसण-भिण्डिमाल-प[5]हरण-करु ॥ ६
सत्तमें भामण्डलु असि लिन्त[6]उ णावइ पलय-दवग्गि पलित्तउ ॥ ७
एम कियइँ रणें दुप्पइसारइँ वूहहों अट्ठावीस इ वारइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

[7]तहिँ तेहएँ कालें पडीवउँ[8] रुवइ स-दुक्खउ दासरहि ।
पवरेहिँ स इं[9] भु व-दण्डेंहिँ पुणु पुणु अप्फा[10]लन्तु महि ॥ ९

*

[६८. अट्ठसट्ठिमो संधि]

भाइ-विओएं कलु[1]ण-सरु रणें राहवु रोवइ जावेंहिँ ।
णं ऊसासु जणद्दणहों पडिचन्दु पराइउ तावेंहिँ ॥

3 P S णंदउ. 4 P चउत्थए, S चउत्थइ. 5 P S चंदुसेण्णु, A B चंदुसेणु. 6 A चंदससि. 7 P चउथए, S चउथइ. 8 P S द्धउ, A द्धए.

15. 1 P S A B वारि. 2 P S A B णाइ. 3 P °देहउं. 4 P A B °किक्किंधु, S °किंकिंधु. 5 A भीसण°. 6 A लेत्तउ. 7 P S A तहि. 8 A B °उं. 9 P S A सयं. 10 P S अप्पालंतु.

1. 1 P S A B कलुणु.

[१]

आवीलिय-दिढ-तोणा-जुअलु　　वहु-रणझ[2]णंन्त-किङ्किणि-मुहलु ॥ १
[1]मण्डलिय-च[3]ण्ड-कोवण्ड-धरु　　पाणहर-प[2]ईहर-गहिय-सरु ॥ २
परियड्ढिय-रण-भर-पवर-धुरु　　वर-वइरि-पहर-कप्परिय-उरु ॥ ३
[3]वेयण्ड-सोण्ड-भुवदण्ड-थिरु　　मोर[4]ङ्ग-छत्त-अणुसरिस-सिरु ॥ ४
गउ तेत्तहें जेत्तहें जणय-सुउ　　थिउ वूह-वारें करवाल-भुउ ॥ ५
'अहों अहों भामण्डल भड-तिलय　　सम्माण-दाण-गुण-गण-णिलय ॥ ६
विज्जा-परमेसर भणमि पइँ　　तिहुँ मासहुँ अवसरु लद्धु मइँ ॥ ७
जइ दरिसावहि रहु-णन्दणहों　　तो जीविउ देमि जणद्दणहों' ॥ ८
तं वयणु सुणेंवि [4]असहन्तएँण　　णि[5]उ रामहों पासु तुरन्तएँण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

'जो[6]इहिँ वुच्चइ ससिमुहिहिँ　　वरहिण-कलाव-धम्मेल्लहेँ ।
जीवइ लक्खणु [5]दासरहि　　पर ण्हवण-जलेण विसल्लहेँ ॥ १०

[२]

सुणु देव देवसङ्गीय-पुरें　　वहु-रिद्धि-विद्धि-जण-धण-पउरें ॥ १
ससिमण्डलु अत्थि णराहिवइ　　सुप्पह-महएवि मराल-गइ ॥ २
पडिचन्दु तासु उप्पण्णु सुउ　　सो हउँ रोमञ्चुब्भिण्ण-भुउ ॥ ३
स-कलत्तउ केण वि कारणेंण　　किर लीलएँ जामि णहङ्गणेंण ॥ ४
मेहुणियहिँ त[1]णउ वइरु सरेंवि　　तो सहसविजउ थिउ उत्थरेंवि ॥ ५
स-कसाय वे वि णहें अब्भिडिय　　णं दिस-दुग्घोट्ट समावडिय ॥ ६
तें आयामेप्पिणु [1]अभव-भव　　महु सत्ति विसज्जिय चण्ड-रव ॥ ७
विणिभिन्देंवि[2] पाडिउ ताएँ रणें　　उ[3]ज्झहें वाहिरें उज्जाण-वणें ॥ ८
णिवडन्तउ भरहें लक्खियउ　　गन्धोवएण [2]अब्भोक्खियउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तें अब्भोक्खण-वाणिएँण　　व[4]ल्लमणु [3]अप्पाइउ मेरउ ।
जाउ विसल्लु पु[5]ण्णणवउ　　णं णेहु विलासिणि-केरउ ॥ १०

---

2 P S A B °रणझणंतु.　3 P S °चंडू°.　4 A मोरग्ग°.　5 P S णिय.　6 A जोहिं.
2. 1 P A तणउं. 2 P S A B °भिंदिवि. 3 P S A °हि. 4 P S वल्लु. 5 P S A B पुणु°.

---

[१] १ आरोपितमाकर्षितं वा. २ प्रतिपक्ष (?). ३ हस्ती. ४ कालक्षेपमकुर्व्वता. ५ भो राम.
[२] १ मोक्षजन्मरामणि (?). २ सिंचित. ३ सं(स)चित्तो जातः.

[३]

पुणु पुच्छिउ भरह-णरिन्दु मइँ "एउँ[1] गन्ध[2]-सलिलु कहिँ लद्धु पइँ" ॥ १
तेण वि महु गुज्झु ण रक्खियउ[3] सत्तुहण-वरिट्ठें[1] अक्खियउ ॥ २
"स-विसयहों अउज्झा-पट्टणहों उप्पण्ण वाहि सव्वहों जणहों ॥ ३
उर-घाउ अरोचउ[4] दाहु जरु कल-सण्णिवाउ गहु छद्दि-करु ॥ ४
[5]सिरेँ सूलु कवाल-रोउ पवरु स[6]प्पडिसउ (?) खासु सासु अवरु ॥ ५
तेहएँ कालेँ [7]तहिँ एक्कु जणु स-कलत्तु स-पुत्तु स-वन्धुजणु ॥ ६
स-[8]धँउ स-वलु स-णयरु स-परियणु परिजियइ [2]सइँ[9]त्तउ दोणघणु ॥ ७
जिह सुरवइ सव्व-वाहि-रहिउ सिरि-सम्पय-रिद्धि-विद्धि सहिउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तेण वि सल्लहेँ तणउँ[10] जलु आणेप्पिणु उप्परि घित्तउ ।
पट्टणु पच्चुजीवियउ स-पउरु णं अमिएं सित्तउ" ॥ ९

[४]

जं पच्चुजीविउ सयलु जणु तं भरहेँ पुच्छिउ दोणघणु ॥ १
"अहों माम एउ कहिँ लद्धु जलु णाणाविह-गन्ध-रिद्धि-वहुलु ॥ २
पर-कज्जु[1] जेम जं सीयलउ जिण-सुक्क-झाणु जिह णिम्मलउ[2] ॥ ३
जिण-वयण जेम जं वाहि-हरु सुहि-दंसणु जिह आणन्द-यरु" ॥ ४
तं णिसुणेँवि दोणु णराहिवइ पप्फुल्लिय-वयण-कमलु चवइ ॥ ५
"[3]मम दुहियहेँ अमर-मणोहरिहेँ इउ ण्हवणु विसल्ला-सुन्दरिहेँ[4] ॥ ६
विणु भन्तिएँ अमियहों अणुहरइ जसु लग्गइ तासु वाहि हरइ" ॥ ७
तं णिसुणेँवि भरहेँ पुज्जियउ णिय-णयरहों दोणु विसज्जियउ[5] ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अप्पुणु गउ तं जिण-भवणु जं सासय-सोक्ख-णिहाणु ।
णावइ सग्गहों उच्छलेँवि महि-मण्डलेँ पडिउ विमाणु ॥ ९

[५]

तहिँ सिद्ध-कूडेँ सुर-साराहों किय थुइ अरहन्त-भडाराहों ॥ १
तइलोक्क-चक्क[1]-परमेसरहों अ-कसायहों [1]णिद्दट्ठा[2]हरहों ॥ २

3. 1 P इउ, S यउ. 2 S A गंधु. 3 A °यउं. 4 P अरोचउ, S अरोद्धउ. 5 P S A सिरि. 6 A B उप्प°. 7 P S A तहि. 8 P सच्चउ, A सद्धउ. 9 A B सउत्तउ. 10 A तणउं.
4. 1 A °कण्णु. 2 P S णिम्मलउं. 3 P महु. 4 A °रिए. 5 A विसज्जिउ.
5. 1 P S °एक्क°. 2 P णिद्दत्तिट्ठ°, S णिद्दिट्ठा°.

[३] १ जेष्ठेन. २ स एव स्वस्थो जियति. ३ द्रोणमेघेन.
[५] १ (P'. s reading) तृष्णानिःक्रान्तो अधरो यस्य, अथ निद्रा तृष्णा वा हरिता येन वा.

सु-परिट्ठिय-थिर-सीहासणहों   [२]आवन्धुरँ[4]-चामर-[३]वासणहों ॥ ३
धूवन्त-धवल-छत्त-त्तयहों   किय-चउविह-कम्म-कुल-क्खयहों ॥ ४
भामण्डल-मण्डिय-पच्छलहों   पहरण-रहियहों [४]जयँ[4]-वच्छलहों ॥ ५
तइलोक्क-लच्छि-लच्छिय-उरहों   परिपालिय-अजरामर-पुरहों ॥ ६
मोहन्धासुर-विणिभिन्दणहों   उप्पत्ति-वेल्लि[5]-परिछिन्दणहों ॥ ७
संसार-महद्दुम-पाडणहों   कन्दप्प-मडप्फर[6]-साडणहों ॥ ८
इन्दिय[५]-उद्दहँण[7]-णिवन्धणहों   णिद्दड्ढ-दुक्किय-कम्मेन्धणहों ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तहों सुरवर-परमेसरहों   किय वन्दण भरह-णरिन्दें ।
गिरि-कइलासें समोसरणें   णं पढम-जिणिन्दहों इन्दें ॥ १०

[६]

जिणु वन्देंवि वन्दिउ[1] परम-रिसि   जें दरिसिय-दसविह-धम्म-दिसि ॥ १
जो दूसह-परिसह-भर-सहणु   जो पञ्च-महव्वय-णिव्वहणु ॥ २
जो तव-गुण-सञ्जम-णियम-धरु   तिहिँ गुत्तिहिँ गुत्तउ खँन्ति[2]-यरु ॥ ३
जो तिहिँ सल्लेहिँ ण सल्लियउ   जो सयल-कसायहिँ मेल्लियउ ॥ ४
जो संसारोवहि-णिम्महणु   जो रुक्ख-मूलें पाउस-सहणु ॥ ५
जो किडिकिडिजन्त-पुडिय-णयणु   जो सिसिर-कालें वाहिरें-सयणु ॥ ६
जो उण्हालएँ अत्तावणिउँ[3]   जो चन्दायणिउ अतोरणिउ ॥ ७
जो वसइ मसाणेंहिँ भीसणेहिँ   वीरासणँ[4]-उक्कुँडु[5]आसणेंहिँ ॥ ८
जो मेरु-गिरि व धीरत्तणेंण   जो जलहि व गम्भीरत्तणेंण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सो मुणिवरु चउ-णाण-धरु   पणवेप्पिणु भरहें वुच्चइ ।
"काइँ विसल्लएँ तउ कियउ   जें माणुसु वाहिएँ मुच्चइ" ॥ १०

[७]

तं वयणु सुणेप्पिणु[1] भणइ रिसि   [१]णिय खयहों जेण अण्णाण-णिसि ॥ १
"सुणु पुव्व-[2]विदेहेँ रिद्धि-पउरु   णामेण पुण्डरिक्किणि[3]-णयरु ॥ २

---

3 P marginally notes a variant आपंडुर°. 4 A जिय°. 5 A °वेत्ति°. 6 P S °मडप्फरु°, A B °मडप्फ.° 7 P S °उड्डुदहण°.

6. 1 S A वंदिय. 2 P S खत्ति°. 3 A °णिउं. 4 P S °सणु, A B °सणे. 5 A °उच्छुड्ड°.

7 1 P S सुणेविणु. 2 P °विदेहें, S °विदेहि, A °विवेहि. 3 P पुंडरिगिरि°, S पुंडरिंगिरि°.

---

२ T मनोज्ञाः. ३ विशेषण आसनं क्षेपनं. ४ जगतः. ५ (P.' s reading) उड्ड = मनः, T रुद्दहणो मर्कटः.

[७] १ नीता.

तिहुअण-आणन्दु तित्थु णिवइ   लीला-परमेसरु चक्कवइ ॥ ३
तहों सुय णामेणाणङ्गसरं[4]   [2]उम्मिल्ल-पओहर कण्ण वरं[5] ॥ ४
सोहग्ग-रासि लायण्ण-णिहि   णं [3]सरहस छण-जण-भवण-दिहि ॥ ५
णं सुललिय सरय-सियङ्क-पह   णं विब्भम-कारिणि काम-कह ॥ ६
णं मणहर चन्दण-रुक्ख-लय   गब्भेसरि रूवहों पारु गय ॥ ७
णिरुवम-तणु अइसएण सहइ   वम्मह-धाणुक्किय[6]-लील वहइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

भउह-चाव-लोयण-गुणेंहिँ[7]   जसु दिट्ठि-सरासणि लावइ ।
तं माणुसु घुम्मावियउ   दुक्करु णिय-जीविउ पावइ ॥ ९

[८]

तहिँ[1] अवसरें महियलें पसरिय-जसु   विज्जाहरु णामें पुण्णव्वसु[2] ॥ १
मणि-विमाणें धूवन्त-धयग्गएँ   तहिँ आरुहेंवि आउ ओलग्गएँ ॥ २
णिवडिय दिट्ठि ताव तहों तेत्तहें   वसइ अणङ्गवाण सा जेत्तहें[3] ॥ ३
[1]मुद्धयन्द-मुह मुद्धड[2] वाली   अहिणव-रम्भ-गब्भ-सोमाली ॥ ४
सहइ परिट्ठिय मन्दिरें मणहरें   लच्छि व कमल-वणहों अब्भन्तरें ॥ ५
मालइ-माला-मउय-[3]करालएँ[4]   णयणहिँ विद्धु[5] अणङ्गसरालएँ[6] ॥ ६
विणु चावें विणु विरइय-थाणें   विणु गुणेहिँ विणु सर-सन्धाणें ॥ ७
विणु पहरणेंहिँ तो वि जज्जरियउ   ण गणइ किं पि पुणव्वसु जरियउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

लोयण-सर-पहराहएँण   करवालु[7] भयङ्करु दावेंवि ।
पेक्खन्तहों सव्वहों जणहों   णिय कण्ण विमाणें चडावेंवि ॥ ९

[९]

जं अहिणव-कोमल-कमल-करा   वलिमण्डएँ लेवि अणङ्गसरा ॥ १
स-विमाणु पवण-मण-गमण-गउ   देवहुँ[1] दाणवहु मि रणें अजउ ॥ २
तं चक्काहिवइ-लद्ध-पसरा   विज्जाहर पहरण-गहिय-करा ॥ ३
कोवग्गि-पलित्त-फुरिय-वयणा   दट्ठाहर भू-भङ्गुर-णयणा ॥ ४

4 P A °सरा. 5 P S °वरा. 6 A °धाणुहिय. 7 A °गुणेण.

8. 1 P S A तहि. 2 P पुणुव्वसु, S पुण्णुव्वसु. 3 A जणेहिं. 4 P S °करायए. 5 A विद्ध. 6 P °सराए, S °सरायए. 7 P S A B करवाल.

9. 1 P S A B देवहु.

---

२ उन्नतौ ऊर्ध्वीभूतौ. ३ सानंदः.

[८] १ पौर्णमास्यामुदयकाले यो भासुरश्चन्द्रस्तेन समानमुखः. २ अकुटिला, प्रांजला. ३ हस्तानि (?)

गज्जन्त पधाइय तक्खणेण   णं स-जल जलय गयणङ्गणेण ॥ ५
"खल खुद्द पाव दक्खवहि मुहु   कहिँ कण्ण लएविणु जाइ तुहुँ" ॥ ६
तं णिसुणेँवि कोवाणल-जलिउ   णं सीहु गइन्द-थट्टेँ वलिउ ॥ ७
तेँ पढम-भिडन्तेँ भग्गु वलु   णावइ अवसद्देँ कव्व-[1]दलु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

क[2]हँ वि परोप्परु सन्थवेँवि   स-धयग्गु स-हेइ स-वाहणु ।
गिरिवरेँ जलहर-विन्दु जिह   उत्थरिउ पडीवउ साहणु ॥ ९

[१०]

कड्ढिय-धणुहर-मेल्लिय-सरेँहिँ   [1]तिहुअणआणन्दहोँ किङ्करेहिँ ॥ १
सव्वेँहिँ णिप्पसरु णिरत्थु किउ   पाडिउ विमाणु परिछिण्णु धउ ॥ २
णासङ्किउ जं अरिवर-णिवहु   तं विज्ज सरेप्पिणु पण्णलहु ॥ ३
घत्तिय धरणियलेँ अणङ्गसरा   णं सरय-मियङ्कें जोण्ह वरा ॥ ४
सु पणट्ठु पुणव्वसु गीढ-भउ   णं हरिणु सरासणि-त्ता[2]सु गउ ॥ ५
अलहन्त वत्त क[1]ण्णहेँ तणिय   किङ्क[2]र वि पत्त पुरि अप्पणिय ॥ ६
अन्तेउरु लक्खिउ विम[3]ण-मणु   णं [3]तुहिण-छि[4]त्तु सयवत्त-वणु ॥ ७
अत्थाणु वि सोह ण देइ किह   जोव्वणु विणु काम-कहाएँ जिह ॥ ८

॥ घत्ता ॥

कहिउ णरिन्दहोँ किङ्करेँहिँ   "जलेँ थलेँ गयणयलेँ गविट्ठी ।
सिद्धि जेम णाणेण विणु   तिह अम्[5]हँहिँ कण्ण ण दिट्ठी" ॥ ९

[११]

एत्थन्तरेँ छण-मियङ्क-मुहिय   तिहुअणआणन्द-राय-दुहिय ॥ १
पण्णलहुअ-विज्जएँ घित्त तहिँ   [1]सुण्णासणु भीसणु रण्णु जहिँ ॥ २
जहिँ दारिय-करि-कुम्भ-त्थलइँ   उच्छलिय-धवल-मुत्ताहलइँ ॥ ३
दुप्पेक्ख-तिक्ख-णक्खङ्कियइँ   दीसन्ति सीह-परिसक्कियइँ ॥ ४

---

2 P काहे वि, S कहि वि.
10. 1 S कण्णहो, A कण्णहिं. 2 P S किंकरे. 3 P S विमणु°. 4 S च्छिण्णु. 5 P अम्हहं.

---

[९] १ सामग्री.
[१०] १ चक्रवर्त्तेः. २ त्रसितः. ३ तुसारेण कमलः.
[११] १ ऊर्ध्वसंस्थानं—स्वरूपविशेषणमिदं यथा शुक्लं शंखं पश्येति ।

जहिँ दन्ति-दन्त-मुसलाहयइँ[1] दीसन्ति भग्ग पायव-सयइँ ॥ ५
जहिँ विसम-तडइँ महियलें [२]गयइँ[2] वणमहिस-सिङ्ग-जुवलुक्खयइँ[2] ॥ ६
सुव्वन्ति जेत्थु कइ-वुक्कियइँ[3] एकल्ल-कोल-आरुक्कियइँ[3] ॥ ७
वणवसह-जूह-मुह-ढेक्कियइँ[3] वायस-रडियइँ सिव-फेक्कियइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तहिँ तेहएँ वणेँ कामसर जल-वाहिणि विउल विहावइ ।
वङ्क-व[4]लय-विब्भम-गुणेँहिँ सरि पोढ-विलासिणि णावइ ॥ ९

[१२]

तहिँ [१]जलवाहिणि-तडेँ वइसरेवि धाहाविउ कुलहरु सम्भरेँवि ॥ १
"हा ताय ताय मइँ [२]सन्थवहि हा माएँ माएँ सिरेँ करु थवहि ॥ २
हा भाइ भाइ मब्भीस करेँ गय वग्घ सिङ्घ ढुक्कन्त धरेँ ॥ ३
हा विहि हा काइँ कियन्त किउ एउ वसणु काइँ महु दक्खविउ ॥ ४
हा काइँ कियइँ मइँ दुक्कियइँ जं णिहि दावेँवि णयणइँ हियइँ ॥ ५
ए[1]वहिँ आइउ ए[2]त्तहेँ मरणु तो वरि मुइयहेँ जिणवरु सरणु ॥ ६
जें भव-संसारहों उत्तरमि अजरामर-पुरवरु पइसरमि" ॥ ७
सा एम भणेँवि सण्णासेँ थिय हत्थ-सयहों उवरि णिवित्ति किय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वरिसहुँ सट्ठि सहास थियँ[3] तव-चरणेँ परिट्ठिय जावेँहिँ ।
णव-मयलञ्छण-लेह जिह [३]सउदासें दीसइ तावेँहिँ ॥ ९

[१३]

छुड्डु छुड्डु तहिँ पवर-भुअङ्गमेँण देहद्धु गिलिउ उर-जङ्गमेँण ॥ १
वोल्लिज्ज[1]इ तो विज्जाहरेँण "किं हम्मउ अजगरु असिवरेँण" ॥ २
परमेसरि पभणइ सव्व-स[2]ह "किं त[3]वसिहिँ [१]जुत्ती पाण-वह ॥ ३
अक्खे[4]ज्जहि तायहों ए[5]हँ विहि तु[6]हँ दुहियएँ रक्खिय सील-णिहि ॥ ४
तव-चरणु णिरोसहु उज्जवि[7]उँ [२]अजयरहों सरीरु समल्लविउ" ॥ ५

11. 1 P °याइं, S °याइ. 2 S °याइ, B °लक्खयइं. 3 P A ढेकियइं, S ढेकियाइ. 4 S °वयण.°
12. 1 P अव्वहि. 2 P एत्तडउ, S. wanting. 3 P सइं, S सइ.
13. 1 P S वोलिज्जइ, A वोल्लिजाइ. 2 P S A B °सहा. 3 S तवसहु. 4 S अक्खेज्जहिं, A अक्खिज्जहिं. 5 P S एम. 6 P A तुहु. 7 P S °मिउ.

२ क्षयं गतानि.
[१२] १ नदी. २ आस्वासय, संबोधय. ३ विद्याधरेण.
[१३] १ सोहइ. २ T अजगरस्य स्वशरीरं समर्पितं.

सउदासें जं तहिँ लक्खियउ तं सयलु णरिन्दहों अक्खियउ ॥ ६
तिहुअणआणन्दु पधाइयउ कलुणइ (?) कन्दन्तु पराइयउ ॥ ७
सयणहुँ उप्पाइउ दाहु पर जिणु जय भणन्ति मुअऽणङ्गसर ॥ ८
णिय जेण [३]सो वि तउ करेंवि मुउ दसरहहों पुत्तु [४]सोमित्ति हुउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

एह वि मरेंवि अणङ्गसर [8]उप्पण्ण विसल्ला-सुन्दरि ।
[५]वल तहेँ तणेंण जलेंण पर स इँ भु व धुणन्तु उट्ठइँ हरि' ॥ १०

*

[६९. एक्कुणसत्तरीमो संधि]

[१]

विज्जाहर-वयण-रसायणेंण आसासिउ वलहद्दु किह ।
[2]'णहेँ पडिवा-[१]यन्दें दिट्ठएँण कहि मि ण माइउ उवहि जिह ॥

सरहसेंण [२]पेरज्जिय[3]-आहवेण सामन्त [३]पजोइय राहवेण ॥ १
'किं कहों वि अत्थि म[4]णु सइय[5]-अङ्गें जो एइ अणु[6]ट्ठन्तएँ [४]पयङ्गें ॥ २
जो जणइ मणोरह महु मणासु जो जीविउ देइ जणद्दणासु' ॥ ३
तं वयणु सुणेंवि मरु-णन्दणेण वुच्चइ रावण-वण-मद्दणेण ॥ ४
'महु अत्थि देव मणु सइय-अङ्गें हउँ [५]एँमि अणुट्ठन्तएँ पयङ्गें ॥ ५
हउँ जणमि मणोहर तुह मणासु हउँ जीविउ देमि जणद्दणासु' ॥ ६
[६]तारा-तणएण वि वुत्तु एव 'हउँ हणुवहों होमि सहाउ देव' ॥ ७
भामण्डलु पभणइ 'सुणु सुसामि हउँ विहिँ उत्तर-सक्खिणउ जामि' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

ते जणय-पवण-सुग्गीव-सुय रामहों चल[7]णेंहिँ पडिय किह ।
कल्लाण-कालें तित्थङ्करहों तिण्णि वि तिहुवण-इन्द जिह ॥ ९

8 S तहि मिलहि वि सुरत्तु विसल्लासुंदरि हुय. 9 P S A B उट्ठेइ.

1. 1 P S °वाणरसाहणे. 2 P S A णहि. 3 P S पवड्डिय°. 4 P मणु corrected as मुण. 5 P S सइवि. 6 S पट्ठंतए. 7 P S चलणिहि, A वलणिहिं.

३ मयणसरः. ४ लक्ष्मणः. ५ T राम.

[१] १ चंद्रेण. २ जितसंग्रामेण. ३ T दृष्टः. ४ सूर्योदये. ५ सूर्योदयेण विना आगच्छामि. ६ अंगदेन.

[२]

आरूढ विमाणेँहिँ सुन्दरेहिँ [1]अमरेहि[1] वँ[2] सव्व-सुहङ्करेहिँ ॥ १
चुम्वणेँहिँ व णाणाविह-सरेहिँ [2]सिव-पयँहिँ[3] व मुत्तावलि-धरेहिँ ॥ २
कामिणि-मुहेँहिँ वँ[4] वण्णुज्जलेहिँ [3]छिञ्छइ- चित्तेहिँ व चञ्चलेहिँ ॥ ३
महकइ-कव्वेहिँ व सुघडिएहिँ सुपुरिस-चरिएहिँ व पयडिएहिँ ॥ ४
[4]थेरासणेहिँ व अलि-मुहलिएहिँ सइ-चारित्तेहिँ व अखलिएहिँ ॥ ५
णव-जोव्वणेँहिँ व [5]णह-गोयरेहिँ [6]जिण-सिरेँहिँ व भामण्डल-धरेहिँ ॥ ६
वयणेहिँ व हँणुव-पसङ्गएहिँ पाहुणेँहिँ व गमण-मणङ्गएहिँ[5] ॥ ७
थिय तेहिँ विमाणेँहिँ मणिमएहिँ णं वर-फुल्लन्धुय पङ्कएहिँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

मण-गमणेँहिँ गयणेँ[6] पयट्टएहिँ[7] लक्खिउ लवण-समुद्दु किह ।
महि-मडयहोँ णहयल-रक्खसेण फाडिउ जठर-पएसु जिह ॥ ९

[३]

दीसइ रयणायरु रयण-वाहु विञ्झु व [1]स-वारि छन्दु व सँ[2]-गाहु ॥ १
अत्थाहु सुहि[3] व हत्थि व कँरालु[4] भण्डारिउ व्व वहु-रयण-पालु ॥ २
सूहव-पुरिसो व्व सलोण-[5]सीलु सुग्गीवु व पयडिय-इन्दणीलु[1] ॥ ३
जिण-सुव-चक्कवइ व किय-वसेलु [6]मज्झँण्णु[2] व उप्परेँ चडिय-वेलु ॥ ४
तवसि व परिपालिय-समय-सारु दुज्जण-पुरिसो व्व सहाव-खारु ॥ ५
णिद्धण-आलावु व अप्पमाणु जोइसु व मीण-कक्कडय-थाणु ॥ ६
मह-कव्व-णिवँन्धु[3] व सद्द-गहिरु [7]चामीयर-चँसय[4] व [8]पीय-मँइरु[5] ॥ ७
[6]तं जलणिहि उलङ्घन्तएहिँ वोहित्थइँ दिट्ठइँ जन्तएहिँ ॥ ८
[9]णीसीहवडइँ [10]लँम्बिय-हलाइँ महरिसि-चित्ताइँ व अविचलाइँ ॥ ९

2. 1 A अवरेहि. 2 only in T. P S A मि. 3 P S A °पयहि. 4 wanting in P S 5 P °मणंगमेहिं, S °मणंगमेहि. 6 P S A गयणि. 7 P पयट्टेहिं, S पयट्टिवि, A पयट्टइहिं.

3. 1 P S °इंदलीलु. 2 P S मज्झाणु. 3 A °णिवण्णु. 4 P S वसइ य, A वसइ व. 5 P S A °मयरु, only T. मइरु. 6 A भं.

[२] १ देवसदृशैः. २ मोक्षपदमिव । सिद्धपरंपरा मुक्तावलीव. ३ पुंश्चली. (T.'s reading) थिय-चित्तहि व्व = स्त्रीचित्त इव. ४ ब्रह्मणः कमलैरिव. ५ नखैर्विदारितैराकाशगामिभिश्च. ६ T जिनश्री इव भामंडलेन सह यथा. ७ पक्षे चिवुकस्थानं = थोढी (Hindi ठोढ़ी). ८ भ्रमराः.

[३] १ हस्तिबंधन-गर्ता-युक्तः, सजलश्च. २ T गाथको नाम छंदो जलचराश्च. ३ स्वजन-हृदय इव. ४ हस्तो वोहित्थ-विशेषश्च (?). ५ उभयत्र श्रियं लाति गृह्णाति शी(श्री)लः. ६ T मध्याह्नमिव. ७ सुवर्ण-चषकवत् । चषको मद्य-भाजनं. ८ T पीता मदिरा मद्यं यस्मिन् चकषे (i. e. चषके), अन्यत्र पीताः स्वीकृता मदिरा येन । पूर्व-मथन-काले निर्गता सा. ९ सेवड–रहितानि (?). १० नागरितानि.

॥ घत्ता ॥

अण्णु वि थोवन्तरु जन्तऍहिँ   तिहि मि णिहालिउ गिरि मलउ ।
जो लवलि-वलहोँ चन्दण-सरहोँ   दाहिण-पवणहोँ थामलउ ॥ १०

[४]

जहिँ जुवइ[1]-[१]पऊरु[2]-परज्जियाइँ   रत्तुप्पल-कयलि-वणाइँ थियाइँ ॥ १
कामिणि-गइँ[२][3]-छाया-भंसियाइँ   जहिँ हंस-उलइँ[4] आवासियाइँ ॥ २
कर-करयल-ओहामिय-मणाइँ   जहिँ मालइ-कङ्केली-वणाइँ ॥ ३
जहिँ वयण-णयण-पह-घल्लियाइँ   कमलिन्दीवरइँ समल्लियाइँ ॥ ४
[5]जहिँ महुर-वाणि अवहत्थियाइँ   कोइल-कुलाइँ कसणइँ[6] थियाइँ ॥ ५
भउहावलि-छाया-वङ्कियाइँ   जहिँ णिम्ब-दलइँ[7] कंडुयइँ[8] कियाइँ ॥ ६
जहिँ चिहुर-भार-ओहामियाइँ   वरहिण-कुलाइँ रोवावियाइँ ॥ ७
तं मलउ मुऍवि विहरन्ति जाव   दाहिण-महुरऍ आसण्ण ताव ॥ ८

॥ घत्ता ॥

किक्किन्ध-महागिरि लक्खियउ   तुङ्ग-सिहरु कोड्डावणउ[9] ।
छुडु [10]रमियहेँ पुहइ-विलासिणिहेँ   उर-पएसु [३]सोहावणउ[11] ॥ ९

[५]

जहिँ इन्दणील-कर-भिज्जमाणु   ससि थाइ जुण्ण-दप्पण-समाणु ॥ १
जहिँ पउमराय-कर-तेय-पिण्डु   रत्तुप्पल-सण्णिहु होइ चण्डु ॥ २
जहिँ मरगय-खाणि वि विप्फुरन्ति   ससि-विम्वु भिसिणि-पत्तु व करन्ति ॥ ३
तं मेल्लेंवि रहसुच्छलिय-गत्त   णिविसद्धें सरि कावेरि[1] पत्त ॥ ४
जा लइय विहंञ्जेंवि[2] णरवरेहिँ   महकव्व-कहा इव कइवरेहिँ ॥ ५
सामिय-आणा इव किङ्करेहिँ   तित्थङ्कर-वाणि व गणहरेहिँ ॥ ६
सिव-सासय-मोक्ति व हेउएहिँ   वर-सद्दुप्पत्ति व [१]धाउएहिँ[3] ॥ ७
पुणु दिट्ठ महाणइ तुङ्गभद्द   करि-मयर-मच्छ-ओहर[4]-रउद्द ॥ ८

4. 1 P जुवई°. 2 P S °पउरु°, A °एऊरु°. 3 A °गय°. 4 P S °वलइ. 5 P S A जहिं. 6 P S कसणइ, wanting in A. 7 P S A °दलइ. 8 P कडूअइ, S कडूयइ, A कंडुयइं. 9 P S कोडावणउ, A कोड्डावणउं. 10 P रमिअहे, S रमियहि, A रमिअहिं. 11 P णं सव्वणउं, S णं सव्वणउ, A सोहावणउं.

5. 1 P S °कोवेरी. 2 P S A विहंजिवि. 3 P S वाउएहिं (S °हि). 4 P S °कच्छय°, A °उहर°.

[४] १ T पादोरुभ्यां क्रमेण निर्जितानि. २ गतिशोभया. ३ T उच्छूनं कर्नाटदेशे व्यवहारोऽय(यं).
[५] १ (P'. S. reading) हेतुवादुभिः.

॥ घत्ता ॥

असहन्तें वणदव[2]-पवण-झडें[5] दूसह-किरण-दिवायरहों ।
णं सज्झें[6] सुठ्ठु तिसाइऍण[7] जीह पसारिय सायरहों ॥ ९

[६]

पुणु दिट्ठ पवाहिणि किण्हवण्ण[1] किविणत्थ-पउत्ति व महि-णिसण्ण ॥ १
पुणु इन्दणील-कण्ठिय-[1]धरेण[2] दक्खविय समुद्दहों आयरेण ॥ २
पुणु सरि भीमरहि[3] जलोह-फार जा सेउण-देसहों अमिय-धार ॥ ३
पुणु गोला-णइ मन्थर-पवाह [4]सज्झेण पसारिय णाइँ वाह ॥ ४
पुणु वेण्णि-पउणिहिउ[5] वाहिणीउ णं कुडिल-सहावउ कामिणीउ ॥ ५
पुणु तावि महाणइ सुप्पवाह सज्जण-मेत्ति व्व अलद्ध-थाह ॥ ६
थोवन्तरालें पुणु विञ्झु थाइ [2]सीमन्तउ पिहिमिहें तणउ णाइ ॥ ७
पुणु रेवा-णइ हणुवङ्गएहिँ सा णिन्दिय रोस-वसङ्गएहिँ ॥ ८
'किं विञ्झहों पासिउ उवहि चारु जो [3]स-विसु [4]किविणु अच्चन्त-खारु ॥ ९
तं णिसुणेंवि सीय-सहोयरेण णिब्भच्छिय णहयल-गोयरेण ॥ १०

॥ घत्ता ॥

जं विञ्झु मुऍवि गय सायरहों मा रूसहों[6] रेवा-णइहें ।
णिल्लोणु मुअइ सलोणु सरइ णिय-सहाउ ऍउ तियमइहें ॥ ११

[७]

सा णम्मय दूरन्तरेंण[1] चत्त पुणु उज्जयणि[2] णिविसेण पत्त ॥ १
जहिँ जणवउ स-धणु महा[3]-घणो व्व रामोवरि वच्छलु लक्खणो व्व ॥ २
गुणवन्तउ धणुहर[4]-सङ्गहो व्व अमुणिय-कर-सिर-तणु वम्महो व्व ॥ ३
स वि दुम्महिल[5] व उज्जेणि[6] मुक्क पुणु पारियत्तु[7] मालवउ[8] ढुक्क[9] ॥ ४
जो धण्णालङ्किउ णरवइ व्व उच्छुहणु कुसुमसरु रइवइ[10] व्व ॥ ५
तं मेल्लेंवि जउणा-णइ पवण्ण[6] जा अलय-जलय-गवलालि-वण्ण ॥ ६

5 A °इल. 6 A संझे. 7 P S तिसाएण.

6. 1 P S कण्हवण्ण. 2 A °वरेण. 3 P S भीमरइ. 4 P S A संज्झेण. 5 P S पइण्हिउ, A यउण्हि. 6 P S रूसहि.

7. 1 P S दूरवरेण, A दूरंतरिण. 2 P S उज्जयणें, A उज्जोयणे. 3 P S महग्घणो. 4 P S धणुवर°. 5 P S सा विडमहिल. 6 A उजोणि. 7 P S पारियत्त, A परियत्त. 8 P मालवु, A मालव. 9 S ढुक्कु 10 A रइवहु.

२° दवाग्निः.

[६] १ पर्वतेन. २ सीमांतः. ३ T समुद्रो स विषोत्पत्तिस्थानं प्रसिद्धमिदं. ४ T अधः प्रस्थापितसर्वस्वं
[७] १ कृशत्वा. २ पुण्याधिक-जनश्च सस्यालंकृतश्च. ३ इक्षुधनं ट्टे (?) इक्षुरेव व (?) नं द्रव्यं च. ४ पुष्पमाला. ५ काम. ६ प्राप्ताः.

जा कसिण भुअङ्गि व विसहोँ भरिय कज्जल-रेह व णं धरएँ[11] धरिय ॥ ७
थोवन्तरेँ जल-णिम्मल-तरङ्ग ससि-सङ्ख-समप्पह दिट्ठ गङ्ग ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अम्हहँ विहिँ गरुत्रउ कवणु जएँ जुज्झेँवि आएं मच्छरेँण ।
हिमवन्तहोँ णं अवहरेँवि णिय धय-वडाय रयणायरेँण ॥ ९

[८]

थोवन्तरेँ तिहि मि अउज्झ दिट्ठ पुणु[1] सिद्धि[2]पुरिहिँ सिद्धि व पइट्ठ ॥ १
जहिँ[3] मिहुणइँ आरम्भिय-रयाइँ[4] पन्थिय इव उच्चाइय-पयाइँ ॥ २
पाहुण इव अवरुण्डण-मणाइँ गिरिवर-गत्ता इव सव्वणाइँ ॥ ३
अविचल-रज्जा इव सु-करणाइँ[5] रिसिउल इव भाव-परायणाइँ ॥ ४
धणुहर इव गुण-मेल्लिय-सराइँ अहरत्ता इव पहराउराइँ ॥ ५
पुणु णरवइ मंदिरेँ गय तुरन्त मुणि-सुव्वय-जिण-मङ्गलइँ [6]गंन्त ॥ ६
[7]सग्गावयारेँ जम्माभिसेएँ णिक्खवणेँ णाणेँ णिव्वाण[8]च्छएँ ॥ ७
तित्थयर-परम-देवाहँ जाइँ पञ्च वि कल्लाणइँ होन्ति ताइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

'महि मन्दरु सायरु जाव णहु जाव दिसउ महणइ-जलइँ ।
तउ होन्तु[9] ताव जिण-केराइँ पुण्ण-पवित्तइँ मङ्गलइँ' ॥ ९

[९]

तेँ[1] मङ्गल-सद्दें पहु विउद्धु णं छण-मयलञ्छणु अद्ध[2]-अद्धु ॥ १
णं उअय-महीहरेँ तरुण-मित्तु णं माणस-सरु रवि-किरण-छित्तु ॥ २
णं वाल-लीलु केसरि-किसोरु णं सुरवइ सुर-वहु-चित्त-चोरु ॥ ३
उट्ठन्तें वहु-मणि-गण[3]-चियाइँ लक्खियइँ[4] विमाणइँ खञ्चियाइँ ॥ ४
णं णहयल-कमलइँ[5] विहसियाइँ[6] सज्जण-वयणाइँ व पहसियाइँ ॥ ५
णिक्कारणेँ जाइँ पप्फुल्लियाइँ सु-कलत्तइँ णाइँ समलियाइँ[7] ॥ ६
णिद्दिट्ठ विमाणेँहिँ तेहिँ[8] वीर सव्वाहरणालङ्किय-सरीर ॥ ७
परिपुच्छिय 'तुम्हेँ पयट्ट केत्थु किं मायापुरिस पढुक्क एत्थु ॥ ८

11 P धरणिंए.

8. 1 S णं. 2 wanting in A. 3 S A जहि. 4 S A °रयाइ. 5 S A सुकरणाइ. 6 S दंत. 7 S सग्गब्भयारे जम्माहिसेव, A °जम्माहिसए. 8 S णिव्वाणि एव. 9 S होंति, A होतु.

9. 1 S तं, A ते. 2 A मुद्ध मुद्ध. 3 A °गय°. 4 S A लक्खियइ. 5 S A कमलइ. 6 S A °याइ. 7 S समुल्लियाइ. 8 S सव्व.

॥ घत्ता ॥

हेमन्त-गिम्ह-पाउस-समय किं अवयवेंहिँ अलङ्करिय ।
किं तिण्णि वि हरि-हर-चउवयण आएं वेसें अवयरिय' ॥ ९

[१०]

वयणेण तेण भरहहों तणेण वोल्लिज्जइ जणयहों णन्दणेण ॥ १
'हउँ भामण्डलु हणुवन्तु एहु उहु अङ्गउ रहसुच्छलिय-देहु ॥ २
तिण्णि वि आइय कज्जेण जेण सुणु अक्खमि किं बहु-वित्थरेण ॥ ३
सीयहेँ कारणेँ रोसिय-मणाहँ रणु वट्टइ राहव-रावणाहँ ॥ ४
लक्खणु सत्तिएँ विणिभिण्णु तेत्थु[1] दुक्करु जीवइ तें आय एत्थु' ॥ ५
तं वयणु सुणेँवि परिपालिएलु णं कुलिस-समाहउ पडिउ सेलु ॥ ६
णं चवण-कालेँ सग्गहों सुरिन्दु उम्मुच्छिउ कह वि कह वि णरिन्दु ॥ ७
दुक्खाउरु धाहावँणहिँ[2] लग्गु पुण्ण-क्खएँ हरि व मुअन्तु सग्गु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

'हा पइँ[3] सोमित्ति मरन्तएँण मरइ णिरुत्तउ दासरहि ।
भत्तार-विहूणिय णारि जिह अज्जु अणाहीहूय महि ॥ ९

[११]

हा भायर एक्कसि देहि वाय हा पइँ विणु जय-सिरि विहव जाय ॥ १
हा भायर महु सिरेँ पडिउ गयणु हा हियउ फुट्टु दक्खवहि वयणु ॥ २
हा भायर वरहिण[1]-महुर-वाणि महु णिवडिओऽसि दाहिणउ पाणि ॥ ३
हा किं समुद्दें जल-णिवहु खुट्टु हा किह दिट्ठु कुम्भ-कडाहु फुट्टु ॥ ४
हा किह सुरवइ लच्छिएँ विमुक्कु हा किह जमरायहों मरणु ढुक्कु ॥ ५
हा किह दिणयरु कर-णियर-चत्तु हा किह अणङ्गु दोहग्गु पत्तु ॥ ६
हा चञ्चलिहूअउ केम मेरु हा केम जाउ णिद्धणु कुवेरु ॥ ७

॥ घत्ता ॥

हा णिव्विसु किह धरणिन्दु थिउ णिप्पहु ससि सिहि सीयलउ ।
टलटलिहूई केम महि केम समीरणु णिच्चलउ ॥ ८

10. 1 S A तित्थु. 2 S °वणह. 3 S A पइ.

11. 1 S महुयर°.

[१२]

लब्भइ रयणायरें रयण-खाणि   लब्भइ कोइल-कुलें महुर-वाणि ॥ १
लब्भइ चन्दणु गिरि[1]-मलय-सिङ्गें   लब्भइ सुहवत्तणु जुवइ-अङ्गें ॥ २
लब्भइ धणु धणऍं धरा-पवण्णु   लब्भइ कञ्चण-पावऍं सुवण्णु ॥ ३
लब्भइ पेसणें सामिय-पसाउ   लब्भइ किऍं विणऍं जणाणुराउ ॥ ४
लब्भइ सज्जणें गुण-दाण-कित्ति   सिय असिवरें गुरु-कुलें परम तित्ति[2] ॥ ५
लब्भइ वसियरणें कलत्त-रयणु   महकव्व सुहासिउ सुकइ-वयणु ॥ ६
लब्भइ उवयार-मइ[3]ऍं सु-मित्तु   मं[4]हवेंहिँ विलासिणि-चारु-चित्तु ॥ ७
लब्भइ पर-तीरें[5] महग्घु भण्डु   वर-वेलुं[6]-मूलें वेडुज्जं[7]-खण्डु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

गऍं मोत्तिउं[8] सिङ्घल-दीवें मणि   वइरागं[9]रहों वज्जु पउरु ।
आयइँ सव्वइँ लब्भन्ति जऍं   णवर ण लब्भइ भाइ-वरु ॥ ९

[१३]

रोवन्तें दसरह-णन्दणेण   धाहाविउ सव्वें परियणेण ॥ १
दुक्खाउरु रोवइ सयलु लोउ   णं चं[2]प्पेंवि चप्पेंवि भरिउ सोउ ॥ २
रोवइ भिच्चयणु समुद्द-हत्थु   णं कमल-सण्डु हिम-पवण-घत्थु ॥ ३
रोवइ अन्तेउरु सोय-पुण्णु   णं छिज्जमाणु सङ्घ-उलु वुण्णु ॥ ४
रोवइ अवराइव राम-जणणि   केक्कय दाइय-तरु-मूल-खणणि ॥ ५
रोवइ सुप्पह विच्छाय जाय   रोवइ सुमित्त सोमित्ति-माय ॥ ६
'हा पुत्त पुत्त केत्तहि गओऽसि   किह सत्तिऍं वच्छ-त्थलें हओऽसि ॥ ७
हा पुत्त मरन्तु ण जोइओऽसि   दइवेण केण विच्छोइओऽसि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

रोवन्तिऍं लक्खण-मायरिऍं   सयलु लोउ रोवावियउ ।
कारुण्णऍं कव्व-कहाऍं जिह   को वँ[3] ण अंसु मुआवियउ ॥ ९

[१४]

परिहरेंवि सोउ भरहेसरेण   करवालु लइउ दाहिण-करेण ॥ १

---

12. 1 S सिरि°. 2 A कित्ति. 3 S °मइहि. 4 S महवेहि, A महवाह. 5 S °तीरि, A °ती. 6 S °वेणु°. 7 S वेलुज्ज°, A वेडु°. 8 A मोत्तिउं. 9 A वइरागरहि.

13. 1 S रोवंतहे, A रोवंतहें. 2 S A चप्पिवि. 3 A वि. Before the figure 13 ending the last Kaḍavaka's adds marginally the following passage:

रण-भेरि समाहय दिण्ण सङ्ख | साहणु सण्णज्झु अलद्ध सङ्ख ॥ २
रह जोत्तिय किय करि सारि-सज्ज | पक्खरिय तुरङ्गम जय-जसज्ज ॥ ३
सरहसु सण्णज्झइ भरहु जाव | भामण्डलेण विण्णत्तु तावँ ॥ ४
'पइँ गऍण वि सिज्झइ णाहिँ कज्ज | तं करि हरि जीवइ जेण अज्जु ॥ ५
जइ दिण्णु विसल्लहेँ तणउ[1] ण्हवणु | तो अक्खहिँ[2] पेसणु ण किउ कवणु' ॥ ६
तं वयणु सुणेप्पिणु भणइ राउ | 'किं सलिलें सइँ[3] जें विसल्ल जाउ' ॥ ७
पट्ठविय महल्ला गय तुरन्त | कउतिकमङ्गलु णिविसेण पत्त ॥ ८

॥ घत्ता ॥

विण्णविउ णवेप्पिणु दोणघणु | 'जीविउ देव देहि हरिहेँ ।
णीसरउ सत्ति वच्छत्थलहोँ[4] | जलेँण विसल्लासुन्दरिहेँ' ॥ ९

[१५]

एत्तडिय वोल्ल पडिवण्ण जाव | केक्कइ सम्पाविय तहिँ जि ताव ॥ १
पणवेप्पिणु भायरु वुत्तु तीऍ | 'करेँ गमणु विसल्ला-सुन्दरिऍ ॥ २
जीवउ लक्खणु हम्मउ दसासु | पूरन्तु मणोरह राहवासु ॥ ३
आणन्दु पवड्ढउ जाणईहेँ | तणु तारउ दुक्ख-महाणईहेँ ॥ ४
अण्णु वि विसल्ल तहोँ पुव्व-दिण्ण | लग्गउ करयलेँ सब्भाव-भिण्ण' ॥ ५
तं वयणु सुणेँवि परितुट्ठु दोणु | 'उट्ठउ णारायणु अखय-तोणु' ॥ ६
पट्ठविय विसल्ल-खणन्तरेण | सहुँ कण्ण-सहासें उत्तरेण ॥ ७
गय जयकारेप्पिणु दोण[2]मेहु | केक्कइय पराइय णियय-गेहु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

हणुवङ्ग[3]य-भामण्डल-भरह | दिट्ठ विसल्ला-सुन्दरिऍ ।
णं मज्झ-पँदेसेँ[4] पइट्ठियऍ | चउ मयरहर वसुन्धरिऍ ॥ ९

पुणु सोमित्तिय संवरिवि सोउ | रोवंतु णिवारिवि सयलु लोउ ॥
पुणु भणिय हलाउव-जणणि तेण | धीरवहि अप्पु सामिणि मणेण ॥
सुनु माइग (?) तुय लक्खणु सुधंण्णु | जा सम महियलि अवरु ण उवण्णु ॥
जिणि पाण समप्पिय पहुहि कज्जि | अरि उवरि परक्कमु अतुलु स ज्जि ॥
वल सहु भासिज्जहि हणुव एव | टुहु चि (?) भण धरिज्जइ देवदेव ॥
अणुचर-वड्डुत्तणु हवइ एहु | पहु-कज्जि समप्पइ णियय-देहु ॥
तुहु जुज्झहि अरि घण-पलयवाहु | जिम होइ सत्तु जिणि सीयलाहु ॥
रहु-जणणि भणइ सुव काइं किण्णु | तिय-कारणि लक्खणु सत्ति-भिन्नु ॥
किं उचरिउ वण्णउं रहु-समाणु | किउ वंधव-मरणु असज्झठाण ॥
वतु (?) वंज्झतनू जरि तण अहंग | जोव्वण-मरट्ट रूवें सडंग ॥
णउ पुत्तु कुपुत्तुउ वणु (?) कोक्खि | अप्पउ पोसवइ कुंलवल्लि सोक्खि ॥

14. 1 A तणउं. 2 A अक्खुवि. 3 S A सइ. 4 S °यलहो.
15. 1 A °तिण्ण. 2 S A दोणु°. 3 °वगंगय°. 4 S देसे, A पदेसि.

[१६]

स वि णयणकडक्खिय दुज्जएहिँ   सिय णावइ चउहु मि दिस-गएहिँ ॥ १
तें[1] पुलइय णव-णीलुप्पलच्छि   ववसाउ करन्तहों कहों ण लच्छि ॥ २
पुणु पोमाइउ लक्खणु कुमारु   'संसारहों लइ एत्तडउ सारु ॥ ३
जइ जीविउ केव वि कह वि पत्तु   तो धण्णउ जसु एहउ कलत्तु' ॥ ४
भामण्डलेण कोक्कावियाउँ[2]   लहु णियय-विमाणेँ चडावियाउ ॥ ५
तिण्णि वि संचल्ल णहङ्गणेण   गय लङ्क पराइय तक्खणेण ॥ ६
जिह जिह कण्णउ ढुक्कन्ति ताउ[3]   तिह तिह विमलीहूयउ दिसाउ ॥ ७
रामेण वुत्त 'जम्बव विहाणु   लइ अप्पउ दहमि हारिँ समाणु' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

धीरिउ[4] राहवु रिच्छद्धएँण   'जणिय विसल्लएँ विमल दिसि ।
किं कहमि भडारा दासरहि   तिहिँ[5] पहरेँहिँ सम्भवइ णिसि ॥ ९

[१७]

ण विहाणु ण भाणु मणोहरीहिँ[1]   उहु तेउ विसल्ला-सुन्दरीहिँ[2]' ॥ १
वल-जम्बव वे वि चवन्ति जाव   णीसरिय सरीरहों सत्ति ताव ॥ २
पुण्णालि णाइँ[3] पर-णरवराउ   णं णम्मय विञ्झ-महीहराउ[4] ॥ ३
णं सद्द-माल वर कइवराउ   णं दिव्व वाणि तित्थङ्कराउ ॥ ४
एत्थन्तरेँ अम्बरेँ धगधगन्ति   पवणञ्जय-तणएं धरिय जन्ति ॥ ५
णं वेस वियड्ढेँ णरवरेण   णं पवर महाणइ सायरेण ॥ ६
पचविय वेवन्ति अमोह-सत्ति   'मं[5] धरेँ मं धरेँ मुएँ मुएँ दवत्ति ॥ ७
णउ दुट्ठ-सवत्तिहेँ समुहु थामि   एँह अच्छउ हउँ णिय-णिलउ जामि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

असहन्तिहेँ[6] हियय-विणिग्गयहेँ कवणु एत्थु अब्भुद्धरणु ।
सव्वहेँ भत्तारेँ घत्तियहेँ[7]   कुल-वहुअहेँ कुलहरु सरणु ॥ ९

16. 1 S ते, A ति. 2 S A °याउ. 3 A ज्झाउ. 4 A धारिंउ. 5 S A तिहि.
17. 1 S °हरिहि, A °हरीहि. 2 S A °सुंदरीहि. 3 S A णाइ. 4 S °रहो. 5 S मा धरे मा धरि, A धरि मं धरि. 6 S असहंतिहि, A असहंत्तिह. 7 S घल्लियहि.

[१८]

किं ण मुणिय [1]पइँ महु तणिय थत्ति हउँ सा णामेणामोह-सत्ति ॥ १
कइलासुद्धरणेँ भयावणासु धरणिन्दें दिण्णी रावणासु ॥ २
सङ्गाम-कालेँ लक्खणहोँ मुक्क हरि-आणएँ विज्जु व गिरिहेँ ढुक्क ॥ ३
असहन्ति विसल्लहेँ तणउ तेउ णासमि लग्गी किं करहि खेउ ॥ ४
आयएँ अवलम्बेंवि परम-धीरु अण्णहिँ जम्मन्तरेँ घोर-वीरु ॥ ५
तव-चरणु णिरोसहु चिण्णु तावँ गय [2]वरिसहुँ सट्ठि सहास जावँ' ॥ ६
हणुएण वुत्तु 'जइ सच्चु देहि तो [3]मुयमि पडीवी जइ ण एहि' ॥ ७
[4]विज्जॅए पभणिउ 'लइ दिण्णु दिण्णु णउ भिण्णमि जिह [5]एवहिँ विभिण्णु' ॥ ८
तं णिसुणेंवि पवण-सुएण मुक्क विहडप्फड गय णिय-णिलउ ढुक्क ॥ ९
एत्तहेँ वि ताव सरहस पइट्ठ स-वलेण वलेण विसल्ल दिट्ठ ॥ १०

॥ घत्ता ॥

सिउ सन्ति करन्ति हरन्ति दुहु सीयहेँ रामहोँ लक्खणहोँ ।
अत्थक्कएँ [6]ढुक्क भवित्ति जिह लङ्कहेँ रज्जहोँ रावणहोँ ॥ ११

[१९]

सव्वङ्गिउ हरि परमेसरीएँ परिमट्ठु विसल्ला-सुन्दरीएँ ॥ १
समलद्धु सुअन्धें चन्दणेण रामहोँ वि समप्पिउ तक्खणेण ॥ २
तेण वि पट्ठविउ कइद्धयाहँ जम्बव-सुग्गीवङ्गङ्गयाहँ ॥ ३
भामण्डल-हणुव-[2]विराहियाहँ णल-णीलहँ हरिस-पसाहियाहँ ॥ ४
गय-गवय-गवक्खाणुद्धराहँ कुन्देन्दु-मइन्द-वसुन्धराहँ ॥ ५
अवरह मि चिन्ध-उवलक्खियाहँ [3]सामन्तहँ रावण-पक्खियाहँ ॥ ६
केसरिणियम्ब-सुय-सारणाहँ रविकण्णेन्दइ-घणवाहणाहँ ॥ ७
जमघण्ट-जमाण[ण]-[4]जममुहाहँ धूमक्ख-दुराणण-दुम्मुहाहँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अवरह मि असेसहुँ णरवइहुँ दिण्णु विहज्जेंवि गन्ध-जलु ।
अत्थक्कएँ जाउ पुणण्णवउ सयलु वि रामहोँ [5]तणउ वलु ॥ ९

---

18. 1 P S पइ. 2 S A वरिसहु. 3 S मुयविं, A मुएमि. 4 S विज्जइ, A विजाइ. 5 A S एवहि. 6 S अथक्क पढुक्क.

19. 1 S तें राम समप्पिउ. 2 S A विराहिवाहं. 3 S A सामंतह. 4 S जमइंटह जममुहस-ण्णिहाहं, A जमाण. 5 A तणउं.

[२०]

जं राम-सेण्णु णिम्मल-जलेण   संजीविउ संजीवणि-वलेण ॥ १
तं वीरेंहिँ वीर-रसाहिएहिँ   वग्गन्तेंहिँ पुलय-पसाहिएहिँ ॥ २
वज्जन्तेंहिँ पडहेंहिँ मद्दलेहिँ   गिज्जन्तेंहिँ धवलेंहिँ मङ्गलेहिँ ॥ ३
णच्चन्तेंहिँ खुज्जय-वामणेहिँ[1]   जज्जु-रियउ[2] पढन्तेंहिँ वम्भणेहिँ ॥ ४
गायन्तेंहिँ[3] अहिणव-गायणेहिँ   वायन्तेंहिँ वीणा-वायणेहिँ ॥ ५
सव्वेंहिँ उण्णिद्दाविउ अणन्तु   उट्ठिउ 'केत्तहेँ रावणु' भणन्तु ॥ ६
विहसेप्पिणु उच्चइ हलहरेण   'किं खलेंण गविट्ठें णिसियरेण ॥ ७
ता दुद्दम-दणु-णिद्दलण-दप्प   उव वयणु विसल्लहेँ तणउ[4] वप्प ॥ ८
जममुहहों जाएँ णीसारिओऽसि   लङ्कहेँ[5] विणासु पइसारिओऽसि' ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तं णिसुणेंवि जोइय लक्खणेंण   तक्खण-मयणाअल्लियउ[6] ।
णं एक्कएँ सत्तिएँ परिहरिउ   पुणु अण्णेक्कएँ सल्लियउ ॥ १०

[२१]

सा कण्ण णिएँवि हरिसिय-मणासु   उप्पण्ण भन्ति णारायणासु ॥ १
'किं चलण-तलग्गइँ कोमलाइँ   णं णं अहिणव-रत्तुप्पलाइँ ॥ २
किं ऊरु परोप्परु भिण्ण[2]-तेय   णं णं णव-रम्भा-खम्भ एय ॥ ३
किं कणय-दोरु घोलइ विसालु   णं णं अहि रयण-णिहाण-पालु ॥ ४
किं तिवलिउ जढरेँ पधावियाउ   णं णं कामउरिहेँ खाइयाउ[3] ॥ ५
किं रोमावलि घण कसण एह   णं णं मयणाणल-धूम-लेह ॥ ६
किं णव-थण णं णं कणय-कलस   किं कर णं णं पारोह-सरिस ॥ ७
किं आयम्विर कर-यल चलन्ति   णं णं असोय-पल्लव ललन्ति ॥ ८
किं आणणु णं णं चन्द-विम्वु   किं अहरउ णं णं पक्क-विम्वु ॥ ९
किं दसणावलिउ स-मुत्तियाउ   णं णं मल्लिय-कलियउ इमाउ ॥ १०
किं गण्डवास णं दन्ति-दाण   किं लोयण णं णं काम-वाण ॥ ११
किं भउहँ[4] इमाउ परिट्ठियाउ   णं णं वम्मह-धणुलट्ठियाउ ॥ १२
किं कण्ण कुण्डलाहरण एय   णं णं रवि-ससि विप्फुरिय-तेय ॥ १३
किं भालउ णं णं ससहरद्धु   किं सिरु णं णं अलि-उल-णिवद्धु' ॥ १४

---

20. 1 S °वावणेहि. 2 S जज्जरियउ, A जज्जुरिज्जु. 3 S गायंतहि, A गायंतहिं. 4 A तणउं. 5 S A लंकहि. 6 S °हल्लियउ.

21. 1 S A °त्तुप्पलाइ. 2 A भिण्णु. 3 S A खाइआउ. 4 A भउहउ.

॥ घत्ता ॥

जाणेप्पिणु स[5]व्वेंहिँ राणऍहिँ   रूवासत्तउ महुमहणु ।
विण्णत्तु कियञ्जलि-हत्थऍहिँ   'करेँ कुमार पाणि-ग्गहणु' ॥ १५

[२२]

ता जं[1]म्ववन्तेँ पभणिउ कुमारु   'फग्गुण-पञ्चमि तहिँ सुक्क-वारु ॥ १
उत्तर-आसाढउ सिद्धि-जोग्गु   अण्णु वि वट्टइ थिरु कुम्भ-लग्गु ॥ २
एयार[2]समउ गह-चक्कु अ[3]ज्जु   स-मणोहरु सयलु विवाह-कज्जु ॥ ३
आरोग्गि[4]उ सम्पय रिद्धि विद्धि   अइरेण होइ सङ्गाम-सिद्धि ॥ ४
आयऍं अवसरेँ परिणेवि देव   रिज्झहु सुरवर-मिहुणाइँ जेव' ॥ ५
तं सुणेँवि सुमित्तिहेँ णन्दणेण   किउ पाणि-ग्गहणु जणद्दणेण ॥ ६
दहि-अक्खय-कलसहिँ दप्पणेहिँ   हवि-मण्डव-वेइय-म[5]क्खणेहिँ ॥ ७
रङ्गावलि-हरियन्दण-छडेहिँ   कत्थइ स-विप्प-वन्दिण-णडेहिँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

उच्छाहेँहिँ धवलेँहिँ मङ्गलेँहिँ सद्देँहिँ तूरेँहिँ अइहवेँहिँ ।
स इँ भू सेँवि साहुक्कारि[6]यँउ   णरवइ-स[7]एँहि(?) किय-उच्छवेँहिँ ॥ ९

*

[७०. सत्तरिमो संधि]

उज्जीवियऍ कुमारेँ   कि[1]ऍँ पाणि-ग्गहणेँ भयावणु ।
तू[2]रहँ सद्दु सुणेवि   सूलेण व भिण्णु दसाणणु ॥

[१]

॥ दुवई ॥ चन्द-विहङ्गमे समुड्डावियए (ग[3]यँ-) अन्धारेँ[4]-महुयरे ।
तारा-कुसुम-णियरेँ परि[5]यँलिऍ [6]मोडिए रयणि-तरुवरे ॥ १
परिभ[7]मन्तेँ पच्चूस-महग्गऍं   तरुण-दिवायर-मेट्ठ-वलग्गऍं ॥ २
ताव परज्जिय-सुर-सङ्घायहोँ   केण वि कहिउ दसाणण-रायहोँ ॥ ३

---

5 S A सव्वेहि.

22. 1 S जंवव चवंति, A ता जंववंति. 2 S एयारहमउ, एयारसमइ. 3 S अज्जु, A अणु. 4 S आरेप्पिउ. 5 S °तक्खणेहि. 6 S साहुक्कारिओ, A साहुक्कारिउ. 7 Metre requires सय for °सएहि.

1. 1 S A किय. 2 S A तूरह. 3 S गय°, A गयं. Metrically redundant. 4 S अंधारए. 5 S परियहिए, परिअलिए. 6 The portion from here up to the end of the next line is wanting in S. 7 A परिभमंति.

‘अहों अहों देव देव जग-केसरि   आइय का वि विसल्ला-सुन्दरि ॥ ४
ताएँ जणद्दणु पच्चुज्जीविउ   णं घिय-धारहिँ सिहि संदीविउँ[8]’ ॥ ५
तं णिसुणेंवि कल-कोइल-वाणी   चिन्ताविय मन्दोयरि राणी ॥ ६
‘अज्ज वि वुद्धि ण थाइ अयाणहों   केवलि-भासिउ ढुक्कु पमाणहों’ ॥ ७
एम वियप्पें[9] अमरोहावणु   पुणु सब्भावें पभणिउ रावणु ॥ ८
‘जे मुआ वि जीवन्ति खणं[10] खणें   दुज्जय हरि-वल होन्ति रणङ्गणें ॥ ९

॥ घत्ता ॥

देहि दसाणण सीय   अज्ज वि लङ्काउरि रिज्झउ ।
तोयदवाहण-वंसु   मं राम-दवग्गिएँ डज्झउ ॥ १०

[२]

॥ दुवई ॥ इन्दइ भाणुकण्णु घणवाहणु वन्धाविय अकज्जेंणं ।
सयण-विहूणएण किं किज्जइ एँवहिँ[1] राय रज्जेंणं ॥ १

किं उड्डिउ णिप्पक्खु विहङ्गमु   किं णिव्विसु संडसउ भुअङ्गमु ॥ २
किं वा तवउ णितेउ दिवायरु   किं णिज्जलु उच्छलउ सायरु ॥ ३
गय-विसाणु किं गज्जउ कुञ्जरु   किं करेउ हरि हय-णह-पञ्जरु ॥ ४
किं विप्फुरउ[2] चन्दु गह-गहियउ   किं पज्जलउ जलणु जल-सहियउ ॥ ५
किं छज्जउ तरु पाडिय-डालउ   किं सिज्झउ रिसि वयइँ अ-पालउ[3] ॥ ६
किं करेहि तुहुँ सुट्ठु वि भल्लउ   वन्धव-सयण-हीणु एक्केल्लउ ॥ ७
तो वरि वुद्धि महारी किज्जउ   अज्ज वि एह णारि अप्पिज्जउ ॥ ८
उव्वेढेवि[4] जन्तु हरि-राहव   मेल्लिज्जन्तु तुहारा वन्धव ॥ ९

॥ घत्ता ॥

अज्ज वि एउ जें रज्जु   रह-हय-गय-धय-दरिसावणु ।
ते जें सहोयर सव्व   तुहुँ सो ज्जें पडीवउ रावणु’ ॥ १०

[३]

॥ दुवई ॥ मन्दोवरि-विणिग्गयालाव पसंसिय सयल-मन्तिहिं ।
केयइ-कुसुम-गन्ध परिचुम्विय णावइ भमर-पन्तिहिं ॥ १

वाल-जुवाण-वुड्ढ-सामन्तेंहिँ   सव्वेंहिँ ‘जय जय देवि’ भणन्तेंहिँ ॥ २
किय-कर-मउलि-णमिय-सिर-कमलेंहिँ पुज्जिउ तं जि वयणु मइ-विमलेंहिँ ॥ ३

---

8 A संदीविउं. 9 S A विअप्पें. 10 A खणे.

2. 1 S A एवहि. 2 S विप्फुरिउ. 3 A अप्पालउं. 4 S उवेड्ढेवि, A उवेढेवि.

'चङ्गउ[1] माएँ माएँ पइँ वुत्तउ अत्थें[2] सत्थें एउ वि सु-णिरुत्तउ ॥ ४
अकुसलु कुसलेहिँ[3] ण जुज्झेवउ राएं रज्जें[4]-कज्जु वुज्झेवउ ॥ ५
पर-वलु पवरु णिऍवि वञ्चेवउ अहवइ थोडउ तो जुज्झेवउ ॥ ६
समु साहणु सरिसउ जि समप्पउ अवरु पवरु पर-चक्किउ चप्पइ ॥ ७
तें कज्जें जाणेवउ अवसरु सुइणए वि सङ्गामु असुन्दरु ॥ ८
करेंवि पयत्तु तन्तु[१] रक्खेव्वउ मण्डलें[२]-कज्जु एउ लक्खेव्वउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जं उव्वरियउ किं पि तं सेण्णु जाव णावट्टइ ।
ताव समप्पहि सीय ऍहु सन्धिहें[5] अवसरु वट्टइ' ॥ १०

[४]

॥ दुवई ॥ तं परमत्थ-वयणु णिसुणेप्पिणु दहवयणेण चिन्तियं ।
'वरि[1] मेहलि ण-इण्ण'[१] णउ पुज्जिउ मन्तिहिँ तणउ[2] मन्तियं ॥ १
पच्चासण्णें परिट्ठिऍ पर-वलें अवरोप्परु आयण्णिय-कलयलें ॥ २
कवणु एत्थु किर सन्धिहें[3] अवसरु उत्तिम-पुरिसहों मरणु जें सुन्दरु ॥ ३
सम्वु-कुमार-णिहँणें[4] खर-आहवें चन्दणहिहें[5] कूवार-पराहवें ॥ ४
आसाली-विणासें वण-मद्दणें किङ्कर-अक्ख-रक्खें[२]-कडमद्दणें ॥ ५
मन्दिरें[6]-भङ्गें विहीसण-णिग्गमें अङ्गऍ[7] दूऍ उहय-वल-सङ्गमें ॥ ६
हत्थ-पहत्थ-णील-णल-विग्गहें इन्दइ-भाणुकण्णें[8]-वन्दिग्गहें ॥ ७
तहिँ[9] जि कालें जं ण किउ णिवारिउ तं किं एवहिँ थाइ णिरारिउ[10] ॥ ८
तो इ तुहारी इच्छ ण भञ्जमि माणिणि[३] एह सन्धि पडिवज्जमि ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जइ उव्वेढइ रामु णिहि-रयणइँ[11] रज्जु लऍप्पिणु[12] ।
पइँ मइँ सीयाएवि तिण्णि वि वाहिरइँ करेप्पिणु' ॥ १०

3. 1 A चंगउं. 2 S अत्थें सत्थें एउ णिरुत्तउ, A अत्थि अत्थि. 3 S कुसलेहि, A कुसुमेहि न. 4 S राय°, A रज्जु. 5 A संधिहु.

4. 1 A वर. 2 A तणउं. 3 S A संधिहि°. 4 S °णिहणि. 5 S चंदणदेहि, A चंदणिहेहि. 6 S A मंदिरे. 7 S अंगमे. 8 S A °भाणुकण्णु. 9 S A तहि. 10 A वियारिउ. 11 S A °रयणइ. 12 S मुयेप्पिणु.

[३] १ T कटकाः. २ T पृथ्वी.
[४] १ T न दत्ता. २ T वनरक्षकाः ३ T हे स्त्री.

[५]

॥ दुवई ॥ तं णिसुणेवि वयणु दहवयणहों णरवइ के वि जम्पिया ।
'एक्कऍ[1] महिलऍ[2] किं को वि ण इच्छइ महि समप्पिया' ॥ १

के वि चवन्ति मन्ति परमत्थें 'सप्परिहवेंण काइँ किर अत्थें ॥ २
छलु जें एक्कु पाइक्कहों मण्डणु पुत्तु कलत्तु मित्तु[3] ओमण्डणु[4]' ॥ ३
पभणइ मन्दोवरि 'को जाणइ जइ महि लेइ समप्पइ जाणइ ॥ ४
ता सामन्तउ दूउ विसज्जहि सयलु वि देइ सन्धि पडिवज्जहि ॥ ५
जइ रामणु जें मरइ सहुँ सयणेंहिँ[5] तो किर काइँ तेहिँ[6] णिहि-रयणेंहिँ' ६
एम भणेंवि पेसिउ सामन्तउ जो सो परिमियत्थ-गुणवन्तउ ॥ ७
चडिउ महारहें हय कस-ताडिय महि खुप्पन्तेंहिँ चक्केहिँ फाडिय ॥ ८
णिय-णिसियर-वलेण परियरियउ वीयउ रावणु णं णीसरियउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

दूआगमणु णिएवि थिउ कइ-वलु उक्खय-पहरणु ।
किण्ण[7] पडीवउ आउ[8] सरहसु सण्णहेंवि[9] दसाणणु ॥ १०

[६]

॥ दुवई ॥ जम्पइ जम्ववन्तु 'णउ रावणु रावण-दूउ दीसए[1]' ।
ए आलाव जाव ताणन्तरें सो जें तहिँ पईसए ॥ १

तहिँ पइसन्तें दहमुह-दूएं दिट्ठु सेण्णु आसण्णीहूएं ॥ २
किङ्कर-कर-अप्फालिय-तूरउ 'गोसायासु व उत्थिय-सूरउ[2] ॥ ३
महरिसि-विन्दु व धम्म[3]-परायणु पङ्कय-वणु व [4]सिलीमुह-भायणु ॥ ४
कामिणि-वयणु व फालिय-णेत्तउ महकइ-कव्वु व लक्खण-वन्तउ[2] ॥ ५
मीण-उलु व दहवयणासङ्किउ णव-कन्दुट्टु व णील-णलङ्किउ ॥ ६
णन्दण-वणु व कुन्द-वद्धारउ णिसि-णहयलु व स-इन्दु स-तारउ ॥ ७
पुणु अत्थाणु दिट्ठु उव्वयणउ[3] सायर-महणु व पयडिय-रयणउ[4] ॥ ८
खय-रवि-विम्वु व वड्ढिय-तेयउ सइ-चित्तु व पर-णर-दुब्भेयउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

लक्खिय लक्खण-राम सव्वाहरणालङ्करिया[5] ।
सग्गहों इन्द-पडिन्द वे वि णाइँ तहिँ अवयरिया ॥ १०

5. 1 A एक्कएक्क. 2 S महिलियए. 3 Wanting in S, A मित्तुं. 4 A मंडणु. 5 S सयणहि, A सयणहिं. 6 S A तेहि. 7 A किंतु. 8 S आयउ. 9 S सण्णहिवि, A सणहिवि.

6. 1 S A दीसइ. 2 A °वत्तउ. 3 A उव्वयणउं. 4 A °रयणउं. 5 S A °रिय.

[६] १ T प्रभाताकाशम्. २ T वीर आदित्यश्च. ३ T धर्म्मो धनुर्धर्मे एव च. ४ T भ्रमरा बाणाश्च. ५ T रावणो दशमुखं च. ६ T ऊर्ध्वमुखम्. ७ T दन्ता रत्नानि च.

[७]

॥ दुवई ॥ तेहिँ[1] वि वासुएव-वलएवहिँ पहरिसिएहिँ तक्खणे ।
हक्कारेवि पासु सम्माणेंवि वइसारिउ वरासणे ॥ १
किय-विणएण कियत्थीहूएं सामु पउञ्जिउ दहमुह-दूएं ॥ २
'अहों अहों राम राम रामा-पिय सुरवर-समर-सएहिँ अकम्पिय ॥ ३
अहों अहों सयल-पिहिमि-परिपालण मायासुग्गीवन्त-णिहालण ॥ ४
अहों अहों दुद्दम-दणु-विद्दावण वइरि-चरङ्गण-जण-जूरावण ॥ ५
अहों अहों वज्जावत्त-धणुद्धर वाणर-विज्जाहर-परमेसर ॥ ६
सन्धि दसाणणेण सहुँ किज्जउ इन्दइ-कुम्भयण्णु मेल्लिज्जउ ॥ ७
लङ्क दु-भाय ति-खण्ड वसुन्धर छत्तइँ पीढइँ हय-गय-णरवर ॥ ८
णिहि-रयणइँ अद्धद्धु लइज्जउ सीयहेँ तणिय तत्ति छड्डिज्जउ' ॥ ९

॥ घत्ता ॥

पभणइ राहवचन्दु 'णिहि-रयणइँ हय-गय-रज्जू
सव्वइँ सो जेँ लएउ अम्हहुँ पर सीयएँ कज्जू' ॥ १०

[८]

॥ दुवई ॥ तं णिसुणेवि वयणु काकुत्थहों ईसीसि वि ण कम्पिओ[1] ।
तिण-समु गणेंवि सयलु अत्थाणु दसाणण-दूउ जम्पिओ[2] ॥ १
'अहों वलएव देव मा वोल्लहि कन्तहेँ[3] तणिय वत्त आमेल्लहि ॥ २
लङ्काहिउ [1]हेमन्तु जेँ वीयउ जो णिविसु वि णउ होइ णिसीयउ ॥ ३
जो रत्तिदिउ [2]परिकअणप्पणेँ दीसइ सुविणएँ असिवर-दप्पणेँ ॥ ४
जेण धणउ कियन्तु किउ णिप्पहु सहसकिरणु णलकुव्वरु सुर[4]-पहु ॥ ५
जेण वरुणु समरङ्गणेँ धरियउ अट्ठावउ पावउ उद्धरियउ ॥ ६
तेण स[5]मउ जइ सन्धि ण इच्छहि तो अवज्झ जीवन्तु ण पेच्छहि' ॥ ७
तं णिसुणेवि कुइउ भामण्डलु णं उट्ठिउ स-खग्गु आख[6]ण्डलु ॥ ८
'अरें खल खुद्द स-मउड्ड स-कुण्डलु पाडमि सीसु जेम तालहों फलु ॥ ९
को तुहुँ कहों केरउ सो रावणु जं मु[3]हुमुहु जम्पहि अ-सुहावणु' ॥ १०

7. 1 S तेहि, A तहिं.

8. 1 S A कंपिउ. 2 S A जंपिउ. 3 S A कंतहि. 4 A सुरवहुं. 5 A समउं. 6 A आहंडलु.

[८] १ T द्वितीय हिमवंतः (?). २ T शत्रुवले स्वमादिषु (?) दृश्यते रावणः. ३ T वारंवारम्.

॥ घत्ता ॥

लक्खणु घोसइ एम   'तउ रामहों केरी आणा[7] ।
सिसु-पसु-तवसि-तियाहुँ   किं उत्तिमु गेण्हइ पाणा[8] ॥ ११

[९]

॥ दुवई ॥ दुट्ठें[1] दुम्मुहेण दुवियड्ढें दूसीलें अयाणेंणं ।
सद्दहों[2] वाहिवन्त-पडिसद्द[1]-पढिय[3]-पूसय-समाणेंणं ॥ १

एण हएण कवणु सुहडत्तणु   अयस-भारु केवलु कुल-लञ्छणु' ॥ २
तं णिसुणेंवि[4] पसमिउ कोवाणलु   णिय-आसणें[5] णिविट्ठु भामण्डलु ॥ ३
तेहएँ कालें विलक्खीहूएं   पभणिउ राहवु रामण-दूएं ॥ ४
'चङ्गउ भिच्चु देव पइँ लद्धउ   जिह सु-कव्वें[2] अवसद्दु णिबद्धउ ॥ ५
सिर-विहीणु णउ लग्गइ कण्णहुँ   तिह अवियड्ढु वियड्ढहुँ अण्णहुँ ॥ ६
आएं होहि तुहु मि लहुयारउ   लवण-रसेण समुद्दु व खारउ ॥ ७
अहवइ कलें जि आवइ पाविय   रण्डउ जेम सव्व रोवाविय ॥ ८
एवँहिँ[6] गज्जहों काइँ अकारणें   वलु वुज्झेसउ सइँ जें महारणें ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जो एक्कएँ सत्तीएँ[7]   एही अवत्थ[8] दरिसावइ ।
सो पहरण-लक्खेहिँ   कइ[3] विहय[4] जेव उड्डावइ ॥ १०

[१०]

॥ दुवई ॥ तुम्ह[1] सिरुप्पलाइँ तोडेप्पिणु पीढु रएवि तत्थेंणं ।
इन्दइ-भाणुकण्ण-घणवाहण मेलेसइ स-हत्थेंणं ॥ १

णिहएँ वासुएव-वलएवें   लेसइ सइँ[2] जें सीय अवलेवें ॥ २
अहवइ जइ वि आउ तहों झिज्जइ   तुम्हारिसेंहिँ[3] तो वि णउ जिज्जइ ॥ ३
किं जोइज्जइ सीहु कुरङ्गेंहिँ   किं वसिकिज्जइ गरुडु भुयङ्गेंहिँ ॥ ४

7 S आण, A अ. 8 S A पाण.

9. 1 S A दुट्ठे. 2 A सग्गह. 3 S °पडिसद्दुट्ठिय°. 4 S तं ण्णिसुणिवि, A तण्णिसुणिवि. 5 S आसण, A आसणि. 6 S एयहो. 7 S A सत्तिए. 8 S एहावत्थ.

10. 1 S तुम्हइ. 2 S A सइ. 3 S तुम्हारिसहि, A तुम्हारिसिहिं.

[९] १ T (P's reading) प्रतिशब्दोत्थितं शुकसदृशम्. २ T मस्तकपीडाकारी यः काव्ये प्रथितोऽपशब्दो विचक्षणानां कर्णेषु न लगति, न प्रतिभासते तथा दुर्विचक्षणोऽपि. ३ T मर्कटाः सुग्रीवादयः. ४ T पक्षिणो यथा.

किं खज्जोएँहिं किउ रवि णिप्पहु किं वण-तिणेंहिँ धरिज्जइ हुयवहु ॥ ५
किं सरि-सोत्तेंहिं फुट्टइ सायरु किं '[1]करेहिँ छाइज्जइ ससहरु ॥ ६
किं चालिज्जइ विञ्झु पुलिन्देंहिँ हासउ तहोँ तुम्हेंहिँ कु-णरिन्देंहिँ' ॥ ७
तं णिसुणेवि भडेंहिँ[5] गलथल्लिउ टक्कर-पण्हिय-घाएँहिँ[6] घल्लिउ ॥ ८
गउ स-पराहवु लङ्क पराइउ कहिउ 'देव हउँ कह वि ण घाइउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

दुज्जय लक्खण-राम ण करन्ति सन्धि णउ वुत्तउ[7] ।
जं जाणहि तं चिन्तेँ आयउ खय-कालु णिरुत्तउ ॥ १०

[११]

॥ दुवई ॥ सम्वु-कुमारु जेहिँ विणिवाइउ घाइउ खरु वि दूसणो ।
जेहिँ महण्णवो समुल्लङ्घिउ णक्क-ग्गाह-भीसणो ॥ १

हत्थ-पहत्थ जेहिँ संघाइय इन्दइ-कुम्भयण्ण विणिवाइय ॥ २
आणिय जेहिँ विसल्ला-सुन्दरि मुउ जीवाविउ लक्खण-केसरि ॥ ३
तेहिँ समाणु णउ सोहइ विग्गहु लहु वइदेहि देहि 'मुएँ सङ्गहु' ॥ ४
तं णिसुणेंवि णरवइ चिन्ताविउ महणावत्थ समुद्दु व पाविउ ॥ ५
'होसइ केम कज्जु णउ जाणमि किं उक्खन्धें वन्धेंवि आणमि ॥ ६
किं पाडमि समसुत्ती पर-वलें किं सर-धोरणि लायमि हरि-वलें ॥ ७
जइ वि स-साहणु स-मुहु समप्पमि तो वि ण रामहोँ गेहिणि अप्पमि ॥ ८
अत्थु उवाउ एक्कु जें साहमि वहुरूविणिय विज्ज आराहमि ॥ ९

॥ घत्ता ॥

पट्टणें घोसण देमि[1] '[2]जीव अट्ठ दिवस[2] मम्भी[3]समि ।
अच्छमि झाणारूढु '[3]वट्टइ[4] सन्तिहरु [5]पईसमि' ॥ १०

[१२]

॥ दुवई ॥ एम भणेवि तेण छुडु[1] जेँ च्छुडु माहहोँ तणएँ णिग्गमे ।
घोसिय पुरेँ अमारि अहिणव-फग्गुण-णन्दीसरागमे ॥ १

---

4 A हासउं. 5 S A भडेहि. 6 S A घाएहि. 7 A वुत्तउं.

11. 1 S देवि. 2 S अट्ठ दिवस जीव, A जीअ अट्ठ दिवस. 3 S मंभीसिवि. 4 A वड्ढइ. 5 S संतिहरे पइसरमि.

12. 1 A च्छुड माहहो.

---

[१०] १ T हस्तैः.

[११] १ T reads मुए संमुहु=अभिमुखं त्यज. २ T जीवान्. ३ T प्रस्तावं वर्तते.

[१]अट्ठ दिवस जिणवरु जयकारहों अट्ठ दिवस महिमउ णीसारहों[2] ॥ २
[3]अट्ठ दिवस जिणं[4]-भवणइँ [२]सारहों अट्ठ दिवस जीवाइँ म मारहों ॥ ३
अट्ठ दिवस समरङ्गणु छड्डुहों अट्ठ दिवस इन्दिय-दणु[5] दण्डहों ॥ ४
अट्ठ दिवस उववास करेज्जहों अट्ठ दिवस मह-दाणइँ देज्जहों ॥ ५
अट्ठ दिवस अप्पाणउं[6] भावहों एयारह गुण-थाणइँ दावहों ॥ ६
अट्ठ दिवस गुण-वयइँ[7] पउञ्जहों[8] [9]सेज्जहों जज्जहों अणुहुञ्जेज्जहों ॥ ७
[9]अट्ठ दिवस पिय-वयणइँ[10] भासहों [11]अणुवय-सिक्खावयइँ[12] पगासहों ॥ ८
अट्ठ दिवस आमेल्लहों[13] मच्छरु जाम्व एहु फग्गुण-णन्दीसरु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

पच्चक्खाणु लएहु पडिकवणु सुणहों[14] मणु खञ्चहों[15] ।
तोडेंवि तामरसाइँ स इँ भु एँहिँ भडारउ[16] अञ्चहों[17] ॥ १०

*

[७१. एक्कहत्तरिमो संधि]

हरि-हलहर-गुण-गहणेंहिँ[1] दूअहों वयणेंहिँ पहु पहरेव्वउ परिहरइ ।
विज्जहें कारणें रावणु जग-जगडावणु[2] सन्ति-जिणालउ[3] पइसरइ ॥

[१]

णन्दीसर-पइसारएँ[१] [२]सारएँ[4] [5]माहव-मासु णाइँ[6] हक्कारएँ ॥ १
सासय-सुहु[7] [३]संपावणें [४]पावणें [५]दरिसाविय-पुप्फ-ग्गुणें फग्गुणें ॥ २
णव-फल-परिपक्काणणें[8] काणणें कुसुमिएँ साहारएँ साहारएँ ॥ ३
[9]रिद्धि-गयहें कोक्कणयहें कणयहें हंसब्भंसिएँ[10] कुवलएँ कु-वलएँ ॥ ४
महुअरें महु-मज्जन्तएँ जन्तएँ कोविल-कुलें[11] वासन्तएँ सन्तएँ[12] ॥ ५

2 S A णीसारहु. 3 This pāda is wanting in S. 4 A जिणु. 5 S इंदियइ दमेज्जहो. 6 A अप्पाणउं. 7 S A °वयइ. 8 Wanting in A. 9 This pāda is wanting in A. 10 S °वयणइ. 11 A has only पयासहो for the whole pāda. 12 S °वयइ. 13 S A आमेल्लहु. 14 S A सुणहु, A सुणेह. 15 S A खंचहु. 16 S भडारा, A भडारउं. 17 S अंचहु, A अंचहुं.

1. 1 S गणेहि. 2 S °जूरावणु. 3 S °जिणालए. 4 Wanting in A. 5 This Pāda is Wanting in A. 6 S णाइ. 7 S °सिव. 8 S °पिक्का°. 9 S रिद्धिगय कोंकणयहि कणयहो, A कोंकणयहे. 10 A °ब्भूसिए. 11 Wanting in S, A कुल. 12 S वासंतए.

[१२] १ T स्थापयथ.
[१] १ T प्रवेशे. २ T उत्तमे. ३ T संप्रापके. ४ T पवित्रे. ५ T दर्शितपुष्पगुणे फाल्गुनमासे.

कीर-वन्दें उड्डन्तएँ ठन्तएँ मलयाणिलें आवन्तएँ वन्तएँ ॥ ६
महुअरि[13] पडिसल्लावएँ लावएँ जहिँ ण वि तित्ति[14] रयहों तित्तिरयहों ॥ ७
णाउ ण णावइ किं सुएँ किंसुएँ जहिँ वसेण गयणाहहों णाहहों[4] ॥ ८
तणु परितप्पइ[15] सीयहें[16] सीयहों ॥ ९

॥ घत्ता ॥

अच्छउ किं[16] सावण्णें केण वि अण्णें जहिँ अइमुत्तउ रइ करइ ।
तं जण-[मण-]मज्जावणु सव्व-सुहावणु को महु-मासु ण सम्भरइ॥१०

[२]

कत्थइ अङ्गारय-सङ्कासउ रेहइ तम्विरु फुल्लु पलासउ ॥ १
णं दावाणलु आउ गवेसउ को मइँ दड्ढु[1] ण दड्ढु पएसउ ॥ २
कत्थवि माहवियएँ[2] णिय-मन्दिरु एन्तु णिवारिउ तं[3] इन्दिन्दिरु ॥ ३
'ओसरु ओसरु तुहुँ[4] अपवित्तउ अण्णएँ णव[5]-पुप्फवइएँ छित्तउ' ॥ ४
कत्थइ चूअ[6]-कुसुम-मञ्जरियउ णाइँ वसन्त-वडायउ[7] धरियउ ॥ ५
कत्थइ पवण-हयइँ पुण्णायइँ णं जगें उच्छलियइँ पुण्णायइँ ॥ ६
कत्थइ अहिणवाइँ भमर-उलइँ थियइँ वसन्त-सिरिहिँ[8] णं कुरलइँ ॥ ७
फणसइँ अवुह-मुहा इव जड्डइँ सिरिहलाइँ[9] सिरि-हल इव वड्डइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तेहएँ कालें मणोहरें [10]णव-णन्दीसरें लङ्क पुरन्दर-पुरि व थिय ।
रयणियरेंहिँ गुरु-अत्तिएँ(?) अविचल-भत्तिएँ जिणहरें जिणहरें[11] पुज्ज किय[12] ॥९

[३]

घरेँ घरेँ महिमउ णीसारियउ[1] घरेँ घरेँ पडिमउ अहिसारियउ[2] ॥ १
घरेँ घरेँ तूरइँ अप्फालियइँ[3] णं सीह-उलइँ ओरालियइँ[3] ॥ २
घरेँ घरेँ रवि-किरण-णिवारणइँ[4] उब्भियइँ विताणइँ तोरणइँ[5] ॥ ३
घरेँ घरेँ मालउ गन्धुक्कडउ घरेँ घरेँ णिवडिय चन्दण-छडउ ॥ ४
घरेँ घरेँ मोत्तिय-रङ्गावलिउ घरेँ घरेँ दवणुलउ णव-फलिउ[6] ॥ ५
घरेँ घरेँ अहिणव-पुप्फच्चणिय[7] घरेँ घरेँ चच्चरि कोड्डावणिय ॥ ६

---

13 S महुवरी. 14 A रयहे. 15 S तहि तणु तप्पइ. 16 Wanting in S.

2. 1 A दड्ढु पएसउ. 2 S माहविए, A माहवियए. 3 A ण. 4 S A तुहु. 5 A अण्णपवण°. 6 S भूय. 7 A °चडायउ. 8 S A °सिरिहि. 9 S A °लाइ. 10-11 The portion between 10 and 11 is wanting in A. 12 A पुज्जिय.

3. 1 A °याउ. 2 A °आउ. 3 S °यइ, A °याइं. 4 S °याइं, A °णाइं. 5 S तोरणइ, A तोरणाइं. 6 A हलिउ. 7 S फुल्ल°.

घरेँ घरेँ मिहुणइँ परिओसियइँ   घरेँ घरेँ मह-दाणइँ घोसियइँ ॥ ७
घरेँ घरेँ भोयण-सामग्गि किय   घरेँ घरेँ सिरि-देवय णाइँ थिय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

करेँवि महोच्छउ पट्टणेँ   दणु-दलवट्टणेँ   सप्परिवारु णिराउहउ ।
अट्ठावय-कम्पावणु   सरहसु रावणु   गउ सन्तिहरहोँ सम्मुहउ ॥ ९

[४]

कुसुमाउह-आउह-सम-णयणेँ   णीसरियएँ सरियएँ दहवयणेँ ॥ १
मणहरणाहरणालङ्करिएँ   स-पसाहण-साहण-परियरिएँ ॥ २
दप्पहरण-पहरण-वज्जियएँ   तूराउलेँ राउलेँ गज्जियएँ ॥ ३
जय-मङ्गलेँ मङ्गलेँ घोसियएँ   रयणियर[1]-णियरेँ परिओसियएँ ॥ ४
जणु णिग्गउ णिग्गउ णित्तुरउ   महिरक्खहोँ रक्खहोँ थिउ पुरउ ॥ ५
दप्प-रहिय पर-हिय के वि णर   उववासिय वासिय धम्म-पर ॥ ६
[2]दइ(?य)-महियएँ महियएँ का वि तिय   कंजय-करि जय-करि णाइँ सिय ॥ ७
क वि राम राम-उल्लावयरि   [3]कं वि वत्ती व[4]त्ती दीवयरि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वाल-मइन्दालोएं   णायर-लोएं   सन्ति-जिणालउ दिट्ठु किह ।
णह-सरवर-आवासें   ससहर-हंसें   [5]खुट्टेँवि घत्तिउ कमलु जिह ॥ ९

[५]

विमलं रवि-रासि-हरं सिहरं   लक्खिज्जइ सन्ति-हरं तिहरं ॥ १
वुड्ढत्तण-[1]जम्म-रणं मरणं   [2]वारेइ व [3]कम्पवणं पवणं ॥ २
वीसमइ व [4]रम्भ-वणे [5]भवणे   पङ्कुरइ व [6]कुसु[1]म-वडं [7]अवडं ॥ ३
भणइ व [8]अलिमा [9]भमरे भमरे   व[2]ड्ढइ व (?) [10]ससि-समयं स-मयं ॥ ४
तोडेइ व [11]णह-यलयं [12]अलयं   आरुहइ व [13]अक्क-रहे [14]कर-हे ॥ ५
मइलेइ व उज्जलयं [15]जलयं   परिहेइ व [16]दिव्वलयं [17]वलयं ॥ ६

4. 1 A रयणियरे. 2 S दइए हिअए हिय. 3 S वलि. 4 S पत्ती. 5 S खुट्टिवि, A खुंटेवि.
5. 1 A जसुम°. 2 S कहइ.

[५] Glosses in T :—१ जन्मसंग्रामम्. २ जातिजरामरणत्रयहरणम्. ३ कम्पकारिणं वायुम्. ४ कदलीवनम्. ५ गृहे. ६ पुष्पवटम्. ७ न विद्यतेऽन्यत्र बृहद् यस्माद् वटात्. ८ असत्यम्. ९ भ्रमरे हिण्डनशीले। अन्योऽपि हिण्डनशीलोऽसत्यो भवति. १० चन्द्र-समानकं निजमतम्. '°ममयं ममयं' इति पाठे, ससिं किंविशिष्टं ? अमृतं; मा लक्ष्मीस्तन्मयं च. ११ नभस्तलम्. १२ अलमत्यर्थम्. १३ आदित्यरथे. १४ करैः किरणैर्भाति करभस्तस्मिन्. १५ मेघाः. १६ दिशां वलयं समूहम्. १७ कङ्कणम्.

छड्डेइ व [१८]अवणिलयं[3] णिलयं हसइ व [१९]परिमुक्क-मलं कमलं ॥ ७
जोएइ व [२०]सव्व-सुहं [२१]वसुहं धरइ व [२२]अहिठाणं[4] अहि-ठाणं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पुण्ण-पवित्तु विसालउ सन्ति-जिणालउ सव्वहों लोअहों सन्ति-करु ।
णवरेक्कहों वय-भङ्गहों पर-तिर्थ[5]-सङ्गहों लङ्काहिवहों असन्ति-करु ॥ ९

[६]

दसाणणो [१]समालयं पइट्ठओ जिणालयं ॥ १
तओ कओ महोच्छवो वितान-वीण-मण्डवो[1] ॥ २
[२]विसारिया [३]चरू [४]वली[2] णिबद्ध तोरणावली[3] ॥ ३
समुब्भिया महद्धया सियायवत्त चिन्धया ॥ ४
जिणाहिसेय-तूरयं समाहयं गहीरयं ॥ ५
मउन्द-णन्दि-मद्दला हुडुक्क-ढक्क-काहला ॥ ६
सरुञ्ज-भेरि-झल्लरी दडिक्क-पाणिकत्तरी ॥ ७
स-दद्दुरा-खुक्कडा [4]स-ताल-सङ्ख-संघडा ॥ ८
डउण्ड-डक्क-टट्टरी[5] झुणुक्क[6]-भम्भ-झिङ्किरी[7] ॥ ९
ववीस-वंस-कंसिया तिहा[8] सरी समासिया[9] ॥ १०
पवीण वीण[10] पाविया पडू झुणी सुहाविया ॥ ११
पसण्डि[11]-दण्ड-डम्बरा अणेय सेय चामरा ॥ १२
सुराण जं णिबन्धणं कयं च तेहिँ पेसणं ॥ १३
जमस्स[12] सव्व-रक्खणं पहञ्जणेण पङ्गणं ॥ १४
कयं अ-रेणु-मेत्तयं महाघणेहिँ सित्तयं ॥ १५
वणासईहिँ[13] अच्चियं वरङ्गणाहिँ णच्चियं ॥ १६
सरस्सईए[14] गाइयं[15] पउञ्जिएहिँ वाइयं ॥ १७

॥ घत्ता ॥

णरवइ भामरि देप्पिणु णाहु णवेप्पिणु एक्कु खणन्तरु ए क्कुमणु ।
रावणहत्थउ वाऍवि मङ्गलु गाऍवि पुणु पारम्भइ[16] जिण-ण्हवणु १८

---

3 S अवणियलं णियलं. 4 A अहिट्ठाणु अहिट्ठाणु. 5 A °हिय°.

6. 1 A °मंडलो. 2 S चरुं वलीं. 3 S °वलीं. 4 This pāda is massing in S. 5 S ढक्करी. 6 S झुणक्क°. 7 S झेंकरी. 8 A तिदा. 9 S सयासिया. 10 S पावयाविया. 11 A पसुंडि°. 12 A जगस्स. 13 S वणस्सईहिं, A वणासइंहिं. 14 A सरस्सईहिं, S सरसइए. 15 S माइयं. 16 A आरंभइ.

---

१८ अवनिं भूमिं लाति अवनिलकम्; णिलयं स्थाम । अथवा 'अवणियलं' भूमितलम्, 'णियलं' निर्गलम्. १९ सर्वत्रमुक्तमलं कमलं शुभ्रपद्मम्. २० सर्वानि सुखानि यस्याः. २१ भूमिम्. २२ पातालं सर्पस्थानम्.

[६] १ T उपशमस्थानम्. २ T प्रस्तार्य वृत्ताः. ३ T ओदन-सालणादि-नैवेद्यम्. ४ T खाद्यादयः.

[७]

आढत्तु सत्तु-सन्तावणेण   अहिसेउ जिणिन्दहों रावणेण ॥ १
पहिलउ जि भूमि-पक्खालणेण   पुणु मङ्गलग्गि-पज्जालणेण ॥ २
भुवणिन्द-वि[1]न्द-पडिवोहणेण   अमिएण [१]वसुन्धर-सोहणेण ॥ ३
वर-मेरु-पीढ-पक्खालणेण   जण्णोवइं[2]ए रिव-चालणेण (?) ॥ ४
कडयङ्गुलि-सेहर-वन्धं[3]णेण   [4]कुसुमञ्जलि-पडिमा-[२]थावणेण ॥ ५
महि-संसण-कलस-णिरोहणे[5]ण   पुणरवि-पुप्फञ्जलि-घत्तणेण ॥ ६
अग्घेण [6]अमर-[३]आवाहणेण   णाणाविहेण अवयारणेण ॥ ७
जय-मङ्गल-कलसुक्खिप्पणेण   जलधारोवरि-परिघिप्पणेण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अइरावय-मय-रिद्धें   भसलाइ[7]द्धें   किङ्कर-पवर-पराणिऍण ।
अहिसिञ्चिउ सुर-सारउ   सन्ति-भडारउ   पुण्ण-पवित्तें पाँ[8]णिऍण ॥ ९

[८]

करि-मयर-करग्ग[1]प्फालिएण   भिङ्गार-फार-संचालिएण ॥ १
महुअरि-उवगीय-वमालिएण   अलि-वलय-मुहल-सम-लालिएण ॥ २
अह पर-दुक्खेण व सीयलेण   सज्जण-वयणेण व उज्जलेण ॥ ३
मलय-रुह-वणेण व सुरहिएण   सइ-चित्तेण व मल-विरहिएण ॥ ४
अहिसिञ्चिउ तेणामल-जलेण   पुणु णव-घएण महु-पिङ्गलेण ॥ ५
पुणु सङ्ख-कुन्द-जस-पण्डुरेण   गङ्गा-तरङ्ग-उब्भङ्गुरेण ॥ ६
हिमं[2]गिरि-सिहरेण व साडिएण   ससहर-विम्वेण व पाडिएण ॥ ७
मोत्तिय-हारेण व तुट्टएण   सरयं[3]ब्भ-उरेण वं[4] फुट्टएण ॥ ८
खीरेण तेण सु-मणोहरेण   पुणु सिसिर-पवाहें मन्थरेण ॥ ९
अविणय-पुरिसेण व थड्ढएण   णव-दुमॅण व साहा-वद्धएण ॥ १०
पुणु पडिमुव्वत्तण-धोवणेण   चुण्णेणं[5] जलेण गन्धोवएण ॥ ११

॥ घत्ता ॥

कप्पूरायरु-वासिउं[6]   घुसिणुम्मीसिउ   तं गन्ध-जलु[7] स-णेउरहों ।
दिण्णु विहङ्गेंवि राएं   णं अणुराएं   हियउ सव्वु अन्तेउरहों ॥ १२

7. 1 A °इंद°. 2 S अण्णोवइयं. 3 A °वद्धणेण. 4 This pāda is missing in A. 5 A °णिरावणेण. 6 A अग्गेण अगर°. 7 S भसलसमिद्धें. 8 A रामवेण.

8. 1 A °करग्गु°. 2 A हिमइरि°. 3 A मयगब्भउडेण. 4 S फुट्टन्तएण. 5 S चुण्णाण. 6 A °वासियउ, A °वासिउं. 7 A °यलु.

[७] १ T भूमिशोधनेन. २ T स्थापनम्. ३ T आह्वानम्.

[९]

दिव्वेण अणुलेवणेणं सुअन्धेण[1] सिरिखण्ड-कप्पूर-कुङ्कुम-समिद्धेण ॥ १
दिव्वेहिँ णाणा-पयारेहिँ[2] पुप्फेहिँ रत्तुप्पलिन्दीवरम्भोय[3]-गुप्फेहिँ[4] ॥ २
अइउत्तयासोय[5]-पुण्णाय-णाएहिँ सयवत्तिया-मालई-पारिजाएहिँ[6] ॥ ३
कणियार[7]-करवीर-मन्दार-कुन्देहिँ विअइल्ल-वरतिलय[8]-वउलेहिँ मन्देहिँ ॥ ४
सिन्दूर-वन्धुक्क[9]-कोरण्ट-कुज्जेहिँ दमणेण मरुएण पिक्का-तिसञ्झेहिँ ॥ ५
एवं च मालाहिँ अण्णण्ण-रूवाहिँ कण्णाडियाहिं व सर[१]-सार-भूआहिँ ॥ ६
आहीरियाहिं व [२]वायाल-भसलाहिँ वर-लाडियाहिं व [३]मुह-वण्ण-कुसलाहिँ ॥ ७
सोरट्ठियाहिं व सव्वङ्ग-मउआहिँ मालविणियाहिँ[10] व मज्झार-छउआहिँ ॥ ८
मरहट्ठियाहिं व [४]उद्दाम-वायाहिँ गेय-झुणिहिं[11] व अण्णण्ण-छायाहिँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

णाणाविह-मणिमइयाहिँ किरणब्भइयाहिँ चन्द-सूर-[५]सारिच्छएँहिँ ।
अच्चण किय जग-णाहहों [12]केवल-वाहहों पुण्ण-सएहिँ व अक्खएँहिँ ॥ १०

[१०]

पच्छा चरुएण मणोहरेण गङ्गा-वाहेण व दीहरेण ॥ १
मुत्ता-णियरेण व पण्डुरेण सु-कलत्त-मुहेण व सु-महुरेण[1] ॥ २
वर-अमिय-रसेण व सुरहिएण सुअणेण व सुट्ठु सणेहिएण ॥ ३
तित्थयर-वरेण व सिद्धएण सुरएण व [१]तिम्मण-रिद्धएण ॥ ४
पुणु दीवएहिँ णाणाविहेहिँ वरहिणेहिँ[2] व अइदीहर-सिहेहिँ[3] ॥ ५
सुहडेहिँ[4] व [२]वणिएँहिँ वलियएहिँ टिण्टाउत्तेहिँ[4] व जलियएहिँ[5] ॥ ६
धूवेण विविह-गन्धड्ढएण मयणेण व जिणवर-दड्ढएण ॥ ७
पुणु फल-णिवहेण सुसोहिएण कव्वेण व सव्व-रसाहिएण ॥ ८

9. 1 S सुवंधेण. 2 S A °पयारेहि. 3 S A °लंदीवर°. 4 S °पुप्फेहि, A °पुप्फेहिं. 5 A एलंत°. 6 S °पारिजाएहि, A °पारियाएहि. 7 S कणिया°; wanting in A. 8 A °वग°. 9 S °वंधूक°. 10 S °आहि व्व, A °आहिं व. 11 S °झुणीहि व्व, A झुणीहिं व. 12 This pāda wanting in A.

10. 1 A सुमहुअरेण. 2 S वरहिणिहि, A वयणेहि. 3 S °सिहेहि, A °सिरेहि. 4 S A °हि. 5 S जलल्लिएहि.

[९] १ T स्मर-साराभिः; उवमाला-साराभिश्च. २ T वाचाला विटास्त एव भसला अन्यत्र वाचाला भसला भ्रमरा यासु. ३ T मुखरा गोऽन्यत्रापि पुष्पाणि मुखे(?). ४ T उच्चैर्वचोभिरन्यत्र 'वाया'='वाका' 'वल्कला' इत्यर्थेऽथवा 'वाया' = 'व्राताः' समूहा इत्यर्थः. ५ T सदृशैः.

[१०] १ T व्यञ्जनानि स्त्रीमनश्च. २ T वनिताभिः व्रणरोहकैश्च.

[३]साहारेण व अइ-पक्कएण   तक्केण व साहा-मुक्कएण ॥ ९
पहु-अच्चण एम्व करेइ जाम   गयणङ्गणेँ सुर वोल्लन्ति ताम्व ॥ १०

॥ घत्ता ॥

'जइ वि सन्ति एहु घोसइ   कल्लएँ होसइ   तो वि राम-लक्खणहुँ[6] जउ ।
इन्दिय वसि ण करन्तहुँ   सीय ण देन्तहुँ   सिय-मङ्गलु कल्लाणु कउ' ॥ ११

[११]

लग्गु [1][१]थुणेहुँ पयत्थ-[2][२]विचित्तं[3]   [३]णाय-णराण सुराण विचित्तं[3] ॥ १
मोक्खपुरी-परिपालियं[4]-गत्तं   सन्ति-जिणं ससि-णिम्मल-वत्तं ॥ २
सोम-सुहं[5] परिपुण्ण-पवित्तं   जस्स चिरं चरियं सु-पवित्तं ॥ ३
सिद्धि-वहू[6]-मुह-दंसण-पत्तं   सील-गुणव्वय-सञ्जम-पत्तं ॥ ४
[7]भावलयामर-चामर-छत्तं   दुन्दुहि-दिव्व-झुणी-पह-वत्तं ॥ ५
जस्स [४]भवाहि-उलेसु [५]खगत्तं   अट्ठ-सयं चिय लक्खण-गत्तं ॥ ६
[६]चन्द-दिवायर-सण्णिह-छत्तं   चारु-असोय-महद्दुम-छत्तं ॥ ७
दण्डिय जेण [८]मणिन्दिय-छत्तं[७]   णोमि[8] जिणोत्तममम्बुज-णेत्तं ॥ ८

(दोधकं)

परं परमपारं[9]   सिवं सयल-सारं ॥ ९
जरा-मरण-णासं   जय-स्सिरि-णिवासं ॥ १०
णिराहरण-सोहं   सुरासुर-विवोहं[10] ॥ ११
[८]अयाणिय-पमाणं   गुरुं [९]णिरुव[11]माणं ॥ १२
महा-कलुण[12]-भावं   [१०]दिसायड[13]-सहावं ॥ १३
णिराउह-करग्गं   विणासिय-कुमग्गं ॥ १४
हरं हुयवहं वा   हरिं चउमुहं वा ॥ १५
ससिं दिणयरं वा   पुरन्दर-वरं वा ॥ १६

---

6 S °हु, A °हं.

11. 1 S A थुणेहु. 2 A °विच्चित्तं. 3 A विचित्ते. 4 A °परिभाणियच्छत्तं. 5 A °मुहपरिपुण्ण-पवित्ते. 6 S °वहुय°. 7 This pāda is wanting in S. 8 S णउमि. 9 A °सारं. 10 °विमोहं. 11 A णिभव°. 12 S °करुण°. 13 A दिसायर°.

---

३ T उत्तमाम्रफलं पक्वमेव सहकारं भण्यते.

[११] १ T स्तोत्रम्. २ T विशिष्टचित्तं यस्मात् श्रियं जगति (?). ३ T संसारोत्तमकुले. ४ T (reading सुहयत्तं) सुभगत्वं. ५ T चन्द्रादित्यवत् प्रकाशका गणधरदेवादयश्छात्रा यस्य तम्. ६ T न ज्ञातं प्रमाणं यस्य. ९ T उपमारहितम्. १० T गगनं वातो वा.

[११]महापा[14]व-भीरुं पि ए[15]क्कल्ल-वीरं [१२]कला-भा[16]यं-हीणं पि मे[17]रूहि धीरं ॥ १७
[१३]विमुत्तं पि मुत्तावली-सण्णिकासं [१४]विणिग्गन्थ-मग्गं पि गन्थावयासं ॥ १८
महा-वीयरायं पि सीहासणत्थं अ-भूभङ्गुरत्थं पि णट्ठा[१५]रि-सत्थं ॥ १९
[१६]समाणङ्गधम्मं पि देवाहिदेवं [१७]जिईसा-विहीणं पि सव्वू[18]ढ-सेवं ॥ २०
[१८]अणा[19]यप्पमाणं पि सव्व-प्पसिद्धं [१९]अणन्तं पि सन्तं अणेयत्त[20]-विद्धं ॥ २१
[२०]मलुल्लित्त-गत्तं पि णिच्चाहिसेयं [२१]अजड्डुं पि लोए णिराणेय-णेयं ॥ २२
[२२][21]सुरा-णाम-णासं पि णाणा-सुरेसं [२३]जडा-जूड-धारं पि दूरत्थ-केसं ॥ २३
[२४]अमाया-विरूवं पि विक्खिण्ण-सीसं [२५]सया-आगमिल्लं पि णिच्चं अदीसं ॥ २४

(भुजंगप्रयातं)

14 A °भाव°. 15 S A एकल्ल°. 16 A °याराय°. 17 S मेरावधीरं,. A मेरूहि धीरं. 18 A सव्वूह°. 19 S क्षणेय°, A अणाक्ष°. 20 A अणेयंतसिद्धं. 21 A सुराणंम°.

११ T अतीव यः पापभीरुर्भवति स कथं एकल्लवीरो भवतीति। एकल्लवीरस्य भीरुशब्देनात्र विरोधोऽन्यत्र महापापभीरुमेकल्लवीरं च देवं. १२ T कला स्तोकं मातृकलास्वरूपभागतो यो हीनः स कथं मेरुभ्योऽपि धीरोन्यत्र कलाभागः शरीरभागस्तेन रहितं मेरुधीरं च. १३ T यो मुक्ताफलरहितो भवति स कथं मुक्तावली हारावलीसदृशो भवति। अथवा मुक्तावलीनां सम्यक् निष्कासो निर्गमो यस्मादिति विरोधोऽन्यत्र विमुक्तं शरीरादिपरिग्रहरहितं मुक्तावली सिद्धावली तया सदृशम्. १४ T यो विशेषेण ग्रन्थमार्गान्निष्कान्तो दरिद्रेति स कथं ग्रन्थस्य द्रव्यस्यावकाशं स्थानमिति विरोधोऽन्यत्रातीत-निर्गन्थ[मार्गं] मोक्षमार्गम्। ग्रन्थावकाशं आगमस्थानम्। सुगमं द्वयम्. १५ T कर्मसमूहः. १६ T समानं सदृशो लोष्टकारोऽङ्गधर्मः शरीरसंस्थानं यस्य स कथं देवाधिदेवोऽन्यत्र समानाङ्गधर्मः चक्षुषा तुल्यचक्षुः कर्णेन तुल्यकर्णः भ्रुवा भ्रूः नासिकापुटेन नासिकेत्यादिः, १७ यो जिगीषारहितस्तेन कथं सर्वलोकेषु कृता सेवाऽन्यत्र जिगीषारहितं सर्वलोकैरूढा कृता सेवा यस्य तम्. १८ T न ज्ञातं प्रमाणं यस्य स कथं सर्वप्रसिद्धम(?)थवा न्यायो नीतिः प्रमीयते ज्ञायते येनेतीत्यु(?)-पमानं ज्ञानं, न विद्यते न्यायप्रमाणो यस्य स कथं सर्वे प्रसिद्धमस्येति सर्वप्रसिद्धोऽन्यत्र [न]ज्ञातं लोकैः प्रमाणं ज्ञानं यस्य तमज्ञातप्रमाणं, सर्वं प्रसिद्धं यस्य सर्वेषु वा प्रसिद्धः. १९ T योऽनन्तः सर्वव्यापी भवति स कथमज्ञेयत्वविद्धः किं तर्हि सर्वैरपि ज्ञातो भवत्यन्यत्रानन्तरं(?) मरणहीनं सन्तं ज्ञानिनमनेकान्तालिङ्गि, तं च. २० T यो नित्यस्नानः स कथं मलो [प] लिप्तशरीरोऽन्यत्र मलो मलनकं सुगन्धचूर्णमिति यावत्, तेनो-[प]लिप्तं गात्रं निरन्तरं यस्य तत्तथाभूतं कृतस्नपनं च. २१ T आनीयते परिछिद्यते येन तदानेयं ज्ञानं, नीयते परिछिद्यं(द्य)ते यत्तन्नेयं वस्तु। आनेयनेयाभ्यां निष्कान्तो निराणेयनेय इति। यो अजाड्योऽपि विद्वान् स कथं निराणेयनेयो ज्ञानज्ञेयाभ्यां निष्कान्तो भवत्यन्यत्राजाड्यमतीव कर्मलघुत्वं यस्य तत्तथा निश्चिते ज्ञानज्ञेये यस्य तं निराणेयनेयम्. २२ T यो मद्यस्य नामापि नाशयति स कथं नानामद्यानामिशो-ऽन्यत्र मद्यविनाशकं दूषकं नानादेवानामीशं च तं. २३ T यो जटाजूटधारी स कथं दूरस्थकेशोऽन्यत्र जटाजूटधारिणं कथं तीर्थकराणामेक एव वालोत्पाटो भवति। ततः स्वयं जटा भवति। क = ब्रह्मा, अ = विष्णुः, ईश = शङ्करो, दूरस्थो(? स्थाः) केशो(? केशा) यस्य तं देवम्. २४. T यः किल मायया विरूपो भवति नानारूपः स इतस्ततो विक्षिप्तमस्तको [कथं] भवति। अन्यत्र माया वञ्चना विरूपं नष्टरूपं न विद्यते येषां(?)मायाविरूपे यस्य तममायाविरूपम्। सर्वत्र विक्षिप्ता गणधरादयः शिष्या येन तम्. २५ T सर्वकालमागमनं समीपागमं विद्यते यस्य स कथं नित्यमदृश्योऽन्यत्र शोभनमागमं सिद्धान्तं विद्यते यस्य। नित्यं विनाशहीनं, जीवस्वरूपेण चादृश्यम्.

[२६]महा-गुरुं पि णिब्भरं   [२७]अणिट्ठियं पि दुम्मरं ॥ २५
[२८]परं पि सव्व-वच्छलं   [२९]वरं पि णिच्च-केवलं ॥ २६
[३०]पहुं पि णिप्परिग्गहं   [३१]हरं[22] पि दुट्ठ-णिग्गहं ॥ २७
[३२]सुहिं पि सुट्ठु-दूरयं   [३३]अ-विग्गहं पि सूरयं ॥ २८
णिरक्खरं पि वुद्धयं   [३४]अमच्छरं पि कुद्धयं ॥ २९
[३५]महेसरं पि णिद्धणं   [३६]गयं पि मुक्क-वन्धणं ॥ ३०
अरूवियं पि सुन्दरं   [३७]अ-वड्ढियं पि दीहरं ॥ ३१
[३८]अ-सारियं पि वित्थयं   [३९]थिरं पि णिच्च-पत्थयं[23]' ॥ ३२
(णाराचं[24])

॥ घत्ता ॥

अग्गएँ[25] थुणेँवि जिणिन्दहोँ [26]भुवणाणन्दहोँ महियलेँ [४०]जण्णु[27]-जोत्तु करेँवि ।
णासग्गाणिय-लोअणुँ[28] अणिमिस-जोअणुँ[29] थिउ मणेँ अचलु[30] झाणु धरेँवि ॥ ३३

[१२]

वहुरूविणि-विज्जासत्त-मणु   [१]णियमत्थु सुणेप्पिणु दहवयणु ॥ १
तो जाय वोल्ल वलेँ राहवहोँ   सुग्गीवहोँ हणुवहोँ जम्ववहोँ ॥ २

---

22 A हरिं. 23 S °पंथयं. 24 Wanting in A. 25 S A अग्गइ. 26 This pāda is wanting in A. 27 S जन्हुजुत्त. 28 S A °लोयणु. 29 S °लोयणु. 30 S अचले.

---

२६ T अतिगुरुतरो यः स कथं निर्भरो लघुरन्यत्र महता गुरुमाराध्यं, निर्भरमपरिग्रहम्. २७ T योऽनि-
ष्ठितो मरणरहितः स कथं दुःखमरणोऽन्यत्रानिष्ठितं चल-समवसरणगामिनं दूरमरणं च. २८ T यः परः
शत्रुः स कथं सर्वेषां वत्सलोऽन्यत्र परं स्वामिनं सर्ववत्सलं करुणासहितम् । २९ T यो वरः परिणीतो सं
वधूयुक्तो भवति, कथं केवल एकाकीत्यन्यत्र वरं प्रशस्तं, नित्यकेवलज्ञानिनं च. ३० प्रभुः स कथं परिग्रह-
रहितोऽन्यत्र प्रभुं समर्थं त्यक्तपरिग्रहं च. ३१ T यो हरः शङ्करः स कथं दुष्टनिग्रहो भवति । दुष्टेभ्यो
निग्रहो यस्येति । किल हरोऽन्येषां निग्रहं करोत्यन्यत्र हरं संसारहरं दुष्टनिग्रहं कर्महन्तारं च. ३२ T यः
सुहृन्मित्रं स कथमतीव हृदय-दूरस्थोऽन्यत्र सुखिनं दूरगं मोक्षस्थं च. ३३ T यो अविग्रहः शरीररहितः
स कथं शूरश्चारु(र)भटोऽन्यत्राविग्रहं वैररहितं, अनन्तविज्ञानवीर्यसौख्यदर्शनेषु शूरम्. ३४ T योऽमच्छरः
स कथं क्रुद्धोऽन्यत्रामत्सरः, कुः प्रथिवी तस्या ध्वजो भूतं च. ३५ T महा + ईश्वरम्. ३६ T यो गजः स
कथं बन्धरहितोऽत्र गज इति ग्रामगजस्य ग्रहणं, 'नारण्यस्यान्यत्यर्थं' आदिपाठात् गतं ज्ञानिनं कर्मबन्ध-
नहीनं च. ३७ T यो न वृद्धिं गतः स कथं दीघोऽन्यत्र नखकेशादिवृद्धिरहितं, दीर्घं = न कुब्जं वामनं च.
३८ T योऽसारितोऽचलितो स कथं उद्धो(?)ऽथवा सारं बलं सारमस्य संजातं सारितो, न सारितोऽसा-
रितस्तमसारितमपि विशेषस्थितमन्यत्र अ = आत्मा, स एव सारः = असारः, असारोऽस्य संजातो =
असारितः तं, विशेषेण समवसरणे स्थितं च. ३९ T यः स्थिरोऽचलः स कथं नित्यं प्रस्थितश्चलितोऽन्यत्र
स्थितं गमनेच्छारहितं स च नित्यं प्रार्थनीयं वा, अथवा सर्वे नित्यं प्रस्थिता आगन्तुका यस्य, हे सुजना
एव, तदेव ज्ञातं मया श्रीचन्दमुनिनेति. ४० T अष्टाङ्गं नमस्कारं कृत्वा.

[१२] १ T नियमसहितः.

सोमित्तिहिँ अङ्गहोँ[1] अङ्गयहोँ स-गवक्खहोँ तह गवयहोँ गयहोँ ॥ ३
तारहोँ रम्भहोँ भामण्डलहोँ कुमुयहोँ कुन्दहोँ णीलहोँ णलहोँ ॥ ४
अवरहु मि असेसहुँ किङ्करहुँ एक्केण वुत्तु 'लइ किं करहुँ ॥ ५
अट्ठाहिएँ[2] आहउ परिहरेंवि थिउ सन्ति-जिणालॅउ[3] पइसरेंवि ॥ ६
आराहइ लग्गइ एक्क-मणु '[2]रावण[4]-अक्खोहणि दहवयणु' ॥ ७
तं सुणेंवि[5] विहीसणु विण्णवइ 'साहिय वहुरूविणि-विज्ज जइ ॥ ८
तो ण वि हउँ ण वि तुहुँ ण वि य हरि वरि एहएँ अवसरें[6] णिहउ अरि ॥ ९

॥ घत्ता ॥

चोर[7]-जार-अहि-वइरहुँ हुअवह[8]-डमरहुँ जो अवहेरि करेइ णरु ।
सो अइरेण विणासइ वसणु[9] पयासइ मूल-तलुक्खउ जेम[10] तरु ॥ १० ॥

[१३]

सक्केण वि किय अवहेरि चिरु जं वद्धाविउ[1] वीसद्ध-सिरु ॥ १
तं खउ अप्पाणहोँ आणियउ णित्तिहिँ अहियारु[2] ण जाणियउ' ॥ २
तं णिसुणेंवि सीराउहु भणइ 'जो रिउ पणमन्तउ आहणइ ॥ ३
सो खत्तिय-कुलें कलङ्कु करइ जो घइँ पुणु तवसि ण परिहरइ ॥ ४
तहोँ किं पुच्छिज्जइ चारहडि[3] वरि[4] भिन्दइ णिय-सिरें '[1]छार-हडि ॥ ५
जेत्तिउ दणु[5] दुज्जउ संभवइ तेत्तिउ पहरन्तहुँ[6] जसु[7] भमइ' ॥ ६
तं णिसुणेंवि कण्टइयङ्ग[8]एँहिँ रहु-तणउ वुत्तु अङ्गङ्गएँहिँ ॥ ७
'[2]ता खोहहुँ[9] जाम झाणु दलिउ[10]' मणु हरेंवि कुमार[11]-सेण्णु चलिउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं स-विमाणु स-वाहणु उक्खय-पहरणु णिएँवि कुमारहोँ तणउ वलु ।
णिसियर-णयरु पडोलिउ थिउ पच्चोलिउ महण-कालें णं उवहि-जलु ॥ ९

[१४]

जमकरण-लील-दरिसन्तएँहिँ[1] णयरब्भन्तरें पइसन्तएँहिँ ॥ १
कञ्चण-कवाड-फोडन्तएँहिँ सिय-तार-हार-तोडन्तएँहिँ ॥ २

---

12. 1 S तहं अंगयहो. 2 S अट्ठाहिएहि. 3 S °जिणालिं. 4 S रामण°. 5 A णिसुणेवि, S सुणिवि. 6 S A अवसरि. 7 A चार. 8 S अवरह. 9 A सवणु. 10 S जह व.

13. 1 S वड्ढाविउ. 2 A अहिवाउ. 3 After this Pāda marginally adds तहो लीह वि तिहुवणि को धरइ. 4 A परि. 5 S हणु. 6 S पहरंतहु, A पहरंतहं. 7 S सुं. 8 S A °इअं°. 9 S खोहहं, A खोहउं. 10 A चलिउ. 11 S कुमारु.

14. 1 S A °हि.

---

२ T रावणरूपाणामेकाऽक्षोहिणी.

[१३] १ T छारहंडिका. २ T तावत् क्षोभयामि यावद् ध्यानाच्चलति (A's reading).

मणि-कोट्टिम-खोणि-खणन्तऍहिँ   ‘अरें रावण ‘र[१]क्खु[2]’ भणन्तऍहिँ ॥ ३
अप्पंपरिहूअउ सव्वु जणु   साहारु ण वन्धइ तट्ठ-मणु ॥ ४
तहिँ अवसरेँ[3] मम्भीसन्तु मउ   सण्णहेँवि दसासहों पासु गउ ॥ ५
थिउ अड्डेँवि साहणु अप्पणउ[4]   कियं[5]-कालहों फेडिउँ[6] जम्पणउ[7] ॥ ६
[8]मन्दोअरि अन्तरेँ[9] ताम थिय   ‘किं रावण-घोसण ण वि सुइय ॥ ७
[10]जं भावइ तं करन्तु [२]‘अ-णउ[11]   णन्दीसरु जाम ताम अभउ’ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं णिसुणेंवि दूमिय-मणु   आमेल्लिय[12]-रणु   मउ पइट्टु[13] अप्पणउ[4] घरु ।
पवियम्भिय अङ्गङ्गय   मत्त महागय[14]   [15]णाइँ पइट्ठा पउम-सरु ॥ ९

[१५]

णवर पवियम्भमाणेहिँ[1] दोहिं पि सुग्गीव-पुत्तेहिँ
अण्णाय-वन्तेहिँ उग्गिण्ण-खग्गेहिँ रेक्कारिओ[2] रावणो ॥ १
तह वि अमणो[3] ण खोहं गओ सव्व-रायाहिरायस्स
णिक्कम्पमाणस्स तइलोक्क[4]-चक्केक्कवीरस्स संकारिणो ॥ २
मलयगिरि-विञ्झ-सज्झत्थ-केलास-किक्किन्ध-सम्मेय-
हेमिन्दकील[5]ञ्झणुज्जेन्त-मेरूहिँ धीरत्तणं[6] धारिणो[7] ॥ ३
पवल-वहुरूविणी-दिव्वविज्जा-महाऊरिस-ज्झाणं[8]-दावग्गि-
जालावली-जाय-जज्जलमाणङ्ग-चम्मत्थिणो[9] ॥ ४
असुर-सुर-चन्दि[10]-मुक्कञ्झणुम्मिस्स[11]-थोरंसु-धारा-
पुसिज्जन्त-णीलीकय-च्छत्त-चिन्ध-प्पडायालिणो[12] ॥ ५
धणय-जम-यन्द[13]-सूरग्गि-खन्देन्द-देवाइ-चूडामणिन्दु-
प्पहा-वारि-धारा-समुद्धूय-पायारविन्दस्स से[14] ॥ ६

2 s रक्ख. 3 s A अवसरि. 4 A अप्पणउं. 5 s किं. 6 s फेडमि. 7 A जंपणउं. 8 This line is missing in s. 9 A अंतरि. 10 This pāda is missing in s. 11 A अणउं. 12 s A आमि°. 13 s पइट्टु. 14 This pāda is missing in A. 15 s A णाइ.

15. 1 s A °हि. 2 s रेक्कारिउ, A रेकारिउ. 3 s अमणे णहो. 4 s °तेल्लोक्क°. 5 s हेमंतकीलंजणु जेत्तमेरु° 6 s धीरत्तणुं, A धीरत्तणु. 7 A द्धोरिणो. 8 s A °ज्झाणु°. 9 A °वम्मच्छिणो. 10 s °वंदिए कुंद°. 11 s A °मिस्स°. 12 s °पडायाचलिणो. 13 s °इंद°. 14 Missing in s.

[१४] १ T राक्षसः (s ’s reading). २ अनयः.
[१५] १ T इंद्रशत्रोः.

गरुय[15]-उवसग्ग-विग्घे समारम्भिए [ए?]समुग्गिण्ण-
णाणाउहं रुट्ठ-दट्ठाहरं जक्ख-सेण्णं समुद्धाइयं ॥ ७
फरुस-वयणाहिँ हक्कार-डक्कार-फेक्कार-हुङ्कार-
भीसावणं पिच्छिऊणं पणट्ठा कइन्दद्धया (?) ॥ ८

॥ घत्ता ॥

भग्गु कुमारहुँ साहणु गलिय-पसाहणु पच्छलेँ लग्गउ जक्ख-वलु ।
(णं) णव-पाउसेँ अइ-मन्दहोँ तारा-चन्दहोँ मेह-समूहु[16] णाइँ[17] स-जलु ॥ ९

[१६]

तहिँ अवसरेँ[1] जणिय महाहवेँण जं अङ्घिउँ[2] पुज्जिउ राहवेँण ॥ १
तं जक्ख-सेण्णु सेण्णहोँ पवरु थिउ अग्गएँ खग्गुग्गिण्ण-करु ॥ २
‘अरेँ जक्खहोँ [१]रक्खहोँ किङ्करहोँ जिह सक्कहोँ तिह रणेँ उत्थरहोँ ॥ ३
वलु वुज्झहोँ जुज्झहोँ आहयणेँ पेक्खन्तु सुरासुर थिय[3] गयणेँ ॥ ४
ता[4] अच्छहुँ रामण-रामहु मि समरङ्गणु अम्हहँ तुम्हहुँ[5] मि’ ॥ ५
तं णिसुणेँवि दहमुह-वक्खिएँहिँ दोच्छिय सन्तिहरारक्खिएँहिँ ॥ ६
‘दुम्मणुसहोँ दुट्ठहोँ दुम्मुहहोँ जं किय [२]दो[6]हाइं दहमुहहोँ ॥ ७
तं सो जि[7] भणेसइ[8] सव्वहु मि तुम्हहँ हरि-वल-सुग्गीवहु मि’ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं णिसुणेँवि आसङ्किय माण-कलङ्किय जक्ख परिट्ठिय मुएँवि छलु ।
पुणु वि समुण्णय-खग्गा पच्छलेँ लग्गा जाव पत्त रिउ राम-वलु ॥ ९

[१७]

वलु [१]गरहिउ रक्ख-पहाणएँहिँ वहु-भूय-भविस्सय-जाणएँहिँ ॥ १
‘अहोँ णर-परमेसर दासरहि जइ तुहु मि [1]अणिच्चि एम करहि ॥ २
तो होसइ कहोँ परिहास पुणु णियमंत्थु[2] हणन्तहुँ कवणु गुणु’ ॥ ३
तं सुणेँवि वुत्तु णारायणेँण ‘एँउ वोल्लिउ कवणेँ कारणेँण ॥ ४
अहोँ अहोँ जक्खहोँ [२]दुच्चारियहोँ दुट्ठहोँ चोरहोँ[3] परयारियहोँ ॥ ५

15 S रारुव°. 16 A °समुहु. 17 S A णाइ.

16. 1 S A तहि अवसरि. 2 S अग्गिए, A अंघिउं. 3 S गयणयणे. 4 S तो अच्छहु. 5 S °हं.
6 S °दोहायं. 7 S ज्ज, A जि. 8 T has भलेसइ glossed with ज्ञास्यति.

17. 1 S अणित्तिए ववहरहि. 2 S °मत्थू, A °मत्थ. 3 A चारहो.

[१६] १ T रे रावणभृत्याः. २ T द्रोह्यानि.
[१७] १ T निंदितः. २ T दुश्चारित्रस्य (?).

साहेज्जउ देन्तहुँ कवणु गुणु   किं मइँ आरुट्ठें सन्ति पुणु' ॥ ६
तं गरहिउ देवहुँ[4] चित्तें[5] थिउ   'सच्चउ अम्हेहिँ अजुत्तु किउ ॥ ७
सच्चउ विरुयारउ दहवयणु   ण समप्पइ पर-कलत्त-रयणु' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

एम भणेँवि स-विलक्खेँहिँ   वुच्चइ जक्खेँहिँ   'हरि अवराहु एक्कु खमहि ।
अण्ण वार जइ आवहुँ   मुहु दरिसावहुँ तो स इँ[6] भु ऍहिँ सव्व दमहि[7]' ॥ ९

*

[७२. दुसत्तरिमो संधि]

पुण वि पडीवऍहिँ   जिणु जयकारेँवि[1] विक्कम-सारेँहिँ ।
लङ्कहिँ[2] गमणु किउ   अङ्गङ्गय-पमुहे[3][हिँ] कुमारेँहिँ ॥

[१]

वेहाइद्धेँहिँ   उक्खय-खग्गेँहिँ ।
पवर-विमाणेँहिँ   धवल-धयग्गेँहिँ ॥ १
पढम-विसन्तेँहिँ   लङ्क णिहालिय ।
णाइँ[4] विलासिणि   कुसुमोमालिय ॥ २ (जम्भेट्टिया[5])
जा ण[6] वि लङ्घिज्जइ रवि-हयएहिँ   [7]दहवत्त-तुरङ्गम-भय-गएहिँ ॥ ३
जहिँ[8] मत्त-महागय-[1]मलहरेहिँ   गज्जेवउ छण्डिउ जलहरेहिँ[8] ॥ ४
जहिँ[8] पहरेँ पहरेँ ओसरइ दूरु[9]   वहु-सूरहुँ उवरि ण जाइ सूरु ॥ ५
जहिँ रामाणण-चन्देहिँ[8] चन्दु   पीडिज्जइ किज्जइ तेय-मन्दु ॥ ६
जहिँ उण्हु ण णावइ अहिणवेण   वहु-पुण्डरीय-किय-मण्डवेण ॥ ७
[2]जहिँ[8] पाउसु करि-कर-सीयरेहिँ   उट्ठन्ति णइउ दाणोज्झरेहिँ ॥ ८
मणि-अवणिहेँ तुरय-खुरेहिँ पंसु   [3]वोलइ[10] रविकन्त-पहाऍ हंसु ॥ ९
मोत्तिय-छलेण णक्खत्त-वन्दु[11]   वहु-चन्दकन्ति-कन्तीऍ चन्दु ॥ १०

॥ घत्ता ॥

किं रवि रिक्ख[12] ससि   अण्ण[13] वि जे जियन्ति [4]वावारें ।
णिप्पह वहु-पिसुण   अवसें जन्ति सयण-उत्थारें[5][14] ॥ ११

---

4 S देवहु, A देवह. 5 S A चित्ति. 6 S सइ भुयंहि, A सइ भुएहि. 7 S दमहो.

1. 1 S जयकारिउ, A जयकारिवि. 2 S लंकह. 3 S °पमुह, A °पमुहं. 4 S A णाइ. 5 S जंभिट्टिया, A जंभेट्टिया. 6 S णउ. 7 S दहवण्णतुरंगयवरधएहि. 8 S A °हि. 9 A सूरु. 10 S वोलइ. 11 A °चंदु. 12 S °रक्खसेहि. 13 S सयल. 14 S उच्छारें, A उच्छारे.

---

[१] १ T गर्जिभिः. २ T यत्र करि-सुंडा-दंडेन नद्या जलं गृहीत्वा सीत्कारेः (?) पाउषो (sic.) वर्षाकालं (sic.) वर्तते. ३ T यत्र लंकायां प्रविशति स सूर्यकान्त-प्रभया कृत्वा हंस आदित्यः. ४ T गतिरागति(?)व्यापारेण. ५ T उच्छत्तारेण (?)

[२]

दिट्ठु स-मोत्तिउ रावण-पङ्गणु ।
णाइँ[1] स-तारउ[2] सरय-णहङ्गणु ॥ १
वहु-मणि-कुट्टिमु वहु-रयणुज्जलु ।
णाइँ[1] विसट्टउ[3] रयणायर-जलु ॥ २
चिन्ताविय 'केत्तहेँ पयइँ देहुँ[4] मण-खोहु दसासहोँ किह करेहुँ' ॥ ३
किर चन्दण-छड-मग्गेण जन्ति कद्दम-भइयएँ ण पईसरन्ति ॥ ४
किर फलिह-पहेण समुच्चलन्ति आयासासङ्कएँ पुणु वलन्ति ॥ ५
मरगय-विद्दुम-मेइणि णिएवि पउ देन्ति ण 'किरणावलि'[5] भणेवि ॥ ६
पेक्खेंवि[6] आलेक्खिम-सप्प-सयइँ 'खज्जेसहुँ' भणेंवि ण दिन्ति पयइँ ॥ ७
पहेँ[7] लग्ग णीलमणि-सार-भूएँ चिन्तविउ 'पडेसहुँ अन्धकूएँ' ॥ ८
पुणु गय ससिकन्त-मणि-प्पहेण ओसरिय '[1]विलेसहुँ[4] किं दहेण' ॥ ९
गय सूरकन्ति-कुट्टिम-पहेण सङ्किय 'डज्झेसहुँ हुअवहेण' ॥ १०

॥ घत्ता ॥

दुक्ख[8]-पइट्ठ तहिँ [2]ससिकर-हणुवँ[9]ङ्गय-तारा ।
णाइँ[10] विरुद्ध-मण जम-सणि-राहु-केउ-अङ्गारा ॥ ११

[३]

[1]हसइ व रिउ-घरु मुँह[2]-वय-[1]वन्धुरु ।
विद्दुमयाहरु मोत्तिय-दन्तुरु ॥ १
छिवइ व मत्थएँ[3] मेरु-महीहरु ।
'तुज्झु वि मज्झु वि कवणु पईहरु' ॥ २
जं चन्दकन्त-सलिलाहिसित्तु अहिसेय-पणालु व फुसिय-चित्तु ॥ ३
जं विद्दुम-मरगय-कन्तियाहिँ थिउ गयणु व सुरधणु-पन्तियाहिँ ॥ ४
जं इन्दणील-माला-मसीएँ आलिहइ व दिस-भित्तीएँ तीएँ ॥ ५

---

2. 1 S A णाइ. 2 A समारउ. 3 A विसद्धउ. 4 S A °हु. 5 S कीरा°. 6 S पेक्खिवि, A पेक्खवि. 7 S A पहि. 8 A दुक्खे. 9 S A °हणुवें°. 10 S णाय, A णाइ.

3. 1 S उवहसइ संझाराउ. 2 S सुहवंधुरु, A °वधुरु. 3 S मत्थउ.

---

[२] १ T द्रविख्या (ष्या)मि विलयामीत्यर्थः (?). २ T चंद्रकिरणनामा वालिपुत्रः.
[३] १ T मनोज्ञः.

जहिँ[4] पोमराय-मणि[5]-गणु विहाइ   थिउ अहिणव-सञ्झा-राउ णाइँ[6] ॥ ६
जहिँ सूरकन्ति-खेइज्जमाणु   गउ उत्तरएसहोँ णाइँ भाणु ॥ ७
जहिँ चन्दकन्ति-मणि-[२]चन्दियाउ[7]   णव-यन्दँ-[३]ब्भासेँ वन्दियाउ[8] ॥ ८
'अ[9]च्चरिउ' कुमार चवन्ति एव   'वहु-चन्दीहूयउ गयणु केम ॥ ९
पेक्खेप्पिणु मुत्ताहल-णिहाय   'गिरि-णिज्झर' भणेँवि धुवन्ति पाय ॥ १०

॥ घत्ता ॥

तं दहवयण-घरु   ते कुमार मणि-तोरण-दारेँहिँ[10] ।
वर-वायरणु जिह   अ-वुह पइट्ठा [11]पच्चाहारेँहिँ ॥ ११

[४]

पइ[1]ट्ठ कइद्धय   भवणब्भन्तरे ।
णं पञ्चाणण   गिरिवर-कन्दरे ॥ १
पवर-महाणइ-   णिवह [2]वँ सायरे ।
रवि-किरणा इव   अत्थ-महीहरे ॥ २
धावन्ति के वि ण करन्ति खेउ   खम्भेहिँ घिडन्ति [१]मेल्लन्ति वेउ ॥ ३
वहु-फलह-सिला-भित्तिहिँ भिडेवि   [२]सरुहिर-सिर परियत्तन्ति के वि ॥ ४
केँ वि इन्दणील-णीलेहिँ जाय   [3]केहि मि थिय तु[4]म्हइँ एत्थु आय ॥ ५
जच्चन्ध-लील केँ वि दक्खवन्ति   उट्ठन्ति पडन्ति सिलेँहिँ भिडन्ति ॥ ६
केँ वि सूरकन्त-कन्तीहिँ भिण्ण[5]   वहु सूर[6]एँ मेल्लेँवि[7] पुरेँऽवइण्ण ॥ ७
केँ वि चन्दकन्त-कन्तेहिँ जाय   मुह-यन्दहोँ उप्परि णाइँ[9] आय ॥ ८
केँ वि पउमराय-कर-णियर-तम्ब   णं अहिणव-रण-लील[३]ावलम्ब ॥ ९
केँ वि आलेक्खिम-कुञ्जरहोँ तट्ठ   केँ वि सीहहुँ केँ वि पण्णयहुँ[10] णट्ठ ॥ १०

॥ घत्ता ॥

णिग्गय तहोँ घरहोँ   पुणु वि पडीवा तेहिँ जि वारेँहिँ ।
उअय-महीहरहोँ   रवि-यर णाइँ अणेयागारेँहिँ ॥ ११

4 S जहि, A जेहि. 5 S °पह तणु 6 S A णाइ. 7 A वंदियाउ. 8 S चंदियाउ. 9 S अच्छरिउ. 10 S दारि वि. 11 A पच्चारेहिं.

4. 1 S A पइट्ठ. 2 S इ. 3 S किह विवुह तुम्ह एत्थु हि जि आय. 4 A तुम्हइ. 5 S भिण्णु. 6 S सूर व. 7 S मिलेवि, A मिल्लिवि. 8 S °वइण्णु. 9 S A णाइ. 10 S तट्ठ.

२ T वंदियाउ (A.'s reading) खंडानि (?). ३ आभासें = प्रतिभासेन.

[४] १ वेगेन मिलितं (?). २ रुधिरयुक्तः. ३ धारकाः.

[५]

तं दहमुह-घरु   मुएँवि विसालउ ।
गयं परिओसें   सन्ति-जिणालउ ॥ १
तहिँ[2] पइसन्तेँहिँ[2]   दिट्ठु स-णेउरु ।
रामण-केरउ   इट्ठन्तेउरु ॥ २
चिहुरेहिँ सिहण्डि-ओलम्वु[3] भाइ   कुरुलेँहिँ इन्दिन्दिर-विन्दु णाइँ[4] ॥ ३
भउहेँहिँ अणङ्ग-धणुँ[5]हर-लय व्व   णयणहिँ[2] णीलुप्पल-काणणं व ॥ ४
मुह-विम्वेँहिँ मयलञ्छण-वलं व   कल-वाणिहिँ कल-कोइल-कुलं व ॥ ५
कोमल-वाहेहिँ लयाहरं व   पाणिहिँ[2] रत्तुप्पल-सरवरं व ॥ ६
णक्खेँहिँ केअइ-सूई-थलं व   सिहिणेँहिँ सुवण्ण-घड-मण्डलं व ॥ ७
सोहग्गें वम्मह-साहणं व   रोमावलि-णाइणि-परियणं व ॥ ८
तिवलिहिँ अणङ्ग-पुरि[6]-खाइयं व   गुज्झेहिँ मयण-मज्जण-हरं व ॥ ९
ऊरुहिँ[7] तरुण-केली-वणं व   चलणग्गेँहिँ पल्लव-काणणं व ॥ १०

॥ घत्ता ॥

हंस-उलु व गइ(ए)हिँ   कुञ्जर-जूहु व वर-लीलँ[8]हिं ।
चाव-वलु व गुणेँहिँ   छण-ससि-विम्वु व सयल-कलँ[9]हिं ॥ ११

[६]

'अवि य णरिन्दहो   वय-सय-चिण्णहो[1] ।
काइँ करेसहुं   झाणुत्तिण्णहो ॥ १
वरि '[1]अब्भासहुँ'   एव भणन्तु व ।
थिउ रयणिहिँ णिय-   हियँ[1]एँ गुणन्तु व ॥ २
[2]सिर-णमणु जिणाहिवँ[3]-वन्दणेण   पिय-वन्धणु फुल्ल-णिवन्धणेण ॥ ३
भउहा-विक्खेवणु[4] णच्चणेण   लोअण-वियारु दप्पण-खणेण ॥ ४
णासउड-फुरणु फुलङ्कणेण   परिउम्वणु वंसाऊरणेण ॥ ५
अहरङ्कणु [5]वीडी-खण्डणेण   पिय-कण्ठ-ग्गहणु सुहाँ[6]वणेण ॥ ६

5. 1 P S गउ. 2 P S A °हि. 3 P S °दलंवु. 4 P S A णाइ. 5 P S धणुलइवलं व. 6 A °पुर°. 7 P S उरूएहि. 8 P S° लीलहि. 9 P °कलहि, S °कलेहि, A कलाहि.

6. 1 P S °चित्तहो, A °विण्णहो. 2 A °हियउ. 3 A ण णराहिव वहणेण. 4 P S A °विक्खेवणे. 5 P S वीडा°. 6 S सुहावणेण.

[६] १ रावणस्यान्तःपुरमिति जल्पद्देवपूजानुरक्तं स्थितम्. T प्रभोर्ध्यानादुत्थितस्य सुरतगुण-निकायं किं करिष्यामीति यत् तत् कृत्यं तद् गुणदेव जिनपूजायां स्थितमन्तःपुरम्. २ T सुरते किल राम(व)णस्य शिरोनमनं कर्तव्यं तज्जिनप्रणामेन गुणितमित्यादि.

अहिसेय-कलस-कण्ठ-ग्गहेण अवरुण्डणु थम्भालिङ्गणेण ॥ ७
पिय-फाडणु [३]छेवाकड्ढणेण [४]कुरुमालणु वीणा-वायणेण ॥ ८
[५]कर-घायणु झिन्दुवँ[7]-घायणेण सिक्कारु कुसुम-आखञ्चणेण ॥ ९
[६]कम-घाय असोय-प्पँ[8]हरणेण ॥ १०

॥ घत्ता ॥

[७]कुङ्कुम-चन्दणइँ सेअँ[9]-फुडिङ्ग वि गरुआँ[10] भाँ[11]रा ।
किं पुणु कुण्डलइँ कडय-मउड-कडिसुत्ता हाँ[12]रा ॥ ११

[७]

काउ वि देविउ काह वि णारिहिं ।
दिन्ति सु-पेसणु पेसणयारिहिँ[1] ॥ १
'हलेँ ललियङ्गिए लइ णारङ्गइं ।
जाइँ जिणिन्दहो अच्चण-जोग्गइं ॥ २
हलेँ दालिमीएँ दालिमइँ देहि विज्जउरिएँ विज्जउराइँ लेहि ॥ ३
वहुफलिएँ सुअन्धइँ वहुफलाइँ रत्तुप्पँ[2]लीएँ रत्तुपलाइँ ॥ ४
इन्दीवरीएँ इन्दीवराइँ सयवत्तिएँ सयँ[3]वत्तइँ वराइँ ॥ ५
कुसुमिएँ कुसुमेँहिँ अच्चण करेहि मणिदीविएँ मणि-दीवउ धरेहि ॥ ६
कप्पूरिएँ डहेँ कप्पूर-दालि विद्दुमिएँ चडावँ[4]हि विद्दुमालि ॥ ७
मुत्तावलि लहु मुत्तावलीउ संचूरेँवि छुहु रङ्गावलीउ ॥ ८
मरगएँ मरगय-वेइहेँ चडेवि सम्मज्जणु करेँ कमलाइँ लेवि ॥ ९
हलेँ लवलिएँ चन्दण-छडउ देहि गन्धावलि गन्धु लएवि एहि ॥ १०
कुङ्कुमलेहिएँ लइ घुसिण-सिप्पि आलावणि आलावेहि किं पि ॥ ११
किण्णरिएँ तुरिउ किण्णरउ लेहि तिलयावलि तिलय-पयाइँ देहि' ॥ १२
आयएँ लीलएँ अच्छन्ति जाव आसण्णीहूअ कुमार तावँ ॥ १३

॥ घत्ता ॥

रावण-जुवइ[5]-यणु अङ्गङ्गय णिएवि आसङ्किउँ[6] ।
णं करि-करिणि-थड[7] सीहालोयणेँ माण-कलङ्किउँ[6] ॥ १४

7 P झिंदुय, A रंदुव°. 8 P S A असोयंप°. 9 P omits, S सइं. 10 P S गरुअ. 11 A भारइं. 12 P °हरा, A हारइं.

7. 1 P S A °हि. 2 P S रत्तुप्पलाए. 3 P S सयवत्तिय, A missing. 4 P S °विहि. 5 P S A °जुवई°. 6 P S °यउ. 7 P S °थट्ट.

३ T छेदं वस्त्रविषये न तु अन्यत्र. ४ T कंडुवणं वीणाविषये. ५ T करघातं गिंदुकेन. T पादप्रहारं अशोकवृक्षस्य न तु अन्यत्र. ७ T या(?)किल कुङ्कुमचदनादिविलेपनभारं न सहते तस्य कुण्डलकटकादिना किं प्रयोजनम्.

[८]

सन्ति-जिनालए भामरि देप्पिणु ।
सन्ति-जिणेन्दहो णवण करेप्पिणु ॥ १
पासु दसासहो ढुक्क कइद्धय
णाइँ[1] मइन्दहो मत्त महागय ॥ २
उद्दालेँवि हत्थहों अक्ख-सुत्तु दससिरु सुग्गीव-सुएण वुत्तु ॥ ३
'एँहु काइँ राय आढत्तु डम्भु थिउ णिच्चलु णं पाहाण-खम्भु ॥ ४
तउ कवणु धीरु को वाऽहिमाणु सा कवण विज्ज इउ कवणु झाणु ॥ ५
उप्पाइय लोयहुँ काँइँ[2] भन्ति पर-णारि लयन्तहों[3] कवण सन्ति ॥ ६
किं भाणुकण्ण-इन्दइ-दुहेण णउ वोल्लहि एक्केण वि मुहेण ॥ ७
किं लक्खण-रामहुँ ओसरेवि थिउ सन्तिहें 'भवणु पईसरेंवि' ॥ ८
णिब्भच्छेंवि एम कइद्धएहिँ महएविउ वेहाविद्धएहिँ ॥ ९
आढत्तउँ[4] वन्धहुँ धरहुँ लेहुँ विच्छारहुँ[5] दारहुँ[5] हणहुँ[5] णेहुँ[6] ॥ १०

॥ घत्ता ॥

तहों अन्तेउरहों भउ उप्पण्णु भडेहिँ भिडन्तेंहिँ ।
णं णलिणी-वणहों मत्त-गइन्देंहिँ सरु पइसन्तेंहिँ ॥ ११

[९]

का वि वरङ्गण कड्ढिय थाणहो ।
कुसुम-लया इव वर[1]-उज्जाणहो ॥ १
सामल-देहिय हार-पयासिरि ।
स-[1]वलायावलि णं पाउस-सिरि ॥ २
क[2] वि कड्ढिय णेउर-चलवलन्ति सरवर-लच्छि व कमल-क्खलन्ति ॥ ३
क वि कड्ढिय रसणा-दाम लेवि सु[2]-णिहि व्व भुअङ्गमु वसिकरेवि ॥ ४
क वि कड्ढिय तिवलिउ दक्खवन्ति कामाउरि-परिहउ[3] पायडन्ति ॥ ५
क वि कड्ढिय भज्जण-भयहों जन्ति किस-रोमावलि-खम्भुद्धरन्ति ॥ ६
क वि कड्ढिय थण-यलसु[4]व्वहन्ति लायण्ण-वारि-पूरें व तरन्ति ॥ ७
क वि कड्ढिय कर-कमलइँ धुणन्ति छप्पय-रिञ्छोलि वँ[4] मुच्छलन्ति(?) ॥ ८

8. 1 P S A णाइ. 2 P S का वि. 3 S °हु, A °हुं. 4 P आढत्तहुं, S आढत्तहु. 5 P S °हु, A हो. 6 P S णेहु, A लेहुं. 7 P A वणेहिं, S वणेहि.
9. 1 P S लय°. 2 P S के. 3 P S A कमलइ. 4 P उ, S यउ.

[९] १ T वलाकापङ्क्ति. २ सुनिधीव (? घिरिव). ३ T खातिका. ४ T उद्वहन्ती.

क वि कड्ढिय सव्वहुँ सरणु जन्ति   मुत्ता[5]वलिं पि कण्ठएँ धरन्ति ॥ ९
क वि कड्ढिय 'हा रावण' भणन्ति   दीहर-भुव-पञ्जरें पइसरन्ति ॥ १०

॥ घत्ता ॥

जाहँ ग[6]ईन्द-ससि   वरहिण-हरि[7]ण-हंस[8]-सँयणिज्जा ।
ताहँ विवक्खियहुँ   अवसें सूर ण होन्ति सहेज्जा ॥ ११

[१०]

का वि णियम्बिणि   सिढिल-णियंसण ।
केस-विसन्थुल   पगलिय-लोयण ॥ १
उब्भिय-करयल   मुह-विच्छाइय ।
दइयहों अग्गएँ   रु[1]अइ वराइय ॥ २
'अहों दुद्दम-दाणव-दप्प-दलण   सुर-मउड-सिहामणि-लिहिय-[2]चलण ॥ ३
जम-महिस-सिङ्ग-[1]णिंवली-णिहट्ट   सुरकरि-विसाण-मूरण-पहट्ठ ॥ ४
परमेसर किं ओहट्ट-थामु   किं रामणु अण्णहों कहों वि णामु ॥ ५
किं अ[3]ण्णें साहिउ चन्दहासु   किं अण्णें धणयहों किउ विणासु ॥ ६
किं अण्णें वसिकिउ उद्ध-सोण्डु   वण-हत्थि तिजगभू[4]सणु पचण्डु ॥ ७
किं अण्णें भग्गु कियन्त-राउ   किं अण्णहों वसें सुग्गीउ जाउ ॥ ८
किं अण्णें गिरि कइलासु देव   हेलएँ जें तुलिउ झिन्दु[5]वउ जेव ॥ ९
किं अण्णें णिज्जिउ सहसकिरणु   फेडिउ णलकुव्वर-सक्क-फुरणु ॥ १०

॥ घत्ता ॥

किं अण्णहों जि भुव   वरुण-णराहिव-धरण-समत्था ।
जइ तुहुँ दहवयणु   तो किं अम्हहुँ एह अवत्था' ॥ ११

[११]

तो वि ण झाणहों   टालिउ राण[1]उ ।
अचलु[2] णिरारिउ   मेरु-समाण[3]इ ॥ १
जोगि[4] व सिद्धिहिँ   रामु व भज्जहों ।
तिह तग्गय-मणु   थिउ पहु विज्जहों ॥ २

5 P °वललिं, S °वलिलिं. 6 P सगइंद°, S सगयंद°. 7 'हरिण°' wanting in A. 8 P S हं.
10. 1 S अइव. 2 A °चभवण. 3 S अण्णहो. 4 P S A °भूसण. 5 A किंदुवउं.
11. 1 A राणउं. 2 A अतुल. 3 A °समाणउं. 4 P जोग्गि.

५ वान्धवाः. ६ विवेकिनो यथा राम(व)णे नाभूत् सहायः.
[१०] १ आघातः. २ बलम्.

संखुहिउ[5] ण लङ्काहिवहों चित्तु   तं अङ्गउ हुअवहु जिह पलित्तु ॥ ३
मन्दोयरि कड्ढिय मच्छरेण   कप्पद्दुम-साह व कुञ्जरेण ॥ ४
हरिणि व सीहेण विरुद्धएण   ससि-पडिम व राहुं कुद्धएण ॥ ५
उरगिन्दि व गरुड-विहङ्गमेण   लोगाणि व पवर-जिणागमेण ॥ ६
परमेसरि तो वि ण भयहों जाइ   णिक्कम्प परिट्ठिय धरणि णाइँ ॥ ७
'रे रे जं किउ महु केस-गाहु   अण्णु वि महएविहुँ हियय-डाहु ॥ ८
तं पाव फलेसइ परएँ पावु   दहगीउ गिलेसइ वलु जें [1]सावु' ॥ ९
तं णिसुणेंवि किय-कडमद्दणेण   णिब्भच्छिय तारा-णन्दणेण ॥ १०

॥ घत्ता ॥

'काइँ[6] [2]विहाणएँण   अज्जु जि पिक्खन्तहों दहगीवहों ।
सहुँ अन्तेउरेँण   पइँ महएवि करमि सुग्गीवहों' ॥ ११

[१२]

एम भणेप्पिणु   रिउ रेकारिउ ।
'रक्खु दसाणण   मइँ[1] पच्चारिउ ॥ १
हउँ सो अङ्गउ   तुहुँ लङ्केसरु ।
एँह मन्दोयरि   एँहु सो अवसरु' ॥ २
जं एव वि खोहहों ण गउ राउ   तं विज्जहें आसण-कम्पु जाउ ॥ ३
आइय अन्धारउ जउ करन्ति   वहुरूविणि वहु-रूवइँ[2] धरन्ति ॥ ४
थिय अग्गएँ सिद्धहों सिद्धि जेवँ   'किं पेसणु पहु' पभणन्ति एवँ ॥ ५
'किं दिज्जउ वसुमइ वसिकरेवि   किं दिज्जउ दिस-करि[3]-थट्टु(?) धरेवि ॥ ६
किं दिज्जउ फणि-मणि-रयणु लेवि   किं दिज्जउ मन्दरु दरमलेवि ॥ ७
किं दिज्जउ सुरणं[4]न्दिणि दुहेवि   किं दिज्जउ जमु णियलेंहिँ छुहेवि ॥ ८
किं दिज्जउ वन्धेंवि अमर-राउ   किं कुसुमसराउहु रइ-सहाउ ॥ ९
किं दिज्जउ धणयहों तणिय रिद्धि   किं दिज्जउ [1]सव्वोवाय-सिद्धि ॥ १०

॥ घत्ता ॥

सहुँ देवासुरेंहिँ   किं तइलोक्कु वि सेव करावमि ।
णवर णराहिवइ   एक्कहों [2]चक्कवइहें ण पहावमि' ॥ ११

---

5 P marginally records जं खुहिउ. 6 P S A काइ.
12 1 P S A मइ. 2 P S A °रूवइ. 3 P S °करें°, A °रि°. 4 P S °णंदणु, A °णिंदिणि.

---

[११] १ सर्व्वम्. २ प्रभाते.
[१२] १ सर्वोपायसिद्धिः. २ चक्रवर्तिस्य न प्रभवामीति.

[१३]

तं णिसुणेप्पिणु सुर-सन्तावणु ।
पुण्ण-मणोरहु उट्ठिउ रावणु ॥ १
जा सन्तिहरहों देइ ति-भामरि ।
मुक्क कुमारें सा मन्दोवरि ॥ २
अङ्गङ्गय णट्ठ पइट्ठ सेण्णें सम्पत्त वत्त [१]'काकुत्थ-कण्णें ॥ ३
'परमेसर सुर-सन्तावणासु परिपुण्ण मणोरह रामणासु ॥ ४
उप्पण्ण विज्ज [1]णिव्वूढु [2]धीरु एवहिँ [3]णिचिन्तु [4]तियसहु मि [5]चीरु ॥ ५
णउ जाणहुँ होसइ एउ केव लइ सीयहेँ [6]छण्डहि तत्ति देव' ॥ ६
तं वयणु सुणेवि कुमारु कुइउ खय-कालें दिवायरु णाइँ उइउ ॥ ७
'णासहों णासहों जइ णाहि सत्ति हउँ लक्खणु एक्कु करेमि तत्ति ॥ ८
कहों तणिय विज्ज कहों तणिय [7]सत्ति कल्लएँ पेक्खेसहों तहों असन्ति ॥ ९
[8]मइँ दसरह-णन्दणें [9]किय-पइज्जें [10]वित्थहेँ [11]अत्थाहेँ अलङ्घणिज्जें ॥ १०

॥ घत्ता ॥

तोणा-[12]जुयल-जलें धणु-वेला-कल्लोल-[13]रउद्दे ।
वुड्डेवउ खलेंण महु केरएँ णाराय-[14]समुद्दे ॥ ११

[१४]

ताव णिसायर- णाहु स-विज्जउ ।
णं स-कलत्तउ सुरवइ विज्जउ ॥ १
पेक्खइ दुम्मणु [1]तोडिय-हारउ ।
[2]णियँ-अन्तेउरु णहु व अ-तारउ ॥ २
तहों मज्झें महा-सिरि-माणणेण मन्दोयरि दिट्ठ दसाणणेण ॥ ३
छुड्डु छुड्डु आमेलिय अङ्गएण णं कमलिणि मत्त-महागएण ॥ ४
णं कुतवसि-वाणि जिणागमेण णं णाइणि गरुड-विहङ्गमेण ॥ ५
णं दिणयर-सोह वराहवेण णं पवर-महाडइ हुअवहेण ॥ ६
णं ससहर-पडिम महग्गहेण मम्भीसिय विज्जा-सङ्गहेण ॥ ७

13. 1 P S A णिव्वूढ°. 2 P S °वीरु. 3 P णिच्चित्तु. 4 P S A तियसहुं. 5 S वीरु. 6 P S छंडहु सीयहे (S° हि). 7 A संति. 8 P S A मइ. 9 P S A किए. 10 A वित्थहि. 11 P corrects marginally as अव्वाहे, S अच्चाहे, A अत्थाहि. 12 P जुअलु, A °जयलु. 13 P S °रउद्दे. 14 P S °समुद्दे.

14. 1 P A तोडिउ. 2 P S A णिअ°.

[१३] १ रामचंद्रबले कर्णेन वा.

'एक्केल्लउ जेहउ केण सहिउ अण्णु वि वहुरूविणि-विज्ज-सहिउ ॥ ८
किउ जेहिँ[3] णियम्बिणि एउ कम्मु लइ वट्टइ तहाँ एत्तडउ जम्मु ॥ ९
जइ मणुस होन्ति तो[4] काइँ एत्थु ढुक्कन्ति परिट्ठिउ णियमेँ जेत्थु ॥ १०

॥ घत्ता ॥

जेण मरट्टिऍण सीसेँ तुहारऍ लाइय हत्था[5] ।
कलऍ तासु धणेँ पेक्खु काइँ दक्खवमि अवत्था[6]' ॥ ११

[१५]

एम भणेप्पिणु दणु-विद्दावणु ।
जय-जय-सद्दें स-रहसु रावणु ॥ १
चलिउ सउण्णउ उड्डिय[1]-कलयलु ।
णं रयणायरु परिवड्ढिय-जलु ॥ २

णवर पहुणो चलन्तस्स दिण्णा महाणन्द-भेरी मउन्दा दडी दद्दुरा ।
पडह टिविला य[2] ढड्ढड्डरी झल्लरी भम्भ भम्भीस कंसाल-कोलाहला ॥ ३
मुरव तिरिडिक्किया[3] काहला ढड्डिया[4] सङ्ख धुम्मुक्क ढक्का हुडुक्का वरा ।
तुणव पणवेक्कपाणि त्ति[5] एवं च [6]सिज्झेवि (?) सेसा उणा (?णो) केण ते वुज्झिया
कहि मि चलियं चलन्तेण अन्तेउरं थोर-मुत्तावली-हार-केऊर-कञ्ची-कलावेहिँ गुप्पन्तयं ।
वहल-सिरिखण्ड-कप्पूर-कत्थूरिया-कुङ्कुमुप्पील[7]-कालागरुम्मिस्स[8]-चिक्खिल्ल-पन्थेसु खुप्पन्तयं ॥ ५
धवल-धय-तोरण-च्छत्त-चिन्ध-प्पडायावली-मण्डवब्भन्तरालिन्द-णीलन्धयारे विसूरन्तयं ।
मुहल-चल-णेउरुग्घाय-झङ्कार[9]-वाहित्त[10]-मज्झाणुलग्गन्त-हंसेहिँ चुक्कन्त-हेलागई-णिग्गमं ॥ ६
फलिह-मणि-कुट्टिमे भूमि-भाए वियड्डेहिँ[11] छाया-छलेणं[12] (?) चुम्बिज्जमाणाणणं
[13]णवर पिसुणो जणो तं च मा पेच्छहीमीऍ[14] सङ्काऍ पायम्वुएहिं व छायन्तयं
गलिय-मणि-मेहला-दाम-सङ्खायमण्णोण्ण-[15]लज्जाहिमाणेण मुच्चन्तयं ।
कसण-मणि-खोणि-छायाहिँ रञ्जिज्जमाणं [16]व दट्ठूण वेवन्तयं । ८

3 P S A जेहि. 4 A ते. 5 P A हत्थ. 6 P A अवत्थ.

15. 1 P S उट्टिउ. 2 P S पट्टढड्डरी. 3 P S तिडिक्किया. 4 P S A ढड्डिया. 5 S त्त, A omits. 6 P S सिज्जेवि. 7 P S A °मप्पील°; Svayambhūchchandas °मुप्पील°. 8 P S A °रुमिस्स°; Svay. ch. °रुम्मीस°. 9 P S अंकार, A °झंकारर°. 10 P S °वाहित्तयं. 11 P S A °हि°. 12 The text here is metrically defective by one mora. 13 A णवरि. 14 P S ए संका पायग्गहि चं च्छायातयं. 15 P S °भज्जा°. 16 Wanting in P S.

कहि मि णव-पाडली-पुप्फ-गन्धेण आयड्ढिया छप्पया ।
णवर मुह-पाणि-पायग्ग-रत्तुप्पलामोय-मोहं गया ॥ ९

तहि मि चल-चा[17]मरुच्छोह-विच्छेव-छिप्पन्त-मुच्छाविया ।
सुरहि-सु[18]हं-गन्धवाएण मन्दाणुसीएण संजीविया ॥ १०

॥ घत्ता ॥

एम पइट्ठु घरु   जय-जय-सद्दें इन्द-विमद्दणु ।
वसुमइ वसिकरेंवि   [19]णाइँ स यं भु व णाहिव-णन्दणु ॥ ११

*

[७३. तिसत्तरिमो संधि]

तिहुवण-डामर-वीरु   मयरद्धय-सर-सण्णिह-णयणु ।
म[1]ज्जाणउ पइ[2]सइ दहवयणु ॥
मङ्गल-तूर-रवेण

[१]

पइसेंवि भवणु भि[3]च्चें [1]अवयज्जिय   णिय-णिय-णिलयहों तुरि[4]यं विसज्जिय ॥ १
कइवय-सेवहिँ सहि[5]उ दहमुहु   गउ मज्जण-भवणहों सवडम्मुहु[6] ॥ २
ओ[7]सारियइँ असेसाहरणइँ   [2]दुद्दिणें दिणयरेण णं किरणइँ ॥ ३
लइय पोत्ति [3]रिसहेण दया इव   [4]गुज्झावरणसील [5]माया इव ॥ ४
सण्ह-सुत्त वायरण-कहा इव   पल्लव-गहि[8]यं महा-वणराइ व ॥ ५
वर-वारङ्गणेहिँ सव्वङ्गिउ   विविहाभङ्गणेहिँ अब्भङ्गिउ ॥ ६
गउ आयाम-भूमि रहसाहिउ   तणु-संवाहणेहिँ संवाहिउ ॥ ७
ताव विमद्दिउ जाव [6]पहग्गउ   सव्वङ्गिउ पासेउ वलग्गउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

छुडु उग्गयइँ सरीरें   पासेय-फुडिङ्गइँ णिम्मलइँ ।
णं तुट्ठेण स[7]मेण   कड्ढेंवि दिण्णइँ मुत्ताहलइँ ॥ ९

17 P S A °चमरु°. 18 P A °सुह°, wanting in S. 19 P S A णाइ.

1. 1 P S मज्जण. 2 A पइ. 3 P S भिच्चु. 4 A तुरय. 5 P S सहियउ दहमुहु. 6 P S °हुं. 7 P उआरियइं, marginally corrected as उत्ता°, S उवारियइ, A उसारियइं. 8 P S °गहिर.

[१] १ अवलोकिताः. २ मेघावृते दिने. ३ T यथा रिषभेण दया गृहीता. ४ T गुह्यं हृदयस्थकार्यं जघनं च, आवरणं तस्याच्छादनशीलाम्. ५ माता. ६ प्रभातो भवितः. ७ समुद्रेण.

[२]

पुणु वारङ्गणेहिँ उव्वट्टिउ णं करि करिणि-करेहिँ[1] विहट्टिउ ॥ १
गउ चामियँर[2]-दोणि परमेसँरु[3] णं कणियारि-कुसुम-[1]थलि महुअरु ॥ २
वारिहिँ मज्झेँ पइट्ठु व कुञ्जरु दप्पण-सिरिहिँ व छया-णरवरु ॥ ३
[2]सरसिहिँ मज्झेँ व पडिमा-ससहरु पुव्व-दिसहेँ व तरुण-दिवायरु ॥ ४
गन्धामलऍहिँ चिहुर पसाहिय वइरि व भञ्जेँवि वन्धेँवि साहिय ॥ ५
पुणु गउ ण्हवण-वीढु आणन्दें णड-कइ-वन्दिण-जय-जय-सद्दें ॥ ६
फलिह-सिला-मँणियहेँ[4] (?) थिउ छज्जइ हिम-सिहरोलिऍ णं घणु गज्जइ ॥ ७
पण्डु-सिलहेँ[5] व [3]काम-करि-केसरि वहुल-पक्खु[6] पुणिवहेँ व उप्परि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

मङ्गल-कलसँ[7]-कराउ ढुक्कउ णारिउ लङ्केसरहोँ ।
णावइ सयल-दिसाउ उण्णय-मेहाउ महीहरहोँ ॥ ९

[३]

णवर पॅहुणोऽ[1]हिसेयस्स पारम्भए हेम-कुम्भेहिँ उक्खित्त-सारम्भए ॥ १
पवर-अहिसेय-तूरं समुप्फालियं वद्ध-कच्छेहिँ मल्लेँहिँ ओरालियं ॥ २
कहि मि सु-सरेहिँ गायणेँहिँ झङ्कारियं[2] मङ्गलं वन्दि-लोएण उच्चारियं ॥ ३
कहि मि वर-वंस-वीणा-पवीणा णरा गन्ति गन्धव्व विज्जाहरा किण्णरा ॥ ४
कहि मि [1]कलहोय-माणिक्क-सिप्पी-विहत्थेण
संकुन्दिओ[3](?)फन्दँ[4](?)-वन्देण आलिन्दँओ[5] ॥ ५
कहि मि सिरिखँण्ड[6]-कँप्पूर[7]-कत्थूरिया-कुङ्कुमुप्पङ्क-पङ्केण एक्केक्कमो आँहओ[8] ॥ ६
कहि मि अहिसेय-सिङ्ग[9]म्बुं[10]-धारा-णिवाय-प्पवाँहेण[11] दूराहिँ एक्केक्कमो [12]सिञ्चिओ ७
कहि मि णड-छत्त-फम्फाव-वन्देहिँ सोहग्ग-सूराणँ[13] णामावलि से[14] समुच्चारिया ८

2. 1 P S A °हि. 2 P S A चामीयर°. 3 S णरेसरु. 4 P मणइहे, S मणइहि, A मणियहि. 5 P S °सिलहि, A सिलाह काम°. 6 P °पक्ख, S °पक्खे. 7 A °कलसु वराउ.

3. 1 P S पहुणे. 2 A विक्कारियं. 3 P S संकुंदिउ, A संकुंद्धिउ, Svayambhūcchandas संकुद्विओ. 4 P फेंदविंदेण, S फेंदवेंदेण, Svay. ch. चेट्टविन्देण. 5 P S आणंदउ, A आणंदिउ. 6 P सिरखंड°, S सिरिखंड° corrected to सिरखंड°. 7 Wanting in P S. 8 P S याउ, A याहउ. 9 P S सिंगवु, A सुसुगंध°. 10 Wanting in A. 11 P S वाहेण. 12 P S A सिंचिउ. 13 P S, Svay. ch. °सूराइ. 14 P S सेस.

[२] १ कटिनी. २ सरोवरमध्ये, T सरोवरनद्यादिभिः. ३ सर्वज्ञः.
[३] १ सुवर्णम्.

॥ घत्ता ॥

एवँ जणु[२][15]ल्लावेण	पल्हत्थिय कलस णरेसरहों ।
सुर-जय-जय-सद्देण	अहिसेय-समएँ जिह जिणवरहों ॥ ९

[४]

क वि[1] अहिसिञ्चइ कञ्चण-कुम्भें	लच्छि पुरन्दरं[2] व विमलम्भें ॥ १
क वि रुप्पिम-कलसें जल-गाहें	पुण्णिवं[3] संसिमिवं[4][5] जोण्हा-वाहें ॥ २
क वि मरगय-कलसेण उर-त्थलु	णलिणि व णलिण-उँडेण[6] महीयलु ॥ ३
क वि कुङ्कुम-कलसेणायम्वें	सञ्झ व दिवसु दिवायर-विम्वें ॥ ४
आयएँ लीलएँ जयसिरि-माणणु	जय-जय-सद्दें ण्हाउ दसाणणु ॥ ५
विमल[7]-सरीरु जाउ चक्केसरु	णं उप्पण्णं[8]-णाणु[9] तित्थङ्करु ॥ ६
दिण्णइँ तणु-लुहणाइँ सु-सण्हइँ	खल-कुट्टणि-वयणा इव लण्हइँ ॥ ७
मेल्लिय पोत्ति जिणेण व दुग्गइ[10]	मोआविय केसाइँ जलुग्गइँ ॥ ८
लेप्पिणु सेयम्वरु वि[11] सहावइ (?)	वेढिउ सीसु वइरि-पुरु णावइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सोहइ धवल-वडेण	आवेढिउँ[12] दससिर-सिरु पवरु ।
णं सुर-सरि-वाहेण	कइलासहों तणउँ[13] तुङ्ग-सिहरु ॥ १०

[५]

गम्पिणु देव-भवणु जिणु वन्देंवि	वार-वार अप्पाणउं[1] णिन्देंवि ॥ १
भोयण-भूमि पइट्ठु पहाणउं[1]	कञ्चण-वीढें परिट्ठिउ राणउं[1] ॥ २
[२]जवणि भमाडिय असइ व धुत्तेंहिँ	अवुह-मइ व वायरणहों सुत्तेंहिँ ॥ ३
गङ्ग व सयर-सुएँहिँ[2] णिय-णासेंहिँ[3]	महकइ-कित्ति व सीस-सहासेंहिँ ॥ ४
दिण्णइँ रुप्पिम-कञ्चण-थालइँ	णं सुपुरिस-चित्तइँ व विसालइँ ॥ ५
वित्थारिउ परियलु पहु केरउ	जं[२]रढाइच्चु व कन्ति-जणेरउ ॥ ६
सरवरो व्व सयवत्त-विसट्टउ	पट्टण-पइसारु व वहु-वट्टउ ॥ ७
उवहि व सिप्पि-सङ्ख-सन्दोहउ	वर-जुवइ-यणु व कञ्ची[4]-सोहउ ॥ ८

15 P S °णुण्हावेण पण्हत्थिय.

4. 1 S हि. 2 P A पुरंदरव्व. S पुरंदरे व. 3 P पुण्णिम°; wanting in S. 4 S ससिबिंव. 5 P वित, S वत. 6 P S A णलिणिउड्डेण. 7 P S A विमलु. 8 P S A उप्पण्णु. 9 A णाउ. 10 P S दुग्गइ, A दुयइ. 11 P S स विहावइ. 12 P आवेड्ढिउ. 13 A तणउं.

5. 1 A उं. 2 A गंधु तसरसुएहिं. 3 P °मासेहिं. 4 A कंती°.

२ T आनन्द-राले(?वे)ण.

[५] १ जिवणार (T जे°) मंदिरे (?). २ T तारुण्यादित्ये(?इ)व दीप्तिजनकः (?).

॥ घत्ता ॥

दिज्जइ अमियाहारु वहु-खण्ड-पयारु सुहावणउ[5] ।
णावइ भरहु विसालु अण्णण्ण-महारस-दावणउ[6] ॥ ९

[६]

[१]धूमवत्ति परिपिएँवि पहाणउ[1] भुञ्जेंवि अण्ण-वासेँ थिउ राणउ[2] ॥ १
मलयरुहेण पसाहिउ अप्पउ[3] गन्धु लयन्तु[4] णाइँ थिउ छप्पउ ॥ २
पुणु तम्वोलु दिण्णु चउरङ्गउ णड-वेक्खणउ[5] णाइँ[6] [२]वहु-रङ्गउ ॥ ३
पुणु दिण्णइँ[7] अम्वरइँ अमोलइँ जिण-वयणाइँ व अब्भरुहुलइँ[8] ॥ ४
वेङ्गि[9]-विसय-मिहुणइँ व[10] सुअन्धइँ अहोरत्ताइँ व घडिया-वन्धइँ ॥ ५
मुद्धङ्गण[11]-चित्ताइँ[7] व मउअइँ दुट्ठङ्कुर[12]-दाणाइँ[13] व छउअइँ ॥ ६
दीहइँ दुज्जण-दुव्वयणाइँ व पिहुलइँ गङ्गा-णइ-पुलिणाइँ[7] व ॥ ७
विरहियइँ[7] व वहु-[३]कामावत्थइँ वन्दिण-जण-वन्दइँ[14] व [४]णियत्थइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

लइयइँ आहरणाइँ[7] विप्फुरिय-समुज्जल-मणि-गणइँ ।
कसण-सरीरेँ थियाइँ णं वहुल-पक्खेँ तारायणइँ ॥ ९

[७]

तओ [१]तिलोयभूसणो सुरिन्द-दन्ति-दूसणो ॥ १
पसाहिओ[1] गइन्दओ[2] णिवारियालि[3]-विन्दओ[1] ॥ २
पलम्व-घण्ट-जोत्तओ[1] वहन्त-दाण-सोत्तओ[4] ॥ ३
पसण्ण-कण्ण-चामरो [२]णिमीलियच्छि-उक्करो ॥ ४
मणोज्ज-गेज्ज-कण्ठओ[5] भिसी-णिहट्ठ-पट्ठओ[4] ॥ ५

---

5 A सुढावणउं. 6 P A °दांवणउं.

6. 1 P हाणउं, A पहाणउं. 2 P राणउं. 3 A अप्पउं. 4 P S लएंतु. 5 P °उं. 6 P S A णाइ. 7 P S A °इ. 8 P आसरहुल्लइं, S आभरहुल्लइ, A अब्भरुहुल्लइ. 9 P S विंगि°, A वेगि°. 10 P S A वि. 11 P मुद्धइं गण, S मुद्धइ गण, A सु°. 12 P S दुट्ठक्कर°. 13 P °दाणइं, S °दाणइ, A °दाणाइ. 14 S °विंदइ.

7. 1 P S A °उ. 2 P गइंदउं, S गयंदओ, A गइंदउ. 3 P S णिवालि°. 4 P S °उ, A °उं. 5 P S °कंठउ. A °घंटउ.

---

[६] १ कर्पूरागरुमिश्रितं पानीयं पीत्वा. २ उभयत्र श्लाघ्यानि. ३ T नानाहंसशिक्षाद्युपयुक्तानि, प्रसिद्धमन्यत्र. ४ परिधानानि द्रव्यरहितानि च.

[७] १ त्रिजगद्भूषणे गजे(?). २ T निर्मीलिताक्षिसमूहः.

विसाल-उद्ध-चिन्धओ[1]   पहु व्व पट्ट-वन्धओ ॥ ६
गिरि व्व तुङ्ग-गत्तओ[1]   महण्णउ व्व मत्तओ[1] ॥ ७
घणो व्व भूरि-णीसणो   जमो व्व सुट्ठु भीसणो ॥ ८
मणो व्व लोल-वेयओ[1]   रवि व्व उग्ग-तेयओ[1] ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सव्वाहरणु णरिन्दु   तहिँ कसण-महग्गएँ चडिउ किह ।
उण्णय-मेह-णिसण्णु   लक्खिज्जइ विज्जु-विलासु जिह ॥ १०

[८]

जय-जय-सद्दें सत्तु-खयाणणु   सीयहेँ पासु पयट्टु दसाणणु ॥ १
वहुरूविणि-रूवइँ[1] भावन्तउ   खणेँ वासरु खणेँ णिसि दावन्तउ ॥ २
खणेँ चन्दिमँ[2] खणेँ मेहन्धारउ   खणेँ वाओलि-धूलि-जलधारउ ॥ ३
खणेँ णिहाय-तडि-वडण-वमालिउँ[3]   खणेँ गय-वग्घ-सिङ्घ-ओरालिउ ॥ ४
खणेँ पाउसु हेमन्तु उण्हालउँ[4]   खणेँ गयण-यलु सयलुँ[5] सम-जालउ ॥ ५
खणेँ महि-कम्पु[6] महीहर-हल्लिउ   खणेँ रयणायर-सलिलुच्छल्लिउ ॥ ६
तं तेहउ णिएवि ससि-मुहियएँ   तियड पपुच्छिय जणयहोँ दुहियएँ[7] ॥ ७
'एउ महन्तु काइँ अच्चरियँउ[8]   किं केण वि जगु उवसङ्घरियउ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पभणइ तियडाएवि   'वहुरूविणि-रूवाविद्ध-तणु ।
आवइ लग्गउ एहुँ[9]   तउ वयणु णिहालउ दहवयणु' ॥ ९

[९]

तं णिसुणेवि महासइ कम्पिय   वाहु भरन्ति चक्खु[1] दँर[1] जम्पिय ॥ १
'माएँ ण जाणहुँ काइँ करेसइ   सीलु महारउ किं मइलेसइ'[2] ॥ २
ताव सुरिन्द-विन्द-कन्दावँणु[3]   कण्ठाहरँण[4]-विविह-'कं[2]-दावणु ॥ ३
सीयहेँ पासु पढुक्किउ सरहसु   णावइ वँम्महसरहेँ[3] पुणव्वसु ॥ ४
णावइ दीह-समासु विहत्तिहिँ   णावइ छन्दु देव-गाइत्तिहिँ[5] ॥ ५
वोल्लाविय 'वोल्लहि परमेसरि   होमि ण होमि दसाणण-केसरि ॥ ६

8. 1 P S A °इ. 2 P S चंदिणे. 3 A °उं. 4 P °उं. 5 P S सयल. 6 P S °कंदु. 7 P S A °भए. 8 P अच्छदिउं, S अच्छरियउ. 9 A पहु.
9. 1 A चक्खुं. 2 A मइं लेसइं. 3 P S °कंपावणु. 4 A °णु. 5 P °गायंतिहिं, A जेव गायंतिहे.

[९] १ ईषत्. २ दश-मस्तक-दर्शकः. ३ अनंगसरायाः चक्रवर्त्तिः पुनर्वसुः.

सुअउ ण सुअउ महारउ ढड्डसु दिट्ठु ण दिट्ठु विउव्वण-साहसु ॥ ७
एवहिँ[6] किं करन्ति ते हरि-वल णल-सुग्गीव-णील-भामण्डल ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अण्ण[7] वि[8] जे जे दुट्ठ ते ते महु सव्व समावडिय ।
एवहिँ[6] कहिँ[9] णासन्ति सारङ्ग व सीहहोँ कमेँ[10] पडिय ॥ ९

[१०]

सीमन्तिणि मयरहरुत्तिण्णहोँ लुहमि[1] लीहँ[2] कइद्धय-सेण्णहोँ ॥ १
रामु तुहारउ जम-पहेँ[3] लायमि इन्दइ कुम्भकण्णु मेलावमि ॥ २
जो विसल्लु किउ कह वि विसल्लएँ सो वि भिडन्तु ण चुक्कइ कल्लएँ ॥ ३
जीवियाँस[4] तहुँ केरी छण्डहि चडु विमाणेँ अप्पाणउँ[5] मण्डहि ॥ ४
स-रयण स-णिहि पिहिमि परिपालहि जाहुँ मेरु जिणहरइँ[6] णिहालहि ॥ ५
पेक्खु समुद्द दीव सरि सरवर णन्दण-वणइँ मह-दुम महिहर ॥ ६
अह एत्तडउ कालु जं चुक्की तं महु वय-चारहडि गुरुक्की ॥ ७
जइ वि तिलोत्तिम रम्भाएवी जा ण समिच्छइ सा ण लएवी ॥ ८
वार-वार तें तइँ अब्भत्थमि दय करि अन्तेउरु अवहत्थमि ॥ ९
तुहुँ जें एक्क महएविय वुच्चहि चामर-गाहिणीहिँ मा मुच्चहि ॥ १०

॥ घत्ता ॥

सुरवर सेव करन्तु घण छडउ दिन्तु पुरेँ पइसरहि ।
लक्खण-रामहुँ तत्ति दुव्वुद्धि व दूरें परिहरहि' ॥ ११

[११]

जाणेँवि[1] दुट्ठ-कम्मु पारम्भिउ बहुरूविणि-बहु-रूव-वियम्भिउ ॥ १
चिन्तिउ दसरह-णन्दण-पत्तिएँ 'लक्खण-राम जिणइ विणु भन्तिएँ ॥ २
जासु इम इ एवड्डुइँ[2] चिन्धइँ बहुरूविणि-बहु-रूवइँ सिद्धइँ ॥ ३
अण्ण इँ[3] सुरवर सेव करावियँ[4] वन्दि-विन्द कलुणइँ कन्दाविय ॥ ४
सो किं मइँ ण लेइ पिउ ण हणइ' आसङ्केवि देवि पुणु पभणइ ॥ ५
'दहमुह भुवण-विणिग्गय-णामें खणु मि ण जियमि मरन्तें रामें ॥ ६
जेत्थु पईवु तेत्थु सिहँ[5] णज्जइ जेत्थु अणङ्गु तेत्थु रइ जुज्जइ ॥ ७
जेत्थु सणेहु तेत्थु पणयञ्जलि जेत्थु पयङ्गु तेत्थु किरणावलि ॥ ८

6 P S A °हि. 7 P S अण्णे. 8 A त्ति. 9 P S A कमि.

10. 1 P S लइ लीह लुहहि. 2 A लीह स. 3 P S A °पहि. 4 P S A °आ°. 5 A °उं. 6 P S A °इ.

11. 1 P S A जाणिवि. 2 P S A °इ. 3 P A इं. 4 P S A कराइय. 5 P S A सिहि.

॥ घत्ता ॥

जहिँ ससहरु तहिँ[6] जोण्ह   जहिँ[6] परम-धम्मु तहिँ[6] जीव-दय ।
जहिँ[6] राहवु तहिँ[6] सीय'   सा एम भणेप्पिणु मुच्छ गय ॥ ९

[१२]

मुच्छ णिएप्पिणु रहुवइ घरिणिहेँ   करि ओसरिउ व पासहों करिणिहेँ ॥ १
'धिद्धिगत्थु परयारु असारउ   दुग्गइ-गमणु सुगइ-विणिवारउ ॥ २
मइँ पावेण काइँ किउ एहउ   जें विच्छोइउ सिहुणु[1] स-णेहउँ[2] ॥ ३
को वि ण मइँ सरिसउ विरुवारउ[3]   दूहउ दुम्मुहु दुक्किय-गारउ ॥ ४
दुज्जणु दुट्ठु दुरासु दुलक्खणु   कु-पुरिसु मन्द-भग्गु अ-वियक्खणु[4] ॥ ५
दुण्णयवन्तु विणय-परिवज्जिउ   दुच्चारित्तु कु-सीलु अ-लज्जिउ ॥ ६
णिद्दउ पर-कलत्त[5]-सन्तावउ   वरि जलयरु थलयरु वण-सावउ ॥ ७
वरि पसु वरि विहङ्गु किमि[6] कीडउ   णउ अम्हारिसु जग-परिपीडउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वरि तिणु वरि पाहाणु[7]   वरि लोह-पिण्डु वरि सुक्क-तरु ।
णउ णिग्गुणु वय-हीणु   माणुसु उप्पण्णु महीहेँ[8] भरु ॥ ९

[१३]

अहों अहों [१]दारा परिभव-गारा[1]   कयलि व सव्वङ्गिउ णीसारा ॥ १
[२]चोलणि व्व केवल-मल-गाहिणि   सरि व कुडिल हेट्ठामुह-वाहिणि ॥ २
पाउस-कुहिणि व दूसञ्चारिणि   [३]कुमुइणि व्व गहवइ-उवगारिणि ॥ ३
कमलिणि व्व [४]पङ्केण ण मुच्चइ   मणु दारेइ दार तें वुच्चइ ॥ ४
[५]वणिय वणेइ सरीरु समत्तउ[2]   गणिय [६]गणेइ असेसु विढत्तउ[3] ॥ ५
दइयहों [७]दइउ लेइ तें दइया   [८]परु तिविहेण तेण तियमइया ॥ ६
[९]धणिय[4] धणेइ अप्पु अवयारें   जायँ[5] जाइँ[6] [१०]णीजन्ती जारें ॥ ७

6 P S A °हि.

12. 1 P मिहुण, S मयण. 2 A °उं. 3 P °आरउ, S °यारउ. 4 P A अविअ°, S अविल°. 5 P S A °कलत्तु. 6 P S किम. 7 P S A पाहणु. 8 P S A °हि.

13. 1 P S °कारा. 2 P S समंतउ. 3 S विहत्तउ. 4 A अधणाइ अप्पवियारे. 5 A जाइ. 6 P जाय, S जाइय.

[१३] १ परस्त्री. २ T चालणीव. ३ T कुमुदिनीव चंद्रः। गृहपतिः स्वगृहपतिर्वस्त्रवाहनादिकमन्यस्यापि प्राघूर्णकादेरुपभोग्यं भवति। नैव स्त्री। ४ T कर्दमेण. ५ T वनितया(?) घायइ(?). ६ गणयति. ७ शुभाशुभं कर्म. ८ वैरिणी. ९ प्रीणयति पीडयति वा. १० T जारेण नीयते.

कु वसुन्धरि तहिँ[7] मारि[11] कुमारी णं[12][8] णरु[9] तासु अरित्तें[10] णारी ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वट्टइ[11] सुरवइ जेम वन्धेप्पिणु लक्खणु रामु रणें ।
देमि विहाणएँ सीय सच्चउ परिसुज्झमि जेम[12] जणें' ॥ ९

[१४]

एम भणेप्पिणु गउ णिय-गेहहों अन्तेउरहों पवड्ढिय-णेहहों ॥ १
रायहंसु णं हंसी-जूहहों णं गयवरु गणियारि-समूहहों[2] ॥ २
णं [1]मयलञ्छणु तारा-वन्दहों णं धुँव[3]गाउ णलिणि-मयरन्दहों ॥ ३
पणइणीउ पणएं पणवन्तउ[1] माणिणीउ सइँ सम्माणन्तउ[2] ॥ ४
रसणा-दामएहिँ वज्झन्तउ लीला-कमलेंहिँ ताडिज्जन्तउ ॥ ५
एव परिट्ठिउ णिसि-सम्भोगें सिङ्गारेण विविह-विणिउग्गें[3] ॥ ६
सीय वि णिय-जीवियहों अणिट्ठिय णं दससिरहों [4]सिरत्ति समुट्ठिय ॥ ७
ताव णिहाय पडिय महि कम्पिय 'णट्ठ लङ्क' णहें देव पजम्पिय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

'दहमुह मूढउ काइँ पर-णारि रमन्तहों[4] कवणु सुहु ।
णच्छहि[5] सुरवइ जेव णिय-रज्जु स इं भु ञ्जन्तु तुहुँ' ॥ ९

*

[७४. चउसत्तरिमो संधि]

दिवसयरें विउट्ठें[1] विउट्ठाइँ रण-रसियइँ[2] अमरिस-कुद्धाइँ ।
स-रहसइँ पवड्ढिय-कलयलइँ भिडियइँ राहव-रामण-वलइँ ॥

7 P S तहि, A वहे. 8 P णं. 9 P णिर corrected as णिरइ, S रइ. 10 S अरित्तिं, A अरत्तें. 11 A कलुइ. 12 S जेण.

14. 1 P S °वंतिउ. 2 S A °णंतिउ. 3 S उग्गें, A णिउग्गें. 4 P S A °हु. 5 P णेच्छहि, S A णं अच्छइ.

1. 1 A विउट्टे विउट्टाइं. 2 P °रहसियइं, S °रहसियइ.

११ कुत्सिता मारिः. १२ (P reading) तस्य नार्या स्मरणेन रतिर्भवति। अथ तस्य चाउरके रतिविषये वा न तृप्तिर्भवति.

[१४] १ चन्द्रः. २ समूहस्य. ३ भ्रमरः. ४ शिरोर्त्तिः.

[१]

जाव रावणु जाइ णिय-गेहु ।
अन्तेउरु[3] पइसरइ करइ रयणि सइँ भोग्गें आयरु ।
ता ताडिय चउ-पहँरि[4] उअय[5]-सिहरेँ उट्ठिउँ[6] दिवायरु ॥
(मॅत्ता[7]-छन्दु)

केसरि व्व णह-भासुर-कर-पसरन्तउ ।
पहरेँ पहरेँ णिसि-गय-घड ओसारन्तउँ[8] ॥ १

तहिँ अंवसरेँ पक्खालिय-णयणु अत्थाणेँ परिट्ठिउँ[9] दहवयणु ॥ २
सामरिस-णिसायर-परियरिउ णं जमु जमकरणालङ्करिउ ॥ ३
णं केसरि णहरारुण-गहिउ णं गहवइ तारायण-सहिउ ॥ ४
णं दिणयरु पसरिय-कर-णियरु णं विप्फालिय-जलु मयरहरु ॥ ५
णं सुरवइ सुर-परिवेढ्डियउँ[10] तोडन्तु करग्गें दाढियउ ॥ ६
रोसुग्गउ उम्मूलियउ हत्थु णिड्डुरिय[11]-णयणु सीहासणत्थु ॥ ७
'सुय-भायर-परिभउ सम्भरेवि भउ जीविउ रज्जु वि परिहरेवि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

असहन्तु सुरासुर-डमर-करु जम-धणय-पुरन्दर-वरुण-धरु ।
सज्जण-दुज्जणहँ जणन्तु भउ फुरियाँहरु[12] आउह-साल गउ ॥ ९

[२]

ताव हूअइँ[1] दुण्णिमित्ताइँ ।
उड्डाविउ उत्तरिउ आयवत्तु मोडिउ दु-वाऍण ।
हाहा-रउ उट्ठियउ छिण्ण कुंहिणि[1] घण-कॅसण[2]-णाऍण ॥
णिऍवि ताइँ दु-णिमित्तइँ[2] [3]णय-सिर-पन्तिहिं ।
'जाहि माय' मन्दोयरि वुच्चइ मन्तिहिं ॥ १

'मा णासउ सुन्दरु पुरिसँ[3]-रयणु जइ कह वि तुहारउ करइ वयणु ॥ २
तो परिअच्छावहि वुद्धि देवि' आलवेँहिँ तेहिँ पयट्ट देवि ॥ ३

3 P °रि, S °रे. 4 P S A °प्पहरि. 5 P उअय° corrected as उयअ°, S उवय°, P उयअ°.
6 P S A उट्ठिय. 7 Wanting in P S. 8 P S भज्जंतउ, A ओसारंभउ. 9 P पइट्ठउ.
10 A °उं. 11 A णिद्दरिय°. 12 P S फुरिआहर, A फुरिआणणु.
2. 1 S हूवइ, A हूयइं. 2 P S °त्ताइं, A °त्तइ. 3 P S पुरुस°.

[१] १ T सुत-भ्रातृ.
[२] १ मार्गः. २ कृष्ण-सर्पेण. ३ नु(?न)तमस्तकपंक्तिभिः.

[4]विहडप्फड पासु दसाणणासु हरि-भऍण करेणु व वारणासु ॥ ४
णं सइ-महएवि पुरन्दरासु णं रइ सरसुत्थ-धणुद्धरासु ॥ ५
पणवेप्पिणु कप्पिणु पणय-कोउ[5] दरिसन्ति अंसु-जलु थोवु[6] थोवु ॥ ६
पभणइ 'परमेसर काइँ मूढु मोहन्ध-कूवेँ किं देव छूढु ॥ ७

॥ घत्ता ॥

कु-सरीरहोँ कारणेँ जाणइहेँ मा णिवडहि णरय-महाणइहेँ ।
लँइ वूँहि किमिच्छहि पुहइवइ किं होमि सुरङ्गण लच्छि रइ' ॥ ८

[३]

तं सुणेप्पिणु भणइ दहवयणु ।
'किं रम्भ-तिलोत्तिमहिँ उव्वसीएँ अच्छरएँ लच्छिएँ ।
किं सीयएँ किं रइएँ पइँ वि काइँ[1] कुवलय-दलच्छिएँ ॥
जाहि कन्तेँ हउँ[2] लग्गउ वन्धु-पराहवे ।
थरहरन्ति सर-धोरणि लायमि राहवे ॥ १

लक्खणेँ पुणु मि सत्ति[3] संचारमि अङ्गङ्गय जमउरि पइसारमि ॥ २
पाडमि वाणर-वंस-पईवहोँ मत्थएँ वज्ज-दण्डु सुग्गीवहोँ ॥ ३
चन्दहासु चन्दोयर-णन्दणेँ [1]वायवु वाउएव-सुय-सन्दणेँ ॥ ४
[2]वारुणु भामण्डलेँ भय-भीसणेँ धगधगन्तु [3]अग्गेउ विहीसणेँ ॥ ५
णागवासु माहिन्द-महिन्दहुँ [4]वेँइसवणत्थु कुमुअ-कुन्देन्दहुँ ॥ ६
मोडमि गवय-गवक्खहुँ चिन्धइँ णच्चावमि णल-णील-कवन्धइँ ॥ ७
तार-सुसेण देमि वलि भूयहुँ अवर वि णेमि पासु जम-दूयहुँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जसु [5]इन्दादेव वि आणकर दासि[4] व्व कियञ्जलि स-धर धर ।
सो जइ आरूसमि दहवयणु तो हरि-वल सण्ढ[5] कवणु गहणु' ॥ ९

4 P S °सुत्थु. 5 P S °कोड्डु. 6 P S थोउ थोउ.

3. 1 P S A काइ. 2 P S A हउ. 3 P वित्ति. 4 P S दासी व, A दास व्व. 5 P संढहुं, S संढहु.

४ उत्सुका. ५ पूर्यताम्. ६ ब्रूहि.

[३] १ वायव्यबाणम्. २ वारुणबाणम्. ३ अग्निबाणम्. ४ वैश्रवणास्त्रं बाणम्. ५ T इंद्रादेवा अपि । देवानां द्वंद्वे इत्याकारपूर्वः.

[४]

तेण वयणें कुइय महएवि ।

“[1]हेवाइउं सुरवरहिँ तेण तुज्झु एवड्डु विक्कमु ।
खर-दूसण-तिसिर-वहें किण्णं[2] णाउ लक्खण-परक्कमु ॥
जेण मण्ड पायाललङ्क उद्दालिय ।
दिण्ण तार सुग्गीवहोँ सिल संचालिय ॥ १
अण्ण वि वहु-दुक्ख-जणेराइँ चरियइँ हणुवन्तहोँ केराइँ ॥ २
पइँ रावण काइँ ण दिट्ठाइँ हियवएँ सल्लइँ[2] व पइट्ठाइँ ॥ ३
अज्ज वि अच्छन्ति महन्ताइँ दुज्जण-वयणँ[3] व्व दुहन्ताइँ ॥ ४
अण्ण इँ[4] णल-णील केण सहिय रणेँ हत्थ-पहत्थ जेहिँ[5] वहिय ॥ ५
रहुवइहेँ णिहालिउ केण मुहु छ-व्वार वि-रहु जें कियउ तुहुँ ॥ ६
अङ्गङ्गएहिँ किर को गहणु किउ तेहि मि महु केस-ग्गहणु ॥ ७

॥ घत्ता ॥

मायासुग्गीव-विमद्दणहोँ एत्तिय मेत्ति वि रहु-णन्दणहोँ ।
णव-मालइ-माला-मउअ-भुअ अज्ज वि अप्पिज्जउ जणय-सुय’ ॥ ८

[५]

णियय-पक्खहोँ दिण्णें[1] [१]अहिखेवें ।

पर-पक्खें[2] पसंसियएँ दस-[3]सिरेहिँ दससिरु पलित्तउ ।
जाला-सय-पज्जलिउ हुअवहो व्व वाएण छित्तउ[4] ॥
रत्त-णेत्तु (वि)फुरियाहरु[5] मलिय-करुप्पलु ।
चलिय-गण्डु भू-भङ्गुरु ताडिय-महियलु ॥ १
‘जइ अण्णें केण वि वुत्तु एव तो सिरु पाडमि ताल-हलु जेम ॥ २
तुहुँ घेइँ पणइणि पणएण चुक्कें[6] ओसरु पासहोँ मा पुरउ ढुक्कें ॥ ३
किण्ण करमि सन्धि तहिँ जें कालें खर-दूसण-रणेँ हय-कोट्टवालें ॥ ४
उज्जाण-भङ्गें मन्दिर-विणासें रामागमें [३]एँक्कोयर-पवासें ॥ ५
पढमँब्भिडें[7] हत्थ-पहत्थ-मरणें इन्दइ-घणवाहणँ[8]-वन्दि-धरणें ॥ ६
एवहिँ पुणु दूसन्थवउ कज्जु एँक्कन्तरु ताह मि महु मि अज्जु ॥ ७

4. 1 P S हेवाहिउ. 2 P S A °इ. 3 P °णा व, S °णा इ. 4 A इं. 5 P S A जेहि.
5. 1 P S A दिण्ण अहिखेवि. 2 P S A °पक्ख. 3 Wanting in A. 4 P S सित्तउ. 5 P विप्फुरिअहरु, S विप्फुरियाहरु, A विफुरिआहरु. 6 S A °कु. 7 P S A °डि. 8 P S A °णे.

[४] १ गर्वं नीतः. २ न ज्ञातम्.
[५] १ T निन्दा. २ शीघ्रं संप्राप्तं वा. ३ विभीषणे गते. ४ संग्रामे. ५ संग्रामम्.

॥ घत्ता ॥

एवहिँ तुह वयणेँहिँ विभव-जुअ विहिँ गइहिँ समप्पमि जणय-सुअ ।
जिम लक्खणेँ[9]-रामहिँ भग्गऍहिँ जिम[10] महु[11] पाणेँहि सि विणिग्गऍहिँ' ॥ ८

[६]

एम भणेवि पहय रण-भेरि ।
तूरइँ अप्फालियइँ दिण्णे[1] सङ्ख उब्भिय महद्धय ।
सज्जिय रह जुत्तं[2] हय सारि[१]-सज्ज किय दन्ति दुज्जय ॥
मिलिउ सेण्णु किउ कलयलु रण-परिओसेँण ।
णिरवसेसु जगु वहिरिउ तूर-णिघोसेँण ॥ १

वहुरूविणि-किय-मायाविग्गहु सज्जिउ तुरिउ गइन्द-महारहु ॥ २
तुङ्ग-रहङ्गु[3] णहेँ जेँ ण माइउ[4] वीयउ मन्दरु णं उप्पाइउ[5] ॥ ३
तहिँ गयवर-सहासु जोत्तेप्पिणु दस सहास पय-रक्ख करेप्पिणु ॥ ४
जय-जय-सद्दें चडिउ दसाणणु णं गिरि-सिहरोवरि पञ्चाणणु ॥ ५
दहहिँ[6] मुहेहिँ भयङ्करु दहमुहु[7] भुवण[२]-कोसु णं जलिउ दिसा-मुहुँ[8] ॥ ६
विविह-वाहु विविहुक्खय-पहरणु णाइँ[9] विउव्वणेँ थिउ सुर[३]-वारणु ॥ ७
दस-विह लोय-पाल मणेँ झाऍवि दइवें मुक्क णाइँ[9] उप्पाऍवि ॥ ८
भुवण-भयङ्करु कहोँ वि ण भावइ दण्डु जमेण विसज्जिउ णावइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

धय-दण्डु समुब्भिउँ सेय-वडु [४]णिज्जीवउ लङ्काहिव-सुहडु ।
पुरेँ[10](?) सायरेँ रहँ[11]-वोहित्थ-कउ परवलेँ[12]-परतीरहोँ[13] णाइँ गउ ॥ १०

[७]

रहु णिरन्तरु भरिउ पहरणहुँ ।
सम्मइ सारत्थि किउ वहुरूविणि-विज्जा[1]-विणिम्मिउ ।
कण्टइएं[2] रावणेँण उरेँ ण मन्तु[3] सण्णाहु परिहिउ ॥

9 P S A लक्खणु. 10 P A जिंस. 11 A महुं.

6. 1 S दिण्णइ. 2 P S जोत्त. 3 P S A रहुंगु. 4 P °उं. 5 A °उं. 6 A दहह मि. 7 P A °हुं. 8 P °हुं. 9 P S A णाइ. 10 P पुरि. 11 P S A रहु. 12 P S परवलु. 13 P °तिरहे, S तीरहु, A तीहे.

7. 1 P S A विज्जा. 2 P कंटइय, S कंटइयइ, S कंटयइं. 3 S माइ.

[६] १ अंवारी. २ भुवनभंडागारा. ३ ऐरावणः. ४ श्वेतपटाः. ५ मरजीवा । 'णिजावउ' पाठे निर्यामक.

वाहु-दण्ड विहुणेप्पिणु रणें दुललियएँण[4] ।
पहरणाइँ परिगीढइँ रहसुच्छलियएँण[5] ॥ १

पहिलएँ करें धणुहरु सरु वीयएँ　　गयहुँ [1]कयन्त गयासणि तइयएँ ॥ २
[2]सब्बु चउत्थएँ पञ्चमें अंडुउ　　छट्ठें[6] असि सत्तमें वसुणन्दउ ॥ ३
अट्ठमें चित्त[7]-दण्डु णवमएँ हलु　　झसु दसमेयारसमएँ सव्वलु ॥ ४
भीसणु भिण्डिमालु वारहमएँ　　चक्कु असङ्कु[8] थक्कु तेरहमएँ ॥ ५
पत्तु महन्तु कोन्तु[9] चउदहमएँ　　सत्ति भयङ्कर पण्णारहमएँ ॥ ६
सोलहमएँ तिसूलु अइ भीसणु　　सत्तारहमएँ कणउ दुद्दरिसणु ॥ ७
अट्ठारहमएँ मोग्गरु दारुणु　　एगुणवीसमें [3]घणु घुसिणारुणु ॥ ८
वीसमए मुसण्ढि उग्गामिउ　　कालें काल-दण्डु णं भामिउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

वीसहि मि[10] भुअ(दण्डे)हिँ वीसाउहेँहिँ दँसहिँ[11][12] मि भिउडि-भयङ्कर-मुहेँहिँ ।
भीसावणु रावणु जाउ किह　　सहुँ गहेँहिँ कयन्तु[13] विरुद्धु जिह ॥ १०

[८]

दसहिँ कण्ठेँहिँ दस जेँ कण्ठाइँ ।
दस-भालहिँ तिलय दस　　दस-सिरेहिँ दस मउड पजलियँ[1] ।
दहहि मि कुण्डल-जुएँहिँ　　कण्ण-जुअलँ[2] सुकउल(?)-मुहलिय ॥
फुरिउ रयण-सङ्घाउ दसाणणँ[3]-रोसु व ।
अह थिओ[4] स-तारायणु वहल-पओसु व ॥ १

पढम-वयणु खय-सूर-सम-प्पहु　　सिन्दूरारुणु सुरह मि दूसहु ॥ २
वीयउँ[5] वयणु धवलु धवलच्छउँ[6]　　पुण्णिम-यन्द-विम्व-सारिच्छउँ[5] ॥ ३
तइयउँ[5] वयणु भुवण[7]-भयगारउँ[8]　　अङ्गारारुणु मुकङ्गारउँ[5] ॥ ४
वयणु चउत्थउँ[5] वुह-मुह-भासुरु　　पञ्चमएण सइँ जेँ णं सुर-गुरु ॥ ५
छट्ठउँ सुक्कु[9] सुक्क-सङ्कासउँ[5]　　दाणव-वक्खिउँ[5] सुर-सन्तासउँ[5] ॥ ६
सत्तमु कसणु सणिच्छरँ[10]-भीसणु　　दन्तुरु वियडँ[11]-दाढु दुद्दरिसणु ॥ ७

4 P S °लिएण. 5 S °लिएण. 6 P S A छट्टिं. 7 A सत्ति°. 8 P S असक्कु. 9 P S कुंतु. 10 Wanting in A. 11 This pāda is wanting in A. 12 P S दसिहि. 13 A विरुद्धु कयंतु.

8. 1 P S पज्जलिय. 2 P °जुवल corrected as जुअल, S जुयल. 3 P दसासण°, A दसासणु. 4 P त्थिउ, S थिय, A थियो. 5 A °उं. 6 A वचलच्छउं. 7 P भुअण°, S वयण°. 8 A भुयंगारउ. 9 P S सुक्क. 10 P S A °रु. 11 P S °डु.

[७] १ T 'गयंत' अवसाने प्राप्ता । 'कयंत' इति पाठे कृतः अन्तः इत्यर्थः । २ T प्रहरणविशेषौ. ३ मुद्गर आयुधः.

अट्ठमु राहु-वयणु विकरालउ   णवमउ धूमकेउ धूमालउ ॥ ८
दसमउँ[5] वयणु दसाणण-केरउ   सव्व-जणहोँ भय-दुक्ख-जणेरउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

वहु-रूवउ वहु-सिरु[12] वहु-वयणु   वहुविह-कवोलु वहुविह-णयणु ।
वहु-कण्ठउ वहु-करु वि वहु[13]-पउ   णं णट्ट-पुरिसु रस-भाव-गउ ॥ १०

[९]

तो णिएप्पिणु णिसियरिन्दस्स ।
सीसइँ[1] णयणइँ मुहइँ   पहरणाइँ रयणियर[2]-भीसणु ।
आहरणइँ वच्छ-यलु   राहवेण पुच्छिउ विहीसणु ॥
'किं तिकूड-सेलोवरि दीसइ णव-घणु' ।
'देव देव णं णं एँहु रहेँ थिउ रावणु' ॥ १
'किं गिरि-सिहरइँ णहेँ[3] दीसिराइँ'[4]   'णं णं आयइँ दससिर-सिराइँ' ॥ २
'किं पलय-दिवायर-मण्डलाइँ'   'णं णं आयइँ मणि-कुण्डलाइँ' ॥ ३
'किं कुवलयाइँ माणस-सरहोँ   'णं णं णयणइँ[5] लङ्केसरहोँ ॥ ४
'किं गिरि-कन्दरइँ भयाणणाइँ'   'णं णं दहवयणेँ दसाणणाइँ' ॥ ५
'किं सुर-चावइँ चावुत्तमाइँ'[6]   'णं णं कण्ठाहरणइँ इमाइँ' ॥ ६
'किं तारा-यणइँ तणुज्जलाइँ   'णं णं धवलइँ मुत्ताहलाइँ' ॥ ७
'किं कसणु विहीसण गयण-यलु'   [7]'णं णं लङ्काहिव-वच्छयलु' ॥ ८
'किं [१]दिस-वेयण्ड-सोण्ड-पयरो'   'णं णं दहकन्धर-कर-णियरो' ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तं वयणु सुणेप्पिणु लक्खणेँण   लोयणइँ [२]विरिल्लेँवि तक्खणेँण ।
अवलोइउ रावणु मच्छरेँण   णं रासि-गएण सणिच्छरेँण ॥ १०

[१०]

करेँ करेप्पिणु सायरावत्तु ।
थिउ लक्खणु गरुड-रहेँ   गारुडत्थु गारुड-महद्धउ ।
वलु वज्जावत्त-धरु   सीहँ[1]-चिन्धु वर-सीह-सन्दणु ॥

---

12 P S A °सिर. 13 A विहु°.

9. 1 A सीसाइं. 2 P S रयणीयर°, A कारणिपर°. 3 P S A °णहि. 4 S A दीसराइं (S °इ). 5 P S A °इ. 6 P चावुत्ति°, S चाउत्ति°. 7 This pāda is wanting in A.

10. 1 A दीह°.

---

[९] १ दिग्गज. २ विस्तार्य्यपि(?).

गय-विहत्थु गय-रहवरु पमय-महद्धउ ।
विप्फुरन्तु किक्किन्धाहिउ सण्णद्धउ ॥ १

अक्खोहणि-पञ्च-सऍहिँ समाणु सुग्गीवु णिऍवि सण्णज्झमाणु ॥ २
भामण्डलु अक्खोहणि-सहासु स[2]ण्णहेँवि ढुक्कु लक्खणहोँ पासु ॥ ३
अङ्गङ्गय अक्खोहणि-सएण णल-णील ताहँ अद्धद्धएण ॥ ४
पडिवक्ख-लक्ख-संखोहणीहिँ मारुइ चालीस[3]क्खोहणीहिँ ॥ ५
तीस[4]क्खोहणि-वलु अहिय-माणि रहेँ चडिउ विहीसणु सूल-पाणि ॥ ६
तीसहिँ दहिमुहु[5] तीसहिँ महिन्दु वीसहिँ सुसेणु वीसहिँ[6] जेँ कुन्दु ॥ ७
सोलहहिँ कुमुउ चउदहहिँ सङ्खु वारहहिँ गवउ अट्ठहिँ गवक्खु ॥ ८
चन्दोयर-सुउ सत्तहिँ सहाउ सुउ वालिहेँ तेहत्तरिहिँ आउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सण्णहेँवि पासु ढुक्कइँ वलहोँ अक्खोहणि-त्रीस-सयइँ वलहोँ ।
विरएवि वूहु संचल्लियइँ णं उवहि-मुहइँ उत्थल्लियइँ ॥ १०

[११]

घुट्ठु कलयलु दिण्ण रण-भेरि ।
चिन्धाइँ[1] समुब्भियइँ लइय कवयँ[2] किय हेइ-सङ्गहँ[3] ।
गय-घडउ पचोइयउ मुक्क तुरय वाहिय महारह ॥
राम-सेण्णु रण-रहसिउँ[4] कहि मि ण माइउ ।
जगु गिलेवि णं पर-वलु गिलहुँ[5] पधाइँउ[6] ॥ १

अब्भिट्टु जुज्झु रोसिय-मणाहुँ रयणीयर-वाणर-लञ्छणाहुँ ॥ २
ओरसिय-सङ्ख-सयँ[7]-संघडाहुँ रणवहु-फेडाविय-मुहवडाहुँ ॥ ३
उद्धङ्कुस-धाइय-गय-घडाहुँ खर-पवणन्दोलिय-धयवडाहुँ ॥ ४
कम्पाविय-सयल-वसुन्धराहुँ रोसाविय-आसीविसहराहुँ ॥ ५
मेल्लाविय-णयँ[8]ण-हुवासणाहुँ संजलिय-दिसामुहँ[9]-इन्धणाहुँ ॥ ६
जयलच्छि-वहुअ-गेण्हण-मणाहुँ जूराविय-सुरकामिणि-जणाहुँ ॥ ७
उग्गामिय-भामिय-असिवराहुँ णिव्वट्टिय-लोट्टिय-हयवराहुँ ॥ ८

2 P S सण्णज्झेवि, A सण्णहिवि. 3 S A अक्खोहिणि°. 4 P S °सखोह°, A °साखोह°. 5 P A °हुं. 6 P S A °हि.

11. 1 P S A °इ. 2 A कवल. 3 P S °हे. 4 P S °सियउ. 5 P S गिलइ. 6 P °इयउ 7 A °गय°. 8 A मयण°. 9 P °हुं, S A हु.

णिद्दलिय-कुं[10]म्भि-कुम्भत्थलाहुँ उच्छलिय-धवल-मुत्ताहलाहुँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

भड-थड-गय-घ[11]डहिँ भिडन्तएँहिँ रह-तुरयहिँ तुरिउ भिडन्तएँहिँ ।
[1]रय-णियरु समुट्ठिउ झत्ति किह णिय-कुलु मइलन्तु दु-पुत्तु जिह ॥ १०

[१२]

हरि-खुराहउ रउ समुच्छलिउ ।
गय-पय-भर-भारियएँ धरएँ णाइँ णीसासु मेल्लिउ ।
अहव वि मुच्छावियहेँ अन्धयारु जीउ व्व मेल्लिउ ॥
अह णरिन्द-कोवाणलेण डज्झन्तिहेँ ।
वहल-धूम-विच्छड्डुएँ धूमा[1]यन्तिहेँ ॥ १
अहवइ दीहर-धरणिन्द-णालेँ जग-कमलेँ दिसामुह-दल-विसालेँ ॥ २
रण-मेइणि-कण्णिय-सोहमाणेँ हरि-भमर-[2]खुर-विहडि[3]ज्जमाणेँ ॥ ३
उच्छलिउ मन्दु मयरन्दु णाइँ रय-णिहेँण व णहहोँ धरित्ति जाइ ॥ ४
उड्डु[4]इ [5]व समर-पड-वा[6]स[7]चुण्णु णासइ व सो ज्जेँ रहु तुरय-छ[8]ण्णु ॥ ५
वारेइ व रणु विण्णि[9] वि वलाहँ साइउ देइ व वच्छ-त्थलाहँ ॥ ६
मइलेइ व वयणइँ णरवराहँ [10]आरुहइ व उप्परेँ रहवराहँ ॥ ७
मज्जइ व मएण महा-गयाहँ णच्चइ व कण्ण-तालेहिँ ता[11]वँ (?हँ) ॥ ८
वीसमइ व छत्त-धएँहिँ चडेवि तवइ व गयणङ्गणेँ णिव्वडेवि ॥ ९

॥ घत्ता ॥

पसरन्तु[12]उट्ठन्तु महन्तु रउ लक्खिज्जइ कविलउ क[13]व्वुरउ ।
महि-मडउ गिलन्तहोँ स-रहसहोँ [14]णं केस-भारु रण-रक्खसहोँ ॥ १०

[१३]

[1]सो ण सन्दणु सो ण मायङ्गु ।
[1]ण तुरङ्गमु ण वि य धउ [1]णायवत्तु जं णउ कलङ्किउ ।
पर णिम्म[2]लु आहयणेँ भडहुँ चित्तु मइलेँवि ण सक्किउ ॥

---

10 P S °कुंभ°. 11 P °घडेहि°, S °घडेहि.

12. 1 P धूमावत्तिहें, S धूमावत्तिहि. 2 P खुर°, corrected as खुरहिं, S खुर°. 3 P S °विहट्टिज्जमाणे. 4 A उड्ड. 5 P S य. 6 P S °वाय°. 7 A °चण्णु. 8 A च्छुण्णु. 9 P S विण्हि. 10 This pāda is wanting in P. 11 After this P marginally adds: अवरोपरो वुल्लहि सुहड जाव। 12 P °दंतु, S ढुंतु. 13 P कत्तुरउ. 14 This pāda is wanting in A.

13. 1 These pādas are wanting in A. 2 P S णिम्मल.

---

[११] १ धूलिसमूह.

जाउ सुहु समरङ्गणु[3] दूसंचारउ[4] ।
तहि मि के वि पहरन्ति स-साहुंक्कारउ[5] ॥ १

केहि मि करि-कुम्भइँ परमट्टइँ   णं सङ्गाम-सिरिहेँ थणवट्टइँ ॥ २
केहि मि लइयइँ[6] णर-सिर-पवरइँ   णं जयलच्छि-वरङ्गण-चमरइँ ॥ ३
केहि मि हियँइँ वला[7] रिउ-छत्तइँ   णं जयसिरि-लीला-सयवत्तइँ ॥ ४
केहि मि चक्खु-पसरु अलहन्तेंहिँ   पहरिउ वालालुञ्चि करन्तेंहिँ ॥ ५
केण वि खग्ग-लट्ठि परियड्ढिय   रण-रक्खसहाँ जीह णं कड्ढिय ॥ ६
केण वि करि-कुम्भत्थलु[8] फाडिउ   णं रण-भवण-वारु उग्घाडिउ ॥ ७
कत्थइ मुसुमूरिय असि-धारेंहिँ   मोत्तिय-दन्तुरु हसियउ अहरेंहिँ ॥ ८
कत्थइ रुहिर-पवाहिणि[1] धावइ   जाउ महाहउ पाउसु णावइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सोणिय-जल-पहरणग्गिरएँहिँ   वसुहन्तराल-णहयल-गएँहिँ ।
पज्जलइ वलइ धूमाइ रणु   णं जुग-खय-कालेँ काल-वयणु ॥ १०

[१४]

ताव रण-रउ भुवणु मइलन्तु ।
रवि-मण्डलु पइसरइ   तहिँ मि सूर-कर-णियर-तत्तउ ।
पडिखलेंवि दिसामुहेंहिँ   सुढिय-गत्तु णावइ णियत्तउ[1] ॥
सुर-मुहाँइँ[2] अ-लहन्तउ थिउ हेट्ठामुहुँ[3] ।
पलय-धूमकेउ व धूमन्त-दिसामुहु ॥ १

लक्खिज्जइ पल्लट्टन्तु रेणु[4]   [1]रण-वसहहाँ णं रोमन्थ-फेणु ॥ २
सोमित्तिहिँ[5] रामहाँ रावणासु   णं सुरेंहिँ विसज्जिउ कुसुम-वासु ॥ ३
रणएविहेँ णं सुरवहु-जणेण   धूमोहु दिण्णु णहेँ[6]-भायणेण ॥ ४
सर-णियर-णिरन्तर-जज्जरङ्गु   णं धूलिहोवि णहु पडहुँ लग्गु ॥ ५
सयमेव[7] सूर-कर-खेइउ व्व   तिसिउ[8] व्व सुट्ठु पासेइउ व्व ॥ ६
जलु पियइ व गय-मय[9]-देहेँ[10] अथाहे   ण्हाइ व[11] सोणिय-वाहिणि-पवाहेँ ॥ ७

3 After this word P marginally adds दुस्सह. 4 P °उं. 5 P °रउं, A साहुंका°. 6 P लइयए, S लइयइ. 7 P S परवल°. 8 P पाडिउ.

14. 1 P णिअत्तउ, S णियंतउ, A णिअंत्तउ. 2 P °सुहाइं. 3 P A °हुं. 4 P A रणु. 5 P S A °हि. 6 P S णहे. 7 P S सरणियर, P marginally noting the reading सयमेव. 8 P S A °य. 9 Wanting in A. 10 S °देहे. 11 P ण्हाइउ, S ण्हायउ.

[१३] १ नदी.
[१४] १ संग्रामवृषभस्य वग्गोण(?ल)-फेणम्.

सिञ्चइ व कुम्भि-कर-सीयरेहिँ विज्जिज्जइ व्व चल-चामरेहिँ ॥ ८
णं सावराहु असिवर-कराहँ कम-कमलेँहिँ णिवडइ णरवराहँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

मुअउ व पहरण-सयँ[12]-सल्लियउ दड्ढु व कोवग्गिहेँ घल्लियउ ।
सहसत्ति समुज्जलु जाउ रणु खल-विरहिउ णं सज्जण-वयणु ॥ १०

[१५]

रएँ पणट्ठएँ जाउ रणु घोरु ।

राहव-रावण-वलहुँ करण-वन्ध-सर-पहर-णिउणहुँ[1] ।
अन्धार-विवज्जियउ सुरउ [1]णाइँ[2] अणुरत्त-मिहुणहुँ[3] ॥

रह रहाहँ णर णरहुँ तुरङ्ग[4] तुरङ्गहुँ ।
भिडिय मत्त मायङ्ग मत्त-मायङ्गहुँ ॥ १

को वि भडहोँ भडु भिडेँवि[5] ण इच्छइ[6] सग्ग-गमणु सहुँ सुरेँहिँ पडिच्छइ ॥ २
को वि सराऊरिय-करु[7] धावइ रण-वहु-अवरुण्डन्तउ णावइ ॥ ३
कासु इ वाहु-दण्डु[8] वाणग्गें णिउ भुअङ्गु णं गरुड-विहङ्गें ॥ ४
कासु इ[9] वाण णिरन्तर लग्गा पडिवँ[10] ण देवि[11] ण केण वि भग्गा ॥ ५
णिग्गुण जइ वि धम्म-परिचत्ता ते जि[12] वन्धु जे अवसरें पत्ता ॥ ६
णच्चइ कहि मि रुण्डु रण-भूमिहेँ[13] णीरिणु[14] हुउ[15] णिय-सिरेंण सु-सामिहेँ ॥ ७
कासु इ भडहोँ सीसु उत्थल्लियउ[16] गयणहोँ गम्पि पडीवउ वलियउ ॥ ८
धुअ-धवलायवत्तेँ[17] आलीणउ[18] राहु-विम्वु ससि-विम्वेँ चडीणउ[19] ॥ ९

॥ घत्ता ॥

केण वि सिरु दिण्णु सामि-रिणहोँ उरु वाणहुँ हियउ[20] सव्वु जिणहोँ[21] ।
[2]सउणहुँ[22] सरीरु जीविउ जमहोँ [3]अइ-चाएं णासु ण होइ कहोँ ॥ १०

12 P S °सर°.

15. 1 S °उ, A उं. 2 P S A णाइ. 3 S °हु, A °उं. 4 P S तुरंगु, A तुगु. 5 P S A भिडिवि. 6 P अच्छइ. 7 P S A कर. 8 P S °दंड. 9 P S वि. 10 P S °वि. 11 P दिंति, S देंति. 12 P वि. 13 P °हिं, S °हि, A °हो. 14 P S णिरिणु. 15 S हूउ. 16 P °ल्लिअउ, S °ल्लियउ. 17 P S A °त्ति. 18 P A उं. 19 A °उं. 20 A उं. 21 P °जणहो. 22 S A सउणहो.

[१५] १ पक्षिनाम्. २ अतित्यागेन.

[१६]

को वि गयघड-वर[1]विलासिणिएँ

कुम्भयल-पओहरेंहिँ   [1]भिण्णु [2]दन्ति-दन्तग्गें[2] लग्गइ[3] ।
[3]कर[4]-छित्तुचाइयउ   को वि णाहि[5]-उप्परें वलग्गइ[6] ॥
को वि सुहु[7] हेट्ठामुहु[8] ठिउ[9] चिन्तन्तउ ।
'किण्ण मज्झु हय-दइवें दिण्णु [4]सिर-त्तउ ॥ १
जें णिरिणु होमि तीहि[10]मि जणहुँ[11]   सामिय-सरणाइय-सज्जणहुँ[12]' ॥ २
कों वि सामिहें अग्गएँ वावरइ   सिर-कमलेंहिँ पत्त-वाडु[13] करइ ॥ ३
केण वि असहाएं होन्तएँण   चिन्तिउ रण-मुहें जुज्झन्तएँण ॥ ४
'वे वाहउ तइयउ हियउ छुडु[14]   वइसारमि गय-घड-पीढे फुडु[15]' ॥ ५
कासु वि[16] स-वाहु असि-लट्ठि गय   णं [5]सोरग चन्दण-रुक्ख-लय ॥ ६
कत्थ इ[17] अन्तेंहिँ गुप्पन्तु[18] हउ   सामिउ लेप्पिणु णिय सिमिरु गउ[19] ॥ ७

॥ घत्ता ॥

[20]कत्थ इ गय-घड कोवारुहिय   धाइय सुहडहों सवडम्मुहिय ।
सिरु धुणइ ण ढुक्कइ पासु किह   पहिलारएँ रएँ णव-वहुअ जिह ॥ ८

[१७]

को वि मयगलु दन्त-मुसलेंहिँ ।

आरुहेंवि मइन्दु जिह   असिवरेण कुम्भ-यलु दारइ ।
कड्ढेंवि मुत्ताहलइँ   करेंवि धूलि धवलेइ णावइ ॥
को वि दन्त उप्पाडेंवि मत्त-गइन्दहों[1] ।
मुअइ तं जें पहरणु अण्णहों गय-विन्दहों ॥ १
उद्दण्ड-सोण्ड-मण्डवें विसालें[2]   भिज्जन्त-दन्ति[3]-गत्तन्तरालें[4] ॥ २
करि-कण्ण-चमर-विज्जिज्जमाणु   णं सुवइ को वि रण-वहु-समाणु ॥ ३

16. 1 A °वय°. 2 A °दंतग्ग. 3 A घाएहिं. 4 A करिच्छित्तुव्वेइयउ. 5 A णाहिं°.
6 P A °इं. 7 P सुहडु, A सुहडू. 8 P A °हुं. 9 wanting in S; A ठिउं. 10 P S तिण्ह
वि. 11 P जणहं, S जणहु, A जणाहुं. 12 P °णाहं, S °णाहु, A °णाहुं. 13 P S °वाइ.
14 P A च्छुडु, S च्छुडू. 15 P S फुडु, A फुट्टु. 16 A इ. 17 P A इं 18 P S घुलंतु, P
marginally notes the reading गुप्पंतु. 19 Wanting in A. 20 The portion
from here up to ण in the third pāda is wanting in A.

17. 1 P S A गयंदहो. 2 P S मंडवविसालि, A मंडविविसाल. 3 P S °दंते, A °दंत्त°.
4 P S A °लि.

[१६] १ चम्पितः. २ हस्तिदन्ताग्रे लग्नानि. ३ करेण स्पृष्टोक्षिप्तस्तदुपरि विलग्नो । अपरोऽपि यो कामी पुरुषो नायिकास्तनयुगलेन पीड्यते न स्पृष्टा (?) प्रेर्य्यते स सुरतार्था किलोपरि चटति । ४ मस्तकत्रयम्. ५ ससर्पा.

गय-मय-[१]णइ-[२]रुहिर-णइ-प्पवाहेँ विहि वेणी-सङ्गमेँ दहेँ अथाहेँ ॥ ४
असि कड्ढेंवि फरु तप्पउ करेवि जुज्झण-मण वीर तरन्ति के वि ॥ ५
करि-कुम्भन्दो[5]लय-पायवीढें [३]सोमालिय-णाडा-जुअल-गीढें ॥ ६
उभय-वलइँ पेक्खा-जणु करेवि अन्दोलियँ[6] अन्दो[7]लन्ति के वि ॥ ७
रण-पिडि(?) रहवर-सारिउ करेवि गय-पासा पि[8]हुँ पाडन्ति के वि ॥ ८
कत्थ इ सिव सुहडहोँ हियउ लेवि गय वेस व चाडु-सयइँ करेवि ॥ ९

॥ घत्ता ॥

कत्थ इ भडु गय-घड-पेल्लियउ भामेंवि आयाँ[9]सहोँ मेल्लियउ ।
पलट्टु पडीवउ असि धरेंवि णं सामिहेँ अवसरु सम्भरेंवि ॥ १०

[१८]

त[1]हिँ महाहवेँ अमिउ हणुवस्स ।
सुग्गीवहोँ अ[2]इयकउ विज्जुदण्डु णीलहोँ विरुद्धउ ।
जमघण्टु तार[3]-सुअहोँ मय-णरिन्दु जम्ववहोँ कुद्धउ ॥
सीहणाय-सीहोयर गवय-गवक्खहुँ ।
विज्जुदाढ-विज्जुप्पह सङ्ख-सुसङ्खहुँ ॥ १
ताराणणु तारहोँ ओवडिउ कल्लोलु तरङ्गहोँ अब्भिडिउ ॥ २
जालक्खु सुसेणहोँ उत्थरिउ चन्दमु[4]हेँ चन्दोयरु धरि[5]उ ॥ ३
अब्भिट्टु कियन्तवत्तु णलहोँ णक्खत्तद[6]वणु भासण्डलहोँ ॥ ४
सञ्झागलगज्जिउ दहिमुहहोँ हयगीउ महि[7]न्दहोँ अहिमुहहोँ ॥ ५
घणघोसु पसन्नकित्ति णिवहोँ वज्जक्खु विहीसण-पत्थिवहोँ ॥ ६
पवि कुन्दहोँ कुमुअहोँ सीहरहु सद्दूलहोँ दुम्मुहु दुव्विसहु ॥ ७
धूमाणणु कुम्भु अणुद्धरहोँ जालन्धर-राउ वसुन्धरहोँ ॥ ८
वियडोयरु णहुसहोँ ओवडि[8]उ तडिकेसि रयणकेसिहेँ भिडिउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

रणेँ एव णराहिव उत्थरिय स-रहस सामरिस रोस-भरिय ।
दणु-दारण-पहरण-संजुऍहिँ पहर[9]न्त परोप्परु स इँ भु ऍहिँ ॥ १०

*

5 P °कुंभोदलए, S कुंभोदोलए, A कुंभंदोलए. 6 P S अंदोलिउ. 7 P S दोलावत्तु. 8 A पहु. 9 P आसइ, A आयासहुं.

18. 1 P तहि, S तहे, A तहा. 2 P S महाकाउ, P marginally noting a variant महतणु वि. 3 P S A तारा°. 4 P चंदमुहे, A चंदाणहि. 5 P वरिउ, S चरिउ. 6 P °दमणु. 7 P मयंदहुं, S मयंदहो. 8 P S अब्भिडिउ, A उवडिउ. 9 S पहरंति.

[१७] १ T नद्याम्. २ रुधिरनदी. ३ हस्तिसुंड.

[७५. पंचहत्तरिमो संधि]

जम-धणय-पुरन्दर-डामरहों [1]स-उरग-[2]जग-जगडावणहों ।
जिह उत्तर-गउ दाहिण[2]-[3]गयहों भिडिउ रामु रणें रावणहों ॥

[१]

॥ दुवई ॥ तुङ्ग-तुरङ्ग-तिक्ख-णक्खुक्[5]खय-रय-कय-जलण-जालए[6] ।
दुद्दम-दन्ति-दन्त-णिहसुट्ठिय-सिहि-सिहि[7]-विज्जु[8]मालए ॥ १

दप्पुब्भड-भड-थड-संकडिल्लें हय-फेण-तरङ्गिणि-दुत्तरिल्लें ॥ २
गय-मय-णइ-कद्दम-भग्ग-मग्गें करि-कण्ण-पवण-पेल्लिय-धयग्गें ॥ ३
चामीयर-चामर-दिण्ण-सोहें छत्तोह-पिहिय-दिणयर-करोहें ॥ ४
धय-दण्ड-[9][3]सण्ड-मण्डिय-दियन्तें णर-रुण्ड-खण्ड-खाइय-कियन्तें ॥ ५
हय-हिंसिय-भेसिय-रवि-तुरङ्गें रह-चक्क-चारु-चूरिय-भुअङ्गें ॥ ६
रहसुद्ध-खन्ध-णच्चिय-कवन्धें कङ्का[10]लें-माल-किय-सेउ-वन्धें ॥ ७
सर-णियर-दिण्ण-भुवणन्तरालें पडु-पडह-सङ्ख-झल्लरि-[4]वमालें ॥ ८
सुर-वहु-विमाणें छइयन्तरिक्खें दुव्विसमें दु-संचरें दुण्णिरिक्खें ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तहिँ तेहएँ दारुणें आहयणें [5]गन्धवहुद्धुअ-धवल-धय ।
गज्जन्त-मत्त-मायङ्ग जिह भिडिय परोप्परु हणुव-मय ॥ १०

[२]

॥ दुवई ॥ दुद्दम-देह दो वि दूरुज्झिय-धणुहर पवर-विक्कमा ।
जणिय-जणाणुराय जस-लालस स-रहस सुर-परक्कमा ॥ १

पहरन्ति परोप्परु पहरणेहिँ [1]दणु-इन्द-विन्द-दप्पहरणेहिँ ॥ २
जल-थल-णह-यल-पच्छाय[1]णेहिँ तडि-तामस-तवणुप्पायणेहिँ ॥ ३
गिरि-गारुड-पाहण-पायवेहिँ वारुण-अग्गेयहिँ वायवेहिँ ॥ ४
तो अहिमुह-[2]दहिमुह-माउलेण उब्भिय-धुय-धयमालाउलेण ॥ ५
कञ्चणगिरि-सरिस-महारहेण सुर-घाय-किणङ्किय-विग्गहेण ॥ ६
पज्जालिय-कोव-हुआसणेण आयड्ढिय-ससर-सरासणेण ॥ ७
इन्दइ-कुमार-[2]मायामहेण हणुवन्त-महद्धउ छिण्णु तेण ॥ ८

1. 1 A °डामरहो. 2 Wanting in A. 3 A तह. 4 P S °म°. 5 P S A °क्ख°. 6 A °जालयं. 7 P S °सिहि°. 8 P A °विज्ज°. 9 P S °संडमंड°, A °संडदंड°. 10 P S कंकोल°.
2. 1 P °यरेहिं, S °वरेहि. 2 P S °दह°.

[१] १ T ससर्पः. २ T जगतः. ३ T समूहः. ४ शब्दकोलाहले. ५ T वातोद्धता.
[२] १ T दानवेंद्रः. २ मएण.

तो रावण-उववण-मद्दणेण चल-गमणहों पवणहों णन्दणेण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

स-तुरङ्गु स-सारहि स-धउ रहुँ[3] हणेंवि सरेंहिँ सय-खण्डु कउ ।
णह-लङ्घण[4]-करणेंहिँ उप्पऍवि अण्णहिँ सन्दणेँ चडिउ मउ ॥ १०

[३]

॥ दुवई ॥ रण-भर-धवल-धूलि-धूसरिय-धयवडाडोय-डम्बरो[1] ।
पक्कल-चक्क-णेमि-णिग्घोस[2]-णिरन्तर[3]-वहिरियम्बरो[1] ॥ १

सो वि पवण-पुत्तेण सन्दणो जणिय-वन्दि-वन्द[4]ाहिणन्दणो ॥ २
महिहरो व्व तडि-चडण-ताडिओ[5] दारुणद्धयन्देण पाडिओ[5] ॥ ३
तो तहिं णिएऊण णिय-भडं भग्ग-रहवरं छिण्ण-धयवडं ॥ ४
दहमुहेण माया-विणिम्मिओ[6] करि-विमुक्क-सिक्कार-तिम्मि[7]ओ ॥ ५
संचरन्त-चाँ[8]मियर-चामरो साहिलास[9]-परिओसियामरो ॥ ६
अच्छर-च्छ[10]वि-[2]च्छोह-फस[11]लिओ टणटणन्त-घण्टालि-मुहलिओ ॥ ७
कणय-किङ्किणी-जाल-भू[12]सिओ रहवरो तुरन्तेण पेसिओ[5] ॥ ८
तो तहिं वलग्गो णिसायरो तोण-वाण-धणु-गुण-कियायरो ॥ ९

॥ घत्ता ॥

मन्दोयरि-वप्पें कुद्धऍण तिक्ख-खुरुप्पेंहिँ खण्डियउ ।
हणुवन्तें विहलीहूअऍण रहु दुपु[13]त्तु इव छण्डियउ[14] ॥ १०

[४]

॥ दुवई ॥ जं णिसियर-खुरुप्प-पहरा[1]हिहउ हणुवन्त-सन्दणो ।
तं कोवग्गि-जाल-मा[2]लाव(?)पलीविउ जणय-णन्दणो ॥ १

भामण्डलु मण्डल-धम्मपालु अक्खोहणि-दस-सय-सामिसालु ॥ २
सोलह-आहरण[3]-विहूसियङ्गु णं माणुस-वेसें थिउ अणङ्गु ॥ ३

---

3 P S A रहो. 4 P S A °करणु.

3. 1 P S °रं. 2 P S °सु. 3 P S A °रु. 4 A °वंदणो. 5 P S A °उ. 6 S A °उ, P °उं. 7 PS तिम्मिउ, A तिम्मउ. 8 S चामी°. 9 P S °सि. 10 P A °च्छिवि°. 11 P °भसलिउ, S °भसलिओ, A T. °फसलिउ. 12 P S °धूसिउ, A °भूसिउ. 13 P S °प्पु°. 14 P छड्डिअउं, S च्छड्डियउ.

4. 1 P S °राहउ. 2 P °लापली°, S °लाए ली°. 3 A °णइ°.

---

[३] १ आर्द्रः. २ T आहतः.

सिय-चामरु धरिय-सियायवत्तु   वाहेंवि रहु [१]कोवाइद्धु[4] पत्तु ॥ ४
'रयणीयर-लञ्छण थाहि थाहि   वलु वलु उरि रहवरु वाहि वाहि ॥ ५
पइँ मुएँवि महीयलें मणुसु कवणु   दह[5]सीस-ससुरु सुर-मन्ति-दमणु' ॥ ६
तो एवँ भणेंवि भामण्डलेण   रिउ छाइउ सहुँ रवि-मण्डलेण ॥ ७
सर-जालें जल[6]हर-सण्णिहेण   विण्णाण-जाण-णाणाविहेण ॥ ८
तो मएँण वि रोस-वसंगएण   [२]वइदेहि-समाहउ सर-सएण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सण्णाहु छत्तु धयवर-तुरय   सारहि रहु रणेँ जज्जरिउ ।
भामण्डलु अ-विणयवन्तु जिह   पर एक्कलउ उव्वरिउ ॥ १०

[५]

॥ दुवई ॥ ताव [१]सुतार-तार-तारावइ[1] [२]तारावइ-समप्पहो ।
सुरवर-पवर-करि-करायार-कराहय-हय-महारहो ॥ १

सो जणय-तणय-मय-कय-[३]वमालें   सुग्गीउ परिट्ठिउ अन्तरालें ॥ २
विञ्झु[2] व जिह दाहिण-उत्तराहँ   अब्भिट्टु[3] परोप्परु समरु ताहँ ॥ ३
रयणीयर-वाणर-लञ्छणाहँ   धवलिय-णिय-कुलहँ अ-लञ्छणाहँ ॥ ४
विज्जाहर-पुर-परमेसराहँ   एक्केक्कम-छिण्ण-महारहाहँ ॥ ५
सर-वडण-वियारिय-साहणाहँ   जयसिरि-जय-दिण्ण-पसाहणाहँ ॥ ६
संचरइ कइद्धउ जहिँ[4] जि जहिँ   रिवु सरहिँ णि[5]रुम्भइ तहिँ जेँ तहिँ ॥ ७
जहिँ जहिँ रहवरेँ आरुहइ गम्पि   [४]इन्दइ-मायामहु हणइ तं पि ॥ ८
जं जं धणुहरु सुग्गीवु लेइ   तं तं रयणीयरु खयहोँ णेइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

किं एक्कहोँ किक्किन्धाहि[6]वहोँ   हियइच्छियउ ण संपडइ ।
धणु सव्वहोँ लक्खण-विरहियहोँ   लइउ लइउ हत्थहोँ पडइ ॥ १०

[६]

॥ दुवई ॥ ताव विहीसणेण धूवन्त[1]-धयवडालिद्ध-णहयलो[2] ।
सूल-महाउहेण रहु वाहिउ वहुलुच्छलिय-कलयलो[2] ॥ १

4 T notes a variant हयवाइत्तु. 5 P S दहमुहहो. 6 A दिणयर°.

5. 1 P S °ई°. 2 P S विंझ. 3 P S °ट्ट. 4 P S °हि, A °हे. 5 T notes the variants णिसुंभइ = मारयति and णिरुत्तरु = निराकृत्य. 6 P S °वइ.

6. 1 A °तु. 2 P S °लं.

---

[४] १ T कोपाविद्धः; the variant हयवाइत्तु = हततूर्यः. २ भामंडल.

[५] १ T सुष्ठु तारे शुभे तारे लोचने यस्याः सा सुतारा। सुतारा तारा च सुतारतारा। तस्याः पतिः सुग्रीवः. २ चंद्रः. ३ संग्राम कोलाहले. ४ मयः नाम्नौ (म्ना).

‘वलु वलु मय माम मणोहिराम सुर-समर-सहास-पयास-णाम ॥ २
मइँ मुएँवि विहीसणु झडँ[3]-झडक को सहइ तुहारी णरँ[4]-चडक्क’ ॥ ३
तं णिसुणेंवि मन्दोयरि-जणेरु णिक्कम्पु परिट्ठिउ णाइँ[5] मेरु ॥ ४
‘ओसरु ओसरु मं पुरउ थाहि छल-विरहिउ रणु परिहरेँवि जाहि ॥ ५
पारक्कएँ थक्कएँ हंस-दीवेँ गुणु जइ वि णाहि वीसद्ध-गीवेँ ॥ ६
तहिँ अवसरेँ किं तउ मुएँवि जुत्तु जइ सच्चउ रयणासवहोँ पुत्तु’ ॥ ७
तो एवँ भणेंवि ववगय-भएण रहु कवउ छत्तु छिज्जइ मएण ॥ ८
किउ कलयलु णिसियर-साहणेण वोल्लिज्जइ सुर-कामिणि-जणेण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

‘मारुइ भामण्डलु [1]पँमयवइ स-विहीसण विच्छाइयइँ[6] ।
गय-पाएं वुड्ढीहूयऍण मएँण जि कह व ण मारियइँ[7]’ ॥ १०

[७]

॥ दुवई ॥ तो खर-णहर-पहर-धुव-केसर[1]-केसरि-जुत्त-सन्दणो ।
धवल-महद्धओ समुद्धाइ[2]उ दसरह-जेट्ठ-णन्दणो ॥ १
जस-धवल-धूलि-धूसरिय-अङ्गु धवलम्ब[3]रु धवलावर-तुरङ्गु ॥ २
धवलाणणु धवल-पलम्ब-वाहु धवलामल-कोमल-[1]कमलणाहु ॥ ३
धवलउ जेँ सहावेँ धवल-वंसु [2]धवलच्छि-मरालिहिँ रायहंसु ॥ ४
धवलाहँ धवलु धवलायवत्तु रहुणन्दणु दणु पहरन्तु पत्तु ॥ ५
हेलएँ जेँ विणासिउ मय-मरट्टु रहु खञ्चेंवि[4] पच्छामुहुँ पयट्टु ॥ ६
तहिँ[5] अवसरेँ सुर-संतावणेण रहु अन्तरेँ दिज्जइ रावणेण ॥ ७
वहुरूविणि-रूवें[6]-णिरूवियङ्गु[7] गय-दस-सय-संचालिय-रहङ्गु ॥ ८
दस सहस परिट्ठिय गत्त-रक्ख [3]सा[8]रच्छ कराविय अ[9]ग्गलक्ख ॥ ९

॥ घत्ता ॥

णं अञ्जण-महिहर-तुहिण-गिरि वहु-कालहोँ एक्कहिँ[10] [4]घडिय[11] ।
कोवारुणेँ दारुणेँ आहयणेँ रामण-राम वे वि भिडिय ॥ १०

3 P भडचडक्क, S झुड°. 4 P रणसडक्क. 5 P S A °इ. 6 P विच्छाइय, S विच्छरिय. 7 P S मारिय.

7. 1 P केसरु. 2 A °च्चाइउ. 3 P °लंकरु. 4 P S हुं 5 P S A तहि. 6 A रूवि. 7 P विणिम्मिअं, S विणिम्मियं°. 8 P S सो°. 9 P S °अंगवक्ख. 10 P S A °हि. 11 A ‘घि°.

[६] १ सुग्रीवः.

[७] १ कमलमिव नाभिर्यस्य. २ पुरुषलक्ष्मीः. ३ P सारथि, T सारथः (?). ४ T घृष्टाधृष्टौ भूतः (? तौ).

[८]

॥ दुवई ॥ [१]जाणइ-जलण-जाले[1]-मालावलीविया वे वि दारुणा ।
कुद्ध-मयन्ध-गन्ध-[२]सिन्धुर व व[2]लुद्धुर राम-रामणा ॥ १

तो रण-भर-पवर-धुरन्धरेण   अप्फालिउ धणु दस-कन्धरेण ॥ २
णं गज्जिउ पलय-महाघणेण   णं घोरिउ घोरु जमाणणेण ॥ ३
अप्पाणु घित्तु णं णहयलेण   णं विरसिउ विरसु रसायलेण ॥ ४
णं महियलें णिवडिउ वज्ज-घाउ   वलें रामहों कम्पु महन्तु जाउ ॥ ५
मय वियलिय मत्त-महागयाहँ   रह फुट्ट तुट्ट [३]पग्गह हयाहँ ॥ ६
हल्लोहलिहूअ णरिन्द सव्व   णिप्फन्द णिराउह गलिय-गव्व ॥ ७
धय-छत्तेंहिँ कडयड-सद्दु घुट्ठु   कायर वाणर थरहरिय सुट्ठु ॥ ८
वोल्लन्ति परोप्परु 'णट्ठु कज्जु   संघार-कालु लएँ ढुक्कु अज्जु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

एत्तहेँ रयणायरु दुप्पगमु   एत्तहेँ दारुणु दहवयणु ।
एवहिँ जीवेवउँ कहि तणउँ   दिट्ठु ण परियणु घरु सयणु' ॥ १०

[९]

॥ दुवई ॥ तो णग्गोह-रोह-पारोह-पईहर-वाहु-दण्डेंणं ।
विडसुग्गीव-जीव-हरणेण रणे मत्त[1]ण्ड-चण्डेंणं ॥ १

अप्फालिउ वज्जावत्तु चाउ   तहों सद्दें कहों ण वि गयउ गाउ ॥ २
तहों सद्दें वहिरिउ णहु असेसु   थिउ जगु जें णाइँ[2] मरणावसेसु ॥ ३
तहों सद्दें णं णायउलु तुट्टु   कह कह वि ण कुम्भ-कडाहु फुट्टु ॥ ४
रसरसिय सुसाविय[3] सायरा वि   कम्पाविय चन्द-दिवायरा वि ॥ ५
डोल्लाविय कुलगिरि दिग्गया वि   अप्पंपरिहूअ सुरिन्दया वि ॥ ६
दसकन्धर-रह-करि-णियरु रडिउ   लङ्कहेँ पायारु दडँत्ति[4] पडिउ ॥ ७
छुह-धवलइँ णयणाणन्दिराइँ   पडियाइँ असेसइँ मन्दिराइँ ॥ ८
कों वि पाणेंहिँ मुक्कु अणाहवो[5] वि   णरु कायरु काहँ[6] मि कहइ को वि ॥ ९

8. 1 P S °जालमाला (S °ल°) वि°, A जालाव°. 2 P S A °ल°. 3 P S °ह°. 4 A °उं. 5 P A °उं.

9. 1 P मत्तंग, S मत्तंपचंडेणं. 2 P S A णाइ. 3 P सुसायविय corrected to °विस, S सुसायरि. 4 S दवत्ति. 5 S °वे. 6 P S काहे वि.

[८] १ सीता. २ सिंदूरारुणगजमिव. ३ T दोरकं.
[९] १ गर्वः.

॥ घत्ता ॥

'लहु णासहुँ लङ्केँवि मयरहरु एत्थ वसन्तहँ[7] णाहि [२]धर ।
धणुहर-टङ्कारु जेँ पाणहरु जइ [8]घइँ आइय राम-सर' ॥ १०

[१०]

ताव दसाणणेण अपमाणेँहिँ बाणेँहिँ छाइयं णहं ।
दसरह-णन्दणेण ते छिण्ण णहेँ[1] च्चिय [२]पडिय [१]पडिवहं ॥ १

तो हसिउ रामेण रा[3]माहिरामेण ॥ २
उच्छलिय-णामेण लङ्कारि[३]थामेण ॥ ३
'[४]धणुवेय-परिहीण ओसरु पराहीण ॥ ४
जज्जाहि आवासु अण्णमउ गुरु-पासु ॥ ५
धणु-लक्खणं बुज्झु दिवसेहिँ पुणु जुज्झु ॥ ६
एण जि पयावेण दुण्णय-सहावेण ॥ ७
संताविया देव काराविया सेव ॥ ८
अहवइ असाराहँ रणेँ चोर-जाराहँ ॥ ९
वियलन्ति स[३]त्ताइँ ण व[5]हन्ति गत्ताइँ' ॥ १०
तो णिसियरिन्देण णिज्जिय-सुरिन्देण ॥ ११
जम-धणय-झम्पेण कइलास-कम्पेण ॥ १२
सहसयर-धरणेण वर-वरुण-च[6]रणेण ॥ १३
सुर-भवण-भीसेण वीसद्ध-सीसेण ॥ १४
कोवग्गि-दित्तेण [५]वहणेक्क-चित्तेण ॥ १५
तम-पुञ्ज-देहेण णं पलय-मेहेण ॥ १६
भू-भङ्गुरच्छेण मण-प[7]वण-द[६]च्छेण ॥ १७

॥ घत्ता ॥

वीसहि मि करेँहिँ वीसाउहइँ एक्क-वार रणेँ मु[8]क्काइँ ।
घरु किविणहोँ भामन्तु [9]वइ जिह रामहोँ पासु ण ढु[10]क्काइँ ॥ १८

7 P S A °ह. 8 P correctes to पइं, S थइ.

10. 1 P S णह, A तहि. 2 A ट्ठियय्ं जि. 3 P S रायाहिराए(S ये)ण. 4 P S transpose the pādas in this line. 5 P S हवंति. 6 S P °धरणेण. 7 S °परिअच्छ°. 8 P A मुक्कइं, S मुक्कइ. 9 P T इव, S omits. 10 P S ढुक्कइ.

२ भूमिः (?).

[१०] १ T प्रतिपक्ष. २ वलेन. ३ पौरुषानि. ४ T आच्छादकेन. ५ T वधन. ६ T लच्छेण (?). ७ T भ्रमंतमिव (different reading).

[११]

॥ दुवई ॥ णवर दसाणणेण वामोहु[1] तमोहुँ[2] सरो विसज्जिओ[3] ।
सो वि व[4]लुंद्धुरेण रामेण पयंग-सरेण णिज्जिओ[3] ॥ १

रामणॅण विसज्जिउ कुलिस-दण्डु   सॉ वि रामें किउ सय-खण्डॅ[5]-खण्डु ॥ २
रामणॅण समाहउ पायवेण   सॉ वि भग्गु महत्थें वायवेण ॥ ३
रामणॅण विसज्जिउ गिरि विचित्तु   सॉ वि रामें वलि जिह दिसहिँ घित्तु ॥ ४
अग्गेउ मुक्कु दस-कन्धरेण   उल्हाविउ सो वि वारुण-सरेण ॥ ५
रामणॅण विसज्जिउ पण्णयत्थु   सॉ वि गारुड-वाणॅहिँ किउ णिरत्थु ॥ ६
रामणॅण 'गयाणणॅ[6]-सर विमुक्क   ताह मि[7] वलॅ[8]-वाण-मइन्द[9] ढुक्क ॥ ७
रामणॅण विसज्जिउ 'सायरत्थु   [10]तं मन्दर-घाएं णिउ णिरत्थु ॥ ८
जं जं आमेल्लइ णिसियरिन्दु   तं तं वि णिवारइ रामचन्दु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

रणॅ रामण-राम-सरॅहिँ वलइँ   समर-भूमि मेल्लावियइँ ।
दुप्पुत्तहिँ जिह पहवन्तऍहिँ   उहय-कुलइँ संत[11]वियइँ ॥ १०

[१२]

॥ दुवई ॥ विण्णि वि सुद्ध-वंस रयणासव-दसरह-जेट्ठ-णन्दणा ।
विण्णि वि दिण्ण-सङ्ख करि-केसरि-जोत्तिय-पवर-सन्दणा ॥ १

विहिँ हत्थेंहिँ पहरइ रामचन्दु   वीसहिँ भुव-दण्डेंहिँ णिसियरिन्दु ॥ २
अ-पवाण वाण राहवहों तो वि   जज्जरिय लङ्क रयणायरो वि ॥ ३
छाइज्जइ गयणु चडन्तएहिँ   अखलिय-सर-महि-णिवडन्तएहिँ ॥ ४
'वाएवउ चत्तु पहञ्जणेण   रहु खञ्चिउ अदितिहिँ[1]' णन्दणेण ॥ ५
दिस-करिहुँ असेसहुं गलिउ गाउ   हलोहलिहूअउ जगु जँ 'साउ ॥ ६
भिज्जन्ति व[2]लइँ जलॅ जलयरा वि   णहॅ णट्ठ देव थलॅ थलयरा वि ॥ ७
सो ण वि गयवरु सो ण वि तुरङ्गु   सो ण वि रहवरु तण्ण वि रहङ्गु ॥ ८
सो ण वि धउ तण्ण वि आयवत्तु   जहिँ राम-सरहँ सउ सउ ण पत्तु ॥ ९

11. 1 P वम्मेह, S वम्मोह. 2 P तम्मोहु. 3 P S A °उ. 4 P A वल°, S वलुद्ध°. 5 P S A °खंडु खंडु. 6 P S °णु सरु विमुक्क. 7 S तासु इ. 8 P S वलु. 9 P S °दु ढुक्कु. 10 P omits this pāda. 11 A संभा°.

12. 1 P S अदिहिहे. 2 P जलइं, S जलइ.

[११] १ T गजमुखवाणाः. २ समुद्र (?).
[१२] १ गमनक्रिया. २ T सूर्येण. ३ सर्वम्.

॥ घत्ता ॥

गय सत्त दिवँह[3] जुज्झन्ताहुँ तो इ ण छेउ महाहवहों ।
लहु लक्खणु अन्तरें देवि रहु विजउ णाइँ[4] थिउ राहवहों ॥ १०

[१३]

॥ दुवई ॥ 'वल मइँ किङ्करेण किं कीरइ जइ तुहुँ धरहि धणुहरं ।
णिसियर-कुल-कियन्तु हउँ अच्छमि रावण वाहँ रहवरं ॥ १

दुम्मुहु[1] दुच्चरिय दुराय[2]-राय तउ राहव-केरा कुद्ध पाय ॥ २
वलु उरें कउ चुक्कहि महु जियन्तु वहु-कालें पावउ 'धउ कियन्तु' ॥ ३
तो कोव-जलण-जालोलि-जलिउ 'हणु हणु' भणन्तु लक्खणहों वलिउ ॥ ४
ते वासुएव-पडिवासुएव कुल-धवल धणुद्धर 'सावलेव ॥ ५
गय-गारुड-सन्दण कसण-देह उण्णइय णाइं[3] णहें पलय-मेह ॥ ६
णं सीह महीहर-मत्थयत्थ णं विञ्झ-संज्झ[4] उअयाचलत्थ ॥ ७
णं अञ्जण-महिहर विण्णिहूअ णं णर-णिहेण थिय काल-दूय ॥ ८
णं रवि-रत्तुप्पल-तोडणत्थ णं धरएँ पसारिय उहय हत्थ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

लङ्केसर-लक्खण उत्थरिय पलय-जलय-गम्भीर-रव ।
वेयाल-सहासइँ णच्चियइँ 'जइ पर होसइ अज्ज धव ॥ १०

[१४]

॥ दुवई ॥ जं किउ राहवेण तं तुहु मि करेसहि भूमि-गोयरा' ।
दह-दाहिण-करेहिँ दह-वयणें दह कड्ढिय महा-सरा ॥ १

पहिलेण पवरु णग्गोह-रुक्खु वीएण महग्गिरि दिण्ण-दुक्खु ॥ २
जलु तइएं जलणु चउत्थएण पञ्चमेंण सीहु फणि छट्ठएण ॥ ३
सत्तमेंण[1] मत्त-मायङ्ग-लीलु अट्ठमेंण णिसायरु विसम-सीलु ॥ ४
णवमेण महन्तु महन्धयारु[2] दहमेण महोवहि-हत्थियारु ॥ ५
दस दिव्व महा-सर पलय-भाव दस दिसउ णिरुम्भेंवि ठन्ति जाव ॥ ६
तो लक्खणु वुत्तु विहीसणेण ''दिव्वत्थइँ लइयइँ रावणेण ॥ ७
एक्केक्कु जें होइ अणेय-भायँ[3] एक्केक्कु जें दरिसइ विविह माय ॥ ८

3 S दिवस. 4 P S A णाइ.

13. 1 P °हं, S A °हु. 2 A वराय°. 3 P S A णाइ. 4 P S A °संझ.

14. 1 P S सत्त°. 2 तमंध°. 3 P S भेय.

[१३] १ तृप्ति. २ साहंकार.

[१४] १ विद्यामयी (? या) वाणाः.

एक्केक्कु जें जगु जगडेंवि समत्थु   लइ एहएँ अवसरें वाहि हत्थु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जइ आयइँ पइँ ण णिवारियइँ   आयामेप्पिणु भुअ-जुअलु ।
तो ण वि हउँ ण वि तुहुँ रामु ण वि   ण वि सुग्गीउ ण 'पमय-वलु' ॥ १०

[१५]

॥ दुवई ॥ तो लच्छीहरेण तरु डज्झइ हुअवहे[1]-तुण्ड[2]-कण्डेंणं[3] ।
माया-महिहरो वि मुसुमूरिउ दारुण-वज्ज-दण्डेंणं ॥ १

वायवेण विणासिउ वारुणत्थु   वारुणेण हुआसणु किउ णिरत्थु ॥ २
सरहेण सीहु गरुडेण णाउ   पञ्चाणणेण गय(?) दिण्णु घाउ ॥ ३
णिसियरु णिरुद्धु णारायणेण   तमु णासिउ दिणयर-पहरणेण ॥ ४
सोसिउ समुद्दु वडवाणलेण   तहिँ अवसरें[4] आयउ णहयलेण ॥ ५
वर कण्णउ अट्ठ मणोहराउ   सुर-करि-कुम्भयल-पओहराउ ॥ ६
ससिवद्धण-विज्जाहर-सुआउ   मालइ-माला-कोमल-भुआउ ॥ ७
'वइदेहि-सयम्वरें[5] वुत्तियाउ   लच्छीहर तुह[6] कुल-उत्तियाउ ॥ ८
जय णन्द वड्ढ सिद्धत्थु होहि'   तं णिसुणेंवि हरिसिउ 'हरि-विरोहि ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सिद्धत्थु अत्थु मणेँ सम्भरेंवि   मुक्कु णिसायर-'णायगेँण ।
तमि[7](?तं) धरिउ कुमारें एन्तु णहें 'अत्थें विग्घ-विणायगेँण ॥ १०

[१६]

॥ दुवई ॥ जं जं किं पि पहरणं मुअइ णिसायर-वइ दसाणणो[1] ।
तं तं सर-सएहिँ विणिवारइ अद्ध-वहें ज्जें लक्खणो[2] ॥ १

तो तियस-विन्द-कन्दावणेण   वहुरूविणि चिन्तिय रावणेण ॥ २
'दे दे आएसु' भणन्ति आय   मुह-कुहरें विणिग्गय तहों वि वाय ॥ ३
'जं अट्ठ दिवस आराहिया-सि   वहु-मन्तेंहिँ[3] थोत्तेंहिँ साहिया-सि ॥ ४
तें सहल मणोरह करहि अज्जु   'भूँ-गोयर-महिहरें[4] होहि वज्जु ॥ ५
दहवयणहों केरउ रूवु लेवि   मायामउ रहवरु होहि देवि' ॥ ६

15. 1 P S °हु, A °हं. 2 P S °तोय°. 3 S °कंडिणं, A °कुंडेणं. 4 P S A °रि. 5 S °रि, A °र. 6 P S तउ. 7 P S ताम.
16. 1 A °णे. 2 P °णे. 3 P S A °हिं. 4 S A °हर.

२ वानराः.
[१५] १ रावणः. २ T नायकेन मुक्तः. ३ यथार्थ विघ्नविनाशकेन.
[१६] १ रामलक्ष्मण-पर्वते.

उत्थरिय विज्ज सहुँ लक्खणेण   दोहाविय तेण वि तक्खणेण ॥ ७
दरिसाविय विज्जएँ[5] परम माय   अंतॕथक्कएँ[२] रावण वेण्णि जाय ॥ ८
ते पहय चयारि समोत्थरन्ति   पडिपहय चयारि वि अट्ठ होन्ति ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सोलह वत्तीस दूण-कमेंण   विविह-रूव-दरिसावणहुँ[6] ।
वहुरूविणि विज्जएँ णिम्मविय   रणेँ अॕक्खोहणि[३] रावणहुँ ॥ १०

[१७]

॥ दुवई ॥ जलेँ थलेँ गयणेँ छत्तेँ धएँ तोरणेँ पच्छएँ 'पुरेँ वि रावणो ।
तो लच्छीहरेण सरु मेल्लिउ माया-उवसमावणो ॥ १

तहोँ सरहोँ पहावें विज्ज पवर   थिउ एक्कु दसाणणु होवि णवर ॥ २
उत्थरिउ अणन्तेंहिँ सरवरेहिँ   णारायँहिँ तीरेंहिँ तोमरेहिँ ॥ ३
वावल्लेंहिँ भल्लेंहिँ कण्णिएहिँ   अवरहि[1] मि असेसहिँ वण्णिएहिँ ॥ ४
सोमित्तिं तं सॅर-जालु[2] छिण्णु   रहु खण्डेंवि[3] पुणु वलि दिसहिँ दिण्णु ॥ ५
अण्णहिँ रहवरेँ आरुहइ जाव   सिरु हणेंवि खुरुप्पें छिण्णु ताव ॥ ६
णं हंसें तोडिउ आरणालु   चलॅ[4]-जीहु वियड-दाढा-करालु ॥ ७
कहकहकहन्तु ललक्क-वयणु   जालोलि-फुलिङ्ग[5]-मुअन्त-णयणु ॥ ८
उब्भड-भिउडी-भङ्गुरिय-भालु   कम्पिरॅ[6]-कवोलु चल-दाढियालु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सिरु[7] स-मउडु पट्ट-विहूसियउ   सहइ फुरन्तेंहिँ कुॅण्डलेंहिँ[8] ।
णं मेरु-सिङ्गु[9] सहुँ णिवडियउ[10]   चन्द-दिवायर-मण्डलेंहिँ ॥ १०

[१८]

॥ दुवई ॥ ताव समुग्गयाइँ रिउ-देहहोँ अण्णइँ वेण्णि सीसइं ।
'मरु मरु' 'पहरु पहरु' पभणन्तइँ उब्भड-भिउडि-भीसइं ॥ १

ताइँ वि तोडियइँ स-कलयलाइँ   णं दहवयणहोँ दुण्णय-फलाइँ ॥ २
तो णवरि चयारि समुट्ठियाइँ   णं थल-कमलिणि-कमलइँ थियाइँ ॥ ३
पुणु अण्णइँ अट्ठ समुग्गयाइँ   णं फणसहोँ फणसइँ णिग्गयाइँ ॥ ४

5 S तो दरिसाविज्जइ. 6 P °उ, S °हो, A °हु.

17. 1 S °ह, A °हं. 2 S पर°. 3 P S °डिवि. 4 P S चलु, A वलु. 5 A °पुलिंग°. 6 S कंप्पिरि. 7 P S सिर. 8 P कोंडि°, A कोड°. 9 A °सिंग. 10 P णिव्वडिउ, S णिवडिउ, A णिवडियउं.

२ नतिष्ठत (? नातिष्ठत् ?), अविलंबेन. ३ एक अक्षोहणी-वल-प्रमाण-निर्मापिता.

[१७] १ अग्रे.

पुणु सोलह पुणु वत्तीस होन्ति   चउसट्ठि सिरइँ पुणु णीसरंति ॥ ५
सउ अट्ठावीसउ तक्खणेण   पाडिज्जइ सीसहुँ लक्खणेण ॥ ६
छप्पण्णइँ विण्णि सयइँ कियाइँ   छिण्णइ कुमारु जिह दुक्कियाइँ ॥ ७
पुणु पञ्च सयाइँ स-वारहाइँ   कमलाइँ व तोडइ तुरिउ ताइँ ॥ ८
पुणु चउवीसोत्तरु सिर-सहासु   पाडइ [1]वच्छ-त्थल-सिरि-णिवासु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सीसइँ छिन्दन्तहों लक्खणहों विउणउ विउणउ वित्थरइ।
रणेँ दक्खवन्तु वहु-रूवाइँ   रावणु छन्दहों अणुहरइ ॥ १०

[१९]

॥ दुवई ॥ जिह [1]णिट्टन्ति [2]णाहि रिउ-सीसइँ तिह लक्खण-महासरा।
'दुक्करु थत्ति एत्थु रणेँ होसइ' णहेँ वोल्लन्ति सुरवरा ॥ १
तो जण-मण-णयणाणन्दणेण   पहरन्तें दसरह-णन्दणेण ॥ २
रिउ-सिरइँ ताव विणिवाइ[3]याइँ   रण-भूमिहिँ जाव ण माइ[4]याइँ ॥ ३
जिह सीसइँ तिह हय वाहु-दण्ड   णं गरुडें विसहर कय दु-खण्ड ॥ ४
सय सहस लक्ख अ-परि[5]प्पमाण   एक्केक्कएँ तहि मि अणेय वाण ॥ ५
णग्गोहहों णं पारोह छिण्ण   णं सुर-करि-कर केण वि[6] पइण्ण ॥ ६
सव्वङ्गुलि सव्व-णहुज्जलङ्ग   णं पञ्च-फणावलि थिय भुअङ्ग ॥ ७
कों वि करयलु सहइ स-मण्डलग्गु   णं तरुवर-पल्लउ लयहों लग्गु ॥ ८
कों वि सहइ सिलिम्मुह-सङ्गमेण   णं लइउ भुअङ्गु भुअङ्गमेण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

महि-मण्डलु मण्डिउ कर-सिरेँहिँ   छुडु खुडिएहिँ स-कोमलेँहिँ।
रण-देवय अच्चिय लक्खणेँण   णाइँ[7] स-णालेँहिँ उप्पलेँहिँ ॥ १०

[२०]

॥ दुवई ॥ गय दस दिवस विहि मि जुज्झन्तहँ[1] तो वि ण णिट्ठियं रणं।
[1]माया-रावणेण वोल्लिज्जइ 'जइ जीवेण कारणं ॥ १
तो जं जाणहि तं करेँ दवत्ति   लङ्केसर महु एत्तडिय सत्ति' ॥ २

18. 1 A °उं. 2 P A °रूवइं, S °रूवइ.
19. 1 S A णिट्टंत. 2 S णहि, A णाहिं. 3 P A °यइं, S °यइ. 4 P °यइं, S A यइ. 5 P S अप्प°, A °माणु. 6 P S विप्पइण्ण. 7 P S A °इं.
20. 1 P S °हे.

[१८] १ लक्ष्मणः.
[२०] १ बहुरूपिणी रावणेण सह जल्पति.

स-विलक्खु रक्खु सयमेव थक्कु [2]पॅलयक्क-सम-प्पहु लइउ चक्कु ॥ ३
परिरक्खणु जक्ख-सहासु जासु विसहर-णर-सुरवर-जँ[2]णिय-तासु ॥ ४
दुद्दरिसणु भीसणु [3]णिसिय-धारु मुत्ताहल-माला-मौँ[4]लियारु ॥ ५
स-कुसुम-चँ[3]न्दण-चच्चिक्कियँ[4]ङ्गु णिय-णासु णाइँ[5] दरिसिउ रहङ्गु ॥ ६
तं णिऍवि णट्ठ णहेँ सुरवरा वि ओसँ[6]रेँवि दूरेँ थिय वाणरा वि ॥ ७
तो वुत्तु कुमारें णिसियरिन्दु ‘पइँ जेण पयावें धरिउ इन्दु ॥ ८
लइ तेण पयावें दुट्ठ-भाव मुऍ चक्कु चिरावहि काइँ[5] पाव’ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

दुव्वयणुद्दीविऍँ[7] दहँ[8]मुहेँण करेँ रहङ्गु उग्गामियउँ[9] ।
णहेँ तेण भमाडिज्जन्तऍण जगु जेँ सव्वु णं भामियउँ[9] ॥ १०

[२१]

॥ दुवई ॥ तो लच्छीहरेण छिण्ण[1]णाहिँ समारम्भिउ रहङ्गयं ।
तीरिय-तोमरेहिँ णाराऍहिँ तहोँ वि वला[2] समागयं ॥ १

[1]‘रिउ-करँ[3]-विमुक्कु मण-पवण-वेउ घण-घोर-घोसु पलयग्गि-तेउ ॥ २
रणेँ धरेँवि ण सक्किउ लक्खणेण पहणन्ति असेस वि तक्खणेण ॥ ३
सुग्गीवुँ[4] गँएं[5] राहउ हलेण सूलेण विहीसणु पच्चलेण ॥ ४
भामण्डलु पत्तल-असिवरेण हणुवन्तु महन्तें मोग्गरेण ॥ ५
अङ्गउ तिक्खेँण[6] कुंड्डारएण णलु चक्कें वइरि-वियारणेण ॥ ६
जम्वउ झसेण फलिहेण णीलु कणएण विराहिउ विसम-सीलु ॥ ७
कुन्तेण कुन्दु[7] दहिमुहु घणेण केण वि ण णिवारिउ पहरणेण ॥ ८
भञ्जन्तु असेसाउह-सयाइँ णं तुहिणु दहँ[8]न्तु [2]सँ[9]रोरुहाइँ ॥ ९
परिभमिउँ[10] ति-वारउ तरल-तुङ्गु णं मेरुहेँ पासेँहिँ भाणु-विम्वु ॥ १०

॥ घत्ता ॥

जं अण्ण-भवन्तरेँ अज्जियउँ[10] तं अप्पणहि[11](?) समावडिउ ।
आणा-विहेउ सु-कलत्तु जिह चक्कु कुमारहोँ करेँ चडिउ ॥ ११

2 P °णिय corrected as °णियर°. 3 PS °सचंदण°. 4 P °चच्चिकिअंगु, S °चच्चियंगु. 5 PSA °इ. 6 A सरिवि. 7 P °एं. 8 P दस°. 9 A °उं.

21. 1 A छिंद°. 2 PS वलस्स मग्गयं. 3 PS °रे. 4 PS °वं. 5 PS गय, A गयं. 6 PS कुठा°. 7 P कुंतु दहमुह. 8 P डुहंतु, SA दहंतें. 9 SA सरु°. 10 A °उं. 11 P अप्पणु to which पुण्णु is added marginally.

२ प्रलयकालसूर्यवत्. ३ तीक्ष्ण. ४ मालासहित आरा यस्य.

[२१] १ रामणहस्तविमुक्तः. २ कमलानि.

[२२]

॥ दुवई ॥ जं उप्पण्णु[1] चक्कु सोमित्तिहें तं सुर-णियरु तोसिउ ।
दुन्दुहि दिण्णं[2] मुक्क[3] कुसुमञ्जलि साहुक्कारु घोसिउ ॥ १

अहिणन्दिउ लक्खणु वाणरेहिँ 'जय णन्द वद्ध' मङ्गल-रवेहिँ ॥ २
चिन्तवइ[4] विहीसणु [5]जाय सङ्क 'लइ णट्ठु कज्जु उच्छिण्णं[6] लङ्क ॥ ३
मुउ रावणु सन्तइं[7] तुट्ट अज्जु मन्दोयरि विहव विणट्ठु रज्जु' ॥ ४
पभणइ कुमारु 'करें चित्तु धीरु छुड्डु सीय समप्पइ खमइ वीरु' ॥ ५
तो गहिय-चन्दहासाउहेण हक्कारिउ लक्खणु दहमुहेण ॥ ६
'लइ पहरु पहरु किं करहि खेउ तुहुँ एक्कें चक्कें 'सावलेउ ॥ ७
महु घइँ[8] पुणु आएं कवणु गण्णु[9] किं सीहहों होइ सहाउ अण्णु' ॥ ८
तं णिसुणेंवि विप्फुरियाहरेण मेल्लिउ रहङ्गु लच्छीहरेण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

[1]उअयइरिहें णं अत्थइरि गउ सूर-विम्बु कर-मण्डियउ ।
स इँ भु ऍहिँ हणन्तहों दहमुहहों मण्ड उर-त्थलु खण्डियउ ॥ १०

*

[७६. छसत्तरिमो संधि]

णिहऍ[1] दसाणणें किउ सुरेंहिँ कलयलु भुवण-मणोरह-गारउ ।
लोअ-पाल सच्छन्द थिय दुन्दुहि पहय पणच्चिउ णारउ ॥

[१]

णिवडिऍ रावणें तिहुअण-कण्टऍ कुल-मङ्गल-कलसें व्व विसट्टऍ ॥ १
णह-सिरि-दप्पणें व्व विच्छुट्टऍ[2] लच्छि-वरङ्गण-हारें व तुट्टऍ ॥ २
पुहइ-विलासिणि-माणें व गलियऍ रणवहु-जोव्वणे व्व दरमलियऍ ॥ ३
दाहिण-दिस-गऍ व्व ओणल्लऍ णीसारिऍ व सुरासुर-सल्लऍ ॥ ४
रण-देवय-णमंसिऍ[3] व दिण्णऍ तोयदवाहण-वंसें व छिण्णऍ ॥ ५
चवण-पुरन्दरें व्व संकमिऍ कालहों दिणयरें व्व अत्थमिऍ ॥ ६

22. 1 A °ण्ण. 2 P S °ण्णु. 3 P क्कु. 4 S A चिंतइ वि. 5 The portion from here up to करे in line 5 is missing in S. 6 P A °न्न. 7 A सत्तइ. 8 P S पइ, A घइ. 9 A गुण्णु.

1. 1 A णिहिए. 2 P S णिच्छट्टए. 3 S णवसिए.

[२२] १ सगर्वः, २ T उदयगिरेः सकासादस्तगिरिमिव गतः,

लङ्काउरि-पायारेँ[4] व पडियएँ   सीय-सयत्तणेँ व्व णिव्वडियएँ ॥ ७
तम-सङ्घाएँ व पुञ्जेंवि मुक्कएँ   अञ्जण-सेलेँ व थाणहों चुक्कएँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तेणँ[5] पडन्तें पाडियइँ   चिन्धइँ[6] रणेँ रयणीयर-णामहुँ ।
पाण महारहेँ महिहरहों   सुर-कुसुमइँ सिरेँ लक्खण-रामहुँ ॥ ९

[२]

अमरेंहिँ साहुक्कारिएँ हरि-वलेँ   विजएँ[1] पघुट्ठें समुट्ठिएँ[1] कलयलेँ ॥ १
तहिँ अवसरेँ मणि-गण-विप्फुरियहेँ   उप्परेँ करु करेवि णिय-छुरियहेँ ॥ २
अप्पउँ[2] हणइ विहीसणु जावेंहिँ   मुच्छएँ[3] णाइँ णिवारिउ तावेंहिँ ॥ ३
णिवडिउ धरणि-पट्टें[4] णिच्चेयणु   दुक्खु समुट्ठिउ पसरिय-वेयणु ॥ ४
चरण धरेवि रुएवएँ लग्गउ   'हा भायर मइँ मुएँवि कहिं गउ ॥ ५
हा हा भायर ण किउ णिवारिउ   जण-विरुद्धु ववहरिउ णिरारिउ ॥ ६
हा भायर सरीरेँ सुकुमारएँ   केम वियारिउ चक्कहों[5] धारएँ ॥ ७
हा भायर दुण्णिदएँ भुत्तउ   सेज्ज मुएँवि किं महियलेँ सुत्तउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

किं अवहेरि करेवि थिउ   सीसेँ चडाविय चलण तुहारा ।
अच्छमि सुदुम्माहियउ[6]   हियउ फुट्टु आलिङ्गि भडारा' ॥ ९

[३]

रुअइ विहीसणु सोयक्कमियउ   'तुहुँ णत्थमिउ वंसु अत्थमियउ ॥ १
तुहुँ ण जिओऽसि सयलु जिउ तिहुअणु   तुहुँ ण मुओऽसि मुअउ वन्दिय-जणु[1] ॥ २
तुहुँ पडिओऽसि ण पडिउ पुरन्दरु   मउडु ण भग्गु भग्गु गिरि-मन्दरु[2] ॥ ३
दिट्ठि ण णट्ठ णट्ठ लङ्काउरि   वाय[1] ण णट्ठ णट्ठ मन्दोयरि ॥ ४
हारु ण तुट्टु तुट्टु तारायणु   हियउ ण भिण्णु भिण्णु गयणङ्गणु ॥ ५
चक्कु ण ढुक्कु ढुक्कु एक्कन्तरु   आउ ण खुट्टु खुट्टु रयणायरु ॥ ६
जीउ ण गउ गउ आसा-पोट्टलु   तुहुँ[3] ण सुत्तु सुत्तउ महि-मण्डलु ॥ ७
सीय ण आणिय आणिय जमउरि   हरि-वल कुद्धँ[4] ण कुद्धा केसरि ॥ ८

---

4 P S °र. 5 S तो पाण. 6 P S A °इ.

2. 1 P S A °य. 2 P S °णु. 3 P A °इं, S °इ. 4 P S °वट्टि, A °पट्ट. 5 P चक्कए, T असि°. 6 P सुट्ठुउ°, A सुट्ठउ°.

3. 1 P वंदिज्जणु, A वंदिजणु. 2 P °कंदरु. 3 P S A °हु. 4 P S कुद्धु कुद्ध णं.

---

[३] १ T वाचा.

॥ घत्ता ॥

सुरवर-सण्ढ-वराइणा[2]　　सयल-काल जे मिग सम्भूया ।
रावण पइँ सीहेण विणु　　ते[5] वि अज्जु सच्छन्दीहूया ॥ ९

[४]

सयल-सुरासुर-दिण्ण-पसंसहों　　अज्जु अमङ्गलु रक्खस-वंसहों ॥ १
खल-खुद्दहुँ पिसुणहुँ दुवियड्ढहुँ[1]　　अज्जु मणोरह सुरवर-सण्ढहुँ ॥ २
दुन्दुहि वज्जउ गज्जउ सायरु　　अज्जु तवउ सच्छन्दु दिवायरु ॥ ३
अज्जु मियङ्कु होउ पहवन्तउ　　वाउ वाउ जगें[2] अज्जु सइत्तउ ॥ ४
अज्जु धणउ धण-रिद्धि णियच्छउ　　अज्जु जलन्तु जलणु जगें अच्छउ ॥ ५
अज्जु जमहों णिव्वहउ जमत्तणु　　अज्जु करेउ इन्दु इन्दत्तणु ॥ ६
अज्जु घणहँ[3] पूरन्तु मणोरह　　अज्जु णिरग्गल[4] होन्तु महागह ॥ ७
अज्जु[5] पफुल्लउ फलउ वणासइ　　अज्जु 'गाउ मोक्कलउ सरासइ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

ताव दसाणणु आहयणें　　पडिउ सुणेवि स-दोरु स-णेउरु ।
धाइउ मन्दोयरि-पमुहुँ[6]　　धाहावन्तु सयलु अन्तेउरु ॥ ९

[५]

दुम्मणु दुक्ख-महण्णवें घित्तउ　　पिय[1]-विओय-जालोलि-पलित्तउ ॥ १
मोक्कल-केसु[2] विसण्ठुल-गत्तउ　　विहडप्फडु णिवडन्तुद्धन्तउ[3] ॥ २
उद्ध-हत्थु उद्धाहावन्तउ　　अंसु-जलेण वसुह सिञ्चन्तउ[4] ॥ ३
णेउर-हार-दोर[5]-गुप्पन्तउ　　चन्दण-छड-कद्दमें खुप्पन्तउ ॥ ४
पीण-पओहर-भारक्कन्तउ　　कज्जल-जल-मल-मइलिज्जन्तउ ॥ ५
णं कोइल-कुलु कहि मि पयट्टउ　　णं गणियारि-जूहु विच्छुट्टउ ॥ ६
णं कमलिणि-वणु थाणहों[6] चुक्कउ　　णं [7]हंसिउलु महासर-मुक्कउ ॥ ७
कलुण-सरेण रसन्तु पधाइउ　　णिविसें रण-धरित्ति सम्पाइउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

हय-गय-भड-रुहिरारुणिय　　समर-वसुन्धरि सोह ण पावइ ।
रत्तउ परिहेंवि[8] पङ्गुरेंवि　　थिय रावण-अणुमरणें णावइ ॥ ९

5 PS तेण.

4. 1 PS °हु, A °हो. 2 PSA °गि. 3 PS °हु. 4 PS °लु. 5 S अहो पप्फु. 6 PS °ह.

5. 1 PS पिउ. 2 SA °स. 3 P °द्धंतउ. 4 A °उं. 5 P °डोर, S °दोरु. 6 A °हुं. 7 SA हंस°. 8 परिहवेवि, S थरिहरेवि.

२ T वराकाः.

[४] १ T गायन्तु.

[६]

दिट्ठु महाहवु विणिवाइय-भडु आमिस-सोणिय-रस-वस-वीसड्डु ॥ १
हड्डु-रुण्ड[1]-विच्छड्डु-भयङ्करु लोट्टाविय-धय-चिन्ध-णिरन्तरु ॥ २
णच्चिय-उद्ध-कवन्ध-विसन्थुलु[2] वायस-घोर[3]-गिद्ध-सिव-सङ्कुलु[2] ॥ ३
कहि मि आयवत्तइँ ससि-धवलइँ णं रण-देवय-अच्चण-कमलइँ ॥ ४
कहि मि तुरङ्ग वाण-विणिभिण्णा रण-देवयहेँ णाइँ[4] वलि दिण्णा ॥ ५
कहि मि सरेहिँ धरिय णहेँ कुञ्जर णं जल-धारा-ऊरिय जलहर ॥ ६
कहि मि रहङ्ग-भग्ग थिय रहवर णं वज्जासणि-सूडिय महिहर ॥ ७
तहिँ दहवयणु दिट्ठु वहु-वाहउ कप्प-तरु व्व पलोट्टिय-साहउ ॥ ८
[1]रज्ज-गयालण-खग्गु व छिण्णउ[5] लक्खण-चक्क[6]-रयण-विणिभिण्णउ[5] ॥ ९

॥ घत्ता ॥

दह दियहाइँ स-रत्तियइँ जं जुज्झन्तु[7] ण णिद्दएँ भुत्तउ ।
तेण चक्क-सेज्जहिँ चडेंवि रण-वहुअएँ समाणु णं सुत्तउ ॥ १०

[७]

दिट्ठु पुणो वि णाहु पिय-णारिहिँ सुत्तु मत्त-हत्थि व गणियारिहिँ ॥ १
[1]वाहिणिहिँ[1] व सुक्कउ रयणायरु कमलिणिहिँ व अत्थवण-दिवायरु ॥ २
कुमुइणिहि व्व[2] जरढ-मयलञ्छणु विज्जुहि व्व छुडु छुडु वरिसिय-घणु ॥ ३
अमर-वहूहिँ व चवण-पुरन्दरु गिम्भ-दिसाहिँ व अञ्जण-महिहरु ॥ ४
भमरावलिहि म्व[3] सूडिय-तरुवरु कलहंसीहि म्व अ-जलु महा-सरु ॥ ५
[2]कलयण्ठीहि म्व[3] माहव-णिग्गमु णाइणिहिँ[1] व [3]हय-गरुड-भुयङ्गमु[4] ॥ ६
[4]वहुल-पओसु व तारा-पन्तिहिँ तेम दसास-पासु ढुक्कन्तिहिँ ॥ ७
दस-सिरु दस-सेहरु दस-मउडउँ[5] गिरि व स-कन्दरु स-तरु स-कूडउँ[5] ॥ ८

॥ घत्ता ॥

णिएँवि अवत्थ दसाणणहोँ 'हा हा सामि' भणन्तु स-वेयणु ।
अन्तेउरु मुच्छा-विहलु णिवडिउ महिहिँ [6]झत्ति णिच्चेयणु ॥ ९

6. 1 P S °कंड°. 2 P °ल, S °ला. 3 P S °थोर°. 4 P S A °इ. 5 A °उं. 6 A °चक्कें सो विणि°. 7 P जुज्झंतए णि°.

7. 1 P S A °हि. 2 P S A व. 3 P S म, A व. 4 P S °विहंगमु. 5 A °उं.

[६] १ राज्यगजस्यालानस्तम्भः

[७] १ नदीभिः. २ कोकिलाभिः वसन्तनिर्गमः. ३ गरुडेन हतं. ४ कृष्णपक्ष इव. ५ T सशिखरः. ६ T शीघ्रं.

[८]

तारा-चक्कु व थाणहोँ चुक्कउ   दुक्खु दुक्खु मुच्छएँ आमुक्कउ ॥ १
लग्ग रुएव्वएँ तहिँ[1] मन्दोयरि   उव्वसि रम्भ तिलोत्तिम-सुन्दरि ॥ २
चन्दवयण सिरिकन्ताणुद्धरि   कमलाणण गन्धारि वसुन्धरि ॥ ३
मालइ चम्पयमाल मणोहरि   जयसिरि चन्दणलेह तणूअरि[2] ॥ ४
लच्छि वसन्तलेह मिगलोयण   जोयणगन्ध गोरि गोरोयण ॥ ५
रयणावलि मयणावलि सुप्पह   कामलेह कामलय सयम्पह ॥ ६
सुहय वसन्ततिलय मलयावइ   कुङ्कुमलेह पउम पउमावइ ॥ ७
उप्पलमाल गुणावलि णिरुवम   कित्ति बुद्धि जयलच्छि मणोरम ॥ ८

॥ घत्ता ॥

आएँहिँ सोआऊँरियाहिँ[3]   अट्ठारहहि मि[4] जुवइ-सहासेँहिँ ।
णव-घण-मालाडम्बरेँहिँ   छाइउ विज्जु जेम चउ-पासेँहिँ ॥ ९

[९]

रोवइ लङ्का-पुर-परमेसरि   'हा रावण तिहुअण-जण-केसरि ॥ १
पइँ विणु समर-तूरु कहोँ वज्जइ   पइँ विणु वाल-कील कहोँ छज्जइ ॥ २
पइँ विणु णव-गह-एक्कीकरणउ   को परिहेसइ कण्ठाहरणउं[1] ॥ ३
पइँ विणु को वि[2] विज्ज आराहइ   पइँ विणु चन्दहासु को साहइ[3] ॥ ४
को गन्धव्व-वावि आडोहइ   कण्णहँ[4] छ वि सहासु संखोहइ ॥ ५
पइँ विणु को कुवेरु भञ्जेसइ   तिजगविहूसणु कहोँ वसिहोसइ ॥ ६
पइँ विणु को जमु विणिवारेसइ   को कइलासुद्धरणु करेसइ ॥ ७
सहसकिरण[5]-णलकुव्वर-सक्कहुँ   को अरि होसइ ससि-वरुणक्कहुँ ॥ ८
को णिहाण-रयणइँ पालेसइ   को बहुरूविणि विज्ज लएसइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सामिय पइँ भविएण विणु   पुप्फ-विमाणेँ चडेंवि गुरु-भत्तिएँ ।
मेरु-सिहरेँ जिण-मन्दिरइँ   को मइँ[6] णेसइ वन्दण-हत्तिएँ' ॥ १०

8. 1 P S A तहि. 2 P S °धरि. 3 P S सोआरिय°. 4 P S व.
9. 1 A °उं. 2 S को विज्जा. 3 A पावइ. 4 P S °हो. 5 P S A °णु. 6 P S A मइ.

[९] १ T मंदोदरी. २ T त्वया भव्येन विना.

[१०]

पुंणु वि पुणु[1] वि गयणङ्गणगोयरि कलुणं[2]कन्दु करइ मन्दोयरि ॥ १
'णन्दण-वणें दिज्जन्ति मणोहरि सुमरमि पारियाय-तरु-मञ्जरि ॥ २
वुड्डुण-वाविहिँ थण-परिचड्डुणु सुमरमि[२] ईसि ईसि अवरुण्डणु ॥ ३
सँयण[३]-भवणें णह-णियर-वियारणु सुमरमि लीला-पङ्कय-ताडणु ॥ ४
पणय-रोस-समए मय-वद्धणु[3] सुमरमि रसणा-दाम-णिवन्धणु ॥ ५
सुमरमि दिज्जमाणु दणु-दावणि धरणिन्दहों केरउ चूडा-मणि ॥ ६
सुमरमि सामि कुँमारहों[४] केरउ वरहिण-पेहुण-कण्णेऊँ[4]रउ ॥ ७
सुमरमि सुर-[5]करि-मँय[५]-मल-सामलु हारेँ ठविज्जमाणु मुत्ताहलु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सुमरमि सइँ सुरयारुहणेँ णेउर-वँ[6]र-झङ्कार-विलासु ।
तो इ महारउ वज्जमउ हियउ ण वे-दलु होइ णिरासु' ॥ ९

[११]

पुणु वि पुणु वि मन्दोयरि जम्पइ 'उट्ठेँ भडारा केत्तिउ सुप्पइ ॥ १
जइ वि णिरारिउ णिद्दएँ[1] भुत्तउ तो वि ण सोहहि महियलेँ सुत्तउ ॥ २
सामिय को अवराहु महारउ सीयहेँ दूईं गय सय-वारउ ॥ ३
तो इ अ-कारणेँ[2] ज्जेँ[१] आरुट्ठउ जेण परिट्ठिउ 'पाराउट्ठउ' ॥ ४
तहिँ अवसरेँ पिउ पेक्खेँवि घाइउ का वि करेइ अलीयइ(?)[3]साइउ ॥ ५
आलिङ्गेप्पिणु सव्वायामें का वि णिवन्धइ रसणा-दामें ॥ ६
का वि वरंसुएण[२] क वि हारें का वि सुअन्ध-कुसुम-पब्भारें ॥ ७
क वि उरें ताडेंवि लीला-कमलें पभणइ मउलिएण मुह-कमलें ॥ ८

॥ घत्ता ॥

'तुम्हहँ चक्क-धारं[4]-वहुअ जइ वि णिरारिउ पाणहँ रुच्चइ ।
तो किं महु पेक्खन्तियहेँ[5] हियएँ पइट्ठी णिविसु ण मुच्चइ' ॥ ९

10. 1 S A °ण. 2 P S °णा°, A °णु°. 3 P S °वंधणु, A °वडणु. 4 P °ण्णेंऊ°, S °ण्णेंदू°. 5 S °करं°. 6 A °रव°.

11. 1 P णिंदइ, A णिंदए. 2 P S °णि, A °ण. 3 P A अलीअइ. 4 P S °धारा°. 5 P A °हो, S °हि.

[१०] १ T वारंवारं. २ ईषदीषत्. ३ सयन=शय्या प्रति.(?). ४ कुमारकस्य क्रीडा-मयूरपिच्छं. ५ गंधः.

[११] १ पराङ्मुखः. २ वरवस्त्रेण.

[१२]

क वि केसावलि [1]रेल्लोलावइ   णं [2]कसणाहि-पन्ति खेलावइ ॥ १
का वि कुडिल भउहावलि दावइ   हणइ मयण-धणु-लट्ठिऍं णावइ ॥ २
का वि णिएइ दिट्ठिऍं सु-विसालऍं   णं ढङ्कइ णीलुप्पल-मालऍं ॥ ३
क वि अहिसिञ्चइ [3]अविरल-वाहें   पाउस-सिरि गिरि व्व जल-वाहें ॥ ४
का वि पियाणणें आणणु [5]लायइ   णं कमलोवरि कमलु चडावइ ॥ ५
क वि आलिङ्गइ भुअहिँ[2] विसालहिँ   णं ओमालइ मालइ-मालहिँ[3] ॥ ६
क वि परिमसइ अग्ग-हत्थयलें   छिवइ णाइँ णव-लीला-कमलें ॥ ७
क वि णिम्मल-[4]कररुह पयडावइ   [5]णं दह-मुहहुँ[4] व दप्पणु दावइ ॥ ८
का वि पओहर-घड-जुअलेणं   णं सिञ्चइ लायण्णे-जलेणं ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तहिँ अवसरें केण वि णरेंण   इन्दइ-कुम्भयण्ण-आवासऍं ।
सहसा जिह ण मरन्ति तिह   रावण-मरणु कहिउ परिहासऍं ॥ १०

[१३]

'अज्जु महन्तु दिट्ठु अच्चरियउ   किह कमलेण कुलिसु जज्जरियउ ॥ १
किह मुट्ठिऍं मेरु इ मुसुमूरिउ   किह पायालु तिलद्धें पूरिउ ॥ २
किह इन्धणेंण दड्ढु[1] वइसाणरु   किह चुलुएण सुसिउ रयणायरु ॥ ३
किह पोट्टलेंण णिबद्धु पहञ्जणु   किह करेण ढक्किउ मयलञ्छणु ॥ ४
दिणयरु तेय-रासि कर-दूसहु   किह जोइङ्गणेण किउ णिप्पहु ॥ ५
[1]किह पडेण पच्छण्णु पहायउ   किह सिव-पहु अण्णाणें णायउ ॥ ६
किह पर[2]माणुएण णहु छाइउ   किह [2]गोप्पऍं महि-मण्डलु माइउ ॥ ७
किह मसएण तुलिउ भुवण-त्तउ   मरणावत्थ कालु कह पत्तउ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं [3]एरिसउ[3] वयणु सुणेंवि   रावण-तणयहुँ विक्कम-सारहुँ
इन्दइ-पमुहउ मुच्छियउ   अद्ध-पञ्च कोडीउ कुमारहुँ ॥ ९

12. 1 S लावइ, A लाइय. 2 P A °अहि, S °यहि. 3 P °मालेहिं, A °मालेहि, S मालिहि. 4 P S A °हु. 5 P S णियणयण°.

13. 1 A दड्डु. 2 P S A परि°. 3 P S T ववएस°.

[१२] १ विस्तारयति. २ कृष्णसर्पपंक्तिरिव. ३ अंशु(अश्रु)प्रवाहेन प्रपातेन वा. ४ T नख. ५ T रामणस्य दशान[ना]नामपि दर्पणं दर्शापयति.

[१३] १ कथं वस्त्रेण प्रभातो प्रच्छादितः. २ T गोक्षुरमध्ये. ३ (variant) बुधोपदेशः; T व्यपदेशः.

[१४]

णिवडिउ कुम्भयण्णु सहुँ[1] पुत्तेंहिँ णं मयलञ्छणु सहुँ णक्खत्तेंहिँ ॥ १
णं अमराहिउ सहियउ अमरेंहिँ सित्तु जलेण पविज्जिउ चमरेंहिँ ॥ २
उट्ठिउ दुक्खु दुक्खु दुक्खाउरु सोयहों तणउ[2] णाइँ[3] पढमङ्कुरु ॥ ३
लग्गु रुएवएँ 'हा हा भायरि हा[4] हा [1]हउ हरिणेहिँ व केसरि ॥ ४
हा विहि तुहु मि हूउ दालिद्दिउ हा सव्व[5]ण्हु तुहु मि किह छिद्दिउ ॥ ५
हा जम तुहु मि महाहवेँ घाइउ हा रयणायर तुहु मि तिसाइउ ॥ ६
हा मरु तुहु मि णिवन्धणु पत्तउ हा रवि तुहु मि किरण-परिचत्तउ ॥ ७
हा दड्ढो[6]ऽसि तुहु मि धूमद्धय णीसोहग्गु तुहु मि मयरद्धय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

[2]हा अचलिन्द तुहु मि चलिउ तुहु मि पयावइ भुक्खएँ भग्गउ ।
पुण्ण-महक्खएँ पेक्खु किह वज्जमएँ वि खम्भेँ घुणु लग्गउ' ॥ ९

[१५]

ताव स-वेयणु उट्ठिउ इन्दइ अप्पउ हणइ घिवइ परिणिन्दइ ॥ १
'हा हा ताय ताय माणुण्णय सुरवर-समर-सहासहिँ दुज्जय ॥ २
पइँ अत्थन्तएँण[1] अत्थमियइँ वोल्लिय-हसिय-रमिय-परिभमियइँ[2] ॥ ३
सुत्त-विउद्ध-गमण-आगमणइँ परिहिय-जिमिय-[1]पसाहिय-ण्हवणइँ ॥ ४
वण-कीला-जल-कीला-थाणइँ पुत्तुच्छव-विवाह-वरँ[3]-पाणइँ ॥ ५
गेय-पँ[4]णच्चियाइँ वर-वज्जइँ परियण-पिण्डवास-सियरज्जइँ' ॥ ६
तोयदवाहणो वि स-कुमारउ मुच्छाविज्जइ सय-सय-वारउ ॥ ७
कन्दइ कणइ पवड्ढिय-वेयणु अविरल-वाहाऊरिय-लोयणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

दुक्खु दसाणण-परियणहों सीयहेँ दिहि जउ लक्खण-रामहुँ ।
सुर वि स इं भु व णहुँ चलिय लङ्क पइट्ठ कइद्धय-णामहुँ ॥ ९

*

14. 1 P S A सहु. 2 A °उं. 3 P S A णाइ. 4 P हा हओसि, S हा हओ. 5 P S सव्वहु, A सावहु. 6 S दड्ढउ सि.

15. 1 P S °मेण. 2 P A °अइ, S °यइ. 3 A °रय°. 4 P गेयए, S गेयइ, A गियप°.

[१४] १ T हतः. २ हे मेरो.

[१५] १ शृंगारितस्नापितानि.

[७७. सत्तसत्तरिमो संधि]

भाइ-[1]विओएं　　जिह जिह करइ विहीसणु सोउं[2] ।
तिह तिह दुक्खेंण　　[3]रुवइ [4]स-हरि-वल-वाणर-लोउ ॥

[१]

दुम्मणु[5] दुम्मण-वयणउं[6]　　अंसु-जलोल्लिय-णयणउं[7] ।
ढुक्कु कइद्धय-[१]सत्थउ　　जहिँ[8] रावणु पॅल्हत्थउ[२] ॥ १
तेण समाणु विणिग्गय-णामेंहिँ　　दिट्ठु दसाणणु लक्खण-रामेंहिँ ॥ २
दिट्ठइँ स-मउड-सिरइँ पलोट्टइँ　　णाइँ स-केसराइँ कन्दोट्टइँ ॥ ३
दिट्ठइँ भालयलइँ पायडियइँ　　अद्धयन्द-विम्वाइँ[9] व पडियइँ ॥ ४
दिट्ठइँ मणि-कुण्डलइँ स-तेयइँ　　णं खय-रवि-मण्डलइँ अणेयइँ ॥ ५
दिट्ठउ भउहउ भिउडि-करालउ　　णं पलयग्गि-सिहउ धूमालउ ॥ ६
दिट्ठइँ दीह-विसालइँ णेत्तइँ　　मिहुणा इव आमरणासत्तइँ[10] ॥ ७
मुह-कुहरइँ दट्ठोट्ठइँ दिट्ठइँ　　जमकरणाइँ व जमहों[11] अणिट्ठइँ ॥ ८
दिट्ठ महब्भुव भड-सन्दोहें　　णं पारोह मुक्क णग्गोहें ॥ ९
दिट्ठु उर-त्थलु फाडिउ चक्कें　　दिण-मज्झु अ(?) मज्झत्थें अक्कें ॥ १०
[३]अवणियलु व विज्झेण विहञ्जिउ　　णं विहिँ[12] भाएँहिँ तिमिरु व पुञ्जिउ॥११

॥ घत्ता ॥

पेक्खेंवि रामेंण　　समरङ्गणें[13] रामण[हों] मुहाइँ ।
आलिङ्गेप्पिणु　　धीरिउ 'रुवहि विहीसण काइँ ॥ १२

[२]

सो मुउ जो मय-मत्तउ　　जीव-दया[1]-परिचत्तउ ।
वय-चारित्त-विहूणउ　　दाण-रणङ्गणें दीणउ ॥ १
सरणाइय-वन्दिग्गहें गोग्गहें　　सामिहें अवसरें मित्त-परिग्गहें ॥ २
णिय-परिहवें पर-विहुरें ण जुज्झइ　　तेहउ पुरिसु विहीसण रुज्जइ ॥ ३
अण्णु[2] इ दुक्किय-कम्म-जणेरउ[3]　　गरुअउ[4] पाव-भारु जसु केरउ ॥ ४

1. 1 SC. °विओअए. 2 SC. सोओ. 3 P SC. रुअइ. 4 SC. सह विवइ वाणरलोओ. 5 P S दुम्मण. 6 A °उं. 7 P °उं 8 P S A °हि. 9 P S A °इ. 10 P S °सत्तइ, A °रत्तइं. 11 P S जगहो. 12 P S A विहि. 13 A समरंमण.
2. 1 P °दयए, S °दए. 2 P corrects इ as वि, S अण्णु इं, A अण्णइं. 3 A उं. 4 A गउंआउ. 4 P S A सवंसहे, T सव्वसह.

[१] १ T समूहः. २ रणे पतितः. ३ भूमितलं.

[1]सव्वंसह[4] वि सहेवि ण सक्कइ अहों अण्णाउ भणन्ति ण थक्कइ ॥ ५
वेवइ वाहिणि किं मइँ सोसहि धाहावइ[6] खज्जन्ती ओसहि ॥ ६
छिज्जमाण वणसइ उग्घोसइ[7] कइयहुँ[8] मरणु णिरासहों होसइ ॥ ७
पवणु ण भिडइ भाणु कर खञ्चइ धणु राउल[9]-चोरग्गिहुँ सञ्चइ ॥ ८
विन्धइ कण्टेहिँ व[10] दुव्वयणेंहिँ विस-रुक्खु व मण्णिज्जइ सयणेंहिँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

धम्म-विहूणउ[11] पाव-पिण्डु अणिहालिय-थामु ।
सो रोवेवउ जासु महिस-विस-मेसहिँ णामु ॥ १०

[३]

एयहों अखलिय-माणहों दिण्ण[1]-णिरन्तर-दाणहों
पूरिय-पणइणि-आसहों रोवहि काइँ दसासहों[2] ॥ १
रोवहि किं तिहुअण-वसियरणउ[3] किय-णिसियर-वंस[4]ब्भुद्धरणउ[5] ॥ २
रोवहि किय-कुवेर-विब्भाडणु किय-जम-महिस-सिङ्ग-उप्पाडणु ॥ ३
रोवहि किय-कइलासुद्धारणु सहसकिरण[6]-णलकुब्बर-वारणु ॥ ४
रोवहि किय-सुरवइ-भुव-बन्धणु किय-अइरावय-दप्प-णिसुम्भणु ॥ ५
रोवहि किय-दिणयर-रह[7]-मोडणु किय-ससि-केसरि-केसर-तोडणु ॥ ६
रोवहि किय-फणिमणि-उद्दालणु किय-वरुणाहिमाण-संचालणु ॥ ७
रोवहि किह णिहि-रयणुप्पायणु किय-रयणियर-णियर-अप्पायणु ॥ ८
रोवहि किय[8]-बहुरूविणि-साहणु किय-दारुण-दूसह-सम[9]रङ्गणु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

थिय अजरामर भुवण-पसिद्धि परिट्ठिय *जासु ।
सय-सय-वारउ रोवहि काइँ विहीसण तासु' ॥ १०

---

5 P सोहहि, A किमिइ सासहि. 6 P S °हि. 7 P °हि. 8 °यहु, S °यहो, A °हुं. 9 P राउलु, A रावल. 10 P S मे. 11 P° उं.

3. 1 P S दिण्णु. 2 A दसासणहो. 3 P A °उं. 4 P S °सु°. 5 A °उं. 6 P S °णु. 7 P S °भुव°. 8 P S किह. 9 P S. सव°. * The portion from जासु to णामेण पहु (in 78 4 5 b) is not available from P for collation, because its folios 189-192 are missing.

---

[२] १ T पृथिवी.

[४]

तं णिसुणेवि पहाणउ[1] भणइ विहीसण-राणउ ।
'एत्तिउ रुअमि दसासहों भरिउ भुवणु जं अयसहों ॥ १
एण सरीरें अविणय-थाणें दिट्ठ-णट्ठ-जल-विन्दु-समाणें ॥ २
सुरचावेण व अथिर-सहावें तडि-फुरणेण व तक्खण-भावें ॥ ३
रम्भा-गब्भेण व णीसारें पक्क-फलेण व सउणाहारें ॥ ४
[१]सुण्ण-हरेण व विहडिय-वन्धें [२]पच्छहरेण व अइ-दुग्गन्धें ॥ ५
उक्करुडेण व कीडावासें अकुलीणेण व सुकिय-विणासें ॥ ६
[३]परिवाहेण व किमि-कोट्ठारें[2] असुइहें भुवणें भूमिहिँ[3] भारें ॥ ७
अट्ठिय-पोट्टलेण वस-कुण्डें पूय-तलाएं आमिस-उण्डें ॥ ८
मल-कूडेण रुहिर-जल-वरणें[4] [४]लसि-विवरेण[5] [५]घम्मं[6]-णिज्झरणें ॥ ९
कुहिय-करण्डएण घिणिवन्तें चम्ममएण इमेण कु-जन्तें ॥ १०
तउ ण चिण्णु मण-तुरउ ण खञ्चिउ मोक्खु ण साहिउ णाहु ण अञ्चिउ ॥ ११
वउ ण धरिउ महु ण किउ णिवारिउ अप्पउ किउ तिण-समउ णिरारिउ' ॥ १२
तं णिसुणेवि विहीरइ हलहरु 'एहु[7] वट्टइ णिजावण-अवसरु' ॥ १३

॥ घत्ता ॥

एम भणेप्पिणु पुणु आएसु दिण्णु परिवारहों ।
'थट्ठ[8]-सहावइँ खलइँ[9] व लहु कट्ठइँ णीसारहों' ॥ १४

[५]

लद्धें रामाएसें भड-णिवहेण असेसें ।
मेलावियइँ विचित्तइँ [१]सिल्हय-चन्दण-[२]भित्तइँ ॥ १
वव्वर-गोसिरीस[1]-सिरिखण्डइँ देवदारु-कालागरु-खण्डइँ ॥ २
लय कत्थूरी-कप्पूरङ्गइँ कङ्कोलेला[2]-लवलि-लवङ्गइँ[3] ॥ ३
एव सुअन्ध-महद्दुम-पमुहइँ णीसारेवि मसाणहों समुहइँ[3] ॥ ४
किङ्कर-वरेंहिँ तिलोयाणन्दहों कहिउ णवेप्पिणु राहवचन्दहों ॥ ५

4. 1 S A °उं. 2 A °कु°. 3 S A °हि. 4 °धरणें. 5 A °विहरेण. 6 S A पेम्म°, T घम्मो. 7 S पहु. 8 S थट्टइ दुसहावइ. 9 S A °इ.

5. 1 A °गोसीरिस°. 2 S °लेएलाइ. 3 S A °इ.

[४] T १ शून्यगृहमिव सि(इ)दं शरीरं. २ वेष्टन इव. ३ नगर-जल-प्रवाह इव. ४ गुह्य-विवरेण [इ]व. ५ प्रस्वेदः.

[५] T १ reads सिण्हइं=स्निग्धानि(?). २ इंधनानि.

'मेलावियइँ भडारा कट्टइँ [4]दुट्ठकुर-दाणाइँ [व] कट्टइँ[5] ॥ ६
कामिणि-जोव्वणइँ[3] व जण-घट्टइँ कु-कुडुम्बाइँ[3] व थाणहों[6] भट्टइँ ॥ ७
वइरि-कुलाइँ[3] व उक्खय-मूलइँ वाइ[7]-पुरिस-चित्ताइँ व थूलइँ' ॥ ८
तं णिसुणेवि विणिग्गय-णामें उच्चलाविउ रामणु रामें ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जेण तुलेप्पिणु किउ कइलासु समुण्णइँ[8]-भग्गउ ।
सो विहि-छन्देंण सामण्णहि मि तुलिज्जइ लग्गउ ॥ १०

[६]

उच्चाइएँ दसाणणेँ सोउ पवड्डिउ[1] परियणेँ ।
भीसणु विविह-पयारउ उट्ठिउ हाहाकारउ ॥ १
केली-वण उच्छु-वण-समाणइँ खलइँ[2] व उद्धइँ[2] थियइँ[2] विताणइँ ॥ २
धय थरहरिय मसाण-भएण व पूरिय सङ्ख वन्धु दुक्खेण व ॥ ३
तूरइँ हयइँ पुव्व-वइरा इव वद्धइँ तोरणाइँ चोरा इव ॥ ४
चमरइँ पाडियाइँ चित्ताइँ[2] व घित्तइँ पण्णइँ कु-कलत्ताइँ[2] व ॥ ५
फाडियाइँ दोहाइँ[2] व 'णेत्तइँ धरियइँ 'संगहणाइँ[2] व छत्तइँ ॥ ६
चूरियाइँ[2] खल-मुहइँ[2] व रयणइँ खुड्डइँ[3] सङ्ख-उलाइँ[2] व वयणइँ ॥ ७
आएं मरणावत्थ-विहोएं कलुणक्कं[4]न्दु करन्तें लोएं ॥ ८
णिउ मसाणु सुरवर[5]-सन्तावणु विरइउ सलु वइसारिउ रावणु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जो परिचड्डिउ[6] सयल-काल कामिणि-थण-वट्टेहिँ ।
सो पुण्ण-क्खएँ पेक्खु केम पहु पेल्लिउ[7] कट्ठेहिँ ॥ १०

[७]

अट्ठावय-कम्पावणेँ चियएँ चडाविएँ[1] रावणेँ ।
[2]सालङ्कारु स-णेउरु मुच्छाविउ अन्तेउरु ॥ १

4 This pāda is wanting in A. 5 S °इ. 6 S थाणा. 7 S चाइ°. 8 S A °ए.
6. 1 A पवट्टिउ. 2 S A °इ. 3 S खुद्धइ, A खुदइं. 4 S °णकं°, A °णुक्कं°. 5 A °वइं संताणु. 6 A °ड्डियउ. 7 S मेल्लिउ.

३ वादी-पुरुष-चित्त इव.

[६] T १ वस्त्रविशेषः. २ पुंश्चल-स्त्री-पुरुष-युगलानामिव.

7. 1 S °विउ. 2 For this latter half A reads भीसणु विविहपयारउ उट्ठिउ हाहायारउ (i. e. the same as 77 6 1 b) and after this it reads the following extra Yamaka: सालंकारु सदोरु सणेवरु। मुच्छाविउ रामणअंतेउरु.

वार-वार णिवडइ णिच्चेयणु   वार-वार उ[3]ब्भियइ स-वेयणु ॥ २
वार-वार उम्मुहु धाहावइ   छिज्जमाणु सङ्कणि-उलु णावइ ॥ ३
अन्तेउरॅ[4]-अणुमरणासङ्कएँ   चिन्[5]धइँ कम्पन्ति व अणुकम्पएँ ॥ ४
छत्तइँ एम भणन्ति वराया   'पइँ विणु कासु करेसहुँ छाया' ॥ ५
तूरहिँ एम णाइँ घोसिज्जइ   'पइँ विणु कासु पासेँ वज्जिज्जइ' ॥ ६
'को जुप्पेसइ रण-भर-लक्खेँहिँ'   एव णाइँ[6] धाहाविउ सङ्खेँहिँ ॥ ७
तहिँ अवसरेँ [7]तज्जोणि-विणासणु   सीयासोउ व दिण्णुँ[8] हुआसणु ॥ ८
सहसा उप्परेँ चडेँवि[9] ण सक्कइ   कम्पइ तसइ ल्हसइ णँ[10] झुलुक्कइ ॥ ९
'सगिरि-ससायर-महि-कम्पावणु   मा पुणो वि जीवेसइ रावणु' ॥ १०

॥ घत्ता ॥

पुणु वि पडीवउ   चिन्तइ एव णाइँ[6] धूमद्धउ ।
'काइँ दहेसमि   [11]एयहों जो अयसेण जि दड्ढउ' ॥ ११

[८]

तहिँ[1] अवसरेँ दुक्खाउरु   लङ्काहिव-अन्तेउरु ।
मइलिय-वयण-सरोरुहु   णिउ सलिलहों सवडम्मुहु ॥ १
गयइँ कलत्तइँ जम्मन्तरइँ व   तूर-सहासइँ सुइणन्तरइँ व ॥ २
सङ्ख णियन्त(?)रुएँवि[2] सयणा इव   किङ्कर लद्ध-फलइँ सउणा इव ॥ ३
वन्दिण दाण-भोग-णिवहा इव   वन्धव णव-जोव्वण-दियहा इव ॥ ४
रयण-णिहाण-धरत्ति-तिखण्डइँ   चमरइँ चिन्धइँ धयइँ स-दण्डइँ ॥ ५
लङ्काउरि-सीहासण-छत्तइँ   छड्डेंवि थियइँ णाइँ दु-कलत्तइँ ॥ ६
गय गय गय जि ण दिट्ठ पडीवा   हय हय हय जि ण हूय स-जीवा ॥ ७
रह रह रह रहेवि थिय दूरेँ   को दीसइ अत्थमिएं सूरें ॥ ८
तहिँ अवसरेँ परितुट्ठ-पहिट्ठइँ   एव चवन्ति व चन्दण-कट्ठइँ ॥ ९
'जाहँ पसाय ताहँ एक्केण वि   तुम्हावसरु ण सारिउ केण वि ॥ १०
सामिय अम्हेँ[3] जइ वि पइँ घट्ठइँ   गणियइँ जणहों मज्झेँ अइ कट्ठइँ ॥ ११

॥ घत्ता ॥

जइ वि स-हत्थेँण   ण किउ आसि गरुयउ सम्माणु ।
तो वि डहेव्वउ[4]   हुयवहेँ[5] पइँ समाणु अप्पाणु' ॥ १२

3 s उज्जि°. 4 s A °रु. 5 A चिंत्तइं. 6 s A °इ. 7 s तज्जेणि. 8 s दिंतु. 9 s A चडिवि. 10 s A न. 11 s एयहु, A पियहो.

8. 1 s prefixes दुवई. 2 s °पवि. 3 A अम्ह. 4 A °वउ. 5 A °वहेण.

[७] १ T कष्टानि (? काष्ठानि). २ सापमिव.

[९]

[1]ताव णिरन्तरु णीलउ उट्ठिउ धूमुप्पीलउ ।
अन्धारिय-णह-मग्गउ रावण-अयसु व णिग्गउ ॥ १
दस-दिसि-वह मइलन्तु पधाइउ जिह[2] अकुलीणउ कहि मि ण माइउ ॥ २
धूम-मज्झें धूमद्धउ धावइ[3] विज्जु-वलउ जलअन्तरें णावइ ॥ ३
पढम (?) पएहिँ लग्गु अकुलीणु व पच्छएँ उप्परें चडिउ णिहीणु व ॥ ४
जे णरवर-चूडामणि-चुम्बिय जाहँ णहेंहिँ रवि-ससि पडिविम्बिय ॥ ५
ते कम-कमल कन्ति-परियट्ठा सिहि-खलेण सुयणा इव दड्ढा ॥ ६
[4]जं सुकलत्त-[5]कलत्तेंहिँ रत्तउ [6]रह-गय-तुरय-विमाणेंहिँ जन्तउ ॥ ७
सीहासण-पलङ्केंहिँ ठन्तउ रसणा-किङ्किणि-मुहलिज्जन्तउ ॥ ८
तं णियम्बु जलणेन विह[7]त्तिउ तक्खणेँ छारहोँ पुञ्जु परत्तिउ ॥ ९
जं कइलास-कूड[8]-अवरुण्डणु जं कामिणि-पीण-त्थण-चड्डणु ॥ १०
जं मोत्तिय-मालालङ्करियउ [9]णं गयणङ्गणु तारा-भरियउ ॥ ११

॥ घत्ता ॥

जं [10]रत्तिंदिउ सीया[11]-विरहाणल-जाल[12]ड्ढउ ।
अ[13]लसन्तेण व तं पहु-हियउ हुआसें द[14]ड्ढउ ॥ १२

[१०]

[1]जे भुवणाहिन्दोलणा वइरि-समुद्द-विरोलणा ।
सुर-सिन्धुर-कर-वन्धुरा परियड्ढिय-रण-भर-धुरा ॥ १
जे थिर थोर पलम्ब पईहर सुहि-मम्भीस वीस-पहरण-धर ॥ २
जे वालत्तणें वालक्कीलएँ पण्णय-मुहेंहिँ छुहन्तउ लीलएँ ॥ ३
जे गन्धव्व-वावि-आडुम्भण सुरसुन्दर[2]-वु[3]ह-कणय-णिसुम्भण ॥ ४
जे वइसवण-रिद्धि-विब्भाडण तिजगविहूसण-गय-मय-साडण ॥ ५
जे जम-दण्ड-चण्ड-उद्दालण स-वसुन्धर-कइलासुच्चालण ॥ ६
जे सहसयर-मडप्फर-भञ्जण णलकुव्वर-गेहिणि-मण-रञ्जण ॥ ७

9. 1 S दुवई । ताव णिरंतर. 2 A जह. 3 S धायउ. 4 S जो. 5 A लद्धउ. 6 Before this pāda A has an extra pāda: तं सिहि-दुज्जणेण लहु खद्धउ. 7 A विहि°. 8 S °कूड्ड, A °कूडु. 9 This pāda is wanting in A. 10 S A रत्ति°. 11 S ससीया. 12 S °लादड्ढउ, A लड्डु. 13 S अलसंतें णयवंतें. 14 A दड्डु.

10. 1 S reads दुवई in the beginning. 2 S °रि°. 3 A °वहु°.

[९] T १ नितंबिनीभिः.

जे अमरिन्द-दप्प-ओहट्टण[4] वरुण-णराहिव-वल-दलवट्टण ॥ ८
जे वहुरूविणि-विज्जाराहण दूरोसारिय-वाणर-साहण[5] ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जे स-सुरासुर- जग-जूरावण जिह जम-दूवा[6] ।
ते णिविसद्धेंण वीस[7] वि वाहु-दण्ड मसिहूया ॥ १०

[११]

दसकन्धर-संदीवउ णाइँ[1] णिएइ पडीवउ ।
किं दहगीवहों गीवउ णिज्जीवाउ सजीवउ ॥ १
सो ज्जें जीउ कण्ठ-ट्ठिउ णावइ णावइ दह-मुहेहिँ वीहावइ ॥ २
जेहउ वाल-भावेँ[2] पढमुब्भवेँ णव-गह-कण्ठाहरण-समुब्भवेँ ॥ ३
जेहउ विज्ज-सहस्साराहणेँ जेहउ चन्दहास-असि-साहणेँ ॥ ४
जेहउ मन्दोयरि-पाणिग्गहेँ जेहउ सुरसुन्दरँ[3]-वन्दिग्गहेँ ॥ ५
जेहउ कणय-धणय-ओसारणेँ जेहउ जम-गइन्द-विणिवारणेँ ॥ ६
जेहउ अट्ठावय-कम्पावणेँ जेहउ सहसकिरण-जूरावणेँ ॥ ७
जेहउ णलकुव्वर-वल-मद्दणेँ जेहउ सक्क-सुहड-कडमद्दणेँ ॥ ८
जेहउ वरुण-णराहिव-साहणेँ जेहउ वहुरूविणि-आराहणेँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तेहउँ[5] एवहिँ होइ ण होइ व किह मुह-राउ ।
आएं कोड्डेंण हुअवहु णाइँ णिहालउ आउ ॥ १०

[१२]

[1]वयणु णियन्तु हुआसउ वड्ढिउ जाल-सहासउ ।
लग्गु मुहेहिँ विसत्थउ णाइँ[2] विलासिणि-सत्थउ ॥ १
गउ सरहसु दहेवि दह वयणइँ गहकल्लोलु व दस-ससि-गहणइँ ॥ २
जाइँ[2] वहल-तम्वोलायम्वइँ फग्गुण-तरुण-तरणि-पडिविम्वइँ ॥ ३
दसण-च्छवि-किय-विज्जु-विलासइँ मलयाणिल-सुअन्ध-णीसासइँ ॥ ४
मुद्ध-पुरन्धि-पीय-अहर-दलइँ[3] भोयण-खाण-पाण-रस-कुसलइँ ॥ ५
रएँ रणेँ[4] दाणेँ वद्ध-अणुरायइँ जिय-सुर-[1]छाया-वड्ढिय-छायइँ ॥ ६

4 s °ऊह°, A °उह°. 5 s °णु. 6 s °दूया. 7 Wanting in s.
11. 1 s A °इ. 2 s A °वि. 3 s °रि. 4 s वणगयजमवि°. 5 A °उं.
12. 1 s reads दुवई in the beginning. 2 s A °इ. 3 A °यलइं. 4 s °रणदाण°.

[१२] T १ माहात्म्यं.

तिहुयण-जण-संतावण-सीलइँ तियस-विन्द-कन्दावण-लीलइँ ॥ ७
कम्पाविय-दस-दिसिवह-मग्गइँ सयलागम-अवसाण-वलग्गइँ ॥ ८
ताइँ मुहइँ अच्चन्त-वियड्डइँ णिविसें सुण्णहराइँ[1] व दड्ढइँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जाइँ[2] विसालइँ तरलइँ तारइँ मुद्ध-सहावइँ ।
विहि-परिणामेंण णयणइँ ताइँ[3] कियइँ मसिभावइँ ॥ १०

[१३]

[1]जे कुण्डल-मणि-मण्डिया सयलागम-परिचड्डिया ।
ते कण्णाऽ[1]णल-घोलिया वल्लूरा[2] व पओलिया ॥ १
जाइँ जिणिन्द-पाय-पणमिल्लइँ सेहर-मउड-पट्ट-सोहिल्लइँ[3] ॥ २
अञ्जण-गिरि-सिहरुण्णय-माणइँ[3] सजल-वलाहय-दुग्ग-समाणइँ ॥ ३
कण्ण-कुण्डलुज्जल-गण्डयलइँ अट्ठमि[5]-यन्द-रुन्द-भालयलइँ ॥ ४
सयल-काल (?)रणें भिउडि-करालइँ भङ्गुर-कसण-लोल-भउहालइँ[3] ॥ ५
जम-णाराय-पईहर-णयणइँ दसणावलि-दट्ठाहर-वयणइँ ॥ ६
ताइँ सिरइँ सय-कुन्तल-केसइँ कियइँ खणन्तरेण मसि-सेसइँ ॥ ७
धुय-परिहउ परिपुण्ण-मणोरहु सव्व-भूउ समजाली(?)हुअवहु ॥ ८
जो सुरवरहँ आसि अवहरियउ सो रावणु तेउ व णीसरियउ ॥ ९
सीया-सोवग्गि[4] व णिव्वडियउ लक्खण-कोवग्गि व पायडियउ ॥ १०
सेस-विसग्गि व दूरुच्छलियउ वसुमइ-हियय-पएसु व जलियउ ॥ ११

॥ घत्ता ॥

सुरवर-डामरु[6] रावणु दड्ढु जासु जगु कम्पइ ।
'अण्णु कहिं महु[7] चुक्कइ' एव णाइँ[8] सिहि जम्पइ ॥ १२

[१४]

'रे रे जण णीसारउ विट्टलु खलु संसारउ ।
दरिसिय-णाणावत्थउ[1] दुक्खावासु वि गत्थउ ॥ १
जहिँ[2] उड्डुन्ति महीहर वाएं तहिँ किं गहणु रेणु-संघाएं ॥ २
जहिँ जलणेण जलन्ति जलाइँ[3] वि तहिँ तिणोहु[4] किं चुक्कइ काइँ वि ॥ ३

13. 1 s reads दुवई in the beginning. 2 s °री. 3 s A °इ. 4 A °रुण्णिय°. 5 A अद्ध°. 6 sc. °तासअरु. 7 sc. मग्गइ. 8 s A णाइ, sc. पवणोइ.
14. 1 s °इ. 2 s A °हि. 3 s A °इ. 4 s तिणाह.

[१३] T १ अग्निदग्धाः. २ प्रमाणानि. ३ मेघाः. ४ सा(शा)पाग्निः.

जहिँ कुलिसाइँ जन्ति सय-सक्करु तहिँ कमलहुँ केत्तडउ मडप्फरु ॥ ४
होइ महण्णवो वि जहिँ [1]णिप्पउ तहिँ पज्झरइ काइँ किर गोप्पउ ॥ ५
जहिँ अइरावणो वि [2]उम्मज्जइ तहिँ किर काइँ ससउँ गलगज्जइ ॥ ६
जहिँ णित्तेउ तरणि णह-मण्डणु तहिँ किं करइ कन्ति जोइङ्गणु ॥ ७
जहिँ वुड्डइ अचलिन्दु समत्थउ[6] तहिँ किर कवणु गहणु [3]सिद्धत्थउ ॥ ८
कुम्भ-कडाह-यलु वि जहिँ फुट्टइ तहिँ कुम्हार-घडउँ[1] किं छुट्टइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जहिँ[2] पलयङ्गउँ[5] रावणु तिहुयण-वणगय-अङ्कुसु ।
उण्णइँ[7]वन्तउ तहिँ सामँण्णु[8] काइँ किर माणुसु' ॥ १०

[१५]

ताव दसाणण-परियणु सोआउरु हेट्ठाणणु ।
पइसइ कमल-महासरेँण णावइ चिन्ता-सायरेँण ॥ १
कमलायर-तीरन्तरेँ थक्केँवि[1] पभणइ रहुवइ णरवर कोक्केँवि ॥ २
'अहोँ विज्जाहर-वंस-पईवहोँ भामण्डल-सुसेण-सुग्गीवहोँ ॥ ३
जम्ववं-मइसमुद्द-मइकन्तहोँ दहिमुह-कुमुअ-कुन्द-हणुवन्तहोँ ॥ ४
रम्भ-विराहिय-तार-तरङ्गहोँ चन्दकिरण-करणङ्गय-अङ्गहोँ ॥ ५
गवय-गवक्ख-सुसङ्ख[2]-णरिन्दहोँ णल-णीलहोँ माहिन्द-महिन्दहोँ ॥ ६
इन्दइ-कुम्भयण्ण लहु[3] आणहोँ लोयाचारु करहोँ[4] सरेँ[5] ण्हाणहोँ' ॥ ७
तं णिसुणेवि वुत्तु सामन्तेँहिँ पञ्च-पयार-मन्त-मइवन्तेँहिँ[6] ॥ ८
'णाह ण होइ एहु भल्लारउ[7] सव्वहँ[8] जणण-वइरु वड्डारउ[7] ॥ ९

॥ घत्ता ॥

इन्दइ-राणउ[7] सलिलु णिएँवि जइ कह वि [1]वियट्टइ[9] ।
तो अम्हारउ[7] खन्धावारु सव्वु दलवट्टइ ॥ १०

[१६]

किण्ण परक्कमु वुज्झिउ जइयहुँ सुर-वलेँ जुज्झिउ ।
जिणेँवि वला वलवन्तहोँ भग्गु मरट्टु [1]जयन्तहोँ ॥ १

5 A उं. 6 A °घडिउ. 7 S A °य°. 8 S A°व°.

15. 1 S A °क्किवि. 2 A °सुसेण. 3 S लइ. 4 S A °हु. 5 A सिरि. 6 S °वंतहि, A वंतहिं. 7 A उं. 8 S A °ह. 9 S °ड्डइ.

16. 1 A °हिं.

[१४] १ T पानीयरहितः. २ मदं मुंचति. ३ सर्षपः.
[१५] १ T विघट्टते.
[१६] १ T इंद्रपुत्रस्य.

अण्णु वि पवण-पुत्तु जस-लुद्धउ   सो वि णाग-वासेहिँ णिवद्धउ ॥ २
भामण्डलु सुग्गीउ सहत्थें   वद्ध ते वि तेण जि दिव्वत्थें ॥ ३
अण्णु वि कुम्भयण्णु किं धरियउं[2]   जइयहुँ सण्णहेवि णीसरियउं[2] ॥ ४
तहिँ अवसरें जं तेण वियम्भिउ   किण्ण दिट्ठु वलु सयलु वि थम्भिउ ॥ ५
अण्णु वि मारुइ आवइ पाविउ   तारा-सुऍण दुक्खु छोडाविउ ॥ ६
ते विण्णि अणिलाणल-सरिसा   केण पडिच्छिय वद्धामरिसा ॥ ७
वद्धा किण्ण हुन्ति[3] मणि उज्जल   वद्धा मउ मुअन्ति किं मयगल ॥ ८
वद्धा कव्वालाव भडारा   किण्ण हुन्ति[3] जणवऍ गुरुआरा ॥ ९

॥ घत्ता ॥

आयहुँ हत्थेंण   भाइ-वइरु परिअड्ढेंवि भीसणु ।
एउ ण जाणहुँ   काइँ करेसइ छेऍं[4] विहीसणु ' ॥ १०

[१७]

[1]तं णिसुणेवि हलीसें   वुच्चइ विहुणिय-सीसें ।
'लक्खण-संमु[3] किय-पेसणु   विहडइ केम विहीसणु ॥ १
विणयवन्तु अच्चन्त-सणेहउ[2]   अण्णु वि खत्तिय-मग्गु ण एहउ ॥ २
जेण समाणु रोसु[3] सो हम्मइ   [2]अवसें सहुँ अवसाणु ण गम्मइ ॥ ३
अहवइ किं करन्ति ते कुद्धा   भग्ग-मडप्फरें[5] संसऍ छुद्धा ॥ ४
उक्खय-दन्त मत्त मायङ्ग व   दाढुप्पाडिय पवर भुवङ्ग व ॥ ५
णहर-पहर-परिहीण मइन्द व   उण्णइ-भग्ग महीहर-विन्द व' ॥ ६
लद्धाएस पधाइय किङ्कर   उक्खय-पहरण-णियर-भयङ्कर ॥ ७
गम्पिणु तेण असेस वि राणा   दुम्मण दीण णिरुण्णय-माणा ॥ ८
लक्खण-रामहुँ[6] पासु पराणिय[7]   सहुँ अन्तेउरेण सरें[8] ण्हाणिय ॥ ९

2 A °उं. 3 A होंति. 4 S A च्छेइ.

17. 1 reads दुवई in the beginning. 2 A सणाहउ. 3 A सेसु. 4 S सहु, A पहु. 5 S °रु. 6 S °हु, A °हो. 7 After this pāda S has the following extra passage :.

दुम्मण पेच्छेवि रामें भाणिया ।
गउ लङ्केसरु णियअवराहें   तुम्हइं सोह दिंति वद्धाहिं ॥
वद्धा सोहहि गयवरदंतइ   णववहुवर जिह पेमणिवद्धइ ॥
करे कंकण चामीयरघडियइ   सोह दिंति हीरामणिजडियइ ॥
सोहइ जलु वरवरणिहि वद्धउ   सोहइ कव्वु सुकइयणिवद्धउ ॥
सोहइ वयह वद्धु मुणिचित्तु व   मुट्ठिहि वद्धउ असि दिप्पंतु व ॥
रायपट्टु णिवमत्थइ वद्धउ   वरु सोहइ सेहरहं णिवद्धउ ॥
जिह सइचित्तु सुकाहणिवद्धउ   भडु तिह सोहइ रणमहि वद्धउ ॥
इय भणेवि पउमें सम्माणिय ॥

॥ घत्ता ॥

लोयाचारेँण पाणिउ दिण्णु दसाणण-वीरहोँ ।
अञ्जलि-उडेँहिँ व पर घिवन्ति लायण्णु[9] सरीरहोँ ॥ १०

[१८]

अह दहमुह-पियइत्तिहिँ मुच्छावियएँ[1] (?) धरित्तिहिँ[2] ।
[1]पच्चुज्जीविय-अत्थएँ सलिलु घिवन्ति[3] व मत्थएँ ॥ १
अहवइ वसुमईएँ जं दिण्णउ[4] सोक्खु असेसु वि आसि उच्छिण्णउ[5] ॥ २
तं पहु पच्छएँ मग्गिज्जन्तइँ दिन्ति णाइँ[6] वेवन्त-रुवन्तइँ ॥ ३
पुणु वि पडीवइँ वुड्डुइँ सरवेँ णं पाविट्ठइँ णरयब्भन्तरेँ ॥ ४
पुणु णीसरियइँ सरहोँ रउद्दहोँ णं भवियइँ संसार-समुद्दहोँ ॥ ५
जलु[7] लायण्णु णाइँ[5] मेल्लन्तइँ[6] णं तिवलीउ तरङ्गहुँ देन्तइँ[6] ॥ ६
वड्डिम सरहोँ मरालहुँ थिर-गइ चक्कवाल-जुवलहुँ थण-सङ्गइ ॥ ७
मुह-अणुराउ रत्त-अरविन्दहुँ महु आलावउ[8] महुअर-विन्दहुँ ॥ ८
वत्त-सोह सयवत्त-सहासहुँ णयण-च्छवि कुवलयहुँ असेसहुँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

णीरु तरेप्पिणु जुअइ-सहासइँ साइउ दिन्ति ।
पीलेँवि[9] पीलेँवि[10] कलुणु महा-रसु णाइँ[6] लइन्ति ॥ १०

[१९]

तोँव विहीसण-णामेँ किय-दूरहोँ जि पणामेँ ।
लायण्णम्भ-महासरि[2] धीरिय लङ्क-पुरेसरि ॥ १
'वाल-मराल-लील-गइ-गामिणि अज्ज वि रज्जु तुहारउ सामिणि ॥ २
सोहउ तं जेँ तुहारउ[3] पेसणु छत्तइँ ताइँ तं जि सीहासणु ॥ ३

8 S पहु, A सरि. 9 S A °ण्ण.

18. 1 A °अइ. 2 S A °हो. 3 A °वति. 4 A °उं. 5 S उच्छिण्णओ, A उच्छिण्णउं. 6 S A °इ. 7 S जले. 8 A आलावणउं. 9 S A पीलिवि. 10 S पीलिवि, A उपीलिवि. 11 S लिंति.

19. 1 S reads दुवई in the beginning. 2 S °ण्णुब्भ°. 3 A °उं.

[१७] १ T reads समुक्किय and glosses it as सम्यक्प्रकारेण कृतः. । २ T reads अवसेसहु and glosses it as अवशेषस्य.

[१८] T १ पाश्चात्य (?).

चमरइँ ताइँ ताइँ धय-दण्डइँ   रयण-णिहाणइँ[4] वसुह-ति-खण्डइँ[5] ॥ ४
ते जि तुरङ्ग ते जि गय सन्दण   ते जि तुहारा सयल वि णन्दण ॥ ५
ते जि असेस भिच्च हियइच्छा   ते जि णराहिव आण-वडिच्छा ॥ ६
सा तुहुँ सा जें लच्छि परमेसरि   इन्दइ भुञ्जउ सयल वसुन्धरि' ॥ ७
तं णिसुणेवि पवोल्लिउ [१]रावणि   विज्जाहर-कुमार-चूडामणि ॥ ८
'लच्छि कुमारि व चञ्चल-चित्ती   किह भुञ्जमि[7] जा ताएं भुत्ती ॥ ९

॥ घत्ता ॥

पहु मइँ[8] कलएँ   सव्व-सङ्ग-परिचाउ करेवउ ।
सहुँ परिवारेंण   पाणि-पत्तें आहारु लएवउ' ॥ १०

[२०]

[1]तं णिसुणेंवि णीसामेंण   पुलउ वहन्तें रामेंण ।
साहुक्कारिउ रावणि   'होहि भव-चूडामणि' ॥ १
एम भणेंवि जयलच्छि-णिवासहों   सव्वइँ णियइँ णियय-आवासहों ॥ २
परिहावियइँ [१]दुकूलइँ वत्थइँ   वायरणइँ[2] व लद्ध-सदत्थइँ ॥ ३
परिहावियउ दसाणण-पत्तिउ   सहु केउरेंहिँ विमुक्कउ पोत्तिउ ॥ ४
णेउर-णिवहु समउ [२]लय-मग्गें   रसणा-दामइँ सहुँ सोहग्गें ॥ ५
अङ्गुत्थलियउ वन्तणि[3]-सोहेंहिँ(?)   चूडा-वन्ध समउ घर-मोहेंहिँ ॥ ६
सहुँ केऊरा[4]लिङ्गण-भावेंहिँ   कण्ठा कण्ठ-ग्गहण-सहावेंहिँ ॥ ७
मणि-कुण्डलइँ समउ तणु-तेएँ[5]हिँ   वर-कण्णावयंस सहुँ गेएँ[6]हिँ ॥ ८
छुहिय हिय(?) तिलय सहुँ माणें[7]हिँ   चूडामणि पिय-पणय-पणामेंहिँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

एव विमुक्कइँ[8]   विसय-सुहेहिँ समउ मणि-रयणइँ ।
णवर ण मुक्कइँ   दिढइँ[9] स इं भु एण गुरु-वयणइँ ॥ १०

[10]जुंज्झकंडं समाप्तम् ॥

* *
*

4 S A °इ. 5 S °खंडइ, A °खेडइ. 6 A °य. 7 A च्छंजमि. 8 A एहु.

20. 1 S reads दुवई in the beginning. 2 S °णाइ, A °णइ. 3 S वत्थणि°. 4 A केजरा°. 5 S °तेयहि, A °तेयहिं. 6 S °गेयहि, A °गेएहुं. 7 S A °माणि°. 8 S A °इ. 9 S दिढ. 10 Wanting in A.

[१९] १ इन्द्रजित्
[२०] १ पट्टवस्त्राणि. २ कला.

कइराय-सयम्भुएव-किउ

पउमचरिउ

पञ्चमं उत्तरकण्डं

[७८. अट्ठसत्तरिमो संधि]

रावणेँण मरन्तें दिण्णु सुहु सुरहुँ दुक्खु वन्धव-जणहोँ ।
रामहोँ कलत्तु लक्खणहोँ जउ अविचलु रज्जु विहीसणहोँ ॥

[१]

जससेसीहूअएँ दहवयणेँ पडिवण्णएँ दिणमणि अत्थवणेँ ॥ १
छप्पण्ण-सएहिँ महा-रिसिहिँ तव-सूरहुँ णासिय-भव-णिसिहिँ ॥ २
णामेण साहु अपमेयवलु थिउ णन्दण-वणेँ मेरु व अचलु ॥ ३
उप्पण्णु णाणु तहोँ मुणिवरहोँ एत्तहेँ[1] वि परम-तित्थङ्करहोँ ॥ ४
धण-कणय-रयण-कामिणि-पउरेँ अइसुन्दरेँ [१]सुन्दर[2]रयण-पुरेँ[3] ॥ ५
जे वन्दणहत्तिएँ तेत्थुं[3] गय ते इह वि पराइय अमर-सय ॥ ६
एत्तहेँ रहु-तणउ स-साहणु वि एत्तहेँ इन्दइ घणवाहणु वि ॥ ७
[4]सयलेहिँ वि वन्दणहत्ति किय रयणीयर पुणु वोल्लन्त[5] थिय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

‘तुम्हागमु उग्गमु केवलहोँ अण्णु एउ देवागमणु ।
गय-दिवसेँ भडारा होन्तु[6] जइ तो मरन्तु[7] किं दहवयणु’ ॥ ९

[२]

परमेसरु केवल-णाण-णिहि णिसियरहँ विअक्खइ धम्म-विहि ॥ १
“विसमहोँ दीहरहोँ अणिट्ठियहोँ तिहुयण-[2]‘वम्मीय[1]’-परिट्ठियहोँ ॥ २
को काल-भुयङ्गहोँ उव्वँरइ[2] जो जगु जेँ सव्वु उवसंङ्करइ[3] ॥ ३

1. 1 S A °हि. 2 S T °रमण°. 3 S A तित्थु. 4 S सयले, A सयलेहि. 5 S °ति· 6 S हुंतु. 7 S °ति.

2. 1 S °वम्मीह°. 2 S उच्च°, A उव्वरइं. 3 S °संह°.

[१] १ T नामेदम्.
[२] १ T विषमस्य. २ वल्मीकः.

तहों जहिँ जहिँ कहि मि दिट्ठि रमइ तहिँ तहिँ णं मइयवट्टु भमइ ॥ ४
केँ वि गिलइ [4]गिलेँवि[5] केँ वि उग्गिलइ काहि(?) मि जम्मावसाणेँ[6] मिलइ ॥ ५
केँ वि णरय-विलेँहिँ पइसेँवि गसइ काहि(?) वि अणुलग्गउ जेँ वसइ ॥ ६
केँ वि कड्ढइ सग्गहों वरि चडेँवि केँ वि खयहों णेइ उप्परेँ पडेँवि ॥ ७
केँ वि घारइ घोरेँएँ[8] [3]पाव-विसेँण[9] केँ वि भक्खइ णाणाविह-मिसेँण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तहों को वि ण चुक्कइ भुक्खियहों काल-भुअङ्गहों दूसहहों ।
जिण-वयण-रसायणु लहु पियहों जें अजरामरु पउ लहहों ॥ ९

[३]

जइ काल-भुअङ्गु ण उवडसइ तो किं सुरवइ सग्गहों खसइ[2] ॥ १
कहिँ रावणु सुरवर-डमर-करु दस-कन्धरु दस-मुहु वीस-करु ॥ २
वहुरूविणि जसु पेसणु करइ जसु णामें तिहुयणु थरहरइ ॥ ३
जसु चन्दु ण णहयलेँ तवइ रवि जसु तलवरु वत्थइँ धुवइ हुँवि ॥ ४
जसु पङ्गणु वोहारइ[3] पवणु कोसाणुपालु जसु [2]वइसवणु ॥ ५
घण छडउ देन्ति[4] सरसइ झुणइ जसु वणसइ[5] पुप्फच्चणु कुणइ ॥ ६
सा सम्पय गय कहिँ[6] रावणहों कहिँ[6] रावणु कहिँ[6] सुहु[7] परियणहों ॥ ७

॥ घत्ता ॥

अम्ह वि तुम्ह वि अवरह मि सव्वइँ एक्कहिँ मिलियाइँ ।
पेक्खेसहुँ काल-भुअङ्गमेँण[9] अज्ज व कल्ल व गिलियाइँ ॥ ८

[४]

सो काल-भुअङ्गमु दुव्विसहों[1] अण्णु वि[1] विसमउ परिवारु तहों ॥ १
अच्छइ परिवेढिउ सप्पिणिहिँ[3] विहिँ[4] ओसप्पिणि-अवसप्पिणिहिँ ॥ २

---

4 S गिलइ. 5 A omits the rest of the line 5. 6 S °णि. 7 S च°. 8 S थोरइ, A घोरइं. 9 A °रसेण.

3. 2 A षडइ. 3 S उवहारइ. 4 S दिंति, A देत्ति. 5 A वसुमइ. 6 S A °हि. 7 S सहु, A सुहुं. 8 S A इ. 9 A °मसेण.

4. 1 S °हु, A °हुं. 2 S °हे, A °हुं. 3 S °हि, A °हो. 4 S A °हि.

---

३ पापविषेन.

[३] १ वैश्वांद(न)रः. २ धनदः.

[४] १ T विषमः साहङ्कारः.

एक्केक्कहेँ[5] [2]तिण्णि तिण्णि समय   सु[3]-दु-पढम-समुत्तर-णाम णय ॥ ३
ताहँ[6] वि उप्पण्ण सट्ठि तणय   संवच्छर-णाम पसिद्धि गय ॥ ४
एक्केक्कहोँ[7] विण्णि कलत्ताइँ   अयणइँ णामेण पहुत्ताइँ ॥ ५
एक्केक्कहोँ तहिँ छ-च्छङ्गरुह   फग्गुण-अवसाण[8] चेत्त-पमुह ॥ ६
एक्केक्कहोँ तहोँ वि धवल-कसण   उप्पण्ण पुत्त दुइ दुइ जेँ जण ॥ ७
एक्केक्कहोँ तहिँ[9] वि पाण-पियउ   पण्णारह पण्णारह तियउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

एँहु[10] परियणु काल-भुअङ्गमहोँ   अवरु गणेँवि केँ[11] सक्कियउ ।
सो तेहउ तिहुअणेँ को वि ण वि   जो ण वि आएं डक्कियउ[12] ॥ ९

[५]

तं णिसुणेँवि करुण-रसब्भइय   इन्दइ-घणवाहण पव्वइय ॥ १
मय-कुम्भयण्ण-मारिच्चि तिह   अवर वि णरिन्द अमरिन्द-णिह ॥ २
सहसत्ति जाय सीलाहरण   आयास-वास कर-पावरण[1] ॥ ३
मन्दोयरि वय-गुण-वन्तियहेँ   कन्तियहेँ पासेँ ससिकन्तियहेँ ॥ ४
[2]णिक्खन्त समउ अन्तेउरेँण   साहरणोत्तारिय-णेउरेँण ॥ ५
पव्वइउ को वि पव्वइउ ण वि   णहेँ णाइँ णिहालउ आउ रवि ॥ ६
रवि उइउ विहीसणु गयउ तहिँ[1]   नन्दण-वर्णे जणयहोँ[3] तणय जहिँ ॥ ७
आहरणइँ वत्थइँ ढोइयइँ   वइदेहिएँ ताइँ ण जोइयइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

'मलु केवलु आयइँ सव्वइ मि   जइ मणेँ मलिणु मणम्मणउ[2] ।
णिय-पइहेँ मिलन्तिहेँ कुल-वहुहेँ   सीलु जि होइ पसाहणउ[3] ॥ ९

5 S °हि, A °ए. 6 S A ताह. 7 S हि. 8 P S A °णु. 9 P S A °हि. 10 P एउ, S यउ. 11 P S किं. 12 A खंडियउ.

5. 1 P S A तहि. 2 A °उं.

२ T षट् समयः . ३ T अत्र यथासङ्ख्येन त्रयः सुशब्दपूर्वास्त्रयो दुशब्दपूर्वा एवमेते षडपि दुः(?)खमा-शब्दोत्तरस्तद् यथा । सुखमसुखमा । सुखमा । सुखमदुःखमा । दुःखमसुखमा । दुःखमा । दुःखमदुःखमा. ४ तदाह । प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथी, विक्रम, वृष, चित्रभानु, सुभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजित्, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर, नंदन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलंब, विलंबी, विकारी, सर्वधारी, प्लवंग, सुभिक्ष, शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्रलंब, कीलक, सौम्य, साधारण विरोध, परिधावी, प्रमादी, आनंद, राक्षस, नल, पिंगल, काल, सिद्धार्थ, रौद्र, दुर्मति, दुंदुभि, रुधिरोद्गारी, रक्ताक्ष, क्रोधन, क्षय । इति षष्टिपुत्राः. ५ उत्तरदक्षिणायनौ.

[५] १ वस्त्र. २ दीक्षिता. ३ सीता.

[६]

जइ जामि आसि परिचत्त-भय तो सहुँ हणुवन्तें किण्ण गय ॥ १
विणु णिय-भत्तारें जन्तियहें कुलहरु जें पिसुणु कुलउत्तियहें ॥ २
पुरिसहुँ चित्तइँ आसीविसइँ अलहन्त वि उद्दिसन्ति मिसइँ[1] ॥ ३
वीसासु जन्ति णउ इयरहु मि सुय-देवर-भायर-पियरहु मि’ ॥ ४
तं वयणु सुणेवि महासइहें गउ पासु विहीसणु रहुवइहें ॥ ५
‘[1]अहों अहों परमेसर दासरहि पच्छएँ लङ्काउरि पइसरहि ॥ ६
मिलि ताव भडारा जाणइहें तरु दुत्तर[2]-विरह-महाणइहें ॥ ७
चडु तिजगविहूसण-कुम्भयलें मय-परिमल-मेलाविय-भसलें’ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं णिसुणेंवि हलहरु चक्कहरु सीयहें पासें समुच्चलिय ।
अहिसेय-समएँ सिरि-देवयहें दिग्गय विण्णि णाइँ[1] मिलिय ॥ ९

[७]

वइदेहि दिट्ठ हरि-हलहरेंहिँ णं चन्दलेह ‘विहिँ[1] जलहरेंहिँ ॥ १
णं सरय-लच्छि पङ्कय-सरेंहिँ णं पुण्णिम[2] विहिँ पक्खन्तरेंहिँ ॥ २
णं सुर-सरि हिमगिरि-सायरेंहिँ णं णह-सिरि चन्द-दिवायरेंहिँ ॥ ३
परिपुण्ण मणोरह जाणइहें तरइ व लायण्ण-महाणइहें ॥ ४
णिय-णयण-सरासणि सन्धइ व पिउ पगुण-गुणेहिँ णिवन्धइ व ॥ ५
जस-कद्दमें णं जगु लिम्पइ व [2]हरिसंसु-पवाहें सिप्पइ[3] व ॥ ६
विज्जेइ व करयल-पल्लवेंहिँ अच्चेइ[4] व णह-कुसमेंहिँ णवेंहिँ ॥ ७
पइसरइ व हियएँ हलाउहहों करइ व उज्जोउ दिसामुहहों ॥ ८

॥ घत्ता ॥

[3]मेहलिएँ मिलन्तहों रहुवइहें [3]सुहु उप्पण्णउ[5] जेत्तडउ ।
इन्दहों इन्दत्तणु पत्तहों होज्ज ण होज्ज व तेत्तडउ ॥ ९

---

6. 1 PSA °इ. 2 PSA दुत्तर.
7. 1 PSA °हि. 2 P पुन्नए, S पुण्णइ. 3 A सिंचइ. 4 P अंचेइ. 5 A °उं.

---

[६] १ नरप्रधान.
[७] १ T समुद्रयुग्मेण (?). २ T हर्षाश्रुप्रवाहेन. ३ सीतायाः.

[८]

स-कलत्तउ लक्खणु पणय-सिरु   पभणइ जलहर-गम्भीर-गिरु ॥ १
'जं किउ खर-दूसण-तिसिर-वहु   जं हंसदीवेँ जिउ हंसरहु ॥ २
जं सत्ति पडिच्छिय समर-मुहेँ   जं लग्ग विसल्ल करम्वुरुहेँ ॥ ३
जं रणेँ उप्पण्णु चक्क-रयणु   जं णिहउ वलुद्धरु दहवयणु ॥ ४
तं देवि पसाएं तउ तणेंण   कुलु धवलिउ जाएँ संइत्तणेंण[1]' ॥ ५
[2]अहिवायणु किउ सक्खणेंण जिह   सुग्गीव-पमुह-णरवरहिँ तिह ॥ ६
सयल वि णिय-णिय-वाहणेंहिँ थिय   पर-पुर-पवेस-सामग्गि किय ॥ ७
जय-मङ्गल-तूरइँ ताडियइँ[2]   रिउ-घरिणिहिँ चित्तइँ पाडियइँ[3] ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पइसन्तहँ वल-णारायणहँ   णयरु मणोहरु[4] आवडिउ ।
णं सुरहुँ[5] धरन्त-धरन्ताहुँ   तुट्टेवि सग्ग-खण्डु पडिउ ॥ ९

[९]

पइसन्तें वल-णारायणेंण   [1]चव चालिय णायरियाणणेंण ॥ १
'एँहु सुन्दरि सोक्खुप्पायणहों   [2]अहिरामु रामु [3]रामा-यणहों ॥ २
एँहु लक्खणु लक्खण-लक्ख-धरु   जूरावण-रावण-पलय-करु ॥ ३
एँहु भामण्डलु [4]भा-भूस-भुउ   वइदेहि-सहोयरु जणय-सुउ ॥ ४
एँहु किक्किन्धाहिउ दुद्दरिसु   [5]तारावइ तारावइ-सरिसु ॥ ५
एँहु अङ्गउ जेण मणोहरिहेँ   केसग्गहु किउ मन्दोयरिहेँ ॥ ६
एँहु सुरवइ-करि-कर-पवर-भुउ   णन्दण-वण-मद्दणु पवण-सुउ ॥ ७
एँहु कुमुउ विराहिउ[1] णीलु णलु   एँहु गवउ गवक्खु सङ्खु[2] पवलु' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तहिँ कालेँ लङ्क पइसन्ताहों[3]   परम रिद्धि जा हलहरहों ।
सो अमराउरि भुञ्जन्ताहों[4]   होज्ज ण होज्ज पुरन्दरहों ॥ ९

8. 1 S A थिउ. 2 P °आइं, S °याइ, A °याइं. 3 P °आइ, S °याइ, A आइं. 4 P S A मणोरहु. 5 P S A °हु.

9. 1 A °वु. 2 P S संख. 3 P पइसंतहो, S पईसंतहो. 4 P S A भुंजंतहो.

[८] १ सतीत्वेन. २ जोकारं.

[९] १ वार्ता परस्परं कथयंति. २ मनोज्ञः. ३ स्त्रीजनस्य. ४ दीप्त्या भूषितभुजः. ५ सुग्रीवः चन्द्रसमानः.

[१०]

पइसरइ रामु रावण-भवणु दक्खवइ णिवाणइँ[1] सयलु जणु ॥ १
[१]इह मेह-उलेँहिँ दिज्जइ छडउ इह सक्कु पसाहइँ[2] गय-घडउ ॥ २
किय अच्चण एत्थु वणस्सइएँ[3] इह गाय(?)उ गेउ[4] सरस्सइएँ ॥ ३
इह [२]णिक्कउ करइ आसि पवणु इह भण्डागारिउ वइसवणु ॥ ४
इह वत्थइँ [३]सिहिण पडिच्छियइँ[5] सुर-वन्दि-सयइँ इह अच्छियइँ ॥ ५
अणवसरु [४]पियामह-हरि-हरहोँ अत्थाणु एत्थु दसकन्धरहोँ ॥ ६
आयरणु एत्थु जम-तलवरहोँ इह मेलउ णाग-णरामरहोँ ॥ ७
इह णव-गह दमिय दसाणणेँण इह अच्छिउ सहुँ [५]वणियायणेँण[6] ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पेक्खन्तु [६]णिवाणइँ[7] रावणहोँ कहि मि ण रहुवइ रइ करइ ।
स-कलत्तु स-भाइ स-भिच्चयणु सन्ति-जिणालउ पइसरइ ॥ ९

[११]

थुओ सन्ति-णाहो [१]कयक्खावराहो ॥ १
हयाणङ्ग-सङ्गो पभा-भूसियङ्गो ॥ २
दया-मूल-धम्मो पणट्ठट्ठ-कम्मो ॥ ३
तिलोयग्ग-गामी [२]सुणासीर-सामी ॥ ४
महा-देव-देवो पहाणूढ-सेवो ॥ ५
जरा-रोग-णासो असामण्ण-भासो ॥ ६
समुप्पण्ण-णाणो कयङ्गि-प्पमाणो ॥ ७
ति-सेयायवत्तो महा-रिद्धि-पत्तो ॥ ८
अणन्तो महन्तो अ-कन्तो अ-चिन्तो ॥ ९
अ-डाहो अवाहो अ-लोहो अ-मोहो ॥ १०
अ-कोहो अरोहो अ-जोहो अ-मोहो ॥ ११
अ-दुक्खो अ-भुक्खो अ-माणो समाणो ॥ १२
अ-जाणो सजाणो अ-णाहो वि णाहो[1] ॥ १३

---

10. 1 P S °णइ, A °रइं. 2 P S °उ. 3 P S वणास°. 4 P S चक्कारिउ एत्थु. 5 P °च्चिअइ, S °च्चियइ. 6 P S °जणेण. 7 P S A °इ.

11. 1 P reads थुवो संतिणाहो and S थुओ संतिणाहो after 13 b.

---

[१०] १ गीतं कृतं. २ वुहारणौ. (Hindi वुहारना). ३ अग्निना. ४ ब्रह्मा. ५ वनिता-जनेन. ६ शुभस्थानानि.

[११] १ कृत इंद्रियाणामपराधस्य. २ T इंद्रः.

॥ घत्ता ॥

थुइ एम करेँवि किर वीसमइ ताव पडिच्छिय-पेसणेँण ।
स-कलत्तु स-लक्खणु स-वलु वलु णिउ णिय-णिलउ विहीसणेँण ॥ १४

[१२]

सु-वियड्ढ [२]वियड्ढाएवि लहु[१] वर-जुवइहुँ दसहिँ सएहिँ सहुँ ॥ १
दहि-दोव-जलक्खय-गहिय-कर गय तहिँ जहिँ[२] हलहर-चक्कहर ॥ २
आसीसहिँ सेसहिँ पणवणेँहिँ जय-णन्द-वद्ध-वद्धावणेँहिँ ॥ ३
उच्छाहेँहिँ धवलेँहिँ मङ्गलेँहिँ पडु-पडहेँहिँ सङ्खेँहिँ मन्दलेँहिँ ॥ ४
कइ-कहएँहिँ णड-णट्टावएँहिँ गायण-वायण-फम्फावएँहिँ ॥ ५
णर-णायर-वम्भण-घोसणेँहिँ अवरेहि मि चित्त-परिओसणेँहिँ ॥ ६
मन्दिरु पइसरइ विहीसणहोँ मज्जणउँ[३] भरिउ[४] रहु-णन्दणहोँ ७
पुणु ण्हवणासण-परिहावणेँहिँ [३]दसकण्ठ-कोस-दरिसावणेँहिँ ८

॥ घत्ता ॥

गउ दिवसु सव्वु[५] पाहुणएँण[६] लब्भइ तो वि पमाणु ण वि ।
'सुहु[७] सुअउ सीय सहुँ[८] रहु-सुएँण' एम भणेँवि[९] णं ल्हिक्कु रवि ॥ ९

[१३]

तो भणइ विहीसणु 'दासरहि अणुहुञ्जि भडारा सयल महि ॥ १
सीयऽग्ग-महिसि [१]तुहुँ रज्ज-धरु[२] सोमित्ति मन्ति हउँ आण-करु ॥ २
रमणीय एह लङ्का-णयरि एँहु तिजगविहूसणु पवर-करि ॥ ३
एँहु पुप्फ-विमाणु पहाणु घरेँ एँउ चन्दहासु करवालु करेँ ॥ ४
सिंहासण-छत्तइँ चामरइँ[३] लइ उवसमन्तु रिउ-डामरइँ' ॥ ५
तं णिसुणेँवि पभणइ दासरहि 'अणुहुञ्जि विहीसणु तुहुँ जेँ महि ॥ ६
अम्हहुँ घरेँ भरहु जेँ रज्ज-धरु जसु जणणिहिँ ताएं दिण्णु वरु ॥ ७
तुम्हहुँ घरेँ तुज्झु जेँ राय-सिय सइ जासु वियड्ढाएवि तिय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

णहेँ सुरवर महियलेँ मेरु-गिरि जाव महा-जलु मयरहरेँ ।
परिभमइ कित्ति जगेँ जाव महु ताव विहीसण रज्जु करेँ' ॥ ९

12. 1 P S °हुं. 2 P S A °हि. 3 S A °उं. 4 P भणिउ. 5 P S साउ. 6 P S A पाहुण°. 7 A सुहि. 8 P S A °हु. 9 P S A भणिवि.
13. 1 P S A तुहु. 2 S A रज्जु°. 3 P S A °इ.

[१२] १ विभीषणस्य राज्ञी. २ 'वहुकण्ण' पाठे 'प्रचुरकन्यः'. ३ सर्वोत्सवेन.

[१४]

अहिसेउ विहीसणेँ आढविउ भामण्डलु कलसु लएवि थिउ ॥ १
सुग्गीउ विराहिउ णीलु णलु दहिमुहु महिन्दु मारुइ पवलु ॥ २
अट्ठहि मि तेहिँ सुह-दंसणहोँ पल्हत्थिय कलस विहीसणहोँ ॥ ३
सइँ वद्धु पट्टु रहु-णन्दणेँण[1] वहु-दिवसेँहिँ[2] राम-जणद्दणेँण[3] ॥ ४
[1]जाउ वि माणियउ ण माणियउ ताउ वि तहिँ तुरिउ पराणियउ ॥ ५
णं सुर-वहुअउ सग्गहोँ चुअउ सीहोयर-वज्जयण्ण-सुअउ ॥ ६
कल्लाणमाल वणमाल तहँ[4] जियपोम सोम जिण-पडिम जिह ॥ ७
कइपुङ्गम-दहिमुह-णन्दणिउ[5] ससिवद्धण-णयणाणन्दणिउ[5] ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वहु[2]-विन्दइँ आयइँ[6] अवरइ मि सव्वइँ[7] तहिँ जेँ समागयइँ[7] ।
अच्छन्तहँ वल-णारायणहँ लङ्कहेँ वरिसइँ [3]छहँ[8] गयइँ[9] ॥ ९

[१५]

तहिँ कालेँ सुकोसल-राणियहेँ णन्दण-विओय-विद्दाणियहेँ ॥ १
रत्तिन्दिहु[1] पहु जोअन्तियहेँ पन्थिय-पंउत्ति[1]-पुच्छन्तियहेँ ॥ २
घर-पङ्गणेँ[2] वायसु कुलकुलइ णं भणइ 'माएँ रहुवइ मिलइ' ॥ ३
रिसि णारउ ताव पराइयउ थुउ पुच्छिउ 'केत्तहोँ[3] आइयउ' ॥ ४
तेणँ[2] वि णिय-वइयरु [3]विमलु कउँ[4] 'परमेसरि पुव्व-विदेहेँ गउ ॥ ५
वन्दन्तहोँ [4]तेत्थु[5] तित्थ-सयइँ सत्तारह वरिसइँ ववगइँ ॥ ६
पुणु तेत्थहोँ[6] लङ्का-णयरि गउ जहिँ लक्खण-चक्कें वइरि हउ ॥ ७
[5]पडि पुव्व-विदेहु पराइयउ तेवीसहुँ वरिसहुँ आइयउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

लक्खणु विसल्ल वइदेहि वलु लङ्कहिँ रज्जु करन्ताइँ ।
अच्छन्ति माएँ लुहि लोयणइँ तउ दक्खवमि जियन्ताइँ' ॥ ९

14. 1 P adds marginally after 4 a : सहु कन्हें रिउवलमद्दणेण. 2 P °द्दणेहिं. 3 After 4 b P adds marginally : तहो चित्तु वियाणिउ वुहजणेहिं. 4 P S तहिं. 5 P S A °णीउ. 6 P आयाइं, S आयाइ. 7 P S A °इ. 8 P A च्छ. 9 A गग.

15. 1 P °दिउ, A °द्दिहु. 2 P S °स. 3 P °हे, S °हि. 4 P S किउ. 5 S तत्थु, A तेत्थुइ. 6 P S °इ.

[१४] १ ये स्त्री कदाचित् संभोगविषये न सन्मानिता सिंहोदरवज्रकर्णसुतादीनि. २ वधूसमूहानि एतानि. ३ षड् वर्षाणि गतानि.

[१५] १ प्रयुक्तिः. २ नारदेन. ३ प्रकटं. ४ T पूर्वविदेह-वर्तमान. ५ T पुनः, 'पुणु' वा पाठे.

[१६]

गउ लङ्क महा-रिसि मण-गमणु   ‘[1]णिय-वेओ[1]हामिय-खर-पवणु ॥ १
परिभमिर-भमर-झङ्कार-[2]वरेँ   णीलुप्पल-वहु-रय-गन्ध-भरेँ[3] ॥ २
तरु-तीर-लयाहरेँ कुसुमहरेँ[4]   जहिँ अङ्गउ कीलइ कमल-सरेँ ॥ ३
तिहुवण-परिभमिर-पियारऍण   तहिँ थाऍवि पुच्छिउ णारऍण ॥ ४
‘किं कुसलु कुमार वियक्खणहोँ   वइदेहिहिँ रामहोँ लक्खणहोँ’ ॥ ५
तेण वि जिय-सयल-महाहवहोँ   पइसारिउ मन्दिरु राहवहोँ ॥ ६
हलहरेँण वि अब्भुत्थाणु किउ   ‘आगमणु काइँ[5]’ एत्तिउ [2]चविउ ॥ ७
तावसेण वुत्तु ‘तउ माइयहेँ   आयउ पासहोँ अपराइयहेँ ॥ ८
सा तुम्ह विओएं दुम्मणिय   अच्छइ हरिणि व [3]वुण्णाणणिय ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सुहु एक्कु वि दिवसु ण जाणियउ[6]   पइँ वण-वासु पवण्णऍण ।
अच्छइ कन्दन्ति स-वेयणिय   [4]णन्दिणि जिह विणु तणऍण’ ॥ १०

[१७]

उम्माहिउ तं णिसुणेवि बलु   वोल्लइ मउलाविय[1]-मुह-कमलु ॥ १
‘अहोँ मह-रिसि सुन्दरु कहिउ पइँ[2]   जइ अज्जु कलेँ णउ दिट्ठ मइँ ॥ २
तो दंसण-सल्ल-तिसाइयहेँ   उड्डन्ति पाण अपराइयहेँ ॥ ३
णिय-जम्मभूमि जणणिऍ सहिय   सग्गेँ वि होइ अइ-दुल्लहिय ॥ ४
लइ जामि विहीसण णियय-घरु   पइँ मुऍवि अण्णु को सहइ भरु ॥ ५
छव्वरिसइँ एक्क-दिवस-समइँ   ववगयइँ सुरिन्द-सुहोवमइँ[2] ॥ ६
लब्भइ पमाणु सायर-जलहोँ   लब्भइ पमाणु वाणर-बलहोँ ॥ ७
लब्भइ पमाणु लक्खण-सरहोँ   लब्भइ पमाणु दिणयर-करहोँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

लब्भइ पमाणु जिण-भासियहुँ   वयणहुँ [1]णिव्वुइ-गाराहुँ ।
परिमाणु विहीसण लद्धु ण वि   णिरुवम-गुणहँ तुहाराहुँ’ ॥ ९

16. 1 P S °वेवो°, A °वेउ°. 2 P °वरि, S °ववहिरि, A °धरि. 3 P S A °रि. 4 P S °भरे. 5 P S A °इ. 6 A °उं.
17. 1 P S A °उ°. 2 P S A °इ.

[१६] १ निजवेगः. २ T जल्पितः. ३ ऊर्ध्वमुखी. ४ यथा गौः वत्सेन विना.
[१७] १ T मुक्तिस्थानस्य (?).

[१८]

तो भणइ विहीसणु पणय-सिरु थुइ-वयणे[1]-सहासुग्गिण्ण-गिरु ॥ १
'जइ रहुवइ विजय-जत्त करहि तो सोलह वासर परिहरहि ॥ २
हउँ[2] जाव करेमि पुणण्णवियँ[3] उज्झाउरि सव्व सुवण्णमिय' ॥ ३
वल-लक्खण एव परिट्ठविय अग्गएँ वद्धावा पट्ठविय ॥ ४
पुणु पच्छएँ विज्जाहर-पवर णहयलु भरन्त णं अम्वुहर ॥ ५
ओवुट्ठु[4] तेहिँ[5] कञ्चण-वरिसु किउ पुरवरु लङ्काउरि-सरिसु ॥ ६
घरेँ घरेँ मणिकूडागार किय घरेँ घरेँ णं णव-णिहि सङ्कमिय ॥ ७
पुरेँ घोसण तो वि परिब्भमइ 'सो लेउ लएवएँ जासु मइ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं पट्टणु कञ्चण-धणे[6]-पउरु वहइ पुरन्दर-णयर-छवि ।
देन्तउ जें अत्थि पर सयलु जणु जसु दिज्जइ सो को वि ण वि ॥ ९

[१९]

गउ लङ्क विहीसणु भिच्च-वलु सोलहमएँ दिवसेँ पयट्टु वलु ॥ १
स-विमाणु स-साहणु गयण-वहेँ दावन्तु णिवाणइँ पियमहेँ ॥ २
'एँहु सुन्दरि दीसइ मयरहरु एँहु मलय-धराहरु सुरहि-तरु ॥ ३
किक्किन्ध-महिन्द[1]-इन्दसइँल[2] इह तुलिय कुमारें कोडि-सिल ॥ ४
हउँ लक्खणु एण पहेण गय एत्तहेँ खर-दूसण-तिसिर हय ॥ ५
इह सम्वु-कुमारहों खुडिउ सिरु इह फेडिउ रिसि-उवसग्गु चिरु ॥ ६
इह सो उद्देसु णियच्छियउ जियपोम-जणणु जहिँ[3] अच्छियउ ॥ ७
एँहु देसु असेसु वि(?) चारु-चरिउ अइवीर-णराहिउ जहिँ[4] धरिउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं सुन्दरि एउ जियन्तउरु जहिँ[3] वणमाल समावडिय ।
लक्खिज्जइ लक्खण-पायवहों अहिणव वेल्लि णाइँ[5] चडिय ॥ ९

---

18. 1 P S A °णु°. 2 P S A °उ. 3 P S पुण्णणमिय, A पुणण्णमिय. 4 P ओवुद्धु, S ओ, A रवट्ठु. 5 The portion from तेहिं (6 a) up to घोसण (8 a) is omitted in S. 6 P S °जण°.

19. 1 P S °दहो इह. 2 P S A °सयल. 3 P S A °हिं. 4 P A जहि, S जं. 5 P S A °इ.

[२०]

रामउरि एह गुण-गारविय जा पूयण-जक्खें कारविय ॥ १
ऍहु अरुणु गामु कविलहों तणउ[1] जहिँ गलथल्लाविउ अप्पणउ[2] ॥ २
ऍहु दीसइ सुन्दरि विञ्झइरि जहिँ [3]वसिकिउ वालिखिल्लु वइरि ॥ ३
वइदेहि एउ कुव्वर-णयरु कल्लाणमाल जहिँ[4] जाउ णरु ॥ ४
ऍउ दसउरु जहिँ लक्खणु भमिउ सीहोयर[5]-सीहु समरेँ दमिउ ॥ ५
ऍह सा गम्भीर समावडिय जहिँ महु कर-पल्लवेँ तुहुँ चडिय ॥ ६
उहु दीसइ सव्वु सुवण्णमउ णिम्मविउ विहीसणेँ[6] णं णवउ ॥ ७
धूवन्त-धवल-धयवड-पउरु पिऍ पेक्खु अउज्झाउरि-णयरु' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

किर जम्म-भूमि जणणीऍ सम अण्णु विहूसिय जिणहरेँहिँ[7] ।
पुरि वन्दिय सिरेँ[8] स इँ भु व[9] करेँवि[10] जणय-तणय-हरि-हलहरेँहिँ* ॥ ९

*

[७९. एक्कूणासीमो संधि]

सीयहेँ रामहों लक्खणहों मुह-यन्द-णिहालउ भरहु गउ ।
वुद्धिहेँ ववसायहों [1]विहिहेँ णं पुण्ण-णिवहु सवडम्मुहउ[1] ॥

[१]

रामागमणेँ भरहु णीसरियउ हय-गय-रह-णरिन्द-परियरियउ ॥ १
अण्णेत्तहेँ सत्तुहणु स-वाहणु स-रहसु सालङ्कारु स-साहणु ॥ २
छत्त-विमाण-सहासइँ धरियइँ अम्वरेँ रवि-किरणइँ अन्तरियइँ ॥ ३
तूरइँ हयइँ कोडि-परिमाणेँहिँ दुन्दुहि दिण्ण गयणेँ गिव्वाणेँहिँ ॥ ४
जणवउ णिरवसेसु संखुब्भइ रह-गय-तुरऍहिँ मग्गु ण लब्भइ ॥ ५
णिवडियँ[2] एक्कमेक्क-भिडमाणेँहिँ पे ावेल्लि[3] जाय जम्पाणेँहिँ ॥ ६
कण्णताल-हय-महुअर-विन्दहों भरहाहिउ उत्तरिउ[4] गइन्दहों ॥ ७
हरि-वल स-महिल पुप्फ-विमाणहों अवर वि णरवइ णिय-णिय-जाणहों ॥ ८

20. 1 A °उं. 2 P A °उं. 3 P S वसे. 4 P S A °हि. 5 S A °रु. 6 P S A °णि. 7 P °वरेहिं. 8 P S सिर, A सिरि. 9 S A भु. 10 P करेहिं.
1. 1 A °उं. 2 A णियचंडि. 3 A °विह्लि. 4 P S ओवरिउ.

* At the end of the Sandhi: P जुज्झकंडं समत्तं ॥ ज्येष्ट वदि १ सोमे; S जुज्झकंडं सम्मत्तं ॥ छ ॥ ज्येष्ट वदि १ सोमे; A जुज्झुकंडं समाप्त ॥ ज्येष्ट वदि १ सोमे.

[१] T विधिभिः (?)

॥ घत्ता ॥

केक्कय-सुएँण णमन्तएँण सिरु रहुवइ-चलणन्तरेँ कियउ ।
दीसइ[5] विहिँ[6] रत्तुप्पलहँ णीलुप्पलु मज्झेँ णाइँ[7] थियउ[8] ॥ ९

[२]

जिह रामहोँ तिह णमिउ कुमारहोँ अन्तेउरहोँ [१]'पघोलिर'[1]-हारहोँ ॥ १
वलेँण वलुद्धरेण हक्कारेँवि सरहस णिय-भुव-दण्ड पसारेँवि ॥ २
अवरुण्डिउ भायरु लहुवारउ[2] मत्थएँ चुम्बिउ पुणु सय-वारउ[3] ॥ ३
सय-वारउ उच्छङ्गेँ चडाविउ[4] सय-वारउ भिच्चहुँ दरिसाविउ[४] ॥ ४
सय-वारउ दिण्णउ आसीसउ [२]वरिस-सरिस-[३]हरिसंसु-विमीसउ ॥ ५
'भुञ्जि सहोयर रज्जु णिरङ्कुसु णन्द वद्ध जय जीव चिराउसु ॥ ६
अच्छउ वीर-लच्छि भुव-दण्डएँ णिवसउ वसुह तुहारएँ खण्डएँ' ॥ ७
एम भणेवि पगासिय-णामेँ पुप्फ-विमाणेँ चडाविउ रामेँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

भरह-णराहिवु दासरहि लक्खणु वइदेहि णिविट्ठाइँ ।
धम्मु पुण्णु ववसाउ [४]सिय णं मिलेँवि[5] अउज्झ पइट्ठाइँ ॥ ९

[३]

तूरइँ हयइँ णिणद्दिय-ति-जयइँ णन्द-सुणन्द-भद्द-जय-विजयइँ[1] ॥ १
मेह-मइन्द-समुद्द-[2]णिघोसइँ णन्दिघोस-जय[3]घोस-[4]सुघोसइँ ॥ २
सिव-संजीवण[5]-जीवणिणद्दइँ वद्धण-वद्धमाण-[6]माहेन्दइँ ॥ ३
सुन्दर-सन्ति-सोम-सङ्गीयइँ णन्दावत्त-कण्ण-रमणीयइँ ॥ ४
गहिर-पसण्णइँ पुण्ण-पवित्तइँ [१]अवराइँ वि वहुविह-वाइत्तइँ ॥ ५
झल्लरि-भम्भा-भेरि-वमालइँ मद्दल-णन्दि-मउन्दा-तालइँ ॥ ६
करडा-कर[7]डइँ(?) मउन्दा-ढक्कइँ काहल-टिविल-ढक्क-पडिढक्कइँ ॥ ७
[8]ढड्ढिय-पणव-तणव-दडि-दद्दुर डमरुअ-गुञ्जा-रुञ्जा वन्धुर ॥ ८

5 A दीसंति हि. 6 P S A °हि. 7 P S A °इ. 8 P थिअुउ, S यियउ, A ठियउ.

2. 1 P °पहोलिर°, S वरहोलिर°. 2 P °वराउ. 3 P °वाराउ. 4 P °वियउ. 5 P S A मिलिवि.

3. 1 P S A °इ. 2 P S णिग्घो°. 3 P जस°. 4 P S स°. 5 P संजीवणि, S °संजीवणि, A °संजीवणु. 6 P S °माहिं°. 7 P °करणइं, S °करणइ. 8 P दड्डिअ°, S दड्डिय°.

[२] १ T प्रकर्षेण घुलायमानहारस्य. २ वर्षासदृश. ३ T हर्षाश्रु. ४ श्रीसीता च.
[३] १ क्रियार्थोऽपि (?)

॥ घत्ता ॥

अट्ठारह अक्खोहणिउ रयणीयर-णयरहोँ आणियउ[9] ।
अवरहुँ तूरहुँ तूरियहुँ कइ कोडिउ किं परियाणियँउ[10] ॥ ९

[४]

जय-जय-कारु करन्तेँहिँ लोएँहिँ मङ्गल-धवलुच्छाह-[१]पओएँहिँ ॥ १
अइहव-सेसासीस-सहासेँहिँ तोरण-णिवह-छडा-विण्णासेँहिँ ॥ २
दहि-दोवा-दप्पण-जल-कलसेँहिँ मोत्तिय-रङ्गावलि-णव-कणिसेँहिँ ॥ ३
वम्भण-वयणुग्घोसिय-वेएँहिँ कण्डिय-[1]जजु-रिउ-सामा-भेएँहिँ ॥ ४
णड-कइ-कहय-छत्त-फरुफावेँहिँ [2]लङ्घिय-[२]वॅत्ता[3]रुहण-विहावेँहिँ ॥ ५
भट्टेँहिँ वयणुच्छाह पढन्तेँहिँ वायालीस वि सर सुमरन्तेँहिँ ॥ ६
मल्लप्फोडण-सरेँहिँ विचित्तेँहिँ इन्दयाल-उप्पाइय-चित्तेँहिँ ॥ ७
मन्द-फेन्दं[4]-वन्देँहिँ कुदन्तेँहिँ[5] डोम्वेँहिँ वंसारुहणु करन्तेँहिँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पुरेँ पइसन्तहोँ राहवहोँ [6]ण कला-विण्णाणइँ केवलइँ ।
दुन्दुहि ताडिय सुरेँहिँ णहेँ अच्छरेँहि मि गीयइँ मङ्गलइँ ॥ ९

[५]

पुरेँ पइसन्तेँ राम-णारायणेँ [१]जाय वोल्ल वर-णायरिया-यणे ॥ १
'एँहु सो रामु जासु विहि वीयउ दीसइ [1]णहेँणावन्तु स-सीयउ ॥ २
एँहु सो लक्खणु लक्खणवन्तउ जेण दसाणणु णिहउ भिडन्तउ ॥ ३
एँहु सो वहिणि विहीसण-राणउँ[2] [२]सुव्वइ विणयवन्तु वहु-जाणउ[3] ॥ ४
एँहु सो सहि सुग्गीवु सुणिज्जइ गिरि-किक्किन्ध-णयरु जो[4] भुञ्जइ ॥ ५
एँहु सो विज्जाहरु भामण्डलु णं सुर-सामिसालु आहँण्डलु[5] ॥ ६
एँहु सो सहि णामेण विराहिउ दूसणु जेण महाहवेँ साहिउ ॥ ७
एँहु सो हणुउ जेण वणु भग्गउ रामहोँ दिण्णु रज्जु [३]आवग्गउ ॥ ८
जाम णयरु णाम-ग्गहणालँउ[6] तिण्णि वि ताव पइट्ठइँ राउलु ॥ ९

9 A °उं. 10 P °आणिउं.

4. 1 P जज्जुरिच्चसम°, S जज्जरिच्चसमभेयहि, A °सेएहिं. 2 S लखिय°, A लक्खिय°. 3 P S °तारारुहणु. 4 A °फिंद°. 5 P कुदेंतेहिं, S कुंदेंतेहि, कुद्धत्तेहिं. 6 S णट्ट°.

5. 1 P S णहि (S °हे) हेमंतु. 2 A °उं. 3 P A °उं. 4 P जसु छज्जइ, S जसु भुंजइ. 5 P S आखंडलु. 6 P S °णाउरु.

[४] १ T प्रयोगैः. २ (P's reading) चंद्र इव दृष्टः.
[५] १ T नागरिकाजने वार्ता जाता. २ श्रूयते. ३ समस्तं स्वाधीनं वा.

॥ घत्ता ॥

वलु धवलउ हरि सामलउ वइदेहि सुवण्ण-वण्णु हरइ ।
णं हिमगिरि-णव-जलहरहँ अब्भन्तरेँ विज्जुल विप्फुरइ ॥ १०

[६]

तिण्णि वि गयइँ तेत्थु जहिँ [१]कोसल [२]पण्ह[1]-भरन्त-घण-त्थण-मण्डल ॥ १
[३]साइउ दिण्णउ[2] [४]मणु[3] साहारिय जिणवर-पडिम जेम जयकारिय ॥ २
ताएँ वि दिण्णासीस मणोहर 'जाव महा-समुद्द स-महीहर ॥ ३
धरइ धरत्ति जाव सयरायर जाव मेरु णहेँ चन्द-दिवायर ॥ ४
जाव दिसा-गइन्द गह-मण्डलु जाव सुरेँहिँ समाणु आहँण्डलु[4] ॥ ५
जाव वहन्ति [५]महाणइ-वत्तइँ[5] जाव तवन्ति गयणेँ णक्खत्तइँ ॥ ६
ताव पुत्त तुहुँ सिय अणुहुञ्जहि सीयाएविहेँ पट्टु [६]पउञ्जहि ॥ ७
लक्खणु होउ [७]ति-खण्ड-पहाणउँ[7] भरहु अउज्झा-मण्डलेँ राणउँ[8]' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

कइकइ-केक्कय-[६]सुप्पहउ तिण्णि वि पुणु [८]तिहिँ[9] अहिणन्दियउ ।
मेरुहेँ जिण-पडिमाउ जिह सइँ इन्द-पडिन्देंहिँ वन्दियउ ॥ ९

[७]

हरि-हलहरेंहिँ तेत्थु अच्छन्तेंहिँ वहवेंहिँ वासरेहिँ गच्छन्तेंहिँ ॥ १
भरहहोँ राय-लच्छि माणन्तहोँ [१]तन्तावाय वे वि जाणन्तहोँ ॥ २
तिविह-सत्ति-चउ-विज्जावन्तहोँ [२]पञ्च-पयारु मन्तु मन्तन्तहोँ ॥ ३
छग्गुणणउँ[1] असेसु जुञ्जन्तहोँ तह सत्तङ्गु रज्जु भुञ्जन्तहोँ ॥ ४
[2]वुद्धि-महागुण-अट्ठ वहन्तहोँ [३]दसमेँ भाएं पय पालन्तहोँ ॥ ५
वारह-मण्डल-चिन्त करन्तहोँ अट्ठारह तित्थइँ[3] रक्खन्तहोँ ॥ ६
एक्कहिँ दिवसेँ जाउ उम्माहउ कमल-सण्डु थिउ णाइँ[3] हिमाहउ ॥ ७

6. 1 A पल्ह°. 2 P दिन्नउ, S A दिण्णुउ. 3 P मनु, A मण्णु. 4 P S आखंडलु, A अहंडलु. 5 P S A °इ. 6 S णिउं. 7 P A °उं. 8 P A °उं. 9 P S A °हि.

7. 1 A °उं. 2 This Pāda is omitted in A. 3 P S A °इ.

[६] १ कोशल्या राम-माता. २ दुग्धेन स्तनमंडलानि. ३ अंकमाला. ४ मनो धीरिता माता. ५ महानदीप्रवाहमुखानि. ६ सुप्रभा शत्रुघ्न-माता. ७ त्रिभिः पद्मादिभिः.

[७] १ तंतं निजदेशप्रतिपालनं, आवाउ परदेशोच्चाटनं. २ सहायाः साधनोपाया देशकालौ बलाबलौ । विपत्तेश्च प्रतीकारः पंचांगो मंत्र इष्यते ॥. ३ दशांशेन.

॥ घत्ता ॥

'ते रह ते गय ते तुरय ते मिलिय स-किङ्कर भाइ-णर ।
ताउ [4]जणेरिउ सो जि हउँ पर ताउ ण दीसइ एक्कु पर ॥ ८

[८]

जिह ण ताउ तिह हउ मि ण कालें पर [1]वामोहिउ मोहण-जालें ॥ १
रज्जु धिगत्थु धिगत्थइँ छत्तइँ घरु परियणु धणु पुत्त-कलत्तइँ[2] ॥ २
धण्णउ[3] ताउ जेण परिहरियइँ दुग्गइ-गामियाइँ दुच्चरियइँ ॥ ३
हउँ पुणु कु-पुरिसु दुण्णय-वन्तउ अज्ज वि अच्छमि विसयासत्तउ' ॥ ४
मुणिहेँ पासेँ[4] चिरु लइउ अवग्गहु 'रामागमणे होमि अ-परिग्गहु ॥ ५
जहिँ जेँ दिवसेँ तिण्णि वि णिद्दिट्ठइँ जहिँ[5] जेँ दिवसेँ णिय-णयरेँ पइट्ठइँ[6] ॥ ६
तहिँ[5] जेँ कालेँ जं ण गउ तवोवणु मं वोल्लेसइ को इ अ-सज्जणु ॥ ७
"दुट्ठ[7]-सहाउ कसाएं लइयउ रामागमेँ[8] जि भरहु पव्वइयउ" ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अग्ग-महिसि केँ जणय-सुय मन्तित्तणु देवि[9] जणद्दणहोँ ।
अप्पुणु पालहि सयल महि हउँ[10] रहुवइ जामि तवोवणहोँ ॥ ९

[९]

ताएं कवणु सच्चु किर जम्पिउ तुम्हहँ वणु महु रज्जु समप्पिउ ॥ १
तहोँ अविणयहोँ सुद्धि पर मरणें अहवइ घोर-वीर-तव-चरणें ॥ २
तेण णिवित्ति भडारा रज्जहोँ एवहिँ[1] जामि थामि[2] पावज्जहोँ' ॥ ३
तो जिय-[1]जाउहाण-सङ्गामें भरहु चवन्तु णिवारिउ रामें ॥ ४
'अज्जु वि तुहुँ जेँ राउ ते किङ्कर ते गय ते तुरङ्ग ते रहवर ॥ ५
ते सामन्त अम्हेँ[3] ते भायर सा समुद्द-परिअन्त-वसुन्धर ॥ ६
छत्तइँ ताइँ तं जेँ सिंहासणु तं चामीयर-चामर-वासणु ॥ ७
भामण्डलु सुग्गीवु विहीसणु सयल वि तउ करन्ति घरेँ पेसणु' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

एव वि जं अवहेरि किय चल-वलय-मुहल-कल-णेउरहोँ ।
'जिह सक्कहोँ तिह पडिखलहोँ' आएसु दिण्णु अन्तेउरहोँ ॥ ९

8. 1 P S वम्मो°. 2 P S A °इ. 3 A °उं. 4 P S A पासि. 5 P S A °हि. 6 P S A पय°. 7 P S दुट्ठु. 8 P S A °मि. 9 S देहि. 10 P S A हउ.

9. 1 P S एमहि, A एवहि. 2 S सामि जामि. 3 P S A अम्हि.

४ मातरः.

[९] १ राक्षस रावणादिक.

[१०]

जं आएसु दिण्णु वर-विलयहुँ जाणइ-पमुहहुँ[1] गुण-गण-णिलयहुँ ॥ १
णह-मणि-किरण-करालिय-गयणहुँ [१]रमणावासा[2]वासिय-मयणहुँ ॥ २
थण-गय[3]उँर-पेल्लाविय-जोहहुँ रूवोहामिय-सुरवहु-सोहहुँ ॥ ३
सयल-कला-[२]कलाव-क[4]ल-कुसलहुँ मुह-मारुअ-मे[5]लाविय-भसलहुँ ॥ ४
भउह-सरासण-लोयण-वाणहुँ[6] केस-णिवन्धण-जिय-गिव्वाणहुँ ॥ ५
विब्भाडिय-वम्मह-सोहग्गहुँ[6] लाव[7]ण्णम्भ-भरिय-पुरि-मग्गहुँ ॥ ६
तो कल्लाणमाल-वणमालहिँ गुणवइ-गुणमहग्घ-गुणमालहिँ ॥ ७
सल्ल-विसल्लासुन्दरि-सीयहिँ वज्जयण्ण-सीहोयर-धीयहिँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वुच्चइ भरह-णराहिवइ 'सर-मज्झेँ तरन्त-तरन्ताइँ ।
देवर थोडी वार वरि अच्छहुँ जल-कील करन्ताइँ' ॥ ९

[११]

तं पडिवण्णु पइट्ठु महा-सरु जल-कीलहेँ वि अचलु परमेसरु ॥ १
लग्गउ सुन्दरीउ चउ-पासेँहिँ गाढालिङ्गण-चुम्बण-हासेँहिँ ॥ २
हेला-हाव-भाव-विण्णासेँहिँ [१]किलिकिञ्चिय-विच्छित्ति-विलासेँहिँ ॥ ३
[२]मोट्टाविय-कोट्ट[1]मिय-वियारेँहिँ विब्भम-वर-विव्वो[2]क्क-पयारेँहिँ ॥ ४
तो वि ण खुहिउ भरहु सहसुट्ठिउ अविचलु णं गिरि मेरु परिट्ठिउ ॥ ५
अच्छइ जाव तीरेँ सुह-दंसणु ताव महा-गउ तिजगविहूसणु ॥ ६
णिय-आलाण-खम्भु उप्पाडेँवि मन्दिर-सयइँ अणेयइँ पाडेँवि ॥ ७
परिभमन्तु गउ तं जेँ महा-सरु[3] भरहु णिएवि जाउ जाई-सरु ॥ ८
'परम-मित्तु इहु अण्ण-भवन्तरेँ णिवसिय सग्गेँ वे वि वम्भोत्तरेँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

पुण्ण-पहावेँ सम्भविउ[4] इहु णरवइ हउँ पुणु मत्त-गउ' ।
कवलु ण लेइ ण पियइ जलु [३]अत्थक्कएँ थिउ लेप्पमउ ॥ १०

10. 1 P S °हं, A °ह. P S °वासियवासा°, T °वासियसासय°. 3 A °गयपेल्लावियउ. 4 P °कय°. 5 P S A मेल्ला°. 6 P S A °हु. 7 P S लायण्णं°.

11. 1 P S °कुट्टमिय°, A °कुट्टिम्मि°. 2 P S °क°. 3 After this P S read an extra Pāda : जलकीलए (S °इ) जहि भरहु णरेसरु. 4 P S संभरमि.

[१०] १ कटीतटावासितनिश्चलमदनानां. २ समूह.

[११] १ विपरीतसुरतभेदैरिव. २ बलात्कारेण यत्सुरतं तदिव. ३ आकस्मिकमिव.

[१२]

करि सम्भरइ भवन्तरु जावहिँ[1] पुप्फ-विमाणुँ[2] चडेप्पिणु तावहिँ ॥ १
लक्खण-राम पराइय भायर णं [१]सञ्चारिमँ[3] चन्द-दिवायर ॥ २
णवर विसल्लासुन्दरि-वीयएँ भरह-णराहिवो वि सहुँ सीयएँ ॥ ३
चडिउ महा-गएँ तिहुअणभूसणेँ सुरवर-णाहु णाइँ अइरावणेँ ॥ ४
पुरेँ पइसन्तेँ जय-जय-सद्देँ वन्दिण-वम्भण-तूर-णिणद्देँ ॥ ५
तो आलाण-खम्भेँ करेँ आलिउ अविरल[२]लालि-रिञ्छोलि-वमालिउ ॥ ६
कवलु ण लेइ ण गेण्हइ पाणिउ[4] कुञ्जर-चरिउ ण केण वि जाणिउ[4] ॥ ७
कहिउ '[5]करिल्लेँहिँ पङ्कयणाहहोँ 'दुक्करु जीविउ वारण-णाहहोँ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं गयवर-वइयरु सुणेँवि उप्पण्ण चिन्त वल-लक्खणहुँ ।
आयउ ताव समोसरणु कुलभूसण-देसविहूसणहुँ ॥ ९

[१३]

रिसि-आगमणु सुणेँवि '[१]परमन्तिएँ गउ रहु-णन्दणु वन्दणहत्तिएँ ॥ १
गय सत्तुहण-भरह स-जणद्दण स-तुरङ्गम स-गइन्द स-सन्दण ॥ २
भामण्डल-सुग्गीव-विराहिय गवय-गवक्ख-सङ्ख रहसाहिय ॥ ३
स-विहीसण णल-णीलङ्गङ्गय तार-तरङ्ग-रम्भ-पवणञ्जय ॥ ४
कोसल-[२]कइकइ-केक्कय-सुप्पह [३]सन्तेउर वइदेहि विणिग्गय ॥ ५
साहुहुँ वन्दणहत्ति करेप्पिणु दस-पयारु जिण-धम्मु सुणेप्पिणु ॥ ६
पुच्छिउ जेट्ठ-महारिसि रामें 'एँहु करि तिजगविहूसणु णामें ॥ ७
कवलु ण लेइ ण ढुक्कइ सलिलहोँ जेम महारिसिन्दु कलि-[४]कलिलहोँ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

कुञ्जर-भरत-भवन्तरइँ[1] अक्खियइँ असेसइँ मुणिवरेँण ।
केक्कइ-णन्दणु पव्वइउ सामन्त-सहासें उत्तरेँण ॥ ९

12. 1 F जावहि, S जावेहि. 2 S °णे, A °ण. 3 S °य. 4 S A °उं. 5 P करिल्लेहिं, S कारिल्लहि, A करेल्लिहिं.

13. 1 P S A °इ.

[१२] १ प्रचल्मान. २ भ्रमरपंक्ति.

[१३] १ अत्यादरेण. २ लक्ष्मणमाता. ३ अंतःपुरसहितं. ४ पातकस्य.

[१४]

विक्कम-णय-विणय-पसाहिएण सामन्त-सहासें [1]साहिएण ॥ १
थिउ भरहु महारिसि-रूवु लेवि मणि-रयणाहरणइँ परिहरेवि ॥ २
तहिँ[1] जुवइ-सएँहिँ सहुँ केक्कया वि थिय केसुप्पाडु करेवि सा वि ॥ ३
सो तिजगविहूसणु मरेंवि णाउ[2] वम्हुत्तरें सग्गें सुरिन्दु जाउ ॥ ४
भरहाहिवो वि उप्पण्णं[3]-णाणु वहु-दिवसेँहिँ[4] गउ लोगावसाणु ॥ ५
अहिसित्तु रामु विज्जाहरेहिँ भामण्डल-किक्किन्धेसरेहिँ ॥ ६
णल-णील-विहीसण-अङ्गएहिँ दहिमुह-महिन्द-पवणङ्गएहिँ ॥ ७
चन्दोयरसुय-जम्वुण्णएहिँ अवरेहि मि भडेंहिँ सउण्णएहिँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वद्धु पट्टु रहु-णन्दणहों कञ्चण-कलसेँहिँ अहिसेउ किउ ।
लक्खणु[6] चक्क-रयण[6]-सहिउ धर स-धर सइं[7] भुञ्जन्तु थिउ ॥ ९

*

[८०. असीइमो संधि]

रहुवइ रज्जु करन्तु थिउ गउ भरहु तवोवणु ।
दिण्ण विहञ्जेंवि सयल महि सामन्तहुँ[1] [1]जीवणु ॥

[१]

वसुमइ ति-खण्ड-मण्डिय हरिहें[2] पायाललङ्क चन्दोयरिहें[3] ॥ १
धण-कणय-समिद्धु पउर[4]-पवरु सुग्गीवहों गिरि[5]-किक्किन्ध-पुरु ॥ २
ससि-फलिह-लिहिय-जस[6]-सासणहों लङ्काउरि अचल विहीसणहों ॥ ३
[2]वेण-भङ्गहों भड-चूडामणिहें[7] [3]सिरिपव्वय-मण्डलु पावणिहें[8] ॥ ४
रहणेउर-पुरु भामण्डलहों कइ-दीवु दिण्णु णीलहों णलहों ॥ ५
[4]माहिन्दि महिन्दहों दुज्जयहों आइच्च-णयरु पवणञ्जयहों ॥ ६

14. 1 P S A °हिं. 2 After this Pāda s marginally : वय पालेवि खीणु करेवि काउ । सेच्छ (?) परिहरेवि महाणुभाउ. 3 P S A °ण्णु. 4 A °सहुं. 5 P S °ण 6 P S °णु. 7 P A सइ, S सयं.

1. 1 P S °हु, A °हो. 2 P S °हो. 3 P S A °हो. 4 P S सपउरु पुरु. 5 S वर°. 6 P जस corrected as जय°. 7 P S °हो, A °हि. 8 P °हे corrected as °हि, S A °हि.

[१४] १ साधिकेन.

[१] १ जीवनवृत्तिरूपं. २ हनूमंतविशेषणं. ३ श्रीपर्वतः । देस–नामेदं. ४ माहेंद्रपुरी.

अवराह मि अवरइँ पट्टणइँ   [५]घर-सिहर-रविन्दु-विहट्टणइँ ॥ ७
[६]वलु जीवणु देइ [७]विघोसइ वि   'जो णरवइ हूवउ[9] होसइ वि ॥ ८
सो सयलु वि मइँ अब्भत्थियउ   मा होउ को वि जगेँ दुत्थियउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

'[८]णाएं [९]भाएं दसमएँण   पय परिपालेज्जहोँ ।
देवहँ सवणहँ वम्भणहँ   मं पीड करेज्जहोँ' ॥ १०

[२]

पुणु पुणु अब्भत्थइ दासरहि   'सो णरवइ जो पालेइ महि ॥ १
अणुर[1]त्तु पयएँ णय-विणय-परु   सो अविचलु रज्जु करेइ णरु ॥ २
जो '[१]घइँ पुणु देव-भोग हरइ   वर-[२]थावर-वित्ति-छेउ करइ ॥ ३
सो खयहोँ जाइ तिहिँ वासरेँहिँ   तिहिँ मासहिँ तिहिँ संवच्छरेँहिँ ॥ ४
जइ कह वि चुक्कु तहोँ अवसरहोँ   तो अकुसलु अण्ण-भवन्तरहोँ' ॥ ५
सामन्त [३]णिजन्तेँवि[2] राहवेँण   सत्तुहणु वुत्तु जी[3]याहवेँण ॥ ६
'ण पहुच्चइ काइँ[4] एह पिहिमि   सोमित्तिहेँ तुज्झु मज्झु तिहि मि ॥ ७
पयडिज्जइ तो इ मज्झेँ जणहोँ   लइ मण्डलु जं भावइ मणहोँ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वुच्चइ सुप्पह-णन्दणेँण   'जइ महु दय किज्जइ ।
तो वरि महुरायहोँ तणिय   महुराउरि दिज्जइ' ॥ ९

[३]

तो मणेँ चिन्ताविउ दासरहि   'दुग्गेज्झ महुर किह पइसरहि ॥ १
दुम्महु महु महु वि असज्झु रणेँ   अज्जु वि रावणु णउ मुउ जेँ गणेँ ॥ २
'[१]भय-भावि-भाणु-भा-भासुरेँण   जसु दिण्णु सूलु [२]चमरासुरेण ॥ ३
सो महुर-णरा[1]हिउ केण जिउ   फणवइहेँ फणामणि केण हिउ ॥ ४
तुहुँ[2] अज्जु वि वालु कालु कवणु   तियसहु मि भयङ्करु होइ रणु ॥ ५
दुद्दम-दणु-देह-वियारणहुँ   किह अङ्गु समोड्डुहि पहरणहुँ' ॥ ६

9 P S होइवि.

2. 1 P S A अणुरत्त पयइ°, P मणुरत्त पयइ. 2 P S A °तिविः. 3 P notes a variant सीराउहेण. 4 P S A °इ.

3. 1 A omits the portion °राहिउ to रणु (5 b). 2 P S °हु.

५ आदित्यचंद्रौ विघृष्टितानि (?). ६ श्रीरामः. ७ कथयति. ८ नीत्या, T न्यायेन. ९ दशांशेन.

[२] १ पुनः. २ T दोहलीभूमिदानं. ३ स्थापयित्वा.

[३] १ T क्षयकालोत्पन्नादित्यः. २ T भावनेंद्रेण.

पणवेप्पिणु पभणइ सत्तुहणु 'हउँ देव णिरुत्तउ सत्तु-हणु[3] ॥ ७
जइ महुर-णराहिउ णउ हणमि तो रहुवइ पइ मि ण जय भणमि[4] ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पइसइ जइ वि सरणु जमहों अहवइ जम-वप्पहों ।
जीय[5]-महाविसु अवहरमि महुराहिव-सप्पहों' ॥ ९

[४]

गज्जन्तु णिवारिउ सुप्पहएँ[1] 'किं पुत्त पइज्जा 'सम्पयएँ ॥ १
वोल्लिज्जइ तं[2] जं णिव्वहइ भड-वोक्कैंहिँ सुहडु ण जउ लहइ ॥ २
किं साहसु दिट्ठु ण भायरहुँ[3] किउ विहिँ जें विणासु णिसायरहुँ ॥ ३
किण्ण मुणिउ णिरुवम-गुण-भरिउ अणरण्णाणन्तवीर-चरिउ ॥ ४
तउ दसरह-भरहहिँ घोरु किउ इक्खुक्क-वंसु एँहु एम थिउ ॥ ५
तुहुँ णवर करेसहि जम्पणउ तो वरि जसु रक्खिउ अप्पणउ ॥ ६
जइ महु उप्पण्णु मणोरहेँण जइ जणिउ जणेरें दसरहेँण ॥ ७
तो पउ वि म देहि परम्मुहउ[4] पडिवक्खु जिणेसहि सम्मुहउ[4] ॥ ८

॥ घत्ता ॥

[5]केउ-सुमालालङ्करिय [2]महु-राय[6]-णिवासिणि ।
पुत्त पयत्तें भुञ्जें तुहुँ तं महुर-विलासिणि' ॥ ९

[५]

आसीस दिण्ण जं सुप्पहाएँ वद्धारिय-णिय-गुण-सम्पयाएँ ॥ १
तो स-सरु सरासणु राहवेण दिज्जइ 'णिव्वूढ-महाहवेण ॥ २
लक्खणेँण वि धणुहरु अप्पणउ[1] दससिर-सिर-कमलुक्कप्पणउ[1] ॥ ३
णामेण कियन्तवत्तु[2] पवलु सेणावइ[3] दिण्णु समन्तं[4]-वलु ॥ ४
सामन्तहँ लक्खें परियरिउ सत्तुहणु अउज्झहें णीसरिउ ॥ ५
सु-णिमित्तइँ हूअइँ जन्ताहुँ सव्वइँ मिलन्ति सियवन्ताहुँ ॥ ६
उक्खन्धें दूरुज्झिय-सिवहों गउ उप्परें महुर-णराहिवहों ॥ ७
तो मन्तिहिँ पभणिउ सत्तुहणु 'जय णन्द वद्ध वहु-सत्तु-हणु ॥ ८

3 A °हत्तु. 4 A भणिय. 5 P जीव°.
4. 1 A सुप्पयए. 2 P S जं तं. 3 P S A °हु. 4 A °उं. 5 P S °रय°.
5. 1 A °उं. 2 P S °त्त. 3 A सोण्णावइ. 4 A महंत°.

[४] १ T सांप्रतं. २ मथुरा ध्वजामालाऽलंकृता । विलासिन्यपि पुष्पमालाऽलंकृता भवति. ३ मधुराजस्य वसतिर्मथुराऽन्यत्र मधुः कामो रागोऽनुरागस्तयोर्वसतिर्विलासिनी.
[५] १ दृढः निर्वाहकः संग्रामेण.

॥ घत्ता ॥

महु-मत्तहोँ महुराहिवहोँ चर-पुरिस गविट्ठहोँ ।
अज्जु भडारा छ-द्दिवस उज्जाणु[5] पइट्ठहोँ ॥ ९

[६]

करेँ लग्गइ जाव ण सूलु तहोँ लइ ताव महुर महुराहिवहोँ' ॥ १
वयणेण तेण रहसुच्छलिउ पडिवण्णएँ अद्ध-रत्तेँ चलिउ ॥ २
पुरेँ[1] वेढिऍ वारइँ रुद्धाइँ भय-विहलइँ[2] संसऍ छुद्धाइँ ॥ ३
किउ कलयलु तूरइँ आहयइँ विरसियइँ असङ्ख-सङ्ख-सयइँ ॥ ४
धयरट्ठ-महागइ-गामिणिहिँ परिगलिय-गब्भ-रिउ-कामिणिहिँ ॥ ५
दिढ-लोह-कवाडइँ फोडियइँ[3] घर-सिहर-सहासइँ मोडियइँ[4] ॥ ६
णर-णायामर-दप्प-हरणइँ लइयइँ सावरणइँ पहरणइँ ॥ ७
सिहि-जाला-माला-लीवियइँ घरेँ घरेँ जोऍवि मणि-दीवियइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सत्तुहणहोँ पणमिय-सिरेँहिँ सामन्तेँहिँ[5] सीसइ ।
'पट्टणेँ जिणवर-धम्मेँ जिह[6] महु कहि मि ण दीसइ' ॥ ९

[७]

सत्तुहणागमेँ [१]पवणञ्जयहोँ महु-पुत्तहोँ लवणमहण्णवहोँ ॥ १
उप्पण्णु रोसु रहवरेँ चडिउ सण्णाहु लइउ पर-बलेँ भिडिउ ॥ २
किउ कलयलु तूर-[1]रवब्भइउ सरवरेँहिँ[2] [२]कियन्तवत्तु छइउ ॥ ३
तेण वि ओ[3]हामिय-सन्दणहोँ धय-दण्डु छिण्णु [३]महु-णन्दणहोँ ॥ ४
धणु ताडिउ पाडिउ आहयणेँ दुव्वाएं णं मेहागमणेँ ॥ ५
तेण वि कियन्तवत्तहोँ तणउ[4] सहुँ चिन्धेँ छिण्णु [४]सरासणउ[4] ॥ ६
तेँ[5] दूरु वरुज्झिय-पाण-भय धणुवेय-भेय-पर-पारु गय ॥ ७
कण्णिय-खुरुप्प-कप्परिय-कवय(?) लोट्टाविय-सारहि पहय-हय ॥ ८

5 A °णि.

6. 1 P S परि, A पुरि. 2 P S A °इ. 3 P °आइ, S °याइ. 4 P °आइ, S °याइ. A °याइं. 5 P S A °हि. 6 S जिउ.

7. 1 P S °रवंब्भइउ, A °रब्भइउ. 2 P S A °हि. 3 P S ओवाहिय°. 4 A °उं. 5 P S तें.

[७] १ वायुदेवोऽन्यविद्याधरजयनशीलस्य (?) २ शत्रुघ्नस्य मंत्री. ३ लवणमहार्णवस्य. ४ धनुषं.

॥ घत्ता ॥

विहि मि परोप्परु वि-रहु किउ थिय वे वि गइन्देँहिँ ।
साहुक्कारिय गयण-यलेँ जम-धणय-सुरिन्देँहिँ ॥ ९

[८]

[१]पचोइया गइन्दया मिलावियालि-विन्दया ॥ १
खयग्गि-पुञ्ज-दुस्सहा गिरि व्व[1] तुङ्ग-विग्गहा ॥ २
[२]वलाहय व्व गज्जिया जियारि सारि-सज्जया ॥ ३
[३]मइल्ल-गिल्ल-गण्डया धुणन्त-पुच्छ-दण्डया ॥ ४
करग्गि-छित्त-अम्वरा[2] कयम्वुवाहु[3]-डम्वरा ॥ ५
स-ढक्क ढुक्क दुज्जया झणज्झणन्त[4]-गेज्जया ॥ ६
[४]विवक्ख-तिक्[५]ख-कं[5]ण्टया टणट्टणन्त-घण्टया ॥ ७
विसाण[6]-भिण्ण-दिस्मुहा रं[६]यड्ढि-पुक्[7]खराउहा ॥ ८

॥ घत्ता ॥

ताव कियन्तवत्त-भडेँण रिउ आहउ सत्तिएँ ।
पडण[8]त्थवणइँ दावियइँ णं सूरहोँ रत्तिएँ ॥ ९

[९]

जं लवणमहण्णउ णिहउ रणेँ तं महुर-णराहिउ कुइउ मणेँ ॥ १
आरुहिउ महा-रहेँ [१]जुप्पि हय उब्भविय-धवल-धूवन्त[2]-धय ॥ २
दुद्दम-णरिन्द-णिद्दारणहुँ रहु भरिउ अणन्तहुँ[3] पहरणहुँ ॥ ३
हय समर-भेरि अमरिस-चडिउ स-रहसु कियन्तवत्तहोँ भिडिउ ॥ ४
'महु तणउँ [२]तणउँ[4] जिह णिहउ रणेँ तिह पहरु पहरु दिढु होहि मणेँ' ॥ ५
तहिँ[5] अवसरेँ अन्तरेँ थिउ स-धणु सइँ दसरह-णन्दणु सत्तुहणु ॥ ६
ते भिडिय परोप्परु कुइय-मण णं वे वि पुरन्दर-दहवयण ॥ ७
महि-कारणेँ परिवड्ढन्त[6]-कलि णं भरह-णराहिव-वाहुवलि ॥ ८

8. 1 P S गिरिंद°. 2 After this P S read an extra Pāda : पहंतदाणणिज्झरा. 3 P S A °हु°. 4 A झलझलंत°. 5 T notes variants चित्त and °कंडया. 6 P S विलास°. 7 P S °पुप्प°. 8 P S पडुणुट्ठवणइं (S °इ).

9. 1 P जमिय, S जम्मि. 2 P S उट्ठावियवलधूवत्त°. 3 P S A °हु. 4 A °उं. 5 P S A °हि. 6 A °ति.

[८] १ प्रेरिताः. २ मेघ इव. ३ मदवंतौ. ४ हृदयसल्लीभूतौ. ५ (T.'s variant) तीक्ष्णवाणाः. ६ दंतपादहस्तायुधाः.

[९] १ जोत्रिता. २ पुत्रः.

॥ घत्ता ॥

विहि मि णिरन्तर-चावरणें सर-जालु[7] पहावइ ।
विञ्झहों सज्झहों[8] मज्झें थिउ घण-डम्बरु णावइ ॥ ९

[१०]

अवरोप्परु वाणेंहिँ छाइयंउ[1] अवरोप्परु कह वि ण घाइयंउ[2] ॥ १
अवरोप्परु कवयइँ ताडियइँ अवरोप्परु चिन्धइँ फाडियइँ ॥ २
अवरोप्परु छत्तइँ छिण्णाइँ अवरोप्परु अङ्गइँ भिण्णाइँ ॥ ३
अवरोप्परु हयइँ सरासणइँ जल-थलइँ वि जायइँ [1]स-व्वणइँ ॥ ४
अवरोप्परु सारहि णिट्ठविय स-तुरङ्गम जमउरि पट्ठविय ॥ ५
अवरोप्परु खण्डिय पवर रह थिय मत्त-गइन्देंहिँ दुव्विसह ॥ ६
ते महुर-णराहिव-सत्तुहण णं णहयल-लङ्घण स-घण घण ॥ ७
णं केसरि गिरि-सिहरेंहिँ[3] चडिय णं रावण-राम समावडिय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वे वि स-पहरण सामरिस[4] करिवरेंहिँ वलग्गा ।
मलय-महिन्द-महीहरेंहिँ णं [2]वण[5]-यव लग्गा ॥ ९

[११]

समुद्धाइया सिन्धुरा जुद्ध-लुद्धा [1]वलुत्ताल-दुकाल-काल व्व कुद्धा ॥ १
विमुक्कङ्कुसा उम्मुहा उद्ध-सोण्डा स-सिन्दूर-कुम्भत्थला गिल्ल-गण्डा ॥ २
मयम्भेहिँ सिप्पन्त-पाय-प्पएसा मिलन्तालि-माला-[2]णिरन्धी-कयासा ॥ ३
विसाणप्पहा-पण्डुरिज्जन्त-देहा वलायावली-दिण्ण-सोह व्व मेहा ॥ ४
चलन्तेहिँ सञ्चालिओ सेस-णाओ[1] भमन्तेहिँ [3]पब्भामिओ भूमि-भाओ ॥ ५
गिरिन्दा समुद्दावलीभाव जाया गइन्देसु[2] तेसुट्ठिया वे वि राया ॥ ६
महा-भीसणा [4]भू-लया-भङ्गुरच्छा पमुक्केक्कमेक्काउहा[3] विज्जु[4]-दच्छा ॥ ७
करिन्देण ओहामिओ वारणिन्दो कुमारेण ओहामिओ [5]माहुरिन्दो ॥ ८

7 P S °जाल. 8 P S A संज्झहो.
10. 1 P S A °अउ. 2 P °अउ, A °उ. 3 P S A °हि. 4 P S साहरण. 5 A वलय.
11. 1 P S A °उ. 2 P S A गयं°. 3 P S A °मु°. 4 P S A विज्ज°.

[१०] १ 'व्रण'='घात'-सहितानि. २ दवाग्निरिव.
[११] १ बलोद्धतौ; T चलत्तालेति पाठे चलोद्धतौ इत्यर्थः. २ अंधारीकृताः दिशाः. ३ T प्रकर्षेण भ्रामितः भूमिभागः. ४ T भ्रूलता. ५ मधुः.

॥ घत्ता ॥

महु णारा[5]य-कडन्त[6]रिउ रुहिरारुणु गयवरें ।
फग्गुणें फुल्ल-पलासु जिह लक्खिज्जइ गिरिवरें ॥ ९

[१२]

अवसाणें कालु जं ढुक्कियउ जं रहु-सुउ जिणेंवि ण सक्कियउ ॥ १
जं सूलु ण दाहिण-करें चडिउ जं पुत्तहों मरणु समावडिउ ॥ २
तं परम-विसाउ जाउ महुहें[1] 'मइँ ण किय पुज्ज तिहुअण-पहुहें[2] ॥ ३
पञ्चेन्दिय दुद्दम दमिय ण वि धम्म-किय एक्क वि ण किय क वि ॥ ४
मइँ[3] पावें[4] पावासत्तऍण णउ वन्दिय देव जियन्तऍण ॥ ५
संजोउ सव्वु को कहों[5] तणउ णिप्फलु[6] जम्मु गउ महु[7] त्तणउ ॥ ६
वरि एवँ[8]हिँ सल्लेहणु करमि वय पञ्च महा-दुद्धर धरमि' ॥ ७
तो एम भणेंवि णिग्गन्थु थिउ सइँ[3] हत्थें केसुप्पाडु किउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

'एँ[1]क्कु जि जीउ महु[9] त्तणउ '[2]सवहों परिहारउ ।
रणु जें तवोवणु जिणु सरणु गयवरु सन्थारउ' ॥ ९

[१३]

जे भव-जणहों सुह-वसुहारा पुणु घोसिय पञ्च णमोक्कारा ॥ १
अरहन्तहुँ[1] केरा सत्त सरा जे सवहँ सोक्खहँ पढमयरा ॥ २
पुणु सिद्धहुँ[2] केरा पञ्च सरा जे सासय-पुरवर-सिद्धियरा ॥ ३
आयरियहुँ केरा सत्त सरा जे परमाचार-विचार-परा ॥ ४
सत्तोवज्झाय-णमो[3]क्करणा णव साहुहुँ भव-भय-परिहरणा ॥ ५
इय[4] पञ्चतीस परमक्खरइँ सुय-पा[5]रावार-परम्परइँ ॥ ६
विस-विसम-विसय-णिद्धाडणइँ सिवउरि-कवाड-उग्घाडणइँ ॥ ७
महु[6] सुह-गइ[7] देन्तु' भण[8]न्तु थिउ कुञ्जरहों जें उप्परें कालु किउ[9] ॥ ८

5 S णारायण°. 6 P °कडित्तरिउ, S °कडत्तरिउ.

12. 1 P S A °हो. 2 S A °हो. 3 P S A °इ. 4 P S पावइ, A पावे. 5 P S A कहु. 6 P गउ णिप्फलु, A णिप्फलु वि. 7 A महुं तणउ. 8 P एमहि, S येवहि, A एवहि. 9 A महुं तणउ.

13. 1 P S A °हो. 2 P S A °हु. 3 P S °करणा, A णमोकारकरण. 4 A इह. 5 A वारवारस. 6 P A महुं. 7 P S सुहइ. 8 S पभणंतु. 9 After this P marginally and S read : संजायउ सणकुमारे अमरु। अच्छरकरचालियचमरभरु ॥

[१२] १ 'एगो मे सासदो अप्पा णाणदंसणलक्खणो' इत्यादि. २ अन्यत्सर्वं परद्रव्यं जानीहि.

॥ घत्ता ॥

कुसुमइँ सुरेहिँ[10] विसज्जियइँ किउ साहुकारु ।
महुर स इं भु ञ्जन्तु थिउ सत्तुहणु कुमारु ॥ ९

*

[८१. एक्कासीइमो संधि]

वणु सेविउ सायरु लङ्घियउ णिहउ दसाणणु रत्तऍण ।
अवसाण-कालेँ पुणु राहवेँण घल्लिय सीय विरत्तऍण ॥

[१]

लोयहुँ छन्देँण तेँण तेँण तेँण[1] चित्तेँ ।
राहव-चन्देँण तेँण तेँण तेँण[1] चित्तेँ ॥
पाण-पियल्लिया तेँण तेँण तेँण[2] चित्तेँ ।
जिह वणेँ घल्लिया तेँण तेँण तेँण[2] चित्तेँ ॥ जंभेट्टिया[3] ॥ १
रामहोँ रामालिङ्गिय-गत्तहोँ अमिय-रसोवम-भोगासत्तहोँ ॥ २
एक्कहिँ दिवसेँ मणोहर-गारी पासेँ परिट्ठिय सीय भडारी ॥ ३
जाणिय-णिरवसेस-परमत्थी पभणइ पणय-कियञ्जलि-हत्थी ॥ ४
'णाह णाह जग-मोहण-सत्तिहिँ[4] सुइणउ अज्जु दिट्ठु मइँ रत्तिहिँ[5] ॥ ५
पुप्फ[6]-विमाणहोँ पडेँवि पहिट्ठउ[7] सरह-जुअलु महु वयणेँ पइट्ठउँ[8]' ॥ ६
तो सज्जण-मण-णयणाणन्देँ हसिउ स-विब्भमु राहवचन्देँ ॥ ७
'दुइ होसन्ति पुत्त परमेसरि परणर-वरणर-वारण-केसरि ॥ ८
णवर एक्कु महु हियएं[9] चडियउ सुन्दरि सरह-जुअलु जं पडियउँ[10]' ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तो अण्णेँहिँ[11] दिवसेँहिँ थोवँऍहिँ[12] सीयहे्ँ गुरुहाराइँ ।
'सहि णीसरु' णं वण-देवयऍ पट्ठवियइँ हक्काराइँ[13] ॥ १०

[२]

॥ जम्भेट्टिया[1] ॥ रहुवइ-घरिणिया जिह वणेँ करिणिया ।
मल्हण-लीलिया कीलण-सीलिया ॥ १

10 P S A °हि.

1. 1 तेण wanting in P. 2 तेण wanting in P S. 3 S A जंभि°. 4 P °हे, S A °हि. 5 P S °हे, A °हि. 6 P पुप्प°, S A पुप्फ°. 7 P S °ट्ठिउ, A °ट्ठउं. 8 A °उं. 9 S °एण. 10 A °उं. 11 S अण्णेक्कहि. 12 P थोवहिं, S थोवहि. 13 P °रइं, S °रइ.

2. 1 A. omits this name of the metre in this and all the subsequent Kaḍavakas.

वलु वोल्लावइ णरवर-केसरि 'को दोहलउ अक्खु परमेसरि' ॥ २
विहसिय '[1]वियसिय-पङ्कय-वयणी दन्त-दित्ति-उज्जोइय-गयणी ॥ ३
'वल धवलामल-केवल-वाहहोँ जाणमि पुज्ज रयमि जिणणाहहोँ' ॥ ४
पिय-वयणेण तेण साणन्दें [2]परम पुज्ज किय राहव-चन्दें ॥ ५
दिव्व-महि[3]न्द-दुमय-णन्दण-वणेँ तरल-तमाल-ताल-ताली-घणेँ ॥ ६
चन्दण-वउल-तिलय-कुसुमाउलेँ कल-कोइल-कुल-कलयल-सङ्कुले ॥ ७
दाहिण-पवणन्दोलिय-तरुवरेँ भमिर-भमर-झङ्कार-मणोहरेँ ॥ ८
धय-तोरण-विमाण-किय-मण्डवेँ फेन्द-वन्द-सङ्कन्दिय-तण्डवेँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तहिँ तेहएँ उववणेँ पइसरेँवि जय-जय-सद्दें पुज्ज किय ।
जिह जिणवर-धम्महोँ जीव-दय जाणइ रामहोँ पासेँ थिय ॥ १०

[३]

॥ जम्भेट्टिया ॥ ताव विणीयहे फन्दइ सीयहे ।
दुक्खुक्कोयणु दाहि[1]णु लोयणु ॥ १
'फुरेँवि[2] आसि पइँ पर-दुग्गेज्झहेँ[3] तिण्णि मि णीसारियइँ अउज्झहेँ[4] ॥ २
थियइँ विदेसें देसु भमन्तइँ दुस्सह-दुक्ख-परम्पर-पत्तइँ ॥ ३
रण-रक्खसेँण गिलेँवि उग्गिलियइँ क[5]हँ वि कह वि णिय-गोत्तहोँ मिलियइँ ॥४
एवहिँ एउ ण जाणहुँ ईक्खणु काइँ करेसइ फुरेँवि अ-लक्खणु' ॥ ५
तो एत्थन्तरेँ [2]साहुद्धारें [3]आइय पय असेस कूवारें ॥ ६
'अहोँ रायाहिराय परमेसर णिम्मल-रहुकुल-णहयल-ससहर ॥ ७
दुद्दम-दणुअ-देह-मय-मद्दण तिहुअण-जण-मण-णयणाणन्दण ॥ ८
जइ अवराहु णाहिँ धर-धारा तो पट्टणु विण्णवइ भडारा ॥ ९

॥ घत्ता ॥

पर-पुरिसु रमेवि दुम्महिलउ देन्ति पडुत्तर पइँ-यणहोँ ।
"किं रामु ण भुञ्जइ जणय-सुअ वरिसु[6] वसेँवि घरेँ रामणहोँ' " ॥१०

2 This Pāda is wanting in A. 3 °महिंदोवय°.

3. 1 S A °ण. 2 P फुरिवि, S A फुरवि. 3 S A °हो. 4 P S °हो, A °हि. 5 A कहो वि कहो, 6 A वरिसद्धु.

[२] १ T विकशितपंकजवदना.

[३] १ एप नेत्रः. २ वृक्षशाखां करैः कृत्वा. ३ T प्रजा आगताः. ४ भर्ताजनस्य.

[४]

॥ जम्भेट्टिया ॥ [१]'पय-परिवाएणं		मोग्गर-घाएणं ।
णं सिरॅं आहउ		रहुवइ-णाहउ ॥ १
चिन्तइ मउलिय-वयण-सरोरुहु		वसुह लिहन्तु ठन्तु हेट्ठा-मुहु ॥ २
'विणु पर-तत्तिऍ को वि ण जीवइ		सइँ विणट्ठु अण्णइँ उद्दीवइ ॥ ३
लोउ सहावें दुप्परिपालउ		विसम-चित्तु पर-छिद्द[1]-णिहालउ ॥ ४
भीम-भुअङ्गु भुअङ्गागारउ		पगुण-गुणु[2]ज्झिउ अवगुण-गारउ ॥ ५
[२]'कइ सइ जइ णरवइ णउ भावइ		अवसें[3] किं पि[4] कलङ्कउ लावइ ॥ ६
होइ हुआसणो व्व [३]अविणीयउ		गिम्भु व सुट्ठु अणिच्छिय-[४]सीयउ ॥ ७
चन्दु व [५]'दोस-गाहि खइ ख-त्थउ		सूरु व [६]कर-चण्डउ दूर-त्थउ ॥ ८
वाणु व लोहॅ[5]-फलु ग्गुण[6]-मुक्कउ		विन्धणसीलउ धम्महाँ चुक्कउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जइ कह वि णिरङ्कुस होइ पय		तो [७]हत्थि-हडहँ अणुहरइ ।
जो कवलु देइ जलु दक्खवइ		तासु जेँ जीविउ[7] अवहरइ ॥ १०

[५]

॥ जम्भेट्टिया ॥ अह खल[1]-महिलहे		णइ जिह कुडिलहे ।
को पत्तिज्जइ		जइ वि मरिज्जइ ॥ १
अण्णु णिएइ अण्णु वोल्लावइ		चिन्तइ अण्णु अण्णु मणेँ भावइ ॥ २
हियवइ णिवसइ विसु हालाहलु		अमिउ वयणेँ दिट्ठिहेँ जमु केवलु ॥ ३
महिलहेँ तणउ[2] चरिउ को जाणइ		उभय-तडइँ जिह खणइ महा-णइ ॥ ४
चन्द-कल[3] व [१]'सव्वोवरि वङ्की		दोस-ग्गाहिणि सइँ स-कलङ्की ॥ ५
णव-विज्जुलिय व चञ्चल-देही		गोरस-मन्थ[4] व कारिम-णेही ॥ ६
[२]'वाणिय-कल[5] कवडङ्किय[6]-माणी		अडइ व [३]'गरुआसङ्का-थाणी ॥ ७
णिहि व पयत्तें परिरक्खेवी		[४]गुल[7]हिय-खीरि व कहों वि ण देवी' ॥ ८
अप्पाणेण जेँ अप्पउ वोहिउ		'वरि गय सीय म लोउ विरोहिउ ॥ ९

4. 1 °च्छंद°. 2 S A °णज्झि°. 3 P S A °सिं. 4 P S चि. 5 P S लोहा°. 6 P S गुण°. 7 A °उं.

5. 1 A खलु. 2 A °उं. 3 P °ल व्व, S °लेव. 4 A °संथ. 5 P °लं. 6 P चंडकिय°, S व कवडणिय°. 7 P गुलस°, S A गुलहिव°.

[४] १ प्रजादुर्वाक्येन. २ कवि-महासती-यतिपतिश्च राजानो न प्रतिभाति । एवमेव कलंकं वदति. ३ विनयरहितो लोको हुताशनस्तु मेषवाहनः. ४ हिमं सीतादेवी च. ५ रात्रिगाही क्षयी गगनस्थश्च चंद्रो लोकः स्त्रीदोषग्राही क्षयी खस्थो भीतः. ६ किरणप्रतापी भानुः, लोकस्तु दुर्वचनदायी. ७ हस्तिघटायै.

[५] १ T पुत्र-पितादेः, शंकरस्य च कविसमये. २ श्रेष्ठिनः. ३ T अतीवशंकास्थानं. ४ गुडघृतसहितः.

॥ घत्ता ॥

णिय-णेह-णिवद्धउ[8] आवडइ   जइ वि महा-सइ महु मणहोँ ।
को फेडेँवि सक्कइ लक्खणएँ[9]   जं घरेँ[10] णिवसिय रावणहोँ' ॥ १०

[६]

॥ जम्भेट्टिया ॥ ताव जणद्दणु   णाइँ[1] हुआसणु ।
घिऍण व सित्तउ   झत्ति पलित्तउ ॥ १
कड्ढिउ सूरहासु करेँ णिम्मलु   विज्जु-विलासु जलणु जालुज्जलु ॥ २
'दुज्जण-मइयवट्टु हउँ अच्छमि   जो जम्पइ तहोँ पलउ समिच्छमि ॥ ३
जं किउ खरहोँ महा-खल-खुद्दहोँ   जं किउ रणेँ रावणहोँ रउद्दहोँ ॥ ४
तं करेमि दुज्जणहँ हयासहँ   कुडिल-भुअङ्ग-अङ्ग-सङ्कासहँ ॥ ५
को घल्लावइ सीय महा-सइ   णाम-ग्गहणेँ जाहेँ दुहु णासइ ॥ ६
जा सुरवरेँहिँ [1]'पइव्वय वुच्चइ   जाहेँ पसाएं वसुमइ पच्चइ ॥ ७
जाहेँ पहावें रहु-कुलु णन्दइ   पलयहोँ पिसुणु जाउ[2] जो णिन्दइ ॥ ८
जाहेँ पाय-पंसु वि वन्दिज्जइ   ताहेँ कलङ्कु केम लाइज्जइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जो रूसइ[3] सीय-महासइहेँ   सो मुहु अग्गऍ थाउ खलु ।
तहोँ[4] पावहोँ विरसु[5] रसन्ताहोँ खुडमि स-हत्थें सिर-कमलु' ॥ १०

[७]

॥ जम्भेट्टिया ॥ धरिउ जणद्दणु   रहुवइ-णाहेँणं ।
जउणा-वाहु[1] व   गङ्गा[2]-वाहेँणं ॥ १
'जइ समुद्दु णिय-समयहोँ चुक्कइ   तो तहोँ को सवडम्मुहु ढुक्कइ ॥ २
जइ वि [3]'डहन्ति णिमित्तें[4] कन्दहँ   तो वि ण रूसइ विञ्झु पुलिन्दहँ ॥ ३
चन्दणु छिज्जइ भिज्जइ घासइ   तो इ ण णियय-गन्धु तहोँ णासइ ॥ ४
दन्तु दलिज्जइ पावइ कप्पणु   तो वि ण मुअइ णियय-धवलत्तणु ॥ ५
पय णरवइहिँ णएण लएवी   दुम्मुह जइ वि तो वि पालेवी' ॥ ६
तो विण्णविउ कुमारें राहवु   'अहोँ परमेसर परम-पराहवु ॥ ७

8 P S °वंधउ. 9 A °उं. 10 P S A घरि.

6. 1 P S A °इ. 2 P S °इ. 3 P marginally notes a variant दूसइ. 4 S जिं, A जं. 5 A विरसंताहो.

7. 1 A °वहु. 2 P गंगपवाहेणं, गंगावाहेणं. 3 P S हडंति. 4 °P S त्तइ, A °त्ते.

[६] १ T पतिव्रता.

[७] १ यतिनोऽपि नित्यं कंदमूलमुत्पाटयंति (?).

जं[5] जणवउ णिय-णाहु ण पुच्छइ   लद्ध-पसरु राय-उलु दुगुञ्छइ ॥ ८
रहु-कउत्थ-[२]अ[6]णरण्ण-विरामेंहिँ   दसरह-भरह-णराहिव-रामेंहिँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

इक्खुक्क-वंसें उप्पण्णऍहिँ   सव्वेंहिँ पालिउ पुरु अचलु ।
[३]तहोँ पय[7]-उवयार-महद्दुमहोँ   लद्धु भडारा परम-फलु' ॥ १०

[८]

॥ जम्भेट्टिया ॥ हरि वुज्झाविउ   केम वि रामेंणं ।
[१]हलु वि ण भावइ   सीयहेँ णामेणं ॥ १
'एत्थु वच्छ अवहेरि करेवी   जणय-तणय वणेँ कहि मि [1]थवेवी ॥ २
जीवउ मरउ काइँ किर तत्तिए   किं दिणमणि सहुँ[2] णिवसइ रत्तिऍ ॥ ३
मं रहु-कुलें कलङ्कु उप्पज्जउ   तिहुअणें अयस-पडहु मं वज्जउ' ॥ ४
जाउ णिरुत्तरु [२]कइकइ-णन्दणु   लहु सेणाणी ढोइउ सन्दणु ॥ ५
देवि चडाविय णिय-परिएसहोँ   पेक्खन्तहोँ पुरवरहोँ असेसहोँ ॥ ६
धाहाविउ कोसलऍ सुमि[3]त्तऍ   सुप्पहाऍ सोआउर-चित्तऍ[4] ॥ ७
णायरिया-यणेण उक्कण्ठें   'केव विओइय दइवें दुट्ठें ॥ ८
घरु विणट्ठु खल-पिसणहुँ छन्दें   धि-धि अजु[5]त्तु किउ राहवचन्दें ॥ ९

॥ घत्ता ॥

किं माणुस-जम्में लद्धऍण   इट्ठ-विओय-परम्परेंण ।
वरि जाय णारि वणेँ वेल्लडिय   जा णवि मुच्चइ तरुवरेंण' ॥ १०

[९]

॥ जम्भेट्टिया ॥ ताव तुरङ्गेंहिं   णिउ रहु तेत्तहे ।
वियण महाडइ   दारुण जेत्तहे ॥ १
जेत्थु सज्जज्जुणा धाइ-धव-धम्मणा   ताल-हिन्ताल-ताली-तमालञ्जणा ॥ २
चिञ्चिणी चम्पयं चूअ-चवि-चन्दणा   वंसु वि[1]सु वेञ्जुलं वउल-वड-वन्दणा ॥ ३
तिमिर-तरु तरल-ता[2]ल्लूर-[२]तामिच्छयं   सिम्[3]वली सल्लइ सेल्लु सत्तच्छयं ॥ ४

5 S जिं. 6 P S अणु°. 7 P पइं, S A पइ.
8. 1 P S थिवेवी. 2 P S A हु. 3 P °त्तिहे, S °त्तहि. 4 P °हे, S °हो. 5 P धिद्धिअत्तु, S धिद्धियत्थु.
9. 1 P S स. 2 P S °तासूर°. 3 P S संव°.

२ अनंतरानंतरैः (?). ३ तस्य प्रजायारुपकारम्.
[८] हलु-शब्दः सीतायाः (?). २ लक्ष्मणः.
[९] १ T वेडसं. २ T अंजनं.

णाग-पुण्णाग-णारङ्ग-णो[4]मालियं कुन्द-कोरण्[5]ट-कप्पूर-[6]कंकोलयं ॥ ५
सरल-समि[7]-सामरी-साल-सिणि-सीसवं[8] पाडली फोफली केअई[9] वाहवं ॥ ६
माहवी-मड्डु-माल्लूर-[10]बहुमोक्खयं सिन्दि-सिन्दूर-मन्दार-महु[11]रुक्खयं ॥ ७
णि[12]म्बं-कोसम्ब-जम्बीर-जम्बू वरं खिङ्गिणी राइणी तोरणी तुम्बरं ॥ ८
णालिकेरी करीरी करञ्जालणं दाडिमी देवदारु-[13]कयंवासणं ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जं जेण जेम्व कम्मउं[14] कियउ तं तहों तेव समावडइ ।
किं रज्जहों टालेंवि जणय-सुअ दइवें णिज्जइ तं अडइ ॥ १०

[१०]

॥ जम्भेट्टिया ॥ सइहें वि होन्तिहे लञ्छणु लाइउ ।
सव्वहों विलसइ कम्मु पुराइउ ॥ १
जत्थ दंस-मसयं भयङ्करं सीह-सरहयं णङ्कु-सू[1]यरं ॥ २
णाय-णउलयं [१]कायलोलुहं हत्थि-अजयरं दव-महीरुहं ॥ ३
दब्भ-सीर-कुस-कास-मुञ्जयं पवण-पडिय-तरु-पण्ण-पुञ्जयं ॥ ४
विडव-णिहस-चु[२]ण्णुग्ध-मच्छियं किमि-[३]पिपी[2]लि-[४]उँद्देहि-विच्छियं ॥ ५
[५]हीर-खुण्ट-कण्टय-णिरन्तरं सिल-खडक्क-पत्थर-णिसत्थरं ॥ ६
तहिँ महा-वने परम-दारुणे[3] सीह-पहय-गय-सोणियारुणे[4] ॥ ७
अ[5]च्छहल्ल-[६]पइउल्ल-भीसणे सिव-सियाल-अलियल्लि-भी(?णी)सणे ॥ ८
मुक्क तेत्थु सू[७]एण [८]जाणई ‘महु ण दोसु रहुवइ जैं जाणई ॥ ९

॥ घत्ता ॥

वरि विसु हालाहउ भक्खियउ वरि जम-लोउ णिहालियउ ।
पर-पेसण-भायणुँ[4] दुह-णिलउ सेवा-धम्मु ण पालियउ ॥ १०

[११]

॥ जम्भेट्टिया ॥ दुप्परिपालउ जीविय-संसउ ।
आण-वडिच्छउ [१]विक्किय-मंसउ ॥ १

---

4 P S णे°. 5 P S °द°. 6 P S कं°. 7 P S °सि°. 8 P S °यं. 9 S °व°. 10 A °म°. 11 P S °र°. 12 P S °वुं°. 13 P S °क°. 14 P °उं.

10. 1 P S सूरयं. 2 P A पीप°. 3 P S °णा. 4 P S °ण. 5 P S अत्थ°.

---

[१०] १ काकोलूककम्. २ अग्निः. ३ T कीटिका. ४ दीपकैः (T दीवकैः). ५ पलसटा (?) ६ T वइहल्ल (?). वृक्षविशेषः. ७ सारथिना. ८ सीता.

[११] १ T विक्रीतमस्तकम् (?).

सेवा-धम्मु होइ दुज्जाणउ   पहु पेक्खेवउ वग्घ-समाणउ ॥ २
भोयणेँ सयणेँ मन्तें[1] एक्कन्तऍ   मण्डल-जोणि-महण्णव-चिन्तऍ ॥ ३
जहिँ अत्थाणु णिवन्धइ राणउ   तहिँ[2] पाइक्कु जइँ[3] वि पोराणउ ॥ ४
णउ वइसणउ ण वड्डउ जीवणु   ण करेवउ कयावि [२]णिट्ठीवणु ॥ ५
पाय-पसारणु हत्थप्फालणु   उच्चालवणु समुच्च-णिहालणु ॥ ६
हसणु भसणु पर-आसण-पेल्लणु   गत्त-भङ्गु मुह-जम्भा-मेल्लणु ॥ ७
णउ णियडऍँ[4] ण दूरेँ[5] वइसेवँउ   रत्त-विरत्त-चित्तु जाणेवउ ॥ ८
अग्गल पच्छल परिहरिएवी   जिह तूसइ तिह सेव करेवी ॥ ९

॥ घत्ता ॥

पणवेप्पिणु वम्फइ[6] वड्डिमहेँ   सिरु विक्किणइ जिएवाहों ।
सोक्खहों अणुदिणु पेसणु करेँवि   णवरि ण एक्कु वि [३]'सेवाहों' ॥ १०

[१२]

॥ जम्भेट्टिया ॥ एम भणेप्पिणु   रहु पलट्टिउ ।
समुहु अउज्झहेँ   सूउ पयट्टिउ ॥ १
वार-वार तहेँ दिण्णु[1] विसेसणु   'जामि माऍ महु एत्तिउ पेसणु'[2] ॥ २
जं असहेज्जी मुक्क वणन्तरेँ   मुच्छँउ[3] एन्ति जन्ति तहिँ अवसरेँ ॥ ३
[१]धाहाविउ उक्कण्ठुल-भावऍ   'कम्मु रउद्दु कियउ मइँ पावऍ ॥ ४
मञ्छुडु सारस-जुअलु विओइउ   चक्कवाय-मिहुणु वँ[4] विच्छोइउ ॥ ५
जम्महँ लग्गेँवि दुक्खहँ भायण   हा भामण्डल हा णारायण ॥ ६
हा सत्तुहण णाहिँ मम्भीसहि   हा जणेरि हा जणण ण दीसहि ॥ ७

11 1 P S A °ति. 2 P S पहु. 3 S जो. 4 P S °डे. 5 S °व्व°. 6 P S वंछ°.

12. 1 P णिंदिंतु, S णिंदंतु for तहे दिण्णु. 2 After पेसणु P adds marginally the following lines, which excepting the first distich are also found in S:

देइ संदेसउ सीया सूयहो   वहुगुणजुत्तहो धम्मासत्तहो ॥
रह(S हु) वइ रामहो एम कहेज्जसु   मइ जिह मा जिणधम्मु चइज्जसु ॥
लोयालावणेण अवियारिउ   तेण हवेसइ वहु (S उरु) संसारि (S र) उ ॥
गउ पुरि (S रे) वलेण पिट्ठु संदेसउ   तेण वि तासु कहिउ सविसेसउं (S उ) ॥
तं सुणेवि (S णिसुणिवि) हलहरु मुच्छाविउ कहव किलेसें चेयण पाविउ ॥

3 P S A °च्छि°. 4 A वि.

२ T थुंकनम्. ३ T सेवकस्य.

[१२] १ सीतया.

हा हय-विहि हउँ काइँ विओइय सिव-सियाल-सद्दूलहँ ढोइय ॥ ८
हा हय-विहि तुहुँ काइँ विरुद्धउ जेण रामु महु उप्परें कुद्धउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

वरि तिण-सिह वरि वणें वेल्लडिय वरि सिल लोयहुँ पाण-पिय ।
दूहव-दुरास-दुह-भायणिय णउ मइँ जेही का वि तिय ॥ १०

[१३]

॥ जम्भेट्टिया ॥ जलु थलु वणु तिणु भुवणु विचित्तउ ।
जं जि णिहालमि तं जि पलित्तउ ॥ १
भणु भणु [१]भाणु भाणु [२]भू-भावणु जइ मइँ मणेंण समिच्छिउ रावणु ॥ २
वणसइ तुहु मि ताव [1]तहिँ होन्ती जइयहुँ णिय णिसियरेंण रुवन्ती ॥ ३
णहयल तुहु मि होन्तु तहिँ अवसरें जइयहुँ जिउ जडाउ सङ्गर-वरें ॥ ४
जइयहुँ रयणकेसि दलवट्टिउ विज्जा-छेउ करेंवि आवट्टिउ ॥ ५
वसुमइ [2]पइ मि दिट्ठु तरुवर-घणें जइयहुँ णिवसियासि णन्दणवणें ॥ ६
अच्छिउ वरुणु पवणु सिहि [३]भक्खरु केण वि बोल्लिउ ण वि धम्मक्खरु ॥ ७
लोयहुँ कारणें दुप्परिणामें हउँ णिक्कारणें घल्लिय रामें ॥ ८
जइ मुय कह वि सइत्तण-धारी तो तुम्हइँ तिय-हच्च महारी' ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तं वयणु सुणेंवि सीयहेँ तणउ देव-लोउ चिन्ताविय[3]उ ।
णं [४]सइ-सावन्तर-भीयएँण वज्जजङ्घु मेलावियउ ॥ १०

[१४]

॥ जम्भेट्टिया ॥ ताव णरिन्देंण स-सुहड-विन्देंण ।
गयमारूढेंण रणें [१]णिव्वूढेंण ॥ १
दिट्ठ देवि रत्तुप्पल-चलणी णह-किरणुज्जोइय-स[1]इ-भुवणी ॥ २
काय-कन्ति-[२]उण्हविय-[३]सुरिन्दी लोयाणन्द-रुन्द-मुह-यन्दी ॥ ३
णयणोहामिय-वम्मह-वाणी पुच्छिय 'कासु धीय कहों राणी' ॥ ४
'हउँ णिल्लक्खण [४]णिज्जण-थामें[2] [५]लोयहों छन्दें घल्लिय रामें ॥ ५

13. 1 P S तहु. 2 P S तइ. 3 P S °ताविउ.
14. 1 S सइं. 2 P S णिच्छलरासें.

[१३] १ T आदित्यादित्य. २ T पृथ्वीविचारकः. ३ सूर्यः. ४ सतीशापभयेन.
[१४] १ समर्थेन. २ तापिता इंद्राणी. ३ T reads सुरद्दी and renders it as सुराद्रिमेरोः. ४ (reading of P S T) छलरहितपांडुरेण. ५ लोकापवादेन.

राम-णारि लक्खणु महु देवरु भामण्डलु एक्कोयरु भायरु ॥ ६
जणउ जणेरु विदेह जणेरी सुण्ह णरिन्दहों [६]दसरह-केरी' ॥ ७
पभणइ वज्जजङ्घु 'महि-पाला लक्खण-राम माएँ[3] महु साला ॥ ८
तुहुँ पुणु धम्म-वहिणि हउँ भायरु' साहुक्कारिउ सुरेंहिँ णरेसरु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

लायण्णु णिएँवि सीयहें तणउ तिहुअणेँ कासु ण खुहिउ मणु ।
गिरि धीरें सायरु गहिरिमएँ वज्जजङ्घु पर एक्कु जणु ॥ १०

[१५]

॥ जम्भेट्टिया ॥ सम्भीसेप्पिणु वय-गुण-थाणेंणं ।
णिय परमेसरि सिविया-जाणेंणं ॥ १
पुण्डरीय-पुरवरु पइसन्ते हट्ट-सोह णिम्मविय तुरन्तें ॥ २
सस भणेवि पडहउ देवाविउ ज[1]णु आस[2]ङ्का-थाणु मु[3]आविउ ॥ ३
तहिँ उप्पण्ण पुत्त लवणङ्कुस लक्खण-लक्खङ्किय दीहाउस ॥ ४
सीयाएविहिँ णय[4]ण-सुहङ्कर पुव्व-दिसिहें णं चन्द-दिवायर ॥ ५
विड्ढिं-गय सिक्खविय महत्थइँ वायरणाइ-अणेयइँ सत्थइँ ॥ ६
सयल-कला-कलाव-[१]कवणीया [२]मन्दर-मेरु णाइँ[5] थिय वीया ॥ ७
तेहिँ पहावें तहिँ रिउ थम्भिय रहुकुल-भवण-खम्भ णं उब्भिय ॥ ८
स-रहस सावलेव स-कियत्था लक्खण-रामहुँ समर-समत्था ॥ ९

॥ घत्ता ॥

रिउ लवणङ्कुसेंहिँ णिरङ्कुसेंहिँ दण्ड-सज्झु कि[6]उ णाइँ अहि ।
चप्पेंवि वप्पि[7]क्की दासि जिह लइय स य म्भु व लेण महि ॥ १०

*

3 P S A °इ.

15. 1 S जाणु. 2 P S °क°. 3 P मूया°, S सूया°. 4 S °विणय°. 5 P S A °इ.
6 P S °य. 7 P वप्पकी, S वप्पकी.

६ T दशरथ.

[१५] १ कमनीका (?) मनोज्ञाः. २ विमलतीर्थंकरस्य मंदरमेरुनामानौ द्वौ गणधरौ तथैवैतौ द्वौ भ्रातरौ.

[८२. बासीमो संधि]

सुरवर-डामर-डामरेंहिँ ससहर-चक्कङ्किय-णामहुँ[1] ।
भिडियाँ[2] आहवेँ वे वि जण लवणङ्कुस लक्खण-रामहुँ ॥

[१]

लवणङ्कुस णिऍवि जुवाण-भाव [१]कलि-कवलण कलिय-कला-[२]कलाव ॥ १
सयलामल-कुल-णहयल-मियङ्क [३]णं [3]अरि-करि-केसरि मुक्क-सङ्क ॥ २
रण-भर-धुर-धोरिय धीर-खन्ध गुण-गण-गणालि[4] णं [५]सेउ-वन्ध ॥ ३
धर-धारण दुद्धर-धर-धरिन्द वन्दिय-जिणिन्द-चरणारविन्द ॥ ४
परिरक्खिय-सामिय सरण-मित्त वन्दिग्गहेँ गोग्गहेँ किय-पॅरित्त ॥ ५
भू-भूसण भुवणाभरण-भाव दस-दिसि-पसत्त-णिग्गय-पयाव ॥ ६
रामाहिराम [६]रामाणुसरिस जॅण-जाणइ-जणणहँ जॅणिय-हरिस ॥ ७
[९]पर-पवर-पुरञ्जय जणिय-[१०]तास[5] मुह-चन्द-चन्दिमा-धवलियास ॥ ८

॥ घत्ता ॥

माणुस-वेसें अवयरेंवि वे भाय णाइँ[6] थिय कामहों ।
'किहँ[7] परिणावमि[8] जमल-मइ' उप्पण्ण चिन्त मणेँ मामहों ॥ ९

[२]

पट्ठविय महन्ता तेण तासु पिहिमी-पुरवरेँ[1] [१]पिहु-[२]पहुहेँ पासु ॥ १
'दे देहि अमॅयमइ-[2]तणिय वाल [३]कॅमणीय-किसोयरि कणयमाल ॥ २
दूयहों वयणें[3] दूमिउ णरिन्दु णं फुरिय-फणा-मणि थिउ फणिन्दु ॥ ३
'कुल-सील-कित्ति-परिवज्जियाहँ[4] को कण्णउ देइ अलज्जियाहँ[4]' ॥ ४
गउ दूउ दुरक्खर-दूमियङ्गु णं दण्ड-घाय-घाइउ-भुअङ्गु ॥ ५
लवणङ्कुस-मामहों कहिउ तेव 'पिहु-राएं दुहिय ण दिण्ण जेव ॥ ६
तं वयणु सुणेप्पिणु लइय [४]खेरि देवाविय लहु सण्णाहँ[5]-भेरि ॥ ७
उक्खन्धें उप्परि चलिउ तासु पिहिमी-पुरवर-परमेसरासु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

ताव णराहिउ वग्घरहु पिहु-पक्खिउ रण-महि मण्डेंवि ।
जलहर खीलेंवि सुक्कु जिह थिउ अग्गएँ जुज्झु समोड्डेंवि ॥ ९

1\. 1 P S °णामेहिं. 2 P S °थाहवे विहिं (S °हि) वे वि. 3 P S उरु. 4 P S °गणणइ. 5 P S °सु. 6 P A णाइ, S णइ. 7 S °य. 8 P S परिणाविय.
2\. 1 P S °र. 2 P S भि°. 3 P °णेहिं, S °णेहि. 4 P S °हो. 5 P S संगाम°.

[१] १ यमः. २ समूह. ३ (v. l. उरु) गरिष्ट. ४ पालिबंध. ५ रक्षा. ६ रामसदृश. ७ लोक-सीता-राम-त्रयाणां च. ८ T हर्षोत्पादकाः. ९ शत्रुप्रचुरपुरोपार्जकौ. १० दिसाः.
[२] १ पृथुनामराजा. २ T राजपार्श्वे. ३ मनोज्ञ. ४ गृहीतकंदलं.

[३]

ते[1] वग्घमहारह-वज्जजङ्घ　　अभिट्ट परोप्परु रणेँ अलङ्घ ॥ १
वहु दिवस करेप्पिणु संपहारु　　परियाणेँवि पर-वल-परम-सारु ॥ २
तो पुण्डरीय-पुर-पत्थिवेण　　सद्दूल-महारहु धरिउ तेण ॥ ३
तहिँ कालेँ कुइउ पिहु पिहुल-काउ　　सामन्त-सयइँ मेलवेँवि आउ ॥ ४
एत्तहेँ वि कुमारेँहिँ दुज्जएहिँ　　जयकारिय सीय रणुज्जएहिँ ॥ ५
लवणङ्कुस-णाम-पगासणेहिँ　　हत्थ-त्थिय-ससर-सरासणेँहिँ ॥ ६
रण-रामालिङ्गिय-विग्गहेहिँ　　पहरण-पँडहत्थ-महारहेहिँ ॥ ७
'वेढिज्जइ माएँ ण मामु जाव　　जाएवँउ अम्हहिँ तेत्थु ताव' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तो वोलाविय वे वि जण　　जणणिएँ हरिसंसु-विमीसएँ ।
'स-गिरि स-सायर सयल महि भुञ्जेज्जहु महु आसीसएँ' ॥ ९

[४]

आसीस लएँवि विन्नि वि पयट्ट　　अलमल-वल-मयगल-मइयवट्ट ॥ १
गय तेत्तहेँ जेत्तहेँ रणु अलङ्घु　　जयकारिउ णरवइ वज्जजङ्घु ॥ २
'अम्हेँहिँ जीवन्तेँहिँ दुक्खु कवणु　　जहिँ अङ्कुसु हुअवहु लवणु पवणु ॥ ३
का गणण तेत्थु विहि-पत्थिवेण　　अवरेण वि पवर-णराहिवेण' ॥ ४
पहु धीरेँवि भड-कडमद्दणेहिँ　　दससन्दण-णन्दण-णन्दणेहिँ ॥ ५
रहु वाहिउ तूरइँ वाइयाइँ　　किउ कलयलु सेण्णइँ धाइयाइँ ॥ ६
अब्भिट्टइँ वलइँ वलुद्धुराइँ　　अवरोप्परु चोइय-सिन्धुराइँ ॥ ७
सरवर-सङ्घाय-पवरिसिराइँ　　रय-रुहिर-महाणइ-हरिसिराइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पिहु-पत्थिउ लवणङ्कुसेँहिँ　　हेलएँ जेँ परम्मुहु लग्गउ ।
णावइ झत्ति झडप्पियउ　　विहिँ सीहहिँ मत्त-महागउ ॥ ९

[५]

तहिँ अवसरेँ समर-णिरङ्कुसेहिँ　　पच्चारिउ पिहु लवणङ्कुसेहिँ ॥ १
'कुल-सील-विहूणहुँ ल्हसिय केम　　वलु वलु दूवागमेँ चविउ जेम' ॥ २

3. 1 P वे. 2 °व्व°.
4. 1 P S द्ध°. 2 P S °रसिया°. 3 P S °या°.
5. 1 P S °श्रा°.

[३] १ मृताः.
[४] १ T अलं प्रचुरम्.

पिहु-पत्थिउ चलणेहिँ पडिउ ताहँ ‘रूसे[2]वउ णउ अम्हारिसाहँ ॥ ३
लइ लवण तुहारी कणयमाल मयणङ्कुस तुहु मि तरङ्गमाल’ ॥ ४
पइसारेँवि पुरवरेँ किउ विवाहु थिउ वज्जजङ्घु जय-सिरि-सणा[3]हु ॥ ५
तेण वि वत्तीस तणुब्भवाउ णिय-कण्णउ[4] दिण्ण [1]स-विब्भमाउ ॥ ६
सयलालङ्कारालङ्कियाउ हल-कमल-कुलिस-कलसङ्कियाउ ॥ ७
सामन्तहँ[5] मिलिय अणेय लक्ख पाइक्कहँ वुज्झिय केण सङ्ख[2] ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जे [3]अलमल-वल पवल-वल हरि-वल-वलेँहिँ ण साहिय ।
ते णरवइ लवणङ्कुसेँहिँ स[6]वसिकरेप्पिणु देस पसाहिय ॥ ९

[६]

खस-सव्वर-वव्वर-[1]टक्क-कीर कउवेर-कुरव-सोवीर[2] धीर ॥ १
तुङ्गङ्ग-वङ्ग-कम्भो[3]ज्ज-भोट्ट जालन्धर-जवणा-जाण-जट्ट ॥ २
कम्भीरोसीणर-कामरूव ताइय-पारस-काहार-सूव ॥ ३
णेपाल-[4]वट्टि-हिण्डिव-तिसि[5]र केरल-कोहल-कइलास-वसिर ॥ ४
गन्धार-मगह-मद्दाहिवा वि सक-सूरसेण-मरु-पत्थिवा वि ॥ ५
एय वि अवर वि किय वस विहेय पल्लट्ट पडीवा मेहिलेय ॥ ६
तं पुण्डरीय-पुरवरु पइट्ठ थुउ वज्जजङ्घु वइदेहि दिट्ठ ॥ ७
तहिँ कालेँ अकलि-कलियारएण पोमाइय वेण्णि वि णारएण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

‘[1]म[6]ड्डु लएप्पिणु सयल महि किय दासि व पेसण-गारी ।
पर जीवन्तेँहिँ हरि-वलेँहिँ णउ तुम्हहँ सिय वड्डारी’ ॥ ९

[७]

तं वयणु सुणेँवि लवणङ्कुसेण वोल्लिज्जइ परम-महाउसेण ॥ १
‘कहि कहि को हरि-वल एउ कवणु’ तो कहइ कुमारहोँ [1]गयण-गमणु ॥ २
‘णामेण अत्थि इक्खाय-वंसु तहिँ दसरहु उ[1]त्तम-रायहंसु ॥ ३

2 S °व्व°. 3 PS °हु. 4 PS दिण्णउ सविहवाउ. 5 PS °हि. 6 S वसि°.

6. 1 PS °ढक्क°. 2 PS सोंडीर वीर. 3 PS °कंहोज्ज°. 4 P °घट्ट°, S°घट्टि°. 5 P °तिसिरा, S °तिसार. 6 PS मंड.

7. 1 PS °त्ति°.

---

[५] १ (v. l. सविहवाउ) T विभवैः संयुक्ताः. २ प्रचुर.

[६] १ बलात्.

[७] १ नारदः.

तहों णन्दण लक्खण-राम वे वि   वण-वासहों घल्लिय तेण ते वि ॥ ४
गय दण्डारण्णु पइट्ठु[2] जाव   अवहरिय सीय रावणेण ताव ॥ ५
तेहि मि मेलाविउ [२]पमय-सेण्णु   हय भेरि पयाणउ णवर दिण्णु ॥ ६
वेढिय लङ्काउरि हउ दसासु   पडिवलेँवि अउज्झहिँ[४] किउ णिवासु ॥ ७
जण-वय-वसेण सइ[4] [3]सुद्ध-चित्त   णिक्कारणेँ काणणेँ णेवि घित्त ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वज्जजङ्घु तहिँ कहि मि गउ   तें दिट्ठ रुवन्ति वराइय ।
सस भणेवि सङ्गहिय घरेँ   लवणङ्कुस पुत्त 'वियाइय' ॥ ९

[८]

तं णिसुणेँवि भणइ [१]अणङ्गलवणु   'अम्हाण समाणु कुलीणु कवणु ॥ १
किउ जेण णवर जणणिहेँ मलित्तु   तहुँ हउँ दवग्गि डहणेक्क-चित्तु ॥ २
वट्टइ जाणिज्जइ तहिँ जेँ कालेँ   दुद्दरिसणेँ भीसणेँ भड-वमालेँ ॥ ३
जिम[1] लक्खण-रामहुँ पलउ जाउ   जिम[2] अम्हहँ विहि मि विणासु आउ ॥ ४
कहों तणउ वप्पु कहों तणउ पुत्तु   जो हणइ सो जिवइ रिउ णिरुत्तु ॥ ५
जाणेँवि कुमार-विक्कमु अलङ्घु   [२]सुट्ठेरिउ रोसिउ वज्जजङ्घु ॥ ६
'जो तुम्हहँ तिहि मि अणिट्ठु[3] पाउ   सो महु मि ण भावइ पिसुण[4]-भाउ' ॥ ७
परिपुच्छिउ णारउ परम-जोइ   'एत्थहों अउज्झ किं[5] दूर होइ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

कहइ महा-रिसि गयण-गइ   तहों लवणहों समरेँ समत्थहों ।
'सउ सट्ठुत्तरु जोयणहँ   साकेय-महापुरि एत्थहों' ॥ ९

[९]

वइदेहि णिवारइ [१]दर रुवन्ति   'ते दुज्जय लक्खण-राम होन्ति ॥ १
हणुवन्तु जाहँ घरेँ करइ सेव   आरुट्ठहों जसु देव वि अ-देव ॥ २
सुग्गीउ विहीसणु भिच्च जाहँ   को रणेँ धुर धरेँवि समत्थु ताहँ ॥ ३
दसकन्धरु दुद्धरु णिहउ जेहिँ   को पहरेँवि सक्कइ समउ तेहिँ' ॥ ४
तं णिसुणेँवि लवणङ्कुस पलित्त   णं विण्णि हुआसण घिऍण सित्त ॥ ५

2 P S °ट्ठु. 3 P S °हि. 4 P S सुविसुद्ध°.
8. 1 P °ह. 2 P जे°. 3 P S °ट्ठ. 4 P S A °णु. 5 P किहू°.

२ वानर. ३ सीता. ४ मा(? जा)ता.
[८] १ कामस्वरूपी प्रथमपुत्रो लवणः. २ अतिशयेन.
[९] १ ईषत्. २ फारक्कानि.

‘किं अम्हहँ वलेँ सामन्त णत्थि किं अम्हहँ ण-वि रह-तुरय-हत्थि ॥ ६
किं अम्हहँ दिढइँ ण वारणाइँ किं अम्हहँ करेँहिँ ण पहरणाइँ ॥ ७
किं अम्हहँ तणउ ण होइ घाउ सामण्ण-मरणेँ को भयहोँ थाउ’ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तो वुच्चइ मयणङ्कुसेँण ‘एत्तडउ ताव दरिसावमि ।
जेण रुवाविय माय महु तहोँ तणिय माय रोवावमि’ ॥ ९

[१०]

हय भेरि पयाणउ दिण्णु तेहिँ रण-रस-भरियहिँ लवणङ्कुसेहिँ ॥ १
अग्गएँ दस सयं[1] कुट्ठारियाहँ दस दारुण कुद्धल-धारियाहँ ॥ २
पण्णारह खेवणि-करयलाहँ झसियहँ चउवीस महा-वलाहँ ॥ ३
छव्वीसइँ कुसिय-विसोहियाहँ वत्तीस सहासइँ चक्कियाहँ ॥ ४
दस लक्ख गयहुँ मय-णि[2]ब्भराहुँ दस रहहुँ अट्ठारह हयवराहुँ ॥ ५
वत्तीस लक्ख फारक्कियाहुँ चउसट्ठि पवर धाणुक्कियाहुँ ॥ ६
रण-रसियहँ रहसा[3]ऊरियाहुँ अक्खोहणि साहणेँ तूरियाहुँ ॥ ७
णरवइहिँ फोडिदस किङ्कराहँ सावरणहँ वर-पहरण-कराहँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

स-रहसु लवणङ्कुसहँ[4] वलु पहँ उप्पहँ कह [5]वि ण माइयउ ।
णं खय-कालेँ समुद्द-जलु रेल्लन्तु अउज्झ पराइयउ ॥ ९

[११]

तो दप्पुद्धुरेँहिँ[1] णिरङ्कुसेहिँ पट्ठविउ दूउ लवणङ्कुसेहिँ ॥ १
गउ झत्ति अउज्झाउरि पइट्ठु स-जणद्दणु [1]सीया-दइउ दिट्ठु ॥ २
‘अहोँ रहुवइ अहोँ लक्खण-कुमार वोल्लिज्जइ केत्तिउ वार-वार ॥ ३
पर-णारी-हरण-दयावणेण तुम्हइँ[2] हेवाइय रावणेण ॥ ४
इहु घेँइँ[3] पुणु णरवइ वज्जजङ्घु उवहि व अ-खोहु मेरु व अ-लङ्घु ॥ ५
परमुत्तमँ[2]-सत्तु महाणुभावु सुर-भुवणन्तर-णिग्गय-पयावु ॥ ६
रण-रामालिङ्गण-रस-पसत्तु जसु तिण-समु पर-धणु पर-कलत्तु ॥ ७
लवणङ्कुस-मामु महा-पचण्डु सो तुम्हहँ आइउ काल-दण्डु ॥ ८

10. 1 PS सहस कुठा°. 2 °णिज्झ°. 3 S आसा°. 4 PS °हो. 5 A भि.
11. 1 °द्धं°. 2 PS °मु.

[११] १ रामश्च. २ गर्वं नीताः. ३ इदानीम्, साम्प्रतम्.

|| घत्ता ||

तें सहुँ काइँ महाहवेंण   णिय-[4]कोसु असेसु वि देप्पिणु ।
सुहु जीवहों उज्झाउरिहें   लवणङ्कुस-केर करेप्पिणु' ॥ ९

[१२]

आसीविस-विसह[1]र-विसम-चित्तु   णारायणु हुअवहु जिह पलित्तु ॥ १
'जा जाहि दूअ किं गज्जिएण   [1]जलएण व जल-परिवज्जिएण ॥ २
को वज्जजङ्घु कोऽणङ्गलवणु   को अङ्कुसु तासु पयावु कवणु ॥ ३
जिह सक्कहों तिह उत्थरहों तुम्हें   गहियाउह थिय सण्णहेंवि अम्हें' ॥ ४
गउ दूउ तुरन्तु वहन्तु खेरि   हय हरि-वल-वलें सण्णाह-भेरि ॥ ५
सण्णद्धु रामु रामाहिरामु   तइलोक्कब्भन्तरें भमिउ णामु ॥ ६
सण्णद्धु पलय-कालाणुकारि   लक्खणु सुह-लक्खण[2]-लक्ख[3]-धारि ॥ ७
सणद्ध णराहिव णिरवसेस   [3]वीसम्भर-गोयर खेयरेस ॥ ८

|| घत्ता ||

हय-तूरइँ किय-कलयलइँ   दारुण-रणभूमि-पयट्टइँ ।
लवणङ्कुस-हरि-वल-वलइँ   स-रहसइँ वे वि अब्भिट्टइँ ॥ ९

[१३]

अब्भिट्टइँ हरिस-पसाहणाइँ   लवणङ्कुस-हरि-वल-साहणाइँ ॥ १
दुव्वार-वइरि-विणिवारणाइँ   धाइय-उद्धङ्कुस-वारणाइँ ॥ २
दुद्धर-पर-णर-दप्प-हरणाइँ   अवरोप्परु पेसिय-पहरणाइँ ॥ ३
जस-लुद्धइँ वड्ढिय-विग्गहाइँ   रण-रामालिङ्गिय-विग्गहाइँ ॥ ४
हरि-खुर-खय-रय-कय-धूसराइँ   [1]आयामिय-भामिय-असिवराइँ ॥ ५
असि-किरण-करालिय-णहयलाइँ   गय-मय-कद्दमिय-महीयलाइँ ॥ ६
रुहिर-णइ-पूर-पूरिय-पहाइँ   खुर-खोणी-खुत्त-महारहाइँ ॥ ७
पय-भर-भारिय-[2]वीसम्भराइँ   पहरन्ति परोप्परु णिब्भराइँ ॥ ८

|| घत्ता ||

वज्जज[1]ङ्घ-रहुवइ-वलइँ   दिट्ठइँ [3]सुरपुर[2]-परिपालें ।
रण-भोयणु[3] भुञ्जन्तएँण   वे मुहइँ कियइँ[4] णं कालें ॥ ९

12. 1 P °विसहरु, S विहरणु. 2 P S °णु. 3 P पलय°
13. 1 P S °घु. 2 P S °रि. 3 P S °ण. 4 P णाइ किय.

४ भण्डारम्.
[१२] १ मेघेन. २ हत. ३ भूमिगोचराः.
[१३] १ T स्वीकृत. २ T पृथ्वी. ३ इन्द्रेण.

[१४]

कहिं जि धाइया भडा मइन्द-विक्कमुब्भडा ॥ १
स-रोस-वावरन्तया परोप्परं[1] हणन्तया ॥ २
कहिं जि आगया गया पहार-संगया[१] गया ॥ ३
कहिं जें वाण-जज्जरा भमन्त[२] मत्त कुञ्जरा ॥ ४
कहिं[3] जें दन्ति दन्तया[२] रसन्ति भग्ग-दन्तया ॥ ५
कहिं जें ते सु-लोहिया[३] गिरि व्व धाउ-लोहिया ॥ ६
कहिं जें आहया हया पडन्ति चिन्धया धया ॥ ७
कहिं जें उद्ध-खण्डयं[4] पणच्चियं कवन्धयं ॥ ८
तओ[5] तहिं महा-रणे भडेक्कमेक्क-दारुणे ॥ ९
गलन्त[6]-सोणियारुणे विमुक्क-हक्क-दारुणे ॥ १०
पिसाय-णाय-भीसणे अणेय-तूर-णीसणे ॥ ११
मिलन्त-ठन्त[7]-वायसे [४]सिवा-णियन्त-फोप्फसे ॥ १२

॥ घत्ता ॥

ताव वलुद्धुरु[8] वइरि-वलु जगडन्तु मज्झें सङ्गामहों ।
धाइउ अङ्कुसु लक्खणहों अब्भिट्टु लवणु रणें रामहों ॥ १३

[१५]

अब्भिड परोप्परु लवण-राम णं दइवें णिम्मिय विण्णि काम ॥ १
विण्णि वि भूगोयर-सार-भूय थिय विण्णि वि णाइँ कियन्त-दूय ॥ २
णं सग्गहों इन्द-पडिन्द पडिय विण्णि वि णिय-णिय-रहवरेंहिँ चडिय ३
विण्णि वि अप्फालिय-चण्ड-चाव विण्णि वि अवरोप्परु पलय-भाव ॥ ४
विण्णि वि दप्पुद्धर वद्ध-रोस विण्णि वि सुरसुन्दरि-जणिय-तोस ॥ ५
विण्णि वि रण-रामालिङ्गियङ्ग विण्णि वि दूरुज्झिय पिसुण-सङ्ग ॥ ६
विण्णि वि अवहत्थिय-मरण-सङ्क विण्णि वि पक्खालिय-पाव-पङ्क ॥ ७

॥ घत्ता ॥

ताव रणङ्गणें राहवहों आयामेंवि विक्कम-सारें ।
सहुँ धय-धवल-महद्धएँण धणु पाडिउ लवण-कुमारें ॥ ८

---

14. 1 PS °व°. 2 P °वं°. 3 Lines 5 and 6 omitted in S. 4 PS °खंधयं. 5 PS °हो. 6 PS °ति. 7 PS °पत्त°. 8 PS °द्ध°.

15. 1 PS सरण°.

---

[१४] १ T प्रहारसंगता गजाः. २ T दमिताः. ३ T रक्तेन प्लाविताः. ४ सिवा मासमालोकयन्ति.

[१६]

[1]रहु-णन्दण-णन्दण-णन्दणेण धणु अवरु लइउ रिउ-मद्दणेण ॥ १
[2]जं[1] पलय-वालवमुहाणुकरणु जं विडसुग्गीवहों पाण-हरणु ॥ २
सुग्गीवहों जेण सु-दिण्ण तार जें रावणु भग्गु अणेय-वार ॥ ३
तं पवरु सरासणु स-सरु लेवि किर विन्धइ आलं[2]क्खिउ करेवि ॥ ४
रहु खण्डिउ सीयं[3]-सुएण ताव परिओसिय सुर समरेक्क-भाव ॥ ५
हउ सारहि आहय वर तुरङ्ग णं [3]पारावारहों हिय तरङ्ग ॥ ६
पभणिउ अणङ्गं[4]लवणेणं[5] रामु 'तुहुँ जइ उववासेंण हुयउ खामु ॥ ७
तो [4]वावरु सव्व-परक्कमेण जिय णिसियर एण जि विक्कमेण' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वलेंण विलक्खीहूं[6]यएँण सर-धोरणि मुक्क कुमारहों ।
वलेंवि पडीवी लग्ग करें णं कुल-वहु णिय-भत्तारहों ॥ ९

[१७]

जिह मुक्कुं[1] ण ढुक्कइ कोइ वाणु तिह हलु तिह मोग्गरु तिह किवाणु ॥ १
तिह मुसलु गयासणि तिह [1]रहङ्गु तिह अवरु वि पहरणु रणें अहङ्गु ॥ २
लक्खणु वि ताव मं[2]यणङ्कुसेण णं रुं[2]द्धु महा-गउ अङ्कुसेण ॥ ३
आमेल्लइ पहरणु जं जें जं जें लवणा[3]णुउ छिन्दइ तं जें तं जें ॥ ४
धणु पाडिउ पाडिउ आयवत्तु हय हयवर सारहि धरणि-पत्तु ॥ ५
गयणङ्गणें तो वोल्लन्ति देव 'जिय वालेंहिँ लक्खण-राम केव' ॥ ६
[4]हाँसं गउ सुरवर-पउर-विन्दु 'हउ अण्णें[3] केण वि णिसियरिन्दु ॥ ७
खर-दूसणुं[4] सम्बुं[5]कुमारु जो वि अण्णेण जि केण वि णिहउ सो वि' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जगु जें विरत्तउ हरि-वलहँ सिसु-साहसें[6]-पवणुद्धूअउ ।
णहु महियलु पायालयलु सयलु वि लवणङ्कुसिहूअउ ॥ ९

16. 1 P S जं पलयवालुप°, A णं पलयवालुप°. 2 P S आलि°. 3 P S °या°. 4 P S °गु°. 5 S °हि. 6 P S °हूएण.

17. 1 P S °क्क. 2 P S तुट्टु. 3 P S अण्णइ. 4 S °ण. 5 P S °ब. P S °सु.

[१६] १ रघुनंदनोऽ[न]रण्यः। तस्य नंदनो दशरथस्तस्य नंदनः रामः तेन. २ T यं धनुषं प्रलय-कालं सन्मुखं करोति (?). ३ T समुद्रस्य. ४ व्याप(? पा)रं कुरु.

[१७] १ T चक्रः. २ T मदनरूपी द्वितीयपुत्रोंकुशनामा तेन. ३ लघुभ्राता. ४ T हास्यं गतः.

[१८]

खरदूसण-रावण-घायणेण तो लइउ चक्कु णारायणेण ॥ १
सय-सूर-समप्पहु णिसिय-धारु दसकन्धर-दारणु[1] दससयारु ॥ २
खय-जलण-जाल-माला-रउद्दु कुण्डलेंवि णाइँ थिउ विसहरिन्दु ॥ ३
धवलुज्जलु हरि-करयलें[2] विहाइ वर-कमलहों उप्परि कमलु णाइँ ॥ ४
आयामेंवि मेल्लिउ लक्खणेण गउ फरहरन्तु णहेँ तक्खणेण ॥ ५
आसङ्किय सुर णर[3] जेऽणुरत्त 'लइ एवहिँ सीया-सुय समत्त' ॥ ६
ति-पयाहिण णवरङ्कुसहों देवि थिउ हरिहेँ[4] पडीवउ करेँ चडेवि ॥ ७
पडिवारउ[5] घत्तिउ लक्खणेण पडिवारउ आइउ तक्खणेण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

हरि आमेलइ[6] अमरिसेँण तहों वालहों तण्ण पहावइ ।
वाहिर-विद्धु कलत्तु जिह परिभमेवि पुणु पुणु आवइ ॥ ९

[१९]

तो सयल-काल-कलिआरएण आणन्दु पणच्चिउ णारएण ॥ १
'हरि-वलहों एह किर[1] कवण वुद्धि णिय-पुत्तं[2] वहेंवि कहिँ लहहों सुद्धि ॥ २
गुरु-हार वणन्तरें मुक्क देवि उप्पण्ण तणय तहेँ[3] एय वे वि ॥ ३
पहिलारउ एहु अणङ्ग[4]लवणु कुल-मण्डणु जयसिरि-वास-भवणु ॥ ४
वीयउ मयणङ्कुसु एहु देव सहुँ आयहुँ पहरहों तुम्हि केव' ॥ ५
रिसि-वयणु सुणेवि महा-वलेहिँ परिचत्तइँ करणइँ[1] हरि-वलेहिँ ॥ ६
अवरुण्डिय चुम्बिय विहिँ वि वे वि कम-कमलहँ णिवडिय ताम ते वि ॥ ७
लवणङ्कुस-लक्खण-राम मिलिय चउ सायर एक्कहिँ णाइँ मिलिय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वज्जजङ्घु स इँ भु अ जुएँहिँ अवरुण्डिउ जाणइ-कन्तेँण ।
वार-वार पोमाइयउ 'महु मिलिय पुत्त पइँ होन्तेँण' ॥ ९

*

18. 1 P S °रु°. 2 P S °रि°. 3 P S व°. 4 P S हरेहि. 5 P S °इ. 6 P S मेल्लइ.
19. 1 P S °ह. 2 P S °त्तु. 3 P S A °हो. 4 P S °गु.

[१८] १ T दशशत आरकयुत.
[१९] १ आयुधानि युद्धक्रियाश्च.

[८३ तेआसीमो संधि]

लवणङ्कुस पुरेँ पइसारेँवि   जिय-रयणियर-महाहवेँण ।
वइदेहिहेँ दुज्जस-भीयऍण   दि[1]ट्ठु समो[2]ड्डिउ राहवेँण ॥

[१]

लवणङ्कुस-कुमार वलहद्दें   पुरेँ पइसारिय जय-जय-सद्दें ॥ १
झल्लरि-पडह-भेरि-दडि-सद्धेँहिँ   वज्जन्तहिँ अवरेहिँ अ-सद्धेँहिँ ॥ २
रामु अणङ्गलवणु रहेँ एक्कहिँ   लक्खणु मयणङ्कुसु अण्णेक्कहिँ ॥ ३
वज्जजङ्घु थिउ दुद्दम-वारणेँ   वीया-यन्दु णाइँ गयणङ्गणेँ ॥ ४
जय-जयकारिउ भड-सङ्घाएं   'रामहोँ सुअ मेलाविय आएं' ॥ ५
जणवउ रहसें अङ्गेँ ण माइउ   एक्कमेक्क-चूरन्तु पधाइउ ॥ ६
पेक्खेँवि ते कुमार पइसन्ता   णारिउ ण वि गणन्ति 'पइ सन्ता ॥ ७
सीया-णन्दण-रूवालोयणेँ   लायइ का वि अ[2]लत्त[3]उ लोयणेँ ॥ ८
का वि देइ अहरुल्लऍ कज्जलु   काऍ वि घत्तिउ पच्छऍ अ[3]ञ्चलु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

विवरेरउ णायरिया-यणु   किउ लवणङ्कुस-दंसणेँण ।
जगेँ कामें को वि ण वड्ढउ   स-सरें कुसुम-सरासणेँण ॥ १०

[२]

[1]आयल्लउ करन्त तरुणी-यणेँ   लवणङ्कुस पइसारिय पट्टणेँ ॥ १
तहिँ तेहऍ [2]पमाणेँ विज्जाहर   लङ्काहिव-किक्किन्ध-पुरेसर ॥ २
भामण्डल-णल-णीलङ्गङ्गय   जणय-कणय-मरुतणय समागय ॥ ३
जे [3]पट्ठविय गाम-पुर-देसहुँ   गय हक्कारा ताहुँ असेसहुँ ॥ ४
णाणा-जाण-विमाणेँहिँ आइय   णं जिण-जम्मणेँ[1] अमर पराइय ॥ ५
दिट्ठु रामु सोमित्ति महाउसु   दिट्ठु अणङ्गलवणु मयणङ्कुसु ॥ ६
सत्तुहणो वि दिट्ठु ताह सुन्दर   एक्कहिँ मिलिय पञ्च णं मन्दर ॥ ७
पुणरवि रामहोँ किय अहिवन्दण   'धण्णउ[2] तुहुँ जसु एहा णन्दण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

एत्तडउ दोसु पर रहुवइहेँ   जं परमेसरि णाहिँ घरेँ ।
म पमायहि लोयहुँ छन्देँण   आणेँवि का वि परिक्ख करेँ' ॥ ९

1. 1 P S दीउ. 2 P A °ड्डि°. 3 P S °लि°.
2. 1 P S °ण. 2 P °उं.

[१] १ पतयो विद्यमानाः. २ लाक्षारसम्. ३ परिधानवस्त्रम्.
[२] १ आरार्त्तिकं कामपीडा वा. २ प्रघट्टके. ३ प्रेषिताः. ४ मा त्यज (?).

[३]

तं णिसुणेवि चवइ[१] रहुणन्दणु 'जाणमि सीयहेँ तणउ सइत्तणु ॥ १
जाणमि जिह हरि-वंसुप्पण्णी जाणमि जिह वय-गुण-संपण्णी ॥ २
जाणमि जिह जिण-सासणेँ भत्ती जाणमि जिह महु सोक्खुप्पत्ती ॥ ३
जो[1] अणु-गुण-सिक्खा-वयं[2]-धारी जो[1] स[2]म्मत्त[3]-रयण-मणि[4]-सारी[5] ॥ ४
जाणमि जिह सायर-गम्भीरी जाणमि जिह सुर-महिहर-धीरी ॥ ५
जाणमि अङ्कुस-लवण-जणेरी जाणमि जिह सुय जणयहोँ केरी ॥ ६
जाणमि सस भामण्डल-रायहोँ जाणमि सामिणि रज्जहोँ आयहोँ ॥ ७
जाणमि जिह अन्तेउर-सारी जाणमि जिह महु पेसण-गारी ॥ ८

॥ घत्ता ॥

मेलेप्पिणु णायर-लोऍण महु घरेँ उब्भा करेँवि कर ।
जो दुज्जसु उप्परेँ घित्तउ एउ ण जाणहोँ[6] एक्कु पर' ॥ ९

[४]

तहिँ अवसरेँ रयणासव-जाएं कोक्किय '[१]तियड विहीसण-राएं ॥ १
वोल्लाविय एत्तहेँ वि तुरन्तें लङ्कासुन्दरि तो हणुवन्तें ॥ २
विण्णि वि विण्णवन्ति पणमन्तिउ सीय-सइत्तणे-गव्वु वहन्तिउ ॥ ३
'देव देव जइ हुअवहु डज्झइ जइ मारुउ पड-पोट्टलेँ वज्झइ ॥ ४
जइ पायालेँ णहङ्गणु[1] लोट्टइ कालन्तरेँण[२] कालु जइ तिट्ठइ[2] ॥ ५
जइ उप्पज्जइ मरणु कियन्तहोँ जइ णासइ सासणु अरहन्तहोँ ॥ ६
जइ अंवरें[३] उग्गमइ दिवायरु मेरु-सिहरेँ जइ णिवसइ सायरु ॥ ७
एउ असेसु वि सम्भाविज्जइ सीयहेँ सीलु ण पुणु मइलिज्जइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जइ एव वि णउ पत्तिज्जहि तो परमेसर एउ करेँ ।
तुल-चाउल-विस-जल-जलणहँ पञ्चहँ एक्कु जि दिव्वु धरेँ' ॥ ९

---

3. 1 P S जाणमि. 2 P S omit वय. 3 P संम०. 4 S omits मणि. 5 P S °धा°. 6 P °हु corrected as °मि, S °मि.

4. 1 P S °णु. 2 S णिट्ठइ.

---

[३] १ T कथयति. २ सम्यक्त्व.

[४] १ त्रिजटा. २ कालान्तरे मध्ये यदि कालोत्पद्यते. ३ पश्चिमदिशायाम्.

[५]

तं णिसुणेंवि रहुवइ परिओसिउ 'एव होउ' हक्कारउ पेसिउ ॥ १
गउ सुग्गीउ विहीसणु[1] अङ्गउ चं[1]न्दोयर-णन्दणु पं[2]वणङ्गउ ॥ २
पेसिउ पुप्फ-विमाणु पयट्टउ णं णहयल-सरें[2] कमलु विसट्टउ ॥ ३
पुण्डरीय-पुरवरु[3] सम्पाइय दिट्ठ देवि रहसेण ण माइय ॥ ४
'णन्द वड्ढ जय होहि चिराउस विण्णि वि जाहें पुत्त लवणङ्कुस ॥ ५
लक्खण-राम जेहिँ आयामिय सीहहिँ जिह गइन्द ओहामिय ॥ ६
रक्खिय णारएण समरङ्गणें तेहि मि ते पइसारिय पट्टणें ॥ ७
अम्हइँ आय तुम्हं[4]-हक्कारा दिअहा होन्तु मणोरह-गारा ॥ ८

॥ घत्ता ॥

चडु पुप्फ-विमाणें भडारिएँ मिलु पुत्तहँ पइ-देवरहँ ।
सहुँ[6] अच्छहिँ[7] मज्झें परिट्ठिय पिहिमि जेम चउ-सायरहँ' ॥ ९

[६]

तं णिसुणेंवि लवणङ्कुस-मायएँ वुत्तु विहीसणु गग्गिर-वायएँ ॥ १
'णिट्ठुर-हिययहों अ-लइय-णामहों जाणमि तत्ति ण किज्जइ रामहों ॥ २
घल्लिय जेण रुवन्ति वणन्तरें डाइणि-रक्खस-भूय-भयङ्करें ॥ ३
जहिँ सद्दूल-सीह-गय-गण्डा वव्वर-सवर-पुलिन्द-पयण्डा ॥ ४
जहिँ वहु तच्छ-रिच्छ-रुरु-सम्वर स-उरग-खग-मिग[1]-विग[2]-सिव-सूयर ॥ ५
जहिँ माणुसु जीवन्तु वि लुं[1]चइ [2]विहि कलि-कालु वि पाणहुँ मुच्चइ ॥ ६
तहिँ वणें घल्लाविय अण्णाणें एवहिँ किं तहों तणेण विमाणें ॥ ७

॥ घत्ता ॥

जो तेण[3] डाहु उप्पाइयउ पिसुणालाव-मरीसिएँण ।
सो दुक्करु उल्हाविज्जइ मेह-सएण वि वरिसिएँण ॥ ८

[७]

जइ वि ण कारणु राहव-चन्दें तो वि जामि लइ तुम्हहँ छन्दें' ॥ १
एवँ भणेवि देवि जय-सुन्दरि कम-कमलहिँ अच्चन्ति वसुन्धरि ॥ २

5. 1 P S A °ण. 2 P S °ले सर. 3 P S °र. 4 A अम्हि आय तुम्हह. 6 P सुहुं, S सुहु. 7 P मि.

6. 1 P S °विग°. 2 P S जहि. 3 P °हि°, S °हिं.

[५] १ विराही. २ हनूमंतु.
[६] १ लुञ्च्यते. २ विधिः.

पुप्फ-विमाणें चडिय अणुराएं परिमिय विज्जाहर-सङ्घाएं ॥ ३
कोसल-णयरि पराइय जावेंहिं दिणमणि गउ अत्थवणहों तावेंहिं ॥ ४
जेत्थहों[1] पिययमेण णिव्वासिय तहों उववणहों मज्झें आवासिय ॥ ५
कह वि विहाणु भाणु णहें उग्गउ अहिमुहु सज्जण-लोउ समागउ ॥ ६
दिण्णइँ तूरइँ मङ्गलु घोसिउ पट्टणु णिरवसेसु परिओसिउ ॥ ७
सीय पँविट्ठ[2] णिविट्ठ वरासणें सासण-देवय णं जिण-सासणें ॥ ८

॥ घत्ता ॥

परमेसरि पढम-समागमें झत्ति णिहालिय हलहरेंण ।
सिय-पक्खहों दिवसें पहिलऍ चन्दलेह णं सायरेंण ॥ ९

[८]

कन्तहें तणिय कन्ति पेक्खेप्पिणु पभणइ पोमणाहु विहसेप्पिणु ॥ १
'जइ वि कुलुग्गयाउ णिरवज्जउ महिलउ होन्ति सुट्ठु[1] णिल्लज्जउ ॥ २
दर-दाविय-कडक्ख-विक्खेवउ कुडिल-मइउ वड्डिय-अवलेवउ ॥ ३
वाहिर-धिट्ठउ गुण-परिहीणउ किह सय-खण्डँ[2] ण जन्ति णि[3]हीणउ ॥ ४
णउ गणन्ति णिय-कुलु मइलन्तउ तिहुअणें अयस-पडहु वज्जन्तउ ॥ ५
अङ्गु समोड्डेंवि धिद्धिक्कारहों वयणु णिएन्ति केम भत्तारहों' ॥ ६
सीय ण भीय सँइत्तण-गव्वें[1] वलेंवि पवोल्लिय मँच्छर-गव्वें ॥ ७
'पुरिस णिहीण होन्ति गुणवन्त वि तियहें ण पत्तिज्जन्ति मरन्त वि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

खडु लक्कडु सलिलु वहन्तियहें पँउराणियहें[2] कुलुग्गयहें ।
रयणायरु खारइँ देन्तउ तो वि ण थक्कइ णँम्मयहें[3] ॥ ९

[९]

साणु ण केण वि जणेंण गणिज्जइ गङ्गा-णइहिँ तं जि ण्हाइज्जइ ॥ १
ससि स-कलङ्कु तहिँ जि पह णिम्मल कालउ मेहु तहिँ जें तडि उज्जल ॥ २

---

7. 1 P S जत्थ°. 2 P S पइ°.
8. 1 P °द्धु, S °द्ध. 2 P S °डु. 3 P S ति°. 4 P marginally 'गग्गरसद्दे' पाठे.

---

[७] १ भवतां दाक्षिण्येन.
[८] १ सतीत्वमहत्त्वेन. २ पवित्राभिः । चिरन्तनाभिर्वा. ३ नयाम् (?).

[१]उवलु अपुज्जु ण केण वि छिप्पइ   तहिँ जि[1] पडिम चन्दणेँण विलिप्पइ ॥ ३
धुज्जइ पाउ पङ्कु जइ लग्गइ   कमल-माल पुणु जिणहोँ वलग्गइ ॥ ४
दीवउ होइ सहावें कालउ   वट्टि-सिहएँ मण्डिज्जइ आलउ ॥ ५
णर-णारिहिँ एवड्डउ अन्तरु   मरणेँ वि वेल्लि ण मेल्लइ तरुवरु ॥ ६
ऍह पइँ कवण [२]वोल्ल पारम्भिय   [३]सइँ-वडाय मइँ [४]अज्जु समुब्भिय ॥ ७
तुहुँ पेक्खन्तु अच्छु [५]वीसत्थउ   डहउ जलणु जइ डहेँवि समत्थउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

किं किज्जइ अण्णेँ[2] दिव्वें   जं[3] ण वि सुज्झइँ[4] महु मणहोँ ।
जिह कणय-लोलि डाहुत्तर   अच्छमि मज्झेँ हुआसणहोँ' ॥ ९

[१०]

सीयहेँ वयणु सुणेँवि जणु हरिसिउ   [१]उच्चारउ रोमञ्चु पदरिसिउ ॥ १
महुर-णराहिव-जस-लीह-लुहणें   हरिसिउ लक्खणु सहुँ सत्तुहणें ॥ २
तिण्णि वि विप्फुरन्त-मणि-कुण्डल   हरिसिय जणय-कणय-भामण्डल ॥ ३
हरिसिय लवणङ्कुस दुस्सील[1] वि   हरिसिय वज्जजङ्घ[2]-णल-णील[3] वि ॥ ४
तार-तरङ्ग-रम्भ-विससेण वि   दहिमुह-कुमुय-महिन्द-सुसेण वि ॥ ५
गवय-गवक्ख-सङ्ख-सकन्दणँ[4]   चन्दरासि-चन्दोयर-णन्दणँ ॥ ६
लङ्काहिव-सुग्गीवङ्गङ्गय   जम्बव-पवणञ्जय-पवणङ्गय ॥ ७
लोयवाल-गिरि-णइउ समुद्द वि   विसहरिन्द अमरिन्द णरिन्द वि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तइलोक्कब्भन्तर-वत्तिउ   सयलु वि जणवउ हरिसियउ ।
पर हियवएँ कलुसु वहन्तउ   रहुवइ एक्कु ण हरिसियउ ॥ ९

[११]

सीयएँ जं जें वुत्तु [१]अवलेवें   तं जि समत्थिउ पुणु वलएवें ॥ १
कोक्किय खणय खणाविय [२]खोणी   हत्थ-सयाइँ तिण्णि चउ-कोणी ॥ २
पूरिय खड-लक्कड [३]विच्छड्डेंहिँ   कालागुरु-चन्दण-सिरिखण्डेंहिँ ॥ ३
देवदारु-कप्पूर-सहासेँहिँ   कञ्चण-मञ्च रइय चउ-पासेँहिँ ॥ ४

---

9. 1 P तहि पडिमा, S ताहि पडिम. 2 P अन्नइं, S अण्णइ. 3 P S जे. 4 P S °हो.
10. 1 A सुस्सील°. 2 P S °घु. 3 P S °लु. 4 P S °णु.

---

[९] १ पाषाणः. २ कथा. ३ सतीपताका. ४ T अद्य सम्यगुद्धरामि. ५ विस्रब्धः.
[१०] १ ऊर्द्धाकारः.
[११] १ गर्व्वेण. २ गर्ता, T खड्डा. ३ काष्ठसमूहैः.

चडियँ[1] राय आयाँ[2] गिव्वाण वि इन्द-चन्द-रवि-हरि-वम्भाण वि ॥ ५
इन्धण-पुञ्जें चडिय परमेसरि णं संठिय वय-सीलहँ उप्परि ॥ ६
'अहों देवहों महु तणउ सइत्तणु जोएज्जहों रहुवइ-दुट्ठत्तणु ॥ ७
अहों वइसाणर तुहु मि डहेज्जहि जइ विरुआरी तो म खमेज्जहि' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

किउ कलयलु दिण्णु हुआसणु महि जें जाय सम-जालडिय ।
सो णाहिँ को वि तहिँ अवसरें जेण ण मुक्की धाहडिय ॥ ९

[१२]

खड-लक्कड-विच्छड्डु-पलित्तएँ धाहाविउ कोसलएँ सुमित्तएँ ॥ १
धाहाविउ सोमित्ति-कुमारें 'अज्जु माय मुअ महु अवियारें' ॥ २
धाहाविउ भामण्डल-जणएँहिँ धाहाविउँ[1] लवणङ्कुस-तणएँहिँ ॥ ३
धाहाविउ लङ्कालङ्कारें[2] धाहाविउ हणुवन्त-कुमारें[3] ॥ ४
धाहाविउ सुग्गीव-णरिन्दें[4] धाहाविउ महिन्द-माहिन्दें[5] ॥ ५
धाहाविउ सव्वेंहिँ सामन्तेंहिँ रामहों धिद्धिक्कारु करन्तेंहिँ ॥ ६
धाहाविउ वइदेहि-कएं[6] विहिँ[7] लङ्कासुन्दरि-तियडाएविहिँ ॥ ७
उद्ध-मुहेण पवड्ढिय-सोएं धाहाविउ णायरिएं लोएं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

'णिट्ठुरु णिरासु[8] मायारउ दुक्किय-गारउ कूर-मइ ।
णउ जाणहुँ सीय वहेविणु रामु लहेसइ कवण गइ' ॥ ९

[१३]

थिउ एत्थन्तरें कारणु भारिउ णिरवसेसु जगु धूमन्धारिउ ॥ १
जालउ विप्फुरन्ति तहिँ अवसरें णं विज्जुलउ[1] जलय-जालन्तरें ॥ २
सीय सइत्तणेण णउ कम्पिय 'ढुक्कु ढुक्कु सिहि' एम पजम्पिय ॥ ३
'एहु देहु गुण-गहण-णिवासणु डहेँ डहेँ जइ सच्चउ जें हुआसणु ॥ ४
डहेँ डहेँ जइ जिण-सासणु छड्डिउ डहेँ डहेँ जइ णिय-गोत्तु ण मण्डिउ ॥ ५
डहेँ डहेँ जइ हउँ केण वि ऊणी डहेँ डहेँ जइ चारित्त-विहूणी ॥ ६

---

11. 1 A °या. 2 A य.

12. 1 P S A °उ. 2 P °कारेंहि°, S °केसहि. 3 P °रेहि, S °रेंहि. 4 P °दहिं, S °दहि. 5 P S °णलणीलमहिंदहिं (S °हि). 6 P S A °कए. 7 P हिंवि, S हिवि. 8 P दुरा°.

13. 1 P जलण°, S °लयउ जल.

---

[१२] १ सीतानिमित्ते.

डहेँ डहेँ जइ भत्तारहोँ दोही   डहेँ डहेँ जइ परलोय-विरोही ॥ ७
डहेँ डहेँ सयल-भुवण-सन्तावणु   जइ मइँ मणेँण वि इच्छिउ रावणु' ॥ ८
तं एवड्डु धीरु को पावइ   सिहि सीयलउ होइ ण पहावइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तहिँ अवसरेँ मणेँ परितुट्ठउ   कहइ पुरन्दरु सुर-यणहोँ ।
'सिहि सक्कइ डहेँवि ण सक्कइ   पेक्खु पहाउ सइत्तणहोँ' ॥ १०

[१४]

ताँम[१] तरुण-तामरसेँहिँ छण्णउं[1]   सो जेँ जलणु सरवरु उप्पण्णउ ॥ १
सारस-हंस-कोञ्च-कारण्डेँहिँ   गुमुगुमन्त-छप्पय-विच्छ[2]ड्डेँहिँ ॥ २
जलु अत्थक्कॅ[3]एँ कहि मि ण माइउ   मञ्च-सयइँ रेल्लन्तु पधाइउ ॥ ३
णासइ सव्वु लोउ सहुँ रामें   सलिलु पवड्ढिउं[4] सीयहेँ णामें ॥ ४
अण्णु वि सहसवत्तु उप्पण्णउ   दि[5]यॅवएँ आसणु णं अवइण्णउ ॥ ५
तासु मज्झेँ मणि-कणय-रवण्णउ   दिव्वासणु समुज्जु उप्पण्णउ ॥ ६
तहिँ जाणइ जण-साहुक्कारिय   सइँ सुरवर-वहूहिँ वइसारिय ॥ ७
तहिँ वेलहिँ सोहइ परमेसरि   णं पच्चक्ख लच्छि कमलोवरि ॥ ८
आहय दुन्दुहि सुरवर-सत्थें   मेल्लिउ कुसुम-वासु सइँ हत्थें ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जय-जय-कारु पघुट्ठउ   सुह-वयणावण्णण-भरिउं[6] ।
णाणाविह-तूर-महा-रउ   जाणइ-जसु[7] वं[8] पवित्थरिउ ॥ १०

[१५]

तो एत्थन्तरेँ णिरु दीहाउस   सीयहेँ पासु ढुक्क लवणङ्कुस ॥ १
जिह ते तिह विण्णि वि हरि-हलहर तिह भामण्डल-णल-वेलन्धर ॥ २
तिह सुग्गीव-णील-मइसायर   तिह सुसेण-विससेण-जसायर ॥ ३
तिह स-विहीसण कुमुअङ्गङ्गय   जणय-कणय-मारुइ-पवणञ्जय ॥ ४
तिह गय-गवय-गवक्ख-विराहिय   वज्जजङ्घ[1]-सत्तुहण गुणाहिय ॥ ५
तिह महिन्दि[2]-माहिन्दि स-दहिमुह   तार-तरङ्ग-रम्भ-पहु-दुम्मुह ॥ ६
तिह मइकन्त-वसन्त-रविप्पह   चन्दमरीचि-हंस-पहु-दिढरह ॥ ७
चन्दरासि-सन्ताण णरेसर   रयणकेसि-पीइ[3]ङ्कर खेयर ॥ ८

14. 1 P °उं. 2 P S विच्छं°. 3 P S °क्कु पुणु. 4 P S पवंदिउ. 5 P देवए, S देवइ°. 6 P S °यउ, A °य. 7 P S omit. 8 P वित्थरिअउ, S वित्थरियउ.

15. 1 P S °घु. 2 P S महिंदिमाहिंद. 3 P S °यं°.

[१४] १ तदनन्तरं नवकत्र(? म)लैराच्छादितः.

तिह जम्वव-जम्ववि-इन्दाउह   मन्दहत्थँ[4]-ससिपह-तारामुहँ[5] ॥ ९
तिह ससिवद्धण-सेय-समुद् वि   रइवद्धण-णन्दण-कुन्देद(?) वि ॥ १०
लच्छिभुत्ति-कोलाहल-सरल वि   णहुस-कियन्तवत्त-चल-तरल वि ॥ ११

॥ घत्ता ॥

अवर वि एक्केक्क-पहाणा   उँ[6]र-रोमञ्च-समुच्छलिय ।
अहिसेय-समएँ णं लच्छिहेँ   सयल-दिसा-गइन्द मिलिय ॥ १२

[१६]

तो वोल्लिज्जइ राहव-चन्दें   'णिक्कारणें खल-पिसुणहँ छन्दें ॥ १
जं[1] अवियप्पें मइँ अवमाणिय   अण्णु वि दुहु एवड्डु पराणिय ॥ २
तं परमेसरि महु मरुसेज्जहि   एक्क-वार अवराहु खमेज्जहि ॥ ३
आउ जाहुँ घर-वासु णिहालहि   सयलु वि णिय-परियणु परिपालहि ॥ ४
पुप्फ-विमाणें चडहि सुर-सुन्दरें   वँ[2]न्दहि जिण-भवणइँ गिरि-मन्दरें ॥ ५
उववण-णइउ महद्दह-सरवरें   खेत्तइँ कप्पद्दुम-कुलगिरिवरें ॥ ६
णन्दणवण-काणणइँ महायर   जणवय-वेइ-दीव-रयणायर ॥ ७

॥ घत्ता ॥

मणें धरहि एउ महु वुत्तउ   मच्छरु सयलु वि परिहरहि ।
सइ जिह सुरवइ-संसग्गि[3]एँ   'णीसावण्णु रज्जु करहि' ॥ ८

[१७]

तं णिसुणेंवि परिचत्त-सणेहिएँ   एव पजम्पिउ पुणु वइदेहिएँ ॥ १
'अहों राहव मं जाहि विसायहों   ण वि तउ दोसु ण जण-सङ्घायहों ॥ २
भव-भव-सएँहिँ विणासिय-धम्महों   सव्वु दोसु एँउ दुक्किय-कम्महों ॥ ३
को सक्कइ णासणहँ पुराइउ   जं अणुलग्गउ जीवहुँ आइउ ॥ ४
वल मइँ वहुविह-देस-णिउत्ती   तुज्झु पसाएं वसुमइ भुत्ती ॥ ५
वहु-वारउ तम्वोलु समाणिउ   इहलोइउ सुहु सयलु वि माणिउ ॥ ६
वहु-वारउ पयडिय-वहु-भोग्गी   पइँ सहुँ पुप्फ-विमाणें वलग्गी ॥ ७
वहु-वारउ भवणन्तरें हिण्डिउ   अप्पउ वहु-मण्डणेंहिँ पमण्डिउ ॥ ८
एवँ[1]हिँ तिह करेमि पुणु रहुवइ   जिह णँ[2] होमि पडिवारी तियमइ ॥ ९

4 P S °त्थि°. 5 P S °उह. 6 A °रे.
16. 1 P जइ. 2 P omits this Pāda. 3 P S °ग्गी°.
17. 1 P S एमहि.

[१६] १ समस्तम्.
[१७] १ हे रामचन्द्र. २ पुनः स्त्री न भवामि.

॥ घत्ता ॥

महु विसय-सुहेँहिँ पँज्जत्तउ[3] छिन्दमि जाइ-जरा-मरणु ।
णिव्विण्णी भव-संसारहोँ लेमि अज्जु धुवु तव-चरणु' ॥ १०

[१८]

एम ताएँ एँउ वयणु चवेप्पिणु दाहिण-करेँण समुप्पाडेप्पिणु ॥ १
णिय-सिर-चिहुर तिलोयाणन्दहोँ पुरउ पघल्लिय राहव-चन्दहोँ ॥ २
केस णिएवि सो वि मुच्छंगउ पडिउ णाइँ तरुवरु मरु-आहउ ॥ ३
महिहिँ णिसण्णु सुट्ठु णिच्चेयणु जाव कह वि किर होइ स-चेयणु ॥ ४
ताव णियन्तहँ जिण-पय-सेवहँ विज्जाहर-भूगोयर-देवहँ ॥ ५
सीयएँ सील-तरण्डएँ थाएँवि लइय दिक्ख रिसि-आसमेँ जाएँवि ॥ ६
पासेँ सव्वभूसण-मुणिणाहहोँ णिम्मल-केवल-णाण-सणाहहोँ[1] ॥ ७
जाय तुरिउ तव-भूसिय-विग्गहु मुक्क-सव्व-पर-वत्थु-परिग्गहु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

एत्थन्तरेँ वलु उम्मुच्छियउ जो रहु-कुल-आयास-रवि ।
तं आसणु जाव णिहालइ जणय-तणय तहिँ ताव ण वि ॥ ९

[१९]

पुणु सव्वाउ दिसाउ णियन्तउ उट्ठिउ 'केत्तहेँ सीय' भणन्तउ ॥ १
केण वि स-विणएण तो सीसइ 'पवरुज्जाणु एउ जं दीसइ ॥ २
इह णिय-सुरेँहिँ सुसीलालङ्किय मुणि-पुङ्गवहोँ[1] पासु दिक्खङ्किय' ॥ ३
तं णिसुणेँवि रहु-णन्दणु कुद्धउ जुअ-खएँ णाइँ[2] कियन्तु विरुद्धउ ॥ ४
रत्त-णेत्तु भउहा-भङ्गुर-मुहु गउ तहोँ उज्जाणहोँ सवडंमुहु ॥ ५
गएँ आरूढउ मच्छर-भरियउ वहु-विज्जाहरेहिँ परियरियउ ॥ ६
उब्भिय-ससि-धवलायववारणु दाहिण-करेँ कय-सीर-प्पहरणु[3] ॥ ७
'जं किउ चिरु मायासुग्गीवहोँ जं लक्खणेँण समरेँ दहगीवहोँ ॥ ८
तं करेमि वड्ढिय-अवलेवहँ वासव-पमुह-असेसहँ देवहँ' ॥ ९
सहुँ णिय-भिच्चेँहिँ एव चवन्तउ तं महिन्द-णन्दणवणु पत्तउ ॥ १०
पेक्खेँवि णाणुप्पण्णु मुणिन्दहोँ वियलिउ मच्छरु सयलु णरिन्दहोँ ॥ ११

---

18. 1 P S °सहावहो.
19. 1 P S °म°. 2 P S A °इ. 3 P S वि पह°

---

३ पूर्यताम्.
[१८] १ तया.

॥ घत्ता ॥

ओयरेँवि महा-गय-खन्धहोँ पयहिण देवि स-णरवरेँण ।
कर मउलि करेँवि मुणि वन्दिउ णय-सिरेण सिरि-हलहरेँण ॥ १२

[२०]

जिह तेँ तिह वन्दिउ साणन्देँहिँ लक्खण-पमुह-असेस-णरिन्देँहिँ ॥ १
दिट्ठ सीय तहिँ राहव-चन्देँ णं तिहुअण-सिरि परम[1]-जिणिन्देँ ॥ २
ससि-धवलम्वर-जुवलालङ्किय महि-णिविट्ठ छुडु छुडु दिक्खङ्किय ॥ ३
पुणु णिय-जस-भुवण-त्तय-धवलेँ सिर-सीहरोवरि-किय-कर-कमलेँ ॥ ४
पुच्छिउ वलेँण 'अणङ्ग-वियारा परम-धम्मु वज्जरहि भडारा' ॥ ५
तेण वि कहिउ सव्वु सङ्खेवेँ भरहेसरहोँ जेव पुरएवेँ ॥ ६
तव-चरित्त-वय-दंसण-णाणइँ पञ्च वि गइउ जीव-गुणथाणइँ ॥ ७
खम-दम-धम्माहम्म-पुराणइँ जग-जीवुच्छेआउ[2]-पमाणइँ ॥ ८
समय-पल्ल-रयणायर-पुव्वइँ वन्ध-मोक्ख-लेसउ[3] वर-दव्वइँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

आयइँ अवरइँ वि असेसइँ कहियइँ मुणि-गण-सारएँण ।
परमागमेँ जिहँ[4] उद्दिट्ठइँ आसि स य म्भु-भडारएँण ॥ १०

*

इय पउमचरिय-सेसे सयम्भुएवस्स कह वि उव्वरिए ।
तिहुवण-सयम्भु-रइए[1] समाणियं[2] सीय-दीव-पव्वमिणं ॥ १
वन्दइ-आसिय-तिहुअण-सयम्भु-कइ-कहिय-पोमचरियस्स ।
सेसे भुवण-पगासे तेआसीमो इमो सग्गो[3] ॥ २

*

कइरायस्स विजय-सेसियस्स वित्थारिओ जसो भुवणे ।
तिहुअण-सयम्भुणा पोमचरियसेसेण णिस्सेसो ॥ ३

*

[८४. चउरासीमो सन्धि]

एत्थन्तरेँ सयलविहूसणु पणवेँवि वुत्तु विहीसणेँण ।
'कहेँ[1] मुणिवर सीय महासइ किं कज्जें हिय रावणेँण ॥

20. 1 P परमाणं. 2 P S जीउच्छेउ. 3 P लेसाउ अणुव्वइ. 4 P S जह, S वदें.

1. P °रइय, S °रइ°. 2 S सं°. ३ T इति कृते रामचरिते स्वयंभु-महाकविर्देवलोकी बभूव.
1. 1 P S A °हि.

[१]

अण्णु वि जिय-रयणियराहवेण   अण्णहिँ जम्मन्तरेँ राहवेण ॥ १
कहेँ गुरु किउ सुकिउ काइँ एण   एवड्डु पहुत्तणु पत्तु जेण ॥ २
अण्णु वि धारायर-वंस-सारु   परमागम-जलणिहि-विगय-पारु ॥ ३
दसकन्धरु तरणि व दोस-चत्तु   किह मूढउ पेक्खेंवि पर-कलत्तु ॥ ४
जो ण वि आयामिउ सुरवरेहिँ   विसहर-विज्जाहर-णरवरेहिँ ॥ ५
सो दहमुहु कमल-दलक्खणेण   किह रणेँ विणिवाइउ लक्खणेण ॥ ६
मेल्लेप्पिणु णिय-भायरु महन्तु   हउँ किह हरि-बलहँ सणेहवन्तु ॥ ७
किह भामण्डलु सुग्गीउ एहु   रामोवरि वड्ढियँ[3]-गरुअ-णेहु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अण्णहिँ[4] भवेँ जणयहोँ दुहिअऍ   काइँ कियइँ गुरु-दुक्कियइँ ।
जें जम्महोँ लग्गेंवि दुस्सहइँ   पत्त महन्त-दुक्ख-सयइँ' ॥ ९

[२]

तं णिसुणेप्पिणु हय-मयरद्धउ   कहइ सयलभूसणु[1] धम्मद्धउ ॥ १
'इह[2] जम्बूदीवहोँ अब्भन्तरेँ   भरह-खेत्तेँ दाहिण-कउहन्तरेँ ॥ २
खेमउरिहेँ णयदत्तु वणीसरु   चाव-वडाउ णाइँ कोडीसरु ॥ ३
तहोँ सुणन्द पिय पीण-पओहर   णं धणयहोँ धणएवि मणोहर ॥ ४
तहोँ धणदत्तु पुत्तु पहिलारउ   पुणु वसुदत्तु बीउ दिहि-गारउ ॥ ५
तहोँ जण्णवलि-णाउ सुहि दियवरु   सायरदत्तु अवरु पुरेँ वणिवरु ॥ ६
रयणप्पह-पिय-गेहिणि-वन्तउ   तहोँ गुणवइ सुअ सुउ गुणवन्तउ ॥ ७
विण्णि वि णव-जोव्वण-पायडियइँ   सुरवर इव छुडु सग्गहोँ पडियइँ ॥ ८
एक्क-दिवसेँ परमुत्तम-सत्तें   सायरदत्तु वुत्तु णयदत्तें ॥ ९

॥ घत्ता ॥

"तरुणीयण-मण-धण-थेणहोँ   अहिणव-जोव्वण-धाराहोँ[3] ।
तुह तणिय तणय धणदत्तहोँ   दिज्जउ सुयहोँ महाराहोँ" ॥ १०

[३]

तं णिसुणेँवि वड्ढिय-अणुराएं   दिण्ण वाय[1] तहोँ गुणवइ-ताएं ॥ १

2 P S रामाउरि. 3 P S A °उ. 4 P S °हे.
2. 1 P S °ण. 2 A °य. 3 P S °र°.

[१] १ राक्षसः
[२] १ दिशान्तरे. २ मित्रः.
[३] १ वाचावन्धः.

तो पुरें तहिँ जें अवरु णिरु वहु-धणु वणि-तणुरुहु कुमारि-गेण्हण-मणु ॥ २
[२]सिरि-कन्तु व सिरिकन्तु पसिद्धउ वर-सिय-सम्पय-रिद्धि-पसिद्धउ ॥ ३
तासु जणणि सुय[३] देवि समिच्छइ थोव-धणहों चिर-वरहों न इच्छइ ॥ ४
एह वत्त णिसुणेंवि वसुदत्तें [४]पढम-सहोयर-अणयाणन्तें ॥ ५
सुहि-जणवलि-दिण्ण-उवएसें परिहिय-णव-[५]जलयासिय-वासें ॥ ६
फुरिय-दट्ठ[1]-ओट्ठुब्भड-वयणें चलिय-गण्ड-भू-भङ्गुर-णयणें ॥ ७
णिरु-णीसद्द[2]-चलण-संचारें सिहि-सिह-णिहि[3]-असिवर-फुर-धारें ॥ ८
मन्दिरें[4]-पासुज्जाणें [६]पमाइउ गम्पिणु रयणि-समऍ सम्भाइउ ॥ ९
आयामेंवि आहउ असि-घाएं णाइँ महीहरु [७]अस[5]णि-णिहाएं ॥ १०
[८]तेण वि दुण्णिरिक्ख-तिक्खग्गें ताडिउ [९]णन्दा-णन्दणु खग्गें ॥ ११
विण्णि वि वण-[१०]विणित्त रुहिरोल्लिय णं फग्गुणें पलास पप्फुल्लिय ॥ १२

॥ घत्ता ॥

तो ताव एव वहु-मच्छर जुज्झिय उज्झिय-मरण-भय ।
जा पाण विहि मि सम-घाऍहिँ विहुरें कु-भिच्च व मुऍवि गय ॥ १३

[४]

पुणु उत्तुङ्ग-विसाल-पईहरें जाय वे वि मिग विञ्झ-महीहरें ॥ १
धणदत्तु वि गुणवइ अ-लहन्तउ[1] भाइहें तणउ दुक्खु अ-सहन्तउ[1] ॥ २
मुऍवि णियय-घरु सुट्ठु रमाउलु गउ पुरवरहों देस-भमणाउलु ॥ ३
वाल वि णिय-मणें तहों अणुरत्ती सयलावर वर वरहँ विरत्ती ॥ ४
धणदत्तहों गमणें विच्छाइय जणणें अण्ण णिओयहों लाइय ॥ ५
छाइय अइ-रउद्द-परिणामें सिहि व पलिप्पइ साहुहुँ णामें ॥ ६
णियवि मुणिन्द-रूवु उवहासइ कडुयक्खर-खर-वयणइं भासइ ॥ ७
अक्कोसइ णिन्दइ णिब्भच्छइ जइण-धम्मु सुइणे वि ण इच्छइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वहु-कालें अट्ट-झाणेण पुण्णाउस अवसाणें मय ।
उप्पण्ण तेत्थु पुणु काणणें जहिँ[2] वसन्ति ते वे वि मय ॥ ९

3. 1 PS °उद्धु°. 2 PS अंजणसिद्ध°, A °णीद्ध°. 3 PS °हि°. 4 PS °रे. 5 PS °सि°.
4. 1 A °उं. 2 PSA °हि.

२ विष्णुरिव. ३ पी(? पु)त्री. ४ ज्येष्ठभ्रातुः अनाज्ञातेन. ५ कृष्णवस्त्रं परिहित्वा. ६ प्रमादी. ७ विद्युत्. ८ श्रीकान्तेन. ९ वसुदत्तु. १० विनिर्गत.
[४] १ मृत.

[५]

मारुय-वाहण-हरिण-समाणा   विण्णि वि मिग पुण्णाउ-पमाणा ॥ १
तहिँ वि ताहेँ कारणेँण विरुज्झेँवि[1]   मरणु पत्त अवरोप्परु झुज्झेँवि[2] ॥ २
जाय महिस जम-महिस-भयङ्कर   पुणु वराह अण्णोण्ण-खयङ्कर ॥ ३
पुणु अञ्जण-गिरि-गरुअ महागय   कण्ण-पवण-उड्डाविय-छप्पय ॥ ४
पुणु [1]ईसाण-विसोरु-धुरन्धर   उण्णय-कँउअ[2] थोर-थिर-कन्धर ॥ ५
पुणु [3]विसदंस घोर पुणु वाणर   पुणु [4]विग पुणु कसणुज्जल मिगवर ॥ ६
पुणु णाणाविह अवर वि थलयर   पुणु कमेण णहयर पुणु जलयर ॥ ७
अइ-दूसह-दुक्खइँ विसहन्ता   एक्कमेक्क-सामरिस-वहन्ता ॥ ८

॥ घत्ता ॥

भवेँ एव भमन्ति भयङ्करेँ   पुव्व-वइर-सम्बन्ध-पर ।
तेँ कज्जेँ जगेँ रिण-वइरइँ   जो ण कुणइ सँ(?) वियड्ढु पर ॥ ९

[६]

तो धणदत्तु वि सुड्डुम्माहिउ   मल-धूसरु तिस-भुक्खहिँ वाहिउ ॥ १
देसेँ देसु असेसु भमन्तउ   दूरागमणेँ[2]-पँरीसम[1]-सन्तउ ॥ २
पत्तु जिणालउ रयणिमुहन्तरेँ   लग्गु चवेँवएँ णिविसब्भन्तरेँ ॥ ३
"अहोँ अहोँ सुँक्किय-कियँ[3] पव्वइयहोँ   महु तिस-छुहँ[4]-महवाहिँ[5] लइयहोँ ॥ ४
देहुँ कहि मि जइ अत्थि जलोसहु   जं कारणु महन्त-परिओसहोँ" ॥ ५
विहसेँवि चवइ पहाण-मुणीसरु   "सलिलु पिएवएँ को किर अवसरु ॥ ६
मूढ हियत्तणेण तउ सीसइ   जहिँ अन्धारएँ किं पि ण दीसइ ॥ ७
सूरत्थवणहोँ लग्गेँवि दिढ-मणु   जहिँ भविय-यणु णँ[6] भुञ्जइ भोयणु ॥ ८
जहिँ पर-गोयरु अत्थि पहूअहँ   पेय-महग्गह-डाइणि-भूअहँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

अइ-पीडियह मि वर-वाहिएँ   ण लइज्जइ ओसहु वि जहिँ ।
इयँ[7] सँव्वरि-समएँ दुसञ्चरेँ   किह परिपिज्जइ सलिलु तहिँ ॥ १०

5. 1 P °ज्झिय, S A °ज्झिवि. 2 P °ज्झेवि corrected as ज्झिय.
6. 1 P सुड्डु°, S सड्डु°. 2 P S °णु. 3 A °पिय°. 4 P S दुह. 5 A °हे. 6 P S भवियणु णउ. 7 A इउ महु.

[५] १ ईश्वरवृषमेव बलीवर्दाः. २ कुकुद स्कंधः। टाठि (?). ३ बिराल. ४ मेढिह. (=H. मेड्या). ५ स विचक्षणः.
[६] १ खेददुर्बलः. २ कथयितुम्. ३ सुकृतं प्रियं येषाम्. ४ रात्रि.

[७]

णहें णिऍवि सया रवि अत्थमिउँ[1] जो पालइ जीउ अणत्थमिउँ[2] ॥ १
सो पावइ मणहर देव-गइ सुहु भुञ्जइ[3] होऍवि अमर-वइ ॥ २
अणुअत्तेंवि उत्तमु कुलु लहइ पुणु अट्ठ वि कम्मइँ णिड्डहइ ॥ ३
णिसि-भोज्जु ण छण्डिउ जेण पुणु तहाँ भवेँ भवेँ दुक्खु अणन्त-गुणु ॥ ४
अल्लल-मंसु तें भक्खियउ तें पिय मइरा महु चक्खियउ ॥ ५
सण-हुल्ला णिम्ब[4]-समिद्धाइँ तें पञ्चुम्बरइ मि खद्धाइँ ॥ ६
तें वयणु असच्चउँ[5] जम्पियउँ[5] तें अण्णहाँ तणउँ[6] दव्वु हियउ ॥ ७
तें सुट्ठु णिरन्तर हिंस किय पर-णारि वि तें णिरुत्तु लइय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अहवइ किं वहुएं चविऍण एउ जें मूलु सच्चु[7] वयहँ ।
जें होन्तें होइ समीवउ[8] मोक्खु वि भव्व-जीव-सयहँ” ॥ ९

[८]

रिसि-वयणें विमुक्क-मिच्छत्तें लइयइँ अणुवयाइँ धणदत्तें ॥ १
गउ तेत्थहाँ वि गएण तमालें[1] भमेंवि महीयलें वहवें कालें ॥ २
समउँ समाहिऍ मरणु पवण्णउँ पुणु सोहम्में[2] देउ उप्पण्णउँ[3] ॥ ३
तहिँ वे सायराइँ णिवसेविणु किं पि सेसें थिऍ पुण्णें चवेप्पिणु ॥ ४
जाउ महा-पुर वहु-धण-जुत्तउ छेत्तच्छाय-णरेसर-भत्तउ ॥ ५
पहु पिययम सिरिदत्तालङ्किय पर-पुरवर-णर-णियरासङ्किय ॥ ६
धारिणि-मेरु-वणीसहँ तणुरुहु णामें पङ्कयरुइ पङ्कय-मुहु ॥ ७
एक्कहिँ[4] दिणें स-तुरङ्गु पयट्टउ गोट्ठु[5] पलोऍवि पडिपल्लट्टउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तावग्गऍ महिहेँ णिसण्णउँ तुहिणगिरिन्दु व णिरु धवलु ।
पुण्णाउसु पाणक्कन्तउ दीसइ एक्कु जुण्ण[3]-धवलु ॥ ९

7. 1 P S °यउ. 2 S °यउ. 3 P S भुंजेवि. 4 P S लिंव°. 5 P °उं. 6 P A °उं.
7 S °च्च. 8 P S °य°.

8. 1 P °उं. 2 A °म्मेंदउ. 3 P A °उं. 4 P S A °हि. 5 P S °उं.

[८] १ अन्धकारे. २ नामेदम्. ३ वृद्धवृषभः.

[९]

तं [1]गोइन्दु णिएँवि चडुलङ्गहों   [2]मेरु-तणउ[1] [2]ओयरिउ तुरङ्गहों ॥ १
पासु पढुक्केँवि[3] तहों कण्णन्तरें   दिण्ण पञ्च णमुं[4]कार खणन्तरें ॥ २
तहों फलेण जिण-सासण-भत्तहों   गब्भब्भन्तरें [5]तहों सिरिदत्तहों ॥ ३
जाउ पुत्तु परिवड्ढिय-छायहों   [3]वसहद्धउ तहों [4]छत्तच्छायहों ॥ ४
एक्कहिँ दिणेँ णन्दणवणु जन्तउ   णिय चिरु मरण-भूमि सम्पत्तउ ॥ ५
थिउ णिच्चलु जोयन्तु णिरन्तरु   सुमरि[6]उं सयलु वि णियय-भवन्तरु ॥ ६
दिसउ णिएँवि गउ परम-विसायहों   पुणु उत्तरि[7]उं अणो[8]वम-णायहों ॥ ७
"एत्थु आसि [6]अणडु[9]हु हउँ होन्तउ   एत्थु पएसें[10] आसि[11] णिवसन्तउ ॥ ८
इह चरन्तु इह सलिलु पियन्त[12]उं   इह णिवडिउ चिरु पाणक्कन्तुउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तहिँ कालेँ कण्णेँ महु केरएँ   जेण दिण्णु जँवु जीव-हिउ ।
[13]पेक्खेमि केणोवाएण(?)"   एम सुइरु चिन्तन्तु थिउ ॥ १०

[१०]

पुणु सहसा उत्तुङ्गु विसालउ   तेत्थु कराविउ परम-जिणाल[1]उं ॥ १
णियय-भवन्तरु पडेँ वि लिहावेँवि   वार-पएसेँ तासु वन्धावेँवि ॥ २
थवेँवि अणेय सुहड परिरक्खणु   गउ राउलु कुमारु वहु-लक्खणु ॥ ३
एक्कहिँ दिणेँ पउमरुइ महा[2]इउ   वन्दणहत्तिएँ जिणहरु आइउ ॥ ४
दि[3]ट्ठु ताव पडु[4] लिहिय-कहन्तरु   विम्भिउ जोवइ जाव णिरन्तरु ॥ ५
तावारक्खिएहिँ दुव्वारहों   कहिउ गम्पि तहों राय-कुमारहों ॥ ६
सो वि इट्ठ-सङ्गम-अणुराइउ   झत्ति परम-जिण-भवणु पराइउ ॥ ७
दिट्ठु तेण[5] [6]पडें वित्तु[7] णियन्तउ   अचल-दिट्ठि वर-विम्हय-व[8]न्तउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पुणु वसहद्धएण पपुच्छिउ   णिय-सिय-वंसुद्धारणेँण ।
"ए[9]हु प[10]डु णिएवि तउ हूअउ   कोऊ[11]हलु किं कारणेँण" ॥ ९

9. 1 P °उं. 2 P उअ°, S A उ°. 3 P S °क्क°, A °क्कि°. 4 P S °व°. 5 A तहि. 6 A °वि. 7 P °उं. 8 P तहोत्तिम°, S णं उत्तिम°. 9 P A °ड°, S °ड्डू°. 10 P A °सि, S °सें. 11 P णिविं, S व°. 12 A °उं. 13 P S सो पेक्खे (S °क्खि°).

10. 1 P °उं. 2 P पहाइउ, S परायउ. 3 S दिट्ठ. 4 P S °उ. 5 A लिहिउ. 6 P S A °ढि. 7 P S चि°. 8 P S °चित्तउ. 9 P S एह. 10 P °ट्ट. 11 P S कोउहल्ल.

[९] १ वृषभम्. २ पङ्कजरुचिः. ३ वृषभध्वजः. ४ राज्ञः. ५ हस्तीतः. ६ वृषभः. ७ जाप्यम्.

[११]

तं णिसुणेँवि अक्खइ वणि-तणुरुहु "एत्थु पएसेँ एक्कु मुउ[1] अणडुहु[1] ॥ १
तहोँ णवकार पञ्च मइँ दिण्णा जे पणतीसक्खर-सम्पुण्णा" ॥ २
तं ऍउ सयलु वि णिऍवि चिराणउँ[2] गउ विम्हयहोँ सरेवि कहाणउँ[2] ॥ ३
तो सिरिदत्ता-सुऍण सुवीरें रहसाऊरिय-सयल-सरीरें ॥ ४
"सो गोवइ हउँ" एव चवेप्पिणु कर-मउलञ्जलि तुरिउ करेप्पिणु ॥ ५
हार-कडय-कडिसुत्तेँहिँ पुज्जिउ गुरु व सु-सीसें कुमइ[4]-विवज्जिउ ॥ ६
"ण वि तं करइ पियरु ण वि मायरि ण वि कलत्तु ण वि पुत्तु ण भायरि ॥ ७
ण वि सस दुहिय ण मित्त ण किङ्कर सहसणयण-पमुह वि ण वि सुरवर ॥ ८
जं पइँ मँहु[5] सुहि[6]-इट्ठु समारिउ णरय-तिरिय-गइ-गमणु-णिवारिउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जं दिण्णु समाहि-रसायणु[7] तेत्थु विहुरेँ[8] पइँ णिरुवमउँ[9] ।
तहोँ फलेँण णरिन्दहोँ णन्दणु पुणु एत्थु जेँ पुरेँ हूउँ[10] हउँ[11] ॥ १०

[१२]

जं उवलद्धउं मइँ मणुअत्तणु अँण्णु[2] वि एहु विहडउ वड्डुत्तणु ॥ १
जं थुव्वमि-णरवर-सङ्घाएं तं सयलु वि ऍउ तुज्झु पसाएं ॥ २
लइ णीसेसु रज्जु सिंहासणु हउँ तउ दासु पडिच्छियँ[3]-पेसणु" ॥ ३
एवमाइ संभासेँवि वणि-वरु पुणु णिउ णिय-राउलु जण-मणहरु ॥ ४
विण्णि वि जण णिविट्ठ एक्कासणेँ चन्दाइच्च णाइँ गयणङ्गणेँ ॥ ५
इन्द-पडिन्द व सुन्दर-देहा अवरोप्परु परिवड्डिय-णेहा ॥ ६
विण्णि वि जण सम्मत्त-णिउत्ता सावय-वय-भर-धुर-संजुत्ता ॥ ७
विहि वि करावियाइँ जिण-भवणइँ उण्णय-सिहरुलङ्घिय-गयणइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जिह सायरँ[4]-सिरि मणि-रयणेँहिँ जिह कुलवहु गुणेहिँ[5] वरेँहिँ ।
जिह सुकह सुहासिय-वयणेँहिँ तिह महि भूसिय जिणँहरेँहिँ[6] ॥ ९

---

11. 1 A °उ°. 2 PS °उं. 3 PSA विं°. 4 PS °यु°. 5 P सुद्धु, S सुहु. 6 P साहु°, S महु. 7 PS °रयणु. 8 PSA °रि. 9 PA °उं. 10 PS हूयउ. 11 PS omit हउं.

12. 1 PS °उं. 2 P °ण्पु. 3 A °उ. 4 A °रु. 5 PS वहुगुणेहिं. 6 A जिणभवणेहिं

---

[११] १ वृषभः. २ आपदि.

[१३]

वहु-कालें सलेहणें[1] मरेवि　ईसाण-सग्गें सुर जाय वे वि ॥ १
रयणायराइँ तहिँ दुइ गमेवि　पँउमप्पहु[१] सुरवरु पुणु चवेवि ॥ २
हुउ अवरविदेहें जयइरि-सिहरें[२]　सु-मणोहरें चन्दावत्त-णयरें ॥ ३
णन्दीसरपहु-कणयप्पहाहँ　सुउ णयणाणन्दणु णामु ताहँ ॥ ४
तहिँ रज्जु अमर-लीलएँ करेवि　तव-चरणु चरेप्पिणु पुणु मरेवि ॥ ५
माहिन्द-सग्गें गिव्वाणु जाउ　सायरइँ सत्त णिवसेवि आउ ॥ ६
मेरुहें पुव्वें खेमाउरीहें　णिय-विहि-ओहामियँ[2]-सुरपुरीहें ॥ ७
पउमावइ-गब्भें गुणाहिगुत्तु　णरवइहें विमलवाहणहों[3] पुत्तु ॥ ८
मुहयन्द-रुन्दु[4] सिरिचन्द-णामु　थिउ माणुस-वेसें णाइँ कामु ॥ ९
वहु-कालु करेवि मणोज्जु रज्जु　पुणु चिन्तिउ मणेँ[5] परलोय-कज्जु ॥ १०

॥ घत्ता ॥

णिय-पुत्तहों पट्टु णिवन्धेंवि　दिहिकन्तहों सुन्दरमइहें[6] ।
तव-चरणु लइउ सिरिचन्देंण[7]　पासें समाहिगुत्त[8]-जइहें ॥ ११

[१४]

सो सिरिचन्द-साहु अ-परिग्गहु　घण-मलकञ्चुअ-भूसिय-विग्गहु ॥ १
णिरु णिरुवम-रयण-त्तय-मण्डणु　पञ्चेन्दिय-दुद्दम-दणु-दण्डणु ॥ २
पञ्च-महव्वय-भारुद्धारणु　मास-पक्ख-छट्ठट्ठम-पारणु ॥ ३
कन्दर-पुलिणुज्जाणँ[2]-णिवासणु　राग-दोस-भय-मोह-विणासणु ॥ ४
एक्कु चित्त सुह[3]-भावण-भावणु　किय-सासण-वच्छल-पहावणु ॥ ५
वहु-कालें अवसाणु पवण्णउँ[4]　गम्पिणु वम्भलोऍ उप्पण्णउँ[4] ॥ ६
सुरवर-णाहु विमाणेँ विसालऍ　मणि-मुत्ताहल-विद्दुम-मालऍ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

तहिँ तियसाहिव-सिय माणेंवि　दस-सायरेंहिँ गएहिँ चुउ ।
उप्पण्णु एत्थु एँहु राहउ　दसरह-रायहों पढम-सुउ ॥ ८

---

13 1 P S °ण. 2 P S A °उ. 3 A °उ°. 4 P मुयदतुंदु, S मुहयंदतुंदु, A मुहयंद, चंदु. 5 A पुणु. 6 P सुंदरमयहो, S सुरसुंदरहो. 7 P S सिरचं सिरिचंदणेण. 8 P °त्तुजइहो.
14. 1 P S रिसिचंदु. 2 P S °णु. 3 A णिरु सुह°. 4 P °उं.

---

[१३] १ पद्मरुचिश्रेष्ठिपुत्रः देवो भूत्वा. २ विजयार्धगिरि.

[१५]

चिर-तव-चरण-पहावें आयहों विक्कम-रूव-विहूइ-सहायहों ॥ १
इय-भुवण-त्तएँ को उवमिज्जइ जासु सहस-णयणु वि णउं[1] पुज्जइ ॥ २
जो चिरु वसहमहद्धउ होन्तउ जो ईसाणेँ सुरत्तणु पत्तउ ॥ ३
दुइ सायरइँ वसेप्पिणु आयउ कालें सो तारावइ जायउ ॥ ४
सुउ सूररयहों खेयर-णेसरुं[2] गिरि-किक्किन्ध-णयर-परमेसरु ॥ ५
ऍहु सुग्गीवु जगत्तय-पायडु वालि-कणिट्ठउ वाणर-धयवडु ॥ ६
सिरिकन्तु वि गुरु-दुक्ख-णिवासहिँ परिभमन्तु वहु-जोणि-सहासहिँ ॥ ७
णयरेँ मुणालकुण्डेँ रिउ-मद्दहों हेमवइहेँ[3] वइकण्ठ-णरिन्दहों ॥ ८
जाउ सम्भु-णामें वर-णन्दणु सुरहँ मि दुज्जउ णयणाणन्दणु ॥ ९
वसुदत्तु वि जम्मन्तरं[4]-लक्खेंहिँ उप्पज्जन्तु[5] कमेंण[6] असङ्खेंहिँ ॥ १०

॥ घत्ता ॥

सिरिभूइ-णामु तेत्थु जेँ पुरेँ णिय-जस-भुवणुज्जालियहों ।
हुउ सम्भुहेँ परम-पुरोहिउ सरसइ-णामें भज्ज तहों ॥ ११

[१६]

गुणवइ वि अणेय-भवेहिँ आय पुणु करिणि [१]अमरसरि-तीरेँ जाय ॥ १
एक्कहिँ दिणेँ पङ्कुप्पङ्कें खुत्त पाणाउल मउलीहूअ-णेत्त ॥ २
पेक्खेंवि तरङ्गजव-खेयरेण णवकार पञ्च तहिँ दिण्ण तेण ॥ ३
पुणु सिरिभूइहेँ उप्पण्ण दुहिय वे[1]यवइ णामु छण-यन्द-मुहिय ॥ ४
णं का वि देवि पच्छण्ण आय सा मग्गिय [२]सम्भुं जणिय-राय ॥ ५
सिरिभूइ पजम्पिउ "कणय-वण्ण किह मिच्छादिट्ठिहेँ देमि कण्ण" ॥ ६
तो तेण वि सुट्ठु विरुद्धएण णिट्ठविउ पुरोहिउ कुद्धएण ॥ ७
जिण-धम्में सुरवरु [३]सग्गें जाउ [४]जॅरढारुण-छवि स[2]च्छाय-छाउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तो वेयवइहेँ णरणाहेँण जें[3] सयलुत्तम-मण्डणउं[4] ।
वलिमण्डएँ ण समिच्छन्तिहेँ किउ तहेँ सीलहों खण्डणउं ॥ ९

15. 1 P S णवि. 2 P S खयरणरेसरु. 3 P S A °हि, 4 P S रि. 5 S °ति. 6 P °म्मेण°.

16. 1 The portion from °यवइ to कण° (6 a) is wanting in A. 2 A छाय°. 3 A जे. 4 P A °उं.

[१६] १ गङ्गायाः. २ स्वं(?)भूता राज्ञा. ३ प्रथमस्वर्गे. ४ बालादित्य (?).

[१७]

जं चारित्तु विणासिउ राएं जणणु विवाइउ गरुअ-कसाएं ॥ १
णं 'सरसइ-सुअ झत्ति पलित्ती जलण-तिडिक्क पलालें[1] व घित्ती ॥ २
'वेविरङ्गि[2] आयम्बिर-णयणी पभणइ दर-फुरियाहर-वयणी ॥ ३
"'रे णिसंस कप्पुरिस अ-लज्जिय खल वराय दुग्गइ-गम-सज्जिय ॥ ४
जं पइँ महु जणेरु सङ्घारेंवि हउँ परिहुत्तँ[3] वला तहोँ हारेंवि ॥ ५
तं तउ गरुअ-कम्म-संचरणहोँ होसमि वाहि व कारणु मरणहोँ" ॥ ६
एव भणेंवि णरवइहें णिलुक्केंवि कह वि कह वि जिण-भवणु पढुक्केंवि ॥ ७
हरिकन्तियहें पासु णिक्खन्ती वम्भ-लोउ वहु-कालें पत्ती ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सम्भु वि सिय-सयण-विमुक्कउ जिणवर-वयण-परम्मुहउँ[4] ।
मिच्छाहिमाणु मणें मूढउ वहु-दिवसेंहिँ[5] दुग्गइहें[5] गउ ॥ ९

[१८]

तहिँ महन्त-दुक्खइँ पावेप्पिणु तिरिय-गइ वि णीसेस भमेप्पिणु ॥ १
पुणु सावित्ति-गब्भें पङ्कय-मुहु जाउ कुसद्धयें[1]-विप्पहोँ तणुरुहु ॥ २
णामु[2] पहासकुन्दु सुपसिद्धउ दुलह-वोहि-रयण-सुसमिद्धउ ॥ ३
दिक्खङ्किउ चउ-णाण-सणाहहोँ पासें विचित्तसेण-मुणिणाहहोँ ॥ ४
तवु करन्तु परमागम-जुत्तिएँ एक्क-दिवसें गउ वन्दणहत्तिएँ ॥ ५
सम्मेइरिहें परायउ जावेंहिँ कणयप्पहु विज्जाहरु तावेंहिँ ॥ ६
गयणङ्गणें लक्खिज्जइ जन्तउ जो सुरवइहें वि सियएँ[3] महन्तउ ॥ ७
तं णिएवि परिचिन्तिउ साहुहुँ[4] मयरकेउ-मयलञ्छण-राहुहुँ[5] ॥ ८
"'होउ ताव महु सासय-सोक्खें विहव-विवज्जिएण तें मोक्खें ॥ ९

॥ घत्ता ॥

दूसहहोँ जिणागम-कहियहोँ अत्थि किं पि जइ तवहोँ फलु ।
तो एहउ अण्ण-भवन्तरें होउ पहुत्तणु महु सयलु" ॥ १०

---

17. 1 P S °ल. 2 P °रंमि, A °रंगे. 3 P S परिहूय वाल परिहारे (S रि) वि°. 4 A °उं. 5 P S A °हि.

18. 1 P S कुयुद्धय°. 2 P S A °म. 3 A सिए वहं°. 4 A साहु. 5 P °राहहुं, S °राहहु, A °राहु.

---

[१७] १ वेदवती. २ कम्पायमान. ३ रे आचारभ्रष्ट. ४ बलाद् भुक्ता. नाशयित्वा वा (?)

[१८] १ पूर्यताम्.

[१९]

इय णियाण-दूसिय-तव-चिण्णउ[2] परम-समाहिएँ मरणु पवण्णउँ[3] ॥ १
सग्गें सणकुमारेँ[4] उप्पज्जेंवि तहिँ सायरइँ सत्त सुहु भुञ्जेंवि ॥ २
चवेंवि जाउ सुउ जय-सिरि-माणणु कइकसि-रयणासवहुँ दसाणणु ॥ ३
[5]णिय-जस-भूसण-भूसिय-तिहुअणु कम्पाविय-विसहर-णर-सुरयणु ॥ ४
तोयदवाहण-वंसुद्धारणु सहसणयण-विणिवन्धण-कारणु ॥ ५
जो सम्भू [1]सिरिभूइ-विवाइउ पुणु सोहम्म-सग्गु सम्पाइउ ॥ ६
चवेंवि परिट्ठ[6]पुरेँ उप्पज्जेंवि खयरु पुणव्वसु तवु आवज्जेंवि ॥ ७
तइयउँ तियसावासु चडेप्पिणु सत्त समुद्दोवमइँ गमेप्पिणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सो जायउ गब्भेँ सुमित्तिहेँ दससन्दण-णरवइहेँ सुउ ।
एउ लक्खणु लक्खणवन्तउ चक्काहिवु राहव-अणुउ ॥ ९

[२०]

जो गुणवइहेँ आसि गुणवन्तउ भायरु लहुउ पगुण - गुण - वन्तउ ॥ १
भवेँ परिभमेँवि चारु - मुह - मण्डलु सो उप्पण्णु एहु भामण्डलु ॥ २
जो जण्णवलि आसि गुण - भूसणु सो तुहुँ एँहु संजाउ विहीसणु ॥ ३
तें सयल[1] वि रामहों अणुरत्ता पुव्व - भवन्तर - णेह - णिउत्ता ॥ ४
जा[1] चिरु हुन्ती गुणवइ वणि - सुय भवेँ[3] परिभमेँवि[4] कमेण दियहरेँ[5] हुय । ५
सिरिभूइहेँ सुअ रूव - रवण्णी[6] जा चिरु[7] वम्भ-कप्पेँ उप्पण्णी ॥ ६
[8]तहिँ तेरह पल्लइँ णिवसेप्पिणु पुण्णे[9] - पुञ्जेँ थिएँ सेसेँ[10] चवेप्पिणु ॥ ७
[11]एँह सा जाय सीय जणयहों सुय णिरु महुरालाविणि णं परहुय ॥ ८

19. 1 A दूणियाण°. 2 P °चिन्नउं, A °विसउ. 3 P A °उं. 4 P S A °रि. 5 A omits lines 4 and 5. 6 P S पइ°.

20. 1 P S °लु. 2 A omits this line. 3 P S °वि. 4 P S °मि°. 5 P S °रि°. 6 A °पवण्णी. 7 P S सुरु. 8 P S तहिं (S °हि) सुरसुह अमाण (S यमाणु) भुंजेप्पिणु. 9 A पुणु भुजे. 10 P S A थियसेसि. 11 For the passage एह सा (line 7) to पत्ती (line 9) P S read as follows (orthographic variants of S are ignored):

---

[१९] १ प्रो(? पुरो)हित. २ सनत्कुमारस्वर्गे.
[२०] १ वेदवती ब्राह्मणपुत्री.

चिरु वेयवइ[12] णेह[13]-सम्बन्धें   हिय दसकन्धरेण कामन्धें ॥ ९
जं मुणि पुव्व-जम्में[14] णिन्दन्ती   तं[15] इह दुहइँ महन्तइँ पत्ती ॥ १०

॥ घत्ता ॥

सिरिभूइ कालें सुअ-कारणें   जं हउ सम्भु-णरेसरेंण ।
तें लङ्केसरु चिरु हिंसणु   विणिवाइउ लच्छीहरेंण' ॥ ११

[२१]

गुरु-वयणेहिँ तेहिँ गञ्जोल्लिउ   पुणु वि विहीसणु एम पवोल्लिउ ॥ १
'कहेँ कें कम्में जणण-विणीयहें[1]   'सइहें[2] वि लञ्छणु लाइउ सीयहें' ॥ २
तं णिसुणेवि वयणु मुणि-पुङ्गमु   अक्खइ णाण-महाणइ-सङ्गमु ॥ ३
'मुणि सुअरिसणु आसि विहरन्तउ   मण्डलि-णामु गामु संपत्तउ ॥ ४
थिउ णन्दणवणें णिरु णिम्मल-मणु   तं वन्देप्पिणु गउ सयलु वि जणु ॥ ५
मुणिवरो वि लहु-वहिणिएँ [1]सवणएँ   सइ महसइएँ समउ [2]सुअरिसणएँ ॥ ६
किं पि चवन्तु णिएँवि वेअवइएँ   कहिउ असेसहँ लोयहँ कुमइएँ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

किं चोज्जु एउ जं [3]णाएँहिं   दूसिज्जइ घरु [4]हरिहिं वणु ।
[5]राउलँ-णिहाउ[3] दुग्घरिणिहिँ   पिसुण-सहासें साहु-जणु ॥ ८

[२२]

"तुम्हहिँ भणहु चारु धम्मद्धउ   णिज्जिय-पञ्चेन्दिय-मयरद्धउ ॥ १
मइँ[1] पुणु ऍहु सयमेव परिक्खिउ   सहुँ महिलऍ एअन्तेँ परिट्ठिउ" ॥ २

हुय सुय जणयहो बहुगुणवंतहो   सीया नाम विदेहाकंतहो ॥
रामएवपियमय सीलंकिय   णं सइ इंदहो विणयविहूसिय ॥
जेत्थु काले सो सुरु विवुहालउ   वेयवई चरु चइवि विसालउ ॥
तेत्थु काले कुंडलमंडियपहु   मरिवि सरिवि जिणवरपयपयतुहु ॥
विण्णि वि जुयपय गब्भि णिसण्णा   देवि विदेहहिं कंचणवण्णा ॥
भाइभइणिजुवलउ संजायउ   णं तियसहो सुरमिहुणु समायउ ॥
भामंडलु सिरिसीयाणामउं   गुणरयणायरु वंच्छियकामउं ॥
वेयवई (S °इहि) णेहहो संवंधें   हिय दसकंधरेण कामंधें ॥
जं णिंदिय मुणि आसि महंता   तं इह णाणाविह दुह पत्ता ॥

12 A वेयरइं.   13 A णेइ.   14 A °म्मि.   15 A ते.
21. 1 S A °हो.   2 P °हिं, S A °हि.   3 A चाउलणिहउ.
22. 1 P S A °इ.

[२१] १ अर्जिकायाः. २ सुदर्शन(? ना) नाम्ना. ३ स्त्रीभिः (?). ४ मर्कटैः. ५ राजगृहसदृशम्.

एम ताएँ तव-णियम-सणाहहोँ   '[1]लोएँ[2] अणायरु किउ मुणि-णाहहोँ ॥ ३
'[2]सो वि करेवि अवग्गहु थक्कउ   "जा ण फिट्टु '[5]संवाउ गुरुक्कउ ॥ ४
ता णिवित्ति महु सयलाहारहोँ"   जाणवि णिच्छ[3]उ हय-संसारहोँ ॥ ५
सासण-दे[4]वयाएँ [4]अत्थक्कएँ   मुहु सूणाविउ ग[5]रुआसङ्कएँ ॥ ६
ताएँ वि एउ वुत्तु "अहोँ लोयहोँ   णिय-मणु मा सन्देहहोँ ढोयहोँ ॥ ७
जं मइँ कहिउ सव्वु तं अलियउँ[6]   अज्जु वि पाउ असेसु वि फलियउ" ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जं भाइ-जुअलु तं णिन्दियउ   पुव्व-भवन्तरेँ खल-मइएँ ।
'संवाउ एत्थ उवद्धउँ[7]   जणहोँ मज्झेँ तेँ जाणइएँ' ॥ ९

[२३]

प[1]डिभणइ विहीसणु विमल-मइ   'कहि वालि-भवन्तरु परम-जइ' ॥ १
तो कहइ भडारउ गहिरँ[2]-गिरु   'विन्दारण्ण-त्थलेँ विउलेँ चिरु ॥ २
हीणङ्गु भमन्तु वि[3] एक्कु मउ[1]   सो रिसि-सज्झाउ सुणेवि मउ[2] ॥ ३
पुणु जाउ कणय-धण-कण-पउरेँ   अइरावएँ खेत्तेँ दित्ति-णयरेँ ॥ ४
सावयहोँ विहिय-णामहोँ[4] सु-भुउ[5]   सिवमइहेँ गब्भेँ महदत्तु[6] सुउ ॥ ५
तहिँ पालेँवि पञ्चाणुव्वइँ   तिण्णि गुणव्वय (चउ) सिक्खावयइँ ॥ ६
जिणवर-पुज्जउ ण्हवणउ करेँवि   वहु-कालेँ सण्णासेँण मरेँवि ॥ ७
ईसाण-सग्गेँ वर-देवु हुउ   विहिँ रयणायरेँहिँ गएहिँ चुउ ॥ ८
इह पुव्व-विदेहब्भन्तरएँ   विजयावइ-पुरेँ णियडन्तरएँ ॥ ९
णामेण मत्तकोइलविउलु   वर-गामु रहङ्गि व धण-वहुलु ॥ १०

॥ घत्ता ॥

तहिँ कन्तसोउ वर-राणउ   रयणावइ पिय हंस-गइ ।
तहुँ वीहि मि सुप्पहु णामेँण   णन्दणु जाउ (?) विमल-मइ ॥ ११

---

1 P S °व. 2 P S लोइयवायरु. 3 A लोइ°. P S °च्छि°. 4 P S °देवाइय. 5 A गउ°. 6 P अलिउं. 7 P °उं.

23. 1 P S परि°. 2 P S A °रु. 3 P S omit, A विउ. 4 P S °णामयहो. 5 S उ. 6 P S °त्त°.

---

[२२] १ (v. l.) लोकापवाद. २ स मुनिः. ३ अपवादः. ४ शीघ्रेण. ५ मिथ्यादोषोद्भावनम्.

[२३] १ मृगः. २ मृतः.

[२४]

तेण जुवाण[1]-भाउ पावन्तें   णिय-मणें जइण-धम्मु भावन्तें ॥ १
सम्मत्तोरु-भारु पवहन्तें   दिणेँ दिणेँ जिणु ति-कालु पणवन्तें ॥ २
णिरु णिरुवम-गुण-गण-संजुत्तें   कन्तसोय-रयणावइ-पुत्तें ॥ ३
ससहर-सण्णिहेण जस-वन्तें   तणु-तेओ[2]हामिय-रइकन्तें ॥ ४
दुल्लह-तव-णिहाणु उवलद्धउँ[3]   णाणाविह-लद्धीहिँ समिद्धउँ[4] ॥ ५
वहु-संवच्छर-सहसेँहिँ विगऍहिँ   दुद्धर-विसय-महारिहिँ णिहऍहिँ ॥ ६
आऊरिउँ[3] सुह-झाणु पहाणउँ[5]   किर उप्पज्जइ केवल-णाणउँ[5] ॥ ७
ता अवसाण[6]-कालु तहोँ आइउ   पुणु सव्वत्थ-सिद्धि संपाइउ ॥ ८
एक्क[7]-रयणि-तणु सुरवरु जायउ   सूर-कोडि-छाया-संछायउ ॥ ९
तहिँ तेतीस जलहि परिमाणइँ   भुञ्जेंवि सोक्खइँ अमिय-समाणइँ ॥ १०

॥ घत्ता ॥

सो अमरु चवेप्पिणु[8] एत्थहोँ   जाउ वालि इह खयर-पहु ।
अखलिय-पयावु सुह-दंसणु   चरम-सरीरु समरेँ अइ-दूसहुँ[9](?) ॥ ११

[२५]

जो णिग्गन्थु मुऍवि सामण्णहोँ   ण वि जयकारु करइ जगेँ अण्णहोँ ॥ १
जो णिविसन्तरेँ पिहिमि कमेप्पिणु   एइ सयल-जिणहरइँ णवेप्पिणु ॥ २
जेण समरेँ सहुँ पुप्फ-विमाणें   अण्णु चन्दहासेण किवाणें ॥ ३
दाहिण-भुऍण भुवण-सन्तावणु   हेलाऍ जें उच्चाइउ रावणु ॥ ४
पच्छऍ ध्रुवँ[1] ससिकिरण मुएप्पिणु   राय-लच्छि सुग्गीवहोँ देप्पिणु ॥ ५
लइय दिक्ख भव-गहण-विरत्तें   गिरि-कइलासु चडेवि पयत्तें ॥ ६
दिण्णु[2] सिलोवरि परमत्तावणु[3]   णहेँ जन्तउ रोसाविउ रावणु ॥ ७
पुणु वि मडप्फरु भग्गु खणन्तरेँ   को उवमिज्जइ तहोँ भुवणन्तरेँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

उप्पण्ण[4]-णाणु सो मुणिवरु   अट्ठ-दुट्ठ-कम्मारि-खउ ।
झाऍवि स य म्भु भडारउ   सिद्धि-खेत्त-वर-णयरु गउ ॥ ९

*

24. 1 P S °णु. 2 P A °वो°. 3 P °उं. 4 A °उं. 5 P S °उं. 6 P S °णु. 7 P S °क्कु. 8 A °विणु. 9 A °हउ.
25. 1 P S धुव. 2 P दिन्न, S दिण्ण. 3 P S परसंतावणु. 4 P S A °ण्णु.

[२५] १ द्वे स्त्रियौ.

इय पउमचरिय-सेसे सयम्भुएवस्स कह वि उव्वरिए ।
तिहुयण-सयम्भु-रइए सपरियण-हलीस-भव[1]-कहणं ॥
इय रामएव-चरिए वन्दइ[2]-आसिय-सयम्भु-सुअ-रइए ।
बुहयण-मण-सुह-जणणो[3] चउरासीमो इमो सग्गो ॥

*

[८५. पंचासीमो संधि]

पुणु वि विहीसणेंण पुच्छिज्जइ 'मयण-वियारा ।
सीया-णन्दणहँ कहि जम्मन्तरइँ भडारा' ॥

[१]

॥ हेला ॥ तं णिसुणेवि वयणु जग-भवण-भूसणेणं ।
वुच्चइ मुणिवरिन्देण सयलभूसणेणं ॥ १ ॥
'सुणि अक्खमि परिओसिय-सुरवरें जगें पसिद्धँ[1] [1]कायन्दी-पुरवरें ॥ २
वामएव-विप्पहों विक्खायहों सामलीएँ घरिणीएँ[2] सहायहों ॥ ३
सुय वसुएव-सुएव वियक्खण वियसिय विमल-जमल-कमलेक्खण ॥ ४
ताहँ [2]पियउ दुइ णिम्मल-चित्तउ विसय-पियङ्गु-णाम-संजुत्तउ ॥ ५
एक्कहिँ दिणें [3]मयणाय-मइन्दहों अण्ण-दाणु सिरितिलय-मुणिन्दहों ॥ ६
विहि मि जणेहिँ तेहिँ गुरुएँन्तिएँ[3](?) दिण्णु समुज्जल-अविचल-भत्तिएँ ॥ ७
बहु-कालें अवसाणु पवण्णा [4]उत्तरकुरुहें गम्पि उप्पण्णा ॥ ८
तहि मि तिण्णि पल्लइँ णिवसेप्पिणु [5]मणें चिन्तविय भोग भुञ्जेप्पिणु ॥ ९
पुणु ईसाण-सग्गें हुअ सुरवर पलय-समुग्गय णं रवि-ससहर ॥ १०

॥ घत्ता ॥

विहिँ रयणायरेंहिँ अइकन्तेंहिँ [6]सम्मय-भरिया ।
चवण करेवि पुणु तहें कायन्दिहें अवयरिया ॥ ११

1 A °कव्व°. 2 P S वंदे°. 3 P °णे, A °यणो.

1. P S A °द्धि. 2 P S A °र°. 3 S भत्तिए.

[१] १ काकन्दीपुरे. २ भार्ये द्वे. ३ मदनाग=कन्दर्पगज—सिंहस्य. ४ आगते सति. ५ भोगभूमि. ६ सम्यक्त्वं सन्मतिश्च.

[२]

॥ हेला ॥ रइवद्धण-णरिन्दहों [1]पर-परायणासु ।
ससि-णिम्मल-जसासु सिव-सोक्ख-भायणासु ॥ १
जाय वे वि जिणवर-पय-सेविहँ णन्दण [2]सुअरिसणा-महएविहँ ॥ २
तहिँ पहिलारउ णामु पियङ्करु तणु तणुअउ पुणु अणुउ हियङ्करु ॥ ३
सोहइ दित्तिऍ णाइँ[1] दिणेसर णाइँ भरह-पहु-वाहुवलीसर ॥ ४
वहु-कालें तव-चरणु लएप्पिणु सण्णासेण सरीरु मुएप्पिणु ॥ ५
हुव गेवज्ज-णिवासिय सुरवर स-मउड दिव्व-कडय-कुण्डल-धर ॥ ६
दुइ-रयणी-सरीर-उव्वँ[2]हिया अणिमाइहिँ [3]गुणेहिँ सइँ [4]'सहिया ॥ ७
सूरप्पहेँ विमाणेँ वित्थिण्णऍ णाणाविह-मणि-गणहिँ रवण्णऍ ॥ ८
तहिँ इच्छियइँ सुहइँ माणेप्पिणु सायराइँ चउवीस गमेप्पिणु ॥ ९
चवेंवि जाय पुणु अरि-करि-अङ्कुस सीयहेँ णन्दण इ[5]ह लवणङ्कुस' ॥ १०

॥ घत्ता ॥

तं तेहउ वयणु णिसुणेप्पिणु परम-मुणिन्दहों ।
हुउ विम्भउ [6]गरुउ विज्जाहर-सुरवर-विन्दहों ॥ ११

[३]

॥ हेला ॥ जाणेंवि पुव्व-वइर-सम्बन्धु विहि मि ताहँ ।
सीयहेँ कारणेण सोमित्ति-रावणाहँ ॥ १
अण्णु वि वहु-दुक्ख-णिरन्तराइँ अ-पमाणइँ सुणेंवि भवन्तराइँ ॥ २
दहमुह-भायर-[1]जाणइ-वलाहँ सुग्गीव-वालि-भामण्डलाहँ ॥ ३
कें वि आसङ्किय गय भयहों के वि कें वि थिय णिय-मणें मच्छरु मुएवि ॥ ४
कें वि थिय चिन्ता-सायरें [2]विसेवि कें वि हुव मह-दुक्ख [3]विउद्ध के वि ॥ ५
कें वि सयलु परिग्गहु परिहरेवि [4]अत्थक्कऍ-थिय पावज्ज लेवि ॥ ६
अण्णेक्क के वि थिय वउ धरेवि सम्मत्त-महब्भरें खन्धु देवि ॥ ७
भूगोयर-खयर-सुरासुरेहिँ सयलेंहि मि मुणिहिँ णामिय-सिरेहिँ ॥ ८
णीसेस-जीव-मम्भीसणासु किउ साहुकारु विहीसणासु ॥ ९

---

2. 1 A जिय. 2 P S उव्वाहिय. 3 A omits. 4 P S साहिय. 5 P इय corrected as इह, A इय. 6 P S गुरु.

---

[२] १ शत्रुभिः अजेयस्य. २ सुदर्शनादेव्याः.
[३] १ सीता रामः तयोर्भवाति. २ प्रविश्य. ३ विबोध्य (?). ४ वेगेन.

॥ घत्ता ॥

'भो भो गुण-उवहि पइँ होन्तें विणय-सहावें ।
अम्हेंहिँ[1] एँउ चरिउ आयण्णिउ मुणिहिँ पसाएं' ॥ १०

[४]

॥ हेला ॥ तो एत्थन्तरे तिलोयग्ग-पत्त-णामो ।
वुत्तु कियन्तवत्तेंणं[1] सरहसेण रामो ॥ १

'परमेसर सधर-धरित्ति-पाल मइँ तुज्झु पसाएं सामिसाल ॥ २
सुपयाम-गाम-पट्टण-णिउत्त रयणायर देस अणेय भुत्त ॥ ३
माणियउ पवर-पीवर-थणाउ सुरवहु-रूवोहामिय-धणाउ ॥ ४
अच्छिउ विउलेंहिँ जण-मणहरेंहिँ गिव्वाण-विमाणेंहिँ वर-घरेंहिँ ॥ ५
आरूढु तुरय-गय-रहवरेंहिँ कीलिउ वण-सरि-सर-लयहरेंहिँ ॥ ६
देवङ्गइँ वत्थइँ परिहियाइँ [2]इच्छेंएँ अङ्गाइँ पसाहियाइँ ॥ ७
णिरुवम-[3]णच्चियइँ पलोइयाइँ वहु-भेय-गेय-वज्जइँ सुआइँ ॥ ८
अ[4]णुहुत्तु सयलु इहलोय-सोक्खु जम्महों वि ण लक्खिउ कहि मि दुक्खु ॥ ९
[1]महु पुत्तु विवाइउ देवि जुज्झु णिय-सत्तिएँ पेसणु कियउ तुज्झु ॥ १०

॥ घत्ता ॥

एवहिँ दासरहि उवढुकइ जाव ण मरणउँ[5] ।
मुक्क-परिग्गहउ वरि ताम लेमि तव-चरणउँ[5] ॥ ११

[५]

॥ हेला ॥ लब्भइ जगेँ असेसु किय-णरवरिन्द[1]-सेव ।
दुलहु णवर एक्कु पावज्ज-रयणु देव ॥ १

तें कज्जें लहु हत्थुत्थलहि[2] मइँ परलोय-कङ्ख[3] मोक्कलहि' ॥ २
इय-वयणेंहिँ जण-जणियाणन्दें वुत्तु कियन्तवत्तु वलहद्दें ॥ ३
'वच्छ वच्छ पावज्ज लएप्पिणु सव्व-सङ्ग परिचाउ करेप्पिणु ॥ ४
किह चरियएँ पर-हरेंहिँ[4] भमेसहि पाणि-पत्तें भोयणु भुञ्जेसहि ॥ ५
किह दूसह परिसह वि सहेसहि अङ्गें महा-मल-पडलु धरेसहि ॥ ६

3. 1 P S A °हि.

4. 1 P S °ण. 2 P S इच्छिय. 3 P णच्चणइ, S णच्चयइ. 4 P S अण°. 5 °ङं.

5. 1 P S णरिंद°. 2 P A °हिं. 3 P S °कंखु. 4 P °रहिं, S °रइ.

[४] १ मम पुत्रो मृतः.

किह धरणियल-सयणेँ सोवेसहि   काणणेँ वियणेँ घोरेँ णिसि णेसहि ॥ ७
किह दुक्कर-उववास करेसहि[5]   पक्खु मासु छम्मास[6] गमेसहि[7] ॥ ८
रुक्ख-मूलें आयावणु देसहि   तुहिण-कणावलि देहेँ धरेसहि' ॥ ९
तो सेणाणि भणइ 'सुह-भायणु   जो छड्डमि तुह णेह-रसायणु ॥ १०
जो लच्छीहरु उज्झेँ[8] वि सक्कमि   सो किं अवरइँ सहेँवि ण सक्कमि ॥ ११

॥ घत्ता ॥

मिच्चु[9]-सुराउहेँण[10]   [1]देह-इरि जाव णिहम्मइ[11] ।
ताव खणेण वरि   अजरामर-देसहोँ गम्मइ ॥ १२

[६]

॥ हेला ॥ कालेण वि णरिन्द वड्डिय-महन्त-सोउ ।
होसइ तुह समाणु अवरेँहिँ वि सहुँ विओउ ॥ १

तइयहुँ दुकरु जीविउ छुट्टइ   वहु-दुक्खेँहिँ महु हियवउं[1] फुट्टइ ॥ २
तें कज्जें ण वि वारिउ थक्कमि   चउ-गइ-काणणेँ भमेँवि ण सक्कमि' ॥ ३
तं णिसुणेँवि वलु दुम्मण-वयणउं[2]   वोल्लइ अंसु-जलोल्लिय-णयणउं[2] ॥ ४
'तुहुँ स-कियत्थउ जो इउ वुज्झेँवि   महु-सम सिय जर-तिणमिव उज्झेँवि ॥ ५
घोरु वीरु तव-चरणु समिच्छहि   इय जम्मेँ जइ मोक्खु ण पेच्छहि ॥ ६
अवसरु परियाणेँवि संखेवें   सम्वोहेवउ हउँ पइँ देवें ॥ ७
जइ जाणहि उवयारु णिरुत्तउं[2]   सम्भरेज्ज तो एँउ जं वुत्तउं[2]' ॥ ८
सो वि सरहसु स-विणउ पणवेप्पिणु   'एम करेमि देव' पभणेप्पिणु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

वन्देँवि मुणि-पवरु   'दिक्खहेँ पसाउ' पभणन्तउ ।
खणेँ कियन्तवयणु   वहु-णरहिँ समउ णिक्खन्तउ ॥ १०

[७]

॥ हेला ॥ सहसा हुउ महरिसी भव-भव-सयाहँ भीउ ।
सीलाहरण-भूसिउ [1]करयलुत्तरीउ ॥ १

---

5. P °रहिं, S °रइ.   6. PS °सु   7 PSA °हि.   8 PSA °ज्झि°.   9 S वुत्तु.
10 P सुराउहिवज्जेण.   11 PA °इं.
6. 1 A °उं.   2 P °उं.

---

[५] १ वज्रेण देव (? ह) एव पर्व्वतः.
[७] १ हस्तप्रावरणम्.

तो मुणि अहिणन्दॆवि अमर-सय णिय-णिय-भवणहँ सहसत्ति गय ॥ २
सीराउहो वि संचल्लु तहिँ सा अच्छइ सीयाएवि जहिँ ॥ ३
दीसइ अज्जिय-गण-परियरिय ध्रुव-तार व तारालङ्करिय ॥ ४
णं समय-लच्छि विमलम्वरिय णं सासण-देवय अवयरिय ॥ ५
पेक्खॆवि पुणु थिउ आसण्णु वलु णं सरय-जलय-मा[1]लहँ [2]अचलु ॥ ६
चिन्तन्तु परिट्ठिउ एक्कु खणु दर-वाह-भरिय-अविचल-णयणु ॥ ७
'जा चिरु घण-रवहोँ वि तसइ मणेँ सोवइ हिय-इच्छिय-वर-सयणेँ ॥ ८
सा वणयर-सद्द-भयाउलएँ वहु हीर-खु[3]ण्ट[2]-कुस-सङ्कुलएँ ॥ ९
वर-काणणेँ [4]पगुण गुणब्भहिय किह रयणि गमेसइ भय-रहिय ॥ १०

॥ घत्ता ॥

जम्पिय-पिय-वयण अणुकूल मणोज्ज महासइ ।
सुह[4]-उप्पायणिय कहि[5] लब्भइ एरिस तियमइ ॥ ११

[८]

[1]'धि मइँ किय[2]उ असुन्द[3]रं जणहुँ कारणेणं ।
जं घल्लावियासि 'पिय वणेँ [4]अकारणेणं' ॥ १
चिन्तेंवि एव सीय [3]अहिणन्दिय णं जिण-पडिम सुरिन्दें वन्दिय ॥ २
जिह तें तेम सुमित्तिहिँ जाएं तिह वर-विज्जाहर-सङ्घाएं ॥ ३
'तुहुँ स-कियत्थ जाएँ[5] सुपसिद्धउ जिणवर-वयणामिउ[6] उवलद्धउ ॥ ४
जा वन्दणिय जाय णीसेसहुँ वाल-जुवाण-जरङ्कियवेसहुँ ॥ ५
कन्त-जणेर-कुलइँ अप्पउ जणु पइँ उज्जालिउ सयलु वि तिहुयणु' ॥ ६
पुणु णीसल्लु करेवि महव्वल जाणइ अहिणन्दॆवि गय हरि-वल ॥ ७
लवणङ्कुस-कुमार विच्छाया णं रवि-ससहर णिप्पह जाया ॥ ८
गय णर-णरवरिन्द-विज्जाहर सुन्दर-कडय-मउड-कुण्डल-धर ॥ ९

॥ घत्ता ॥

दसरह-राय-सुय णरवर-लक्खेंहिँ परियरिय ।
इन्द-पडिन्द जिह तिह उज्झाउरि पइसरिय ॥ १०

7. 1 PS °मालाहे, A °मालेहिं. 2 PS °कुंट°. 3 A °णे. 4 PS °हु, A °हुं. 5 PSA °हि.
8. 1 P ढि्, S धिद्धि. 2 P किओ, S किउ. 3 A °रु. 4 S वयणे. 5 PS °य. 6 PA °उं.

[७] २ पर्व्वतः. ३ खुंटका दर्भाणि. ४ प्रकृष्टगुणेन युक्ता.
[८] १ धिग् धिग्. २ प्रेतवने । हे प्रिया वने च. ३ नमस्कृता.

[९]

॥ हेला ॥ एत्थन्तरे णिएवि वलएउ पइसरन्तो ।
रिसिह-जिणिन्द-पढम-[1]णन्दणहोँ अणुहरन्तो ॥ १

णाणा-रस-सम्पुण्ण-णिरन्तरु　　णायरिया-यणु चवइ परोप्परु ॥ २
'ऍहु सो वलु णिय-भुअ-वल-वीयउ　दीसइ गिम्भु जेम णिस्सीयउ ॥ ३
सोह ण पावइ उत्तम-सत्तउ　　णं जिण-धम्मु दया-परिचत्तउ ॥ ४
णं जोण्हऍ आमेल्लिउ ससहरु　　णं दित्तिऍ दूरुज्झिउ दिणयरु ॥ ५
ऍहु सो जें विणिवाइउ रावणु　　लक्खणु लक्खण-लक्खङ्किय-तणु ॥ ६
इय वेण्णि वि जण ते लवणङ्कुस　सीया-णन्दण करि व णिरङ्कुस ॥ ७
तरणि-तेय णिव्वूढ-महाहव　　जेहिँ परज्जिय लक्खण-राहव ॥ ८
ऍहु सो वज्जजङ्घु वल-सालउ　　पुण्डरीय-पुरवर-परिपालउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

ऍहु सो सत्तुहणु　　सत्तुहणु समरेँ अणिवारिउ ।
णन्दणु सुप्पहहेँ　　जें महु महुराहिउ मारिउ ॥ १०

[१०]

॥ हेला ॥ ऍहु सो जणय-णन्दणो जयसिरी-णिवासो ।
रहणेउर-पुराहिवो तिहुअणे[1] पयासो ॥ १

ऍहु सो सुग्गीवु [1]वराहिमाणु　　पमयद्धय-विज्जाहर-पहाणु ॥ २
किक्किन्ध-णराहिवु वालि-भाइ　　तारावइ [2]तारा-वइ व भाइ ॥ ३
ऍहु सो मारुइ अक्खय-विणासु　　जें दिण्णु पाउ सिरेँ रावणासु ॥ ४
ऍहु सो [1]सुवियड्ढाएवि-कन्तु　　लङ्केसु विहीसणु विणय-वन्तु ॥ ५
ऍहु सो णलु घाइउ जेण हत्थु　　ऍहु णीलु विवाइउ[3] जें पहत्थु ॥ ६
ऍहु सो अङ्गउ थिर-थोर-वाहु　　जें किउ मन्दोयरि-केस-गाहु ॥ ७
ऍहु सो पवणञ्जउ सुहड-पवरु　　परिपालइ जो आइच्च-णयरु ॥ ८
ऍहु सो महिन्दु अञ्जणहेँ ताउ　　मणवेय-महाएविऍ सहाउ ॥ ९
आयउ सहिँ[4] तिण्णि वि जणिउ [3]ताउ　अवराइय-[4]कइकय[5]-सुप्पहाउ ॥ १०

9. 1 P S °वाइउ.
10. 1 P S °ण. 2 A वि. 3 P S ए(S य°)हु सो नीलु विहउ. 4 P S सहु. 5 S °केक्कय°.

[९] १ भरतचक्रवर्तिनः.
[१०] १ श्रेष्ठाभिमानः. २ चन्द्र इव. ३ जनन्यो रामादीनाम्. ४ T लक्ष्मणजनन्या द्वे नामनी कइकइ सुमित्रेति । भरतस्य तु कैकयेति जननी.

॥ घत्ता ॥

पुण्णघणहों तणय   सा एह विसल्ला-सुन्दरि ।
सत्ति-हउं[6] (?) जाएँ रणें   परिरक्खिउ लक्खण-केसरि' ॥ ११

[११]

॥ हेला ॥ णायरिया-यणा[1]सु आलाव एव जावं ।
लक्खण-पउमणाह राउलें पइट्ठ तावं ॥ १

सुरसरि-जउण-पवाह व सायरें   ससि-दिवसयर व अत्थ-धराहरें ॥ २
केसरि व्व गिरि-कुहरब्भन्तरें   सद्दत्थ व वायरण-कहन्तरें ॥ ३
चिन्तइ वलु पिय-सोयब्भइयउ   'पेक्खु के[2]वँ सीयएँ तवु लइयउ ॥ ४
हउँ भत्तारु जणद्दणु देवरु   जणउ जणणु भामण्डलु भायरु ॥ ५
णन्दण दुइ वि एय लवणङ्कुस   अवराइय सासुवँ[3] दीहाउस ॥ ६
इहँ महि एउ रज्जु एँउ पट्टणु   एँउ घरु एँहु अवरु वि वन्धव-जणु ॥ ७
इय पुण्णिम-ससि-सण्णिह-छत्तइँ   कह सव्वइ मि झत्ति परिचत्तइँ ॥ ८
सुरवरह मि असक्कु किउ साहसु   वहु-कालहों वि थविउ महियलें जसु ॥ ९
एवहिं उ[2]ब्भासिय-परिवायहों   होन्तु मणोरह पँ[3]य-सङ्घायहों' ॥ १०

॥ घत्ता ॥

लक्खणु चिन्तवइ   सीया-गुण-गण-मण-रञ्जिउ ।
'हउँ विणु जाणइएँ   हुउ अज्जु जणेरि-विवज्जिउ' ॥ ११

[१२]

'[1]तो एत्तहें वि ताव पइ-पुत्त-मोह-चत्ता
तियसं-भूइ-णिन्दिया अइ-महन्त-सत्ता ॥ १

जा पाउस-सिरि व्व सु-पओहर   आसि तियस-जुवइहिं वि मणोहर ॥ २
सा तवेण परिसोसिय जा[1]णइ   णं दिवसयरें गिम्भें महा-णइ ॥ ३
दुप्परिणाम दूरें परिसेसिय   घे[2]ण-मलोह-कञ्चुएँण विहूसिय ॥ ४
परमागम-जुत्तिएँ किय-पारण   वसिकिय पञ्चेन्द्रिय-वर-चारण ॥ ५

---

6. P S सत्तिए हउ, A सत्तिहेउ.
11. 1 P S °णुसु. 2 S केंव. 3 S °य, A °अ. 4 P S इय.
12. 1 A ता.

---

[११] १ अस्तपर्वते. २ उद्भावितपरिवादस्य. ३ प्रजायाः.
[१२] १ सीतार्जिका. २ निबिडजल्लमलौघा.

रुहिर-मंस-परिवज्जिय-देही जीविएँ जणहों[2] जणिय-सन्देही ॥ ६
पायड-अत्थि-णिवह-[3]सिरँ[3]-जाली [4]फरुसाइण सव्वङ्ग-कराली ॥ ७
घोरु वीरु तव-चरणु करेप्पिणु हायणाइँ[4] वासट्ठि गमेप्पिणु ॥ ८
दिण तेत्तीस समाहि लहेप्पिणु थिय इन्दहों इन्दत्तणु लेप्पिणु ॥ ९
तियसावासेँ गम्पि सोलहमएँ वर-विमाणेँ सूरप्पह-णामएँ ॥ १०
कञ्चण-सिहरि-सिहर-सङ्कासएँ विविह-रयण-पह-किय-[5]विमलासएँ ११

॥ घत्ता ॥

[6]हरि-रामुज्झियउ अवरु वि जो दिक्ख लएसइ ।
सग्ग-मोक्ख-सुहइँ सो सव्वइँ[5] स इँ भु ञ्जेसइ ॥ १२

*

इय पोमचरिय-सेसे सयम्भुएवस्स कहँ[1] वि उव्वरिए ।
तिहुयण-सयम्भु-रइए सीया-सण्णास-पव्वमिणं ॥
वन्दइ-आसिय-महकइ-सयम्भु-लहु-अङ्गजाय-विणिवद्धे ।
सिरि-पोमचरिय-सेसे पञ्चासीमो इमो सग्गो ॥

*

[८६. छायासीमो संधि]

उवलद्धेँ[1]ण इन्दत्तणेँण सीय-पहुत्तणु किं वण्णिज्जइ ।
तिहि मि जगेँहिँ जं णिरुवमउँ[2] जइ पर तं जि तासु उवमिज्जइ ॥ध्रुवकम्॥

[१]

तो उत्तमङ्गेँ लाइय-करेण पभणिउ गोत्तमु मगहेसरेण ॥ १
'परमेसर णिरु-थिरँ[3]-थोर-गत्तेँ णिक्खन्तेँ सुं[1]-सत्तेँ[4] कियन्तवत्तेँ ॥ २
वोलीणएँ सासएँ सुह-णिहाणेँ वइदेही-सण्णासण-विहाणेँ ॥ ३
कन्तुज्झिउ एवहिँ दणु-विमद्दु[5] कहि काइँ करेसइ रामचन्दु ॥ ४
किं लक्खणु काइँ समीर-तणउँ[6] किं भामण्डलु किं जणउ कणउँ[7] ॥ ५

12. 2 P A जणिय जणहो. 3 P S सिरि. 4 P S वरिसहिं(S हि) तहिं (S हि). 5 P S सो वि. Puṣpikā—1 A °हिं.

1. 1 P S द्धें. 2 A °उं. 3 P S °र°, A °य°. 4 P S सिसुत्ते, A सुसत्ति. 5 P S °यमद्दु. 6 P A °उं. 7 P °उं.

[१२] ३ वपुःनसा. ४ रूक्षचर्म्मा. ५ T निर्मलदिग्मुखानि. ६ सुराम (?) प्रस्तुते, अन्यत्र धासुदेवेन कलत्रेण च रहितः.

[१] १ (v. l.) वालकत्वे.

किं लवणु काइँ अङ्कुसु कुमारु किं [2]लङ्काहिवु सुग्गीउ तारु ॥ ६
किं पवणञ्जउ दहिमुहु महिन्दु चन्दोयरि जम्ववु इन्दु कुन्दु ॥ ७
किं णलु णीलु वि सत्तुहणु अङ्गु पिहुमइ सुसेणु अङ्गउ तरङ्गु ॥ ८
अट्ठ वि णारायण-तणय काइँ अण्णु वि आहुट्ठ वि सुअ-सयाइँ ॥ ९
गउ गवउ च[8]न्दकरु दुम्मुहो वि अवरु वि किङ्करु जो वलहों को वि ॥ १०

॥ घत्ता ॥

किं अवराइयँ[9] विमल-मइ किं सुमित्त सुप्पह गुण-सारा ।
काइँ करेसइ [3]दोण-सुय ऍउ सयलु वि वज्जरहि भडारा' ॥ ११

[२]

इय वयणेंहिँ मुणि-जण-मणहरेण वुच्चइ पच्छिम-जिण-गणहरेण ॥ १
आयण्णहि सेणिय दिढ-मणाहँ वहु-दिवसेंहिँ राहव-लक्खणाहँ ॥ २
दस-दिसि[1]-परिभमिय-महाजसाहँ अमुणिय-पमाण-कय-साहसाहँ ॥ ३
सुरवर-जण-णयण-मणोहराहँ मुसुमूरिय-अरिवर-पुरवराहँ ॥ ४
कञ्चण[1]थाणहों कञ्चणरहेण पट्ठविउ लेहु कञ्चण-रहेण ॥ ५
'महु घरिणि जयद[2]ह जगेँ पसिद्ध सुर-सरि व [2]सुवाणिय कुल-विसुद्ध ॥ ६
दुइ दुहियउ ताहेँ वियक्खणाउ[3] अहिणव-जोव्वणउ स-लक्खणाउँ[4] ॥ ७
मन्दाइणि-णामें तहिँ [3]महन्त लहु चन्दभाय पुणु रूववन्त ॥ ८

॥ घत्ता ॥

ताहँ सयम्वर-कारणेँण मिलिय सयल महि-गोयर खेयर ।
तुम्हहिँ विणु सोहन्ति ण वि इन्द-पडिन्द-रहिय णं सुरवर ॥ ९

[३]

ऍउ परियाणेँवि सहसत्ति तेहिँ सरहसेँहिँ राम-चक्केसरेहिँ ॥ १
परिपेसिय अङ्कुस-लवण वे वि हरि-णन्दण अट्ठ कुमार जे वि ॥ २
णं पचलिय अट्ठ वि दिस-करिन्द णं [1]वसु णं अट्ठ वि विसहरिन्द ॥ ३
अण्णेक्क तणय साहण-समाण पट्ठवियाहुट्ठ-सय-प्पमाण ॥ ४

---

8 P S A °दु°. 9 P °यइं, S °यइ.

2. 1 P S °सु. 2 P marginally notes a variant सयंपह, A सयद्दह. 3 A °णउं. 4 P °उं.

---

२ विभीषणः. ३ विसल्ला.

[२] १ स्थानात्. २ T सुजला सुवचना च. ३ ज्येष्ठा.

[३] १ वस्वष्ट परसमये [इ]ति कथयंति.

अवर वि कुमार दिढ-कढिण-देह   अवरोप्परु परि[1]वड्डिय-सणेह ॥ ५
स-विमाण पयट्ट णहङ्गणेण   परिवेढिय-विज्जाहर-गणेण ॥ ६
णं जुग-खएँ हुअवहु चन्द-सूर   सणि-[2]कणय-[3]केउ-गुरु-राहु [4]कूर ॥ ७
जोयन्त[2] चउदिसु महि समत्त   तं कञ्चणथाणु खणेण पत्त ॥ ८

॥ घत्ता ॥

छत्त-चिन्ध-सिग्गि[3]रि-णियरु   दीसइ पुरें कुमार-सङ्घाएं ।
णं विवाह-मण्डवु[4] विउलु   णिम्मिउ लवणङ्कुसहँ विहाएं ॥ ९

[४]

तो णहें पेक्खेंवि आगमणु ताहँ   दससन्दण-णन्दण-णन्दणाहँ ॥ १
वेयड्ढ-णिवासिय साणुराय   अहिमुह विज्जाहर सयल आय ॥ २
सहुँ तेहिँ मिलेंवि कञ्चणरहासु   गय समुह सयम्वर-मण्डवासु ॥ ३
जहिँ गाढ णिविड वहु मञ्च वद्ध   णावइ स[1]क्कइ-कय कव्व-वन्ध ॥ ४
जहिँ णरवर पयडिय-वहु-वियार   खणेँ गलेँ वन्धन्ति मुयन्ति हार ॥ ५
खणेँ लेन्ति अणेयइँ भूसणाइँ   चउ-दिसु जोयन्ति णियं[2]सणाइँ ॥ ६
जहिँ सुव्वइ वीणा-वेणु-सद्दु   पडु-पडह-मुरव-रुञ्जा-णिणद्दु ॥ ७
जहिँ मणहरु के वि गायन्ति गेउ   अइ सु-सरु सुहावउ[3] विविह-भेउ ॥ ८
तहिँ ते कुमार सयल वि पइट्ठ   णाणा-मणिमय-मञ्चेँहिँ णिविट्ठ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

णिय-रूवोहासिय-मयण   सोलह-आहरणालङ्करिया ।
माणुस-वेसें धरणि-यलेँ   अमर-कुमार णाइँ अवयरिया ॥ १०

[५]

तो रूव-पसण्णउ   वेण्णि वि कण्णउ[1]   गहिय-पसाहणउ[3] ।
णिरुवम-सोहग्गउ   क[1]रिणि-वलग्गउ   जण-मण-विन्धणउ[2] ॥ १
मणि-विमल-कयासहोँ   णियय-णिवासहोँ   सुह-दिणेँ[3] णिग्गयउ[4] ।
णव-कमल-दलच्छिउ   [5]सरसइ-लच्छिउ   णाइँ[6] समागयउ ॥ २
[2]स-विसेसें [3]भल्लिउ   णं दुइ भल्लिउ   मयणें मेल्लियउ ।

3. 1 P S परिवेढिय°. 2 S °ति. 3 P S °सग्गिरि°. 4 P S °लु.
4. 1 T has सक्कयकवि. 2 A णिया°. 3 P °उं.
5. 1 P °उं. 2 P उं, S °ओ. 3 P S °ण. 4 A °उं. 5 This Pāda is missing in P A. 6 P S A °इ.

२ बुधः. ३ शुक्रः (?). ४ मंगल (?).
[४] १ (T's variant) संस्कृतकविः.
[५] १ हस्तिन्याः चटितायै (?). २ T सवितर्कैण मदनेन. ३ शोभितः (?).

गुण-गण-पडिहत्थिउ वर-[7]वँण-लच्छिउ णं संचल्लियउ ॥ ३
थिय चउहु मि पासहिँ मञ्च-सहासहिँ वर जोयन्तियउ ।
मोहण-लय-मायउ एक्कहिँ आयउ णं मोहन्तियउ ॥ ४
णं सुकइ-णिवद्धउ कहउ रसड्ढउ मणेँ पइसन्तियउ ।
सोहग्ग-विसेसें तें [4]वँवएसें णं णासन्तियउ ॥ ५
अइ-विसम-विसाढउ विसहर-दाढउ णं मारन्तियउ ।
णं रणेँ ढुक्कन्तिउ मग्गण-पन्तिउ विरहु करन्तियउ ॥ ६
णं गिम्भेँ फुरन्तिउ दिणयर-दित्तिउ सन्तावन्तियउ ।
णं आउह-धारउ दिण्ण-पहारउ मुच्छावन्तियउ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

अग्गएँ करिणि-समारुहिय [8]धाइँ सयल दरिसावइ णरवर ।
णावइ चारु वसन्त-सिरि विहिँ [5]फुंल्लन्धुअ-पन्तिहिँ तरुवर ॥ ८

[६]

जोयवि भू-गोयर चत्त केव खम-[1]दएँहिँ कुगइ-गइ-मग्गु जेव ॥ १
पुणु मेल्लिय विज्जाहर-णरिन्द णं गङ्गा-जउणेँहिँ वहु-गिरिन्द ॥ २
अवरे वि परिहरेंवि गयाउ तेत्थु ते सीया-णन्दण वे वि जेत्थु ॥ ३
जहिँ छत्त-[1]संण्ड-मण्डवु महन्तु [2]सुर-मणि-कर-णियरन्धार-वन्तु ॥ ४
रविकन्त-पहुज्जोइय-दियन्तु अवरेंहि मि मणिहिँ मह-सोह दिन्तु ॥ ५
पेक्खेंवि लवणङ्कुस [3]तुरिउ सव्वु गउ परिगलेवि चिरु रूव-गव्वु ॥ ६
जेट्ठोवरि पुणु मन्दाइणीएँ परिघित्त माल गय-गामिणीएँ ॥ ७
अङ्कुसहोँ चन्दभाथाएँ तेव [3]परिओसिय णहयलेँ सयल देव ॥ ८
किउ कलयलु तूरइँ आहयाइँ विच्छायइँ जायइँ वर-सयाइँ ॥ ९
णं णिहि-चुक्कइँ [4]वाइय-कुलाइँ चिन्तन्ति गमण-हिययाउलाइँ ॥ १०

॥ घत्ता ॥

'किं विणिभिन्दहुँ महि गयणु किं सायरें [4]'गिरि-विवरें [5]पईसहुँ ।
[6]धीसोहग्ग-भग्ग-रहिय जाहुँ तेत्थु जहिँ जणेँण ण दीसहुँ' ॥ ११

---

7 P S °धण°. 8 P S धाइय.

6. 1 P °दमएहिं, S °दमइहि. 2 P S °भाए वि तेव. 3 P S परिऊ°, A परिउ°. 4 P °वरे, S °वरि. 5 P S A पइ°. 6 A णी°.

---

४ वचनेन (?). ५ भ्रमराः.

[६] १ समूह. २ T सुरवइमणि=इन्द्रनीलमणिः. ३ शीघ्रम्. ४ T निधानोत्पाटनधातुवादविवरप्रवेशकारिणः.

[७]

ताव दुण्णिवारारि-मद्दणा   मणेँ विरुद्ध[1] सो[2]मित्ति-णन्दणा ॥ १
[१]तिसयँ[2]-तीस-वीस-प्पमाणया   पलय-काल-रूवाणुमाणया ॥ २
मुणेँवि वाल विक्कम-गुरुक्कया   सयल अवर वर पासेँ ढुक्कया ॥ ३
सण्णियं [2]दुअन्ते[3]हिँ सेण्णयं   घण-उलं व णह-यलेँ[4] णिसण्णयं ॥ ४
फणि-उलं व अच्चन्त-कूरयं   दिण्ण-घोर-गम्भीर-तूरयं ॥ ५
समर-रस-दि[5]ढावद्ध-परियरं   पाउसम्वरं णं स-धणु[6]हरं ॥ ६
रह-विमाण-हय-गय-णिरन्तरं   विविह-चिन्ध-छाइय-दियन्तरं ॥ ७
जाव वलइ किर भीसणाउहं   विहि मि राम-णन्दणहँ सम्मुहं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

ताव तेहिँ अट्ठहिँ वि तहिँ   लच्छीहर-महएवी-जाएँहिँ ।
धरिउ णियय-भायरेँहिँ सहुँ   णं तइलोक्क-चक्कु[३] दिस-णाएँहिँ ॥ ९

[८]

'अहोँ अहोँ भायरहोँ म करहोँ कोहु   मं वड्डारहोँ[1] रहु-कुलेँ विरोहु ॥ १
जो [१]जाय-दिणहोँ लग्गेँवि सणेहु   सो वल-लक्खणहँ म खयहोँ णेहु ॥ २
आयहँ परँ[2] कण्णहँ कारणेण   अवरोप्परु काइँ महा-रणेण ॥ ३
गुण-विणय-[3]सयण-खम-णासणेण   तिहुअणेँ धिक्कार-पगासणेण ॥ ४
कलहन्ति ए वि[4] पर जेव राय   कु-पुरिस [२]विण्णाण-कला-अणाय ॥ ५
तुम्हेँहिँ पुणु सयलइँ अइ समत्थ   गुणवन्त वियाणिय-अत्थसत्थ ॥ ६
लज्जिज्जइ अण्णु वि राहवासु   किह वयणु णिएसहुँ गम्पि तासु ॥ ७
सुट्ठु वि मय-मत्तउ मिलिय-भिङ्गु   किं णिय-[३]करु परिचप्पइ [४]मयङ्गु' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

इय पिय-वयणेँहि अवरेँहि मि[5] ते[5] उवसामिय माण-समुण्णय ।
णं वर-गुरु-मन्तक्खरेँहिँ   किय गइ-[6]मुह-णिवद्ध वहु पण्णय ॥ ९

---

7. 1. A विसुद्ध. 2 A तियस°. 3 P सन्नियं, S सण्णियं. 4 P S °यलं. 5 P °सदिढ°, S °दिढ°. 6 P °धरं, A °यरं.

8. 1 P S A °हु. 2 A वर. 3 P S °सयक्खविणासणेण. 4 P S व. 5 P S omit these. 6 P °निंमुह वहु, S °निम्मुह वहु.

---

[७] १. ३५० तीनि सै पंचास. २ शनिचंद्रौ द्वादशराशौ यप्पा(था ?) भवति (?). ३ T दिग्गजैः.
[८] १ T य जन्मदिनप्रभृतिस्य (?). २ (P's reading) शतसंख्या (?). २ T कलाविज्ञान-अनज्ञात (? अज्ञात). ३ सुंडि. ४ T हस्ती.

[९]

पुणु ते अवलोऍवि वार-वार सहुँ कण्णहिँ लवणङ्कुस-कुमार ॥ १
वहु-वन्दिण-वन्देंहिँ थुव्वमाण चउ-दिस-जण-पोमाइज्जमाण ॥ २
णिसुणेंवि गिज्जन्तइँ मङ्गलाइँ तूरइँ गहिराइँ स-काहलाइँ ॥ ३
पेक्खेप्पिणु सिय-सम्पय-विहोउ वर-आणवडिच्छेउ[1] सयलु लोउ ॥ ४
अप्पाणउ[2] परिणिन्दन्ति केवँ [1]'हरि-दंसणें सुर तव-हीण जेवँ ॥ ५
'अम्हइँ तिखण्ड-महिवइहेँ पुत्त लायण्ण-रूव-जोव्वण-णिरुत्त ॥ ६
वहु-गुण वहु-साहण [2]वहु-सहाय सु-पयाव अतुल-भुय-वल-सहाय ॥ ७
ण वि जाणहुँ हीण गुणेण केण एक्कहों वि ण घत्तिय माल जेण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अहवइ काइँ विसूरिऍण लब्भइ सयलु वि चिरु कय-पुण्णेंहिँ ।
जीवहों मणेंण समिच्छियउ किं संपडइ किऍहिँ[3] [3]पइसुण्णेंहिँ ॥ ९

[१०]

वरि तुरिउ गम्पि तव-चरणु लेहुँ जें[1] सिद्धि-वहुअ-करयलु[2] धरेहुँ' ॥ १
ऍउ चिन्तेंवि अवहत्थिय-भयासु पुणु गय वलेवि लक्खणहों पासु ॥ २
विण्णविउ णवेप्पिणु 'णिसुणि ताय [1]पज्जत्तउँ[3] विसय-सुहेहिँ राय ॥ ३
अम्हइँ संसार-महासमुद्दें दुट्ठट्ठ-कम्म-जलयर-रउद्दें ॥ ४
दुग्गइ-गम-खारा[2]पार-णीरें भय-काम-कोह-इन्दिय-गहीरें ॥ ५
मिच्छत्त-गरुय-[3]वायन्त-वाऍं जर-मरण-जाइ-वेला-णिहाऍं ॥ ६
वर-विविह-वाहि-कल्लोल-जुत्तें [4]परिभमणाणन्तावत्तइत्तें ॥ ७
मय-माण-विउल-पायाल-विवरें अलियागम[4]-सयल-कुदीव-णियरें ॥ ८
मह-मोहुब्भड[5]-चल-फेण-सोहें[6] सविओय-सोय-वडवाणलोहें ॥ ९
परिभमिय [5]सुइरु अ-लहन्त-धम्मु कह कह वि लद्धु पुणु मणुअ-जम्मु ॥ १०

॥ घत्ता ॥

एवहिँ एण कलेवरेंण जहिँ कहिँ[7] वि णत्थि[8] जम-डामरु ।
जिण-पावज्ज-तरण्डऍण जाहुँ[9] देसु जहिँ जणु अजरामरु' ॥ ११

9. 1 PS °च्छिउ. 2 PA °उं. 3 P किं एहिं, S किं एह.
10. 1 P जिं, S जिह. 2 PS °ल. 3 P °उं. 4 P अहियागसे, S अहियागये. 5 PS °हब्भड°. 6 PS °ह. 7 P कहे, S A कहि. 8 S णाहि जर°. 9 PSA °हु.

[९] १ इंद्रदर्शने अल्पतपोधनेनोत्पन्नसुर इव. २ बहुभ्रातरः बहुमृत्याश्च. ३ पैशुन्यताभिः दुर्जनैः (?).
[१०] १ पूर्यताम्. २ T अपर्यंतजले. ३ मिथ्यात्ववादैः. ४ आवागमणं. ५ दीर्घकालम्.

[११]

सुय-वयणु सुणेप्पिणु लक्खणेण　अवलोऍवि पुणु पुणु तक्खणेण ॥ १
परचुम्वेँवि मत्थएँ वार-वार　गग्गर-गिरेण पभणिय कुमार ॥ २
'इह[1] सिय इह[1] सम्पय एउ रज्जु　ऍहु सुर-तिय[2]-समु पिय-यणु[3] मणोज्जु ॥ ३
कुल-जायउ आयउ मायरीउ　[१]आयउ सव्वह मि महत्तरीउ ॥ ४
पासाय एय अइ-सोहमाण　कञ्चण-गिरिवर-सिहराणुमाण ॥ ५
आयइँ अवराइँ वि परिहरेवि　किह वणेँ णिवसेसहुँ दिक्ख लेवि ॥ ६
हउँ तुम्ह णेह-वन्धणेँ णिउत्तु　किं परिसेसेँवि सव्वहु मि जुत्तु' ॥ ७
[4]'पडिवुत्त कुमारेँहिँ 'काइँ एण　वहुएण णिरत्थेँ जम्पिएण ॥ ८
मोक्कल्लि ताय मा होउ विग्घु　सिज्झउ तव-चरणँ[5]-णिहाणु सिग्घु' ॥ ९

॥ घत्ता ॥

एम भणेप्पिणु स-रहसेँहिँ　गम्पिणु महिन्दोधुय(?)णन्दण-वणेँ ।
पासेँ महब्वल-मुणिवरहँ[6]　लइय दिक्ख णीसेसहुँ तक्खणेँ ॥ १०

[१२]

एत्तहेँ व ताम भामण्डलासु　विहवोहामिय-आखण्डलासु ॥ १
रहणेउर-पुर-परमेसरासु　णिण्णा[1]सिय-सत्तु-णरेसरासु ॥ २
कामिणि-मुह-पङ्कय-महुअरासु　वर-भोगासत्तहों मणहरासु ॥ ३
[१]मन्दर-णियम्व-कीलण-मणासु　णिविसु वि अ-मुक्क मुद्धङ्गणासु ॥ ४
सिरिमालिणि-भज्जालङ्कियासु　मयगलहों व सुट्ठु-[२]मेयङ्कियासु ॥ ५
आहरण-विहूसिय-अवयवासु　अच्छन्तहों सुर-लीलऍ तासु ॥ ६
एक्कहिँ दिणेँ [३]सिहि-उल-कय-वमालु　सम्पाइउ [४]वासारत्तु कालु ॥ ७
कसणुज्जल-णव-घण-पिहिय-गयणु　पयडिय-सुरचाउ अदिट्ठ-[५]तवणु ॥ ८
अणवरय-थोर-खर-णीर-धारु　चल-विज्जुल-[2]कय-[६]ककुहन्धयारु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तेत्थु कालेँ भामण्डलहों　मन्दिर-सत्तम-भूमिहेँ[3] थक्कहों ।
मत्थएँ पडिय तडत्ति [७]तँडि　सेल-सिहरेँ णं [८]पहरणु सक्कहों ॥ १०

11. 1 A इय. 2 P A °ए. 3 P S °मु. 4 P S परि°. 5 P S °णु. 6 P S °हो.
12. 1 A णिण्णामिय°. 2 P S °भय°. 3 A °ए.

[११] १ T सुकोशलादयरागतः (?).
[१२] १ मेरुकटिनीषु. २ मदेनालंकृतः. ३ मयूरकुलः. ४ वर्षाकाले. ५ सूर्यः. ६ दिशाः ७ विद्युत्. ८ वज्रः.

[१३]

जं उत्तमङ्गँ[1] णिवडिउ णिहाउ तं पाणहिँ मेल्लिउ जणय-जाउ ॥ १
गय तुरिय राम-लक्खणहोँ वत्त 'भामण्डल-कह कालहोँ समत्त' ॥ २
तेहि मि पभणिउ[2] 'रण-सय-समत्थु अम्हहँ णिवडिउ दाहिणउँ[3] हत्थु' ॥ ३
लवणङ्कुस-सत्तुहणेण सहिय णिसुणेविणु[4] सोय-ग्गहेँण[5] गहिय ॥ ४
'हा माम माम गुण-रयण-खाणि कहिँ गउ मुएवि गरुआहिमाणि[6] ॥ ५
[7]'एत्तिय-कालहोँ सिहि-महुर-वाय हा मुय अम्हारिय अज्जु माय' ॥ ६
[8]णिसुणाविउ जणउ वि तुरिउ आउ लहु-भायरेण कणएं सहाउ ॥ ७
तहोँ पुणु पुच्छिज्जइ दुक्खु काइँ तो वण्णिज्जइ जइ वहु-मुहाइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

मे(?मि)लेँवि असेसहिँ वन्धवेँहिँ [1]सोयामणि-संचूरिय-कायहोँ ।
सहसा लोयाचारु किउ दिण्णु सलिलु भामण्डल-रायहोँ ॥ ९

[१४]

तो वहु-दिवसेँहिँ [1]मारुवि[1] स-जाउ स-विमाणु कण्णकुण्डल-पुराउ ॥ १
परियरियउ वहु-खेयर-जणेण अन्तेउर-सहिउ णहङ्गणेण ॥ २
गउ वन्दण-हत्तिऍ तुरिउ मेरु णं जक्खिणि-जक्खेँहिँ सहुँ कुवेरु ॥ ३
पेक्खन्तु देस-देसन्तराइँ वेयड्ढ-उभय-सेढिहिँ पुराइँ ॥ ४
कुल-गिरि-सिर-सरवर-जिणवराइँ वाविउ कप्पद्दुम-लयहराइँ ॥ ५
गुह-कूडइँ खेत्तइँ काणणाइँ विण्णि वि कुरु-भूमिउ उववणाइँ ॥ ६
सव्वइँ पिय-घरिणिहिँ दक्खवन्तु विहसन्तु खणे खणेँ पुणु रमन्तु ॥ ७
[3]ऊरु-रहसुद्धसिय-स[2]मत्त-गत्तु मणहर-गिरि-मन्दर-सिहरु पत्तु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पवर-विमाणहोँ ओयरेँवि[3] करेँवि पयाहिण तुरिय स-कन्तें ।
णिम्मल-भत्तिऍ जिण-भवणेँ थुइ पारम्भिय पुणु हणुवन्तें ॥ ९

13. 1 P S A °णि. 2 P A °उं. 3 P °उं. 4 P S णिसुणेविणु. 5 A सोयगहेण. 6 A only गरु. 7 Sixth line is missing in A. 8 The portion up to तुरिउ is missing in A.

14. 1 A मारुइ. 2 P °समंत्त°, S °समंत°. 3 P S A उ°.

[१३] १ विद्युत्.
[१४] १ हनूमंतु सपुत्रः. २ प्रचुरः.

[१५]

'जय जय जिणवरिन्द धरणिन्द-णरिन्द-सुरिन्द-वन्दिया
जय जय चन्द-खं[१]न्द-वर-विन्तर-वहु-विन्दाहिणन्दिया ॥ १
जय जय वम्भ[1]-सम्भु-मण-भञ्जण-मयरद्धय-विणासणा
जय जय सयल-समग्ग-दुब्भेय-पयासिय-चारु-सासणा ॥ २
जय जय सुट्ठु-पुट्ठ-दुट्ठट्ठ-कम्म-दिढ-वन्ध-तोडणा
जय जय कोह-लोह-अण्णाण-माण-दुम-पन्ति-मोडणा ॥ ३
जय जय भव्व-जीव संसार-समुद्दहों तुरिउ तारणा
जय जय हय-तिसल्ल जय जाइ-जरा-मरणइँ निवारणा ॥ ४
जय जय सयल-विमल-केवल-णाणुज्जल-दिव्व-लोयणा
जय जय भव-भवन्तरावज्जिय-दुरिय-[२]मलोह-[३]चोयणा ॥ ५
जय जय तिजय-[४]कमल-व[2]य-दय-णय[५]-णिरुवम-गुण-गणालया
जय जय विसय-विगय जय जय दस-विह-धम्माणुवालया ॥ ६
[3]'तुहुँ सव्वण्हु सव्व-णिरवेक्खु णिरञ्जणु णिक्कलो परो
तुहुँ णिरवयवु सुहुमु परमप्पउ परमु ल[4]हुँ परंपरो ॥ ७
तुहुँ णिल्लेउ अ-गुरु परमाणुउ अक्खउ वीयरायओ
तुहुँ गइ मइ जणेरु सस मायरि भायरि सुहि सहा[5]यओ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

एवं विविह-थोत्तेंहिँ थुणेंवि [पुणु]पुणु जिणवरु पुज्जेंवि अच्चेंवि ।
पवण-पुत्तु पल्लट्टु णहें मन्दर-गिरि-सिहरइँ परिअच्चेंवि ॥ ९

[१६]

तहों हणुवहों णयणाणन्दणासु जिण-वन्दण-अणुराइय-मणासु ॥ १
णिय-लीलएँ एन्तहों[1] भरह-खेत्तु परिगलिउ दिवसु अत्थमिउ मित्तु ॥ २
अणुरत्त सञ्झ णं वेस आय णं रक्खसि [१]'रत्तारत्त जाय ॥ ३
वहलन्धयार पुणु ढुक्क राइ मसि-खप्परु विहिउ समत्थ[2] (?) णाइँ ॥ ४
तहिँ कालें हणुउ तणु-पह-जियक्कु [२]'सुरदुन्दुहि-सेलें स-सेण्णु थक्कु ॥ ५
जोअइ कसणुज्जलु जाव गयणु ससि-विरहिउ णिद्दीवउ व भवणु ॥ ६

15. 1 P S A °भु. 2 A °वयणदय°. 3 This Pāda is missing in A. 4 S लरहु, A रहुं. 5 P सहायरु, S सहोयरु.
16. 1 P S पत्तउ. 2 A समच्छु.

[१५] १ कार्त्तिकेय. २ T पातकसमूहः. ३ छेदकः. ४ लक्ष्मी. ५ मार्गः.
[१६] १ रक्तस्य विषये अनुरक्ता । अथ रुधिरेणालिप्ता रक्ता. २ सुरदुंदुही-पर्वते.

तहिँ ताव णियच्छिय णिरु गुरुक्क णहयलहोँ पडन्ति समुज्ज[३]लुक्क ॥ ७
सव्वहोँ वि जणहोँ सज्झसु करन्ति णं विज्जुल-लेह परिप्फुरन्ति ॥ ८
गह-तारा-रिक्खेंहिँ पह हरन्ति पलयाणल-जालहँ अणुहरन्ति ॥ ९
सा थोवन्तरेँ अ-मुणिय-पमाण [४]अत्थक्कए णिएँवि विलीयमाण ॥ १०

॥ घत्ता ॥

चिन्तिउ णिय-मणेँ सुन्दरेँण 'धिद्धिगत्थु संसार-णिवासु ।
तं तिल-मित्तु वि किं पि ण वि जासु ण दीसइ भुवणेँ विणासु ॥ ११

[१७]

दिवसेंहिँ मण-मूढहुँ [१]आरिसाहुँ एह जेँ अवत्थ अम्हारिसाहुँ ॥ १
ल्हिक्कन्तहँ गिरिवर-कन्दरे वि मञ्जूसहँ असिवर-पञ्जरे वि ॥ २
चउ-दिसहिँ भवन्तहँ अम्बरे वि [1]लुक्कन्तहँ सायरेँ मन्दरे वि ॥ ३
आएँहिँ अवरेहिँ ण मुअइ [२]मित्तु तो वरि पर-लोयहोँ दिण्णु चित्तु ॥ ४
जोव्वणु [2]वर-कुञ्जर-कण्ण-चवलु जीविउ [३]तणग्ग-जल-विन्दु-तरलु ॥ ५
सम्पय दप्पण-छाया-समाण सिय मरु-हय-दीव-सिहाणुमाण ॥ ६
सरयब्भय-छाहि-[४]सच्छाउ अत्थु तिण-ज्जलिय-जलण-समु सयण-सत्थु ॥ ७
तुसँ[3]-मुट्ठि व णिरु णीसारु देहु जल-रेह व दिट्ठ-पणट्ठु णेहु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

एउ जाणन्तु वि पेक्खु किह अच्छमि छाइउ मोहण-जालें ।
इय गिरिवरेँ[4] सूरुग्गमणेँ[5] कल्लेँ जि[6] दिक्खलेमि किं कालें' ॥ ९

[१८]

चिन्तन्तहोँ हियवएँ तासु एव गय रयणि कमेण कु-वुद्धि जेव ॥ १
उग्गमिउ दिवायरु णहेँ विहाइ[1] पावज्ज-णिहालउ आउ णाइँ ॥ २
आउच्छेँवि पिय-महिला-णिहाउ सन्ताणेँ ठवेवि णियङ्गजाउ ॥ ३
णीसरेँवि विमाणहोँ अणिल-पुत्तु [१]णर-जाणु चडिउ मणि-गण-णिउत्तु ॥ ४
गउ णरवर-सहिउ जिणिन्द-भवणु चारण-रिसि लक्खिउ धम्मरयणु ॥ ५

17. 1 P लु°, A ल्हु°. 2 P धण्णु, S धणु. 3 P तुसे, S तुसि. 4 P S °रू. 5 P S °ग्गमेण, A °ग्गमणे. 6 P S omit.
18. 1 P S सुहाइ.

३ उल्कापातम्. ४ शीघ्रम्.
[१७] १ ई[दृ]ग्विधानाम्. २ मृत्युः. ३ T तृणाग्र. ४ सदृशः.
[१८] १ सिविका.

परियञ्चेवि जिण-वन्दण करेवि   पुणु [२]दु-विहु परिग्गहु परिहरेवि ॥ ६
पण्णासहिँ सत्त-सऍहिँ सहाउ   खयरहँ दिक्खङ्किउ साणुराउ ॥ ७
वन्धुमइहेँ पासेँ सु-पउमराय   दिक्खङ्किय पहु-सुग्गीव-जाय ॥ ८
साणङ्गकुसुम तिह खरहोँ धीय   तिह सिरिमालिणि णल-सुय [2]विणीय ॥ ९
तिह लङ्कासुन्दरि गुणहँ रासि   जा परिणिय लङ्काउरिहिँ आसि ॥ १०
अवरउ वि मणोहर तियउ ताव   णिक्खन्तउ अट्ठ सहास जाव ॥ ११

॥ घत्ता ॥

इय एक्केक्क पहाणियउ   [३]सिरिसइलहोँ अइ-पाण-पियारिउँ[3] ।
अण्णउ पुणु किं जाणियउ   जाउ तेत्थु पव्वइयउ णारिउ ॥ १२

[१९]

[1]वत्त सुणेंवि रोवइ मरु-अञ्जण   'हा हणुवन्त राम-मण-रञ्जण ॥ १
हा हा उहय-वंस-[१]संवद्धण   हा वरुणाहिव-सुय-सय-वन्धण ॥ २
हा महिन्दॅ[2]-माहिन्दि[3]-परायण   हा हा आसाली-विणिवायण ॥ ३
हा हा वज्जाउह-दरिसिय-वह   लङ्कासुन्दरि-किय-पाणिग्गह ॥ ४
हा गिव्वाणरवण-वण-चूरण   अक्खकुमार-सवल-मुसुमूरण ॥ ५
हा घणवाहण-रणँ[4]-ओसारण   हा विज्जा-लङ्गूल-पहारण ॥ ६
हा हा णाग-पास-वहु-तोडण   हा हा रावण-मन्दिर-मोडण ॥ ७
हा हा लङ्का-पउलि-णिलोट्टण   हा हा वज्जोयर-दलवट्टण ॥ ८
हा लक्खण-विसल्ल-मेलावण   सय-वारउ जूराविय-रावण ॥ ९
अम्हहुँ विहि मि पुत्त ण कहन्तउ[5]   किह एक्कलउ [6]'जि णिक्खन्तउ' ॥ १०
एव भणेंवि सुय-सोयब्भइयइँ   जिणहरु गम्पि ताइँ पव्वइयइँ ॥ ११

॥ घत्ता ॥

सो वि मयरद्धउ वीसमउ   मारुइ घोरॅ[7]-वीरॅ[8]-तव-तत्तउ ।
वहु-दिवसेंहिँ केवलु लहेंवि   जेत्थु स य म्भु-देउ तहिँ पत्तउ ॥ १२

*

2 The portion from विणीय up to तियउ (in 11 a) is missing in A.
3 P °रियउ.

19. 1 A वि°. 2 P S A °दि. 3 P S °द, A °हंदि. 4 P S °णे. 5 P A °उं.
6 P °उ जे, S °ओ जि. 7 P S °रु. 8 S °रु.

२ T बाह्याभ्यन्तरः. ३ हनूमंतस्य.
[१९] १ T वृद्धिकारकः.

कइरायस्स विजयसेसियस्स वित्थारिओ[1] जसो भुवणे ।
तिहुयण-सयम्भुणा पोमचरिय-सेसेण णिस्सेसो ॥
इय पोमचरिय-सेसे सयम्भुएवस्स कह वि उव्वरिए ।
तिहुयण-सयम्भु-रइए मारुइ-णिव्वाण-पव्वमिणं ॥
वन्दइ-आसिय-तिहुयण-सयम्भु-परिरइय-रामचरियस्स ।
सेसम्मि जग-पसिद्धे छायासीमो इमो सग्गो ॥

*

[८७. सत्तासीमो संधि]

वहु-दिवसेंहिँ ते लक्खण-सुअ वि दुद्धरु दूसहु तवु करेँवि ।
जिह हणुउ तेम धुय-कम्म-रय थिय सिव-सासऍं पइसरेँवि ॥ ध्रुवकम् ॥

[१]

तो इय वत्त सुणेँवि रिउ-मद्दें वि[1]हँसेँवि वोल्लिज्जइ वलहद्दें ॥ १
'लहवि एय वर-भोय मणोहर हयवर गयवर रहवर णरवर ॥ २
वहु-सीमन्तिणीउ सुहि-सयणइँ धण-क[1]लहोय-धण्ण-मणि-रयणइँ ॥ ३
[2]णं वि माणन्ति कमल-सण्णिह-मुह णारायण-पवणञ्जय-तणुरुह ॥ ४
मं[3]हु ण मुणन्तहोँ भव-भय-लइया पेक्खु केव सयल वि पव्वइया ॥ ५
मंछुडु ते [3]वाएं उद्धद्धा अहवइ कहि मि [4]पिसाएं[3] लद्धा ॥ ६
जिम वामोहिय[4] जिम उम्माहिय[5] कुसलु[6] ण अत्थि [7]वेज्जें ण वि [5]वाइय ॥ ७
तें कज्जें [6]विहोय परिसेसेँवि गय तवेण अप्पाणउ[8] भूसेँवि' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

धवलङ्गहोँ सिव-सुह-भायणहोँ जिणवर-वंस-समुब्भवहोँ ।
राहवहोँ वि जहिँ जड-मइ हवइ तहिँ अण्णहोँ ण वि होइ कहोँ ॥ ९

[२]

अण्णहिँ दिणेँ सुरवरहँ वरिट्ठउ सहसणयणु णिय-सहऍं णिविट्ठउ ॥ १
णं सुरगिरि [1]सेस-इरि-सहायउ दिणयर-कोडि-तेय-सच्छायउ ॥ २
वर-सीहासण-सिहरारुहियउ [2]णव-तिय-अच्छर-कोडिहिँ सहियउ ॥ ३

Puṣpikā : 1 P A °उं, S °उ.

1. 1 P S A °सिवि. 2 P A महुं. 3 P A °इं, S °यं. 4 P वाम्मोइय, S वामोइय. 5 P S उमोइय. 6 A °ल. 7 S विज्जि, A विज्ज. 8 P S °उं.

[१] १ सुवर्णः. २ नाऽनुभवतः. ३ वातेन गृहीता. ४ पिशाचेन. ५ मंत्रवादिनः. ६ विभूति.

[२] १ अपरपर्वतैः सह. २ T सप्तविंशति कोटयः.

विविहाहरण-फुरन्त-सरीरउ गिरि व धीरु[1] जलहि व गम्भीरउ ॥ ४
मह-रिद्धिऍ सत्तिऍ सम्पुण्णउ उत्तम-वल-रूवेण पसण्णउ[2] ॥ ५
लोयवाल-पमुहहँ सुह-पवरहँ वोलइ समउ[3] असेसहँ अमरहँ ॥ ६
'जासु पसाएं ऍउ इन्दत्तणु लब्भइ देवत्तणु सिद्धत्तणु ॥ ७
जें संसार-घोर-रिवु एक्कें विणिहउ णाण-समुज्जल-चक्कें[4] ॥ ८
जो भव-सायरॅ[5]-दुहइँ णिवारइ भविय-लोउ हेलाऍ[6] जि तारइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

उप्पण्णहों जसु मन्दर-सिहरें तियसे[7]न्देंहिँ अहिसेउ किउ
तं पणवहों [3]सइँ सव्वायरेंण जइ इच्छहों भव-मरण-खउ ॥ १०

[३]

जो सयरायर पिहिमि मुएप्पिणु थिउ भुवण-त्तय[1]-सिहरें चडेप्पिणु ॥ १
जासु णामु सिवु सम्भु जिणेसरु देव-देवु महएवु महेसरु ॥ २
जिणु जिणिन्दु कालेञ्जरु सङ्करु थाणु हिरण्णगब्भु तित्थङ्करु ॥ ३
विहु सयम्भु सद्धम्मु सयम्पहु भयउ अरुहु अरहन्तु जयप्पहु ॥ ४
सूरि णाण-लोयणु तिहुयण-गुरु केवलि रुद्दु विण्हु हरु जग-गुरु ॥ ५
सुहुमु सोक्खु णिरवेक्खु परम्परु परमप्पउ परमाणु परमपरु ॥ ६
अ-गुरु[2] अ-लहुउ णिरञ्जणु णिक्कलु जग-मङ्गलु णिरवयवु सु-णिम्मलु ॥ ७

॥ घत्ता ॥

इय णामेंहिँ सुर-णर-विसहरेंहिँ जो संथुव्वइ भुवण-यलें ।
तहों अणुदिणु रिसह-भडाराहों भत्तिऍ लग्गहों पय-जुवलें ॥ ८

[४]

जीवु अणाइ-णिहणु भव-सायरें कम्म-वसेण भमन्तु दुहायरें ॥ १
केम[1] वि मणुय-जम्में उप्पज्जइ धम्महों णवर तहि मि मोहिज्जइ ॥ २
मिच्छा-तवेंण जाउ हीणामरु मुज्झइ चवेंवि होइवि पडिवउ णरु ॥ ३
मह-रिद्धियहों वि सुरहों सु-वलह होइ णरत्तें वोहि[2] अइ-दुलह ॥ ४
दुक्खु दुक्खु सो धम्महों लग्गइ अण्णाणिउ पुणु किर कहिँ लग्गइ ॥ ५

2. 1 A गरुय वीरु. 2 P °उं. 3 P A °उं. 4 P S एक्कें. 5 P S °रु. 6 P हेलए जो, S जो हेलइ. 7 A तियसेहिं वि.
3. 1 P S °त्तए, A °रूप°. 2 A अगुरुउलहुउ.
4. 1 A कम्मु. 2 S दोहि.

३ सदा.

अह[3] देवो वि होवि पडिवउ णरु   णरु वि होवि पुणु पडिवउ सुरवरु ॥ ६
अहों देवहों कइयहँ मणुअत्तणें   वोहि लहेसहुँ जिणवर-सासणें ॥ ७
अट्ठ-दुट्ठ-कम्मारि हणेसहुँ   अविचलु सिद्धालउ पावेसहुँ’ ॥ ८
एक्कें सुरेण वुत्तु तो सुरवइ   ‘सग्गें वसन्तहँ अम्हहँ इय मइ ॥ ९
मणुअत्तणें पुणु सव्वहँ मुज्झइ   कोह-लोह[4]-मय-माणें[5]हिँ रुज्झइ ॥ १०
अहवइ जइ ण वि मणें परिअच्छहि   तो किं पउमणाहु ण णियच्छहि ॥ ११
चवेंवि ‘वम्ह-णामहों सुर-लोयहों   किह आसत्तउ मणुअ-विहोयहों’ ॥ १२

॥ घत्ता ॥

विहसेवि वुत्तु [2]सक्कं[6]दणेंण   ‘जीव-णिहाय-णिरुन्धणहँ ।
संसारें सणेह[7]-णिवन्धु दिट्ठु   मज्झें असेसहँ वन्धणहँ ॥ १३

[५]

लच्छीहरु कसणुज्जल-देहउ   रामोवरि-परिवड्ढिय-णेहउ ॥ १
एक्कु वि णिविसु विओउ ण इच्छइ   उवगरेहुँ [1]पाणेहिँ वि वञ्छइ ॥ २
एत्तिउ जाणमि हउँ अहों देवहों   मरणहों णामेण जि वलएवहों ॥ ३
ण वि जीवइ णिरुत्तु दामोयरु   रामु मुअउँ[2] तें[3] केम सहोयरु ॥ ४
किह वीसरउँ[4] विविह-उवयारा   जे चिन्तविय-मणोरह-गारा ॥ ५
कह वीसरउँ[4] अउज्झ मुएवउँ[4]   समउ सयलें[5] वण-वासें भमेवउ ॥ ६
किह वीसरउ रउद्दु महारणु   [1]स-तिसिरें[6]-खर-दूसण-सङ्घारणु ॥ ७
किह वीसरउँ[4] समरें पहरेवउ   इन्दइ वि-रहु करेवि धरेवउ ॥ ८
[7]किह वीसरउ स-रोसु भिडेवउ   [8]लङ्केसर-सिर-कमल खुडेवउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

अवर वि उवयार जणद्दणहों   किह रहुवइ मणें वीसरइ ।
तें अच्छइ पडिउवयार-मइ   णेह-वसंगउ किं करइ’ ॥ १०

3 P S अहो. 4 P S °मोह°. 5 P S °माणें. 6 P सकं°, S सक्कं°. 7 P S °हु.
5. 1 P S वि पाणेहिं. 2 A °उं. 3 P S तं. 4 P °उं. 5 P S °ल. 6 A ससिमिर. 7 This pāda is wanting in P. 8 This pāda is wanting in S.

[४] १ पञ्चमस्वर्गात्. २ इन्द्रेण.
[५] १ त्रिसरः.

[६]

आयण्णेंवि इय वयणइँ चवन्तु   अण्णु वि जाणेंवि [1]आसण्ण-मित्तु ॥ १
जयकारेंवि वासवु चारु-वेस   गय णिय-णिय-णिलयहँ सुर असेस ॥ २
तहिँ[2] णवर [2]स-विब्भम विण्णि देव   पचलिय लक्खणहों विणासु जेव ॥ ३
'वलु मुयउ सुणेवि सणेहवन्तु   पेक्खहुँ सो काइँ करइ अणन्तु ॥ ४
किह रूअइ पजम्पइ काइँ वयणु   आरूसइ कहों कहिँ कुणइ गमणु ॥ ५
मुहु सोएं केहउ होइ तासु   केरिसउ दुक्खु अन्तेउरासु' ॥ ६
एउ वयणु पजम्पेंवि रयणचूलु   अण्णेक्कु वि णामें अमियचूलु ॥ ७
विण्णि वि कय-णिच्छय गय तुरन्त   णिविसेण अउज्झा-णयरि पत्त ॥ ८

॥ घत्ता ॥

मायामउ वलएवहों भवणें   देवहिँ कलुणु सहुँ[3] गरुउ[4] ।
किउ [3]जुवइ-णिवहँ[5]-धाहा-गहिरु   'हा हा राहवचन्दु मुउ' ॥ ९

[७]

जं हलहर-मरण-सद्दु णिसुउ   तं भणइ विसण्णु सुमित्ति-सुउ ॥ १
'हा काइँ जाउ फुडु राहवहों'   लहु [1]अक्खु चवन्तहों एव तहों ॥ २
सहुँ वायएँ जीविउ णिग्गयउ   हरि देहहों णं रूसेंवि गयउ ॥ ३
वर-[1]जायरूव-[2]खम्भासियउ   सीहासणें [3]वित्थिण्णएँ थियउ ॥ ४
अ-णिमीलिय-लोयणु थड्ढ-तणु   लेप्पमउ णाइँ थिउ महुमहणु ॥ ५
तं पेक्खेंवि सुरवर वे वि जण   अप्पउ णिन्दन्ति विसण्ण-मण ॥ ६
अइलज्जिय पच्छा[4]ताव-कय   सोहम्म-सग्गु सहसत्ति गय ॥ ७

॥ घत्ता ॥

सुरवर-मायएँ विउरुव्वियउ   परियाणेंवि [2]हरि-गेहि [5]णिहिँ ।
आढत्तु पणय-कुवियइँ करेंवि   सव्वेंहिँ सुट्ठु सणेहिणिहिँ ॥ ८

[८]

तो पासें ढुक्क आउल-मणाहँ   सत्तारह सहस-वरङ्गणाहँ ॥ १
क वि पणइणि पणएं भणइ एव   'रोसाविउ कवणें अक्खु देव ॥ २

6. 1 P आसणु मुवंतु, S आसण्णु. 2 P S A °हिं. 3 P सद्द. 4 P S किउ गरुअउ. 5 P S °हु.

7. 1 P एव, S येव. 2 S सं°. 3 P S विच्छि°. 4 A पच्छत्ताव. 5 P T मे°.

---

[६] १ (P.'s reading) अन्यदपि आसनं मुञ्चन्तं वासवं ज्ञात्वा. २ सविस्मय. ३ स्त्रीसमूहैः.

[७] १ सुवर्णः. २ स्त्रीभिः.

जो कु-मइएँ[1] किउ अवराहु तुज्झु सो सयलु वि एक्कसि खमहि मज्झु' ॥ ३
सब्भावें अग्गएँ का वि णडइ क वि दइयहों चलण-यलेहिँ पडइ ॥ ४
क वि मणहरु वीणा-वज्जु वाइ क वि विविह-भेउ गन्धव्वु गाइ ॥ ५
क वि आलिङ्गइ णिब्भर-सणेह चुम्बइ कवोलु सोमाल-देह ॥ ६
क वि कुसुमइँ सीसेँ[2] समुद्धरेवि तोसावइ सिरेँ सेहरिकरेवि ॥ ७
क वि मुहु जोएँवि मलियङ्गवङ्गु[3] उट्ठावइ किय-[1]कर-साह-भङ्गु[3] ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अण्णाउ वि चेट्ठउ[4] वहु-विहउ जुअइहिँ जाउ जाउ कियउ ।
जिह किविण-लोएँ सिय-सम्पयउ सव्वउ गयउ णिरत्थियउ ॥ ९

[९]

तो एँह वत्त णिसुणेविणु रामु सहसत्ति आउ जगेँ णाय-णामु ॥ १
लक्खणु कुमारु जहिँ तहिँ पइट्ठु वहु-पियहँ मज्झेँ णिय-भाउ दिट्ठु ॥ २
'[1]सव्वरेँ[1](?)विरामेँ[2] ससि-वयण-छाउ णिरु णिच्चलु सिरि-परिहरियँ[3]-काउ ॥ ३
[2]काकुत्थु पचिन्तइ रणेँ दुसज्झु 'मंछुडु लच्छीहरु कुइउ मज्झु ॥ ४
तें कज्जें ण वि आयरु वि गणइ ण वि काइँ वि अब्भुत्थाणु [4]कुणइ' ॥ ५
सिरेँ चुम्वेँवि पभणिउ 'सुन्दरच्छ किं महु आलावु ण देहि वच्छ ॥ ६
कहेँ काइँ थियउ कट्ठमउ णाइँ' परियाणिउँ[5] चिण्हेँहिँ मुअउ भाइ ॥ ७
अवलोइउ पुणु सयलु वि सरीरु मुच्छाविउ खणेँ वलएव-वीरु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जिह तरुवरु छिण्णउँ[6] मूलें तिह महिहिँ पडिउ णिच्चेयणउँ[7] ।
मरु-हार-णीर-चन्दण-जलेंहिँ हुउ कह कह वि स-चेयणउँ[6] ॥ ९

[१०]

उट्ठिउ सोआउरु रहु-तणउ[1] वहु-[1]वाह-पिहिय दीणाणणउ ॥ १
तं भाउ णिएवि स-णेउरेंण धाहाविउ हरि-अन्तेउरेंण ॥ २
'हा णाह आउ सइँ [2]दासरहि किं सीहासणहों ण ओयरहि ॥ ३

8. 1 P °हँ, S °हि. 2 P S A °सि. 3 A °गु. 4 S चि°, A वि°.
9. 1 S संव°. 2 S राम. 3 P S °उ. 4 P करइं, S करइ. 5 P A °उं. 6 P °उं. 7 A °उं.
10. 1 P A °उं.

[८] १ अङ्गुल्यास्फोटनेन.
[९] १ प्रभाते. २ रामः.
[१०] १ अंसुप्रवाहैः आच्छादितमुखः. २ रामः.

हा णाहत्थाणु समागयहँ　　सम्माणु करहि णरवर-सयहँ ॥ ४
हा णाह पसण्ण-चित्तु हवहि　　णिय-पियउ रुअन्तिउ संथवहि' ॥ ५
एत्थन्तरेँ तिण्णि वि आइयउ　　सुप्पह-सुमित्ति-अवराइयउ ॥ ६
'हा लक्खण पुत्त' भणन्तियउ　　अप्पउ करयलेँहिँ हणन्तियउ ॥ ७
तिह आउ खणद्धेँ सत्तुहणु　　णिवडिउ हरि-चलणहिँ विमण-मणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

'हा हा भायरि[2] णिय-मायरिउ　　धीरहि सोयाउण्णियउ[3] ।
पइँ विणु धुवुं[4] जायउ अज्जु महु　　दिसउ असेसउ सुण्णियउ[5]' ॥ ९

[११]

तो हरि-मायरि सुमित्ति रुअइ　　गुण सुमरेँवि गरुअ धाह मुअइ ॥ १
'हा पुत्त पुत्त कहिँ गयउ तुहुँ　　हा थिउ[1] विच्छायउ काइँ मुहु ॥ २
हा मइँ अत्थाणेँ णिअच्छियउ　　एवहिँ जेँ चवन्तउ अच्छियउ ॥ ३
हा काइँ जाउ एँउ अच्छरिउ[2]　　जेँ महु णिलक्खण णामु किउ ॥ ४
हा पुत्त पुत्त सीयाहवहोँ[3]　　किं मणेँ णिव्विण्णउ[4] राहवहोँ ॥ ५
एक्केलउ छड्डेँवि जेण गउ　　हा पुत्त अजुत्तउ एउ तउ' ॥ ६
एत्थन्तरेँ सुणेँवि महाउसेँहिँ　　असहन्तेँहिँ दुहु लवणङ्कुसेँहिँ ॥ ७
परियाणेँवि जीविउ देहु[5] चलु　　जयकारेँवि रामहोँ पय-जुअलु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

गम्पिणु जिणहरु जहिँ अमियसरु　णिवसइ मुणि भव-भय-हरणु ।
कइवय-कुमार-णरवरेँहिँ सहुँ　　बीहि मि लइयउ[6] तव-चरणु ॥ ९

[१२]

लच्छीहर-मरणउं[1] एक्कत्तहिँ[2]　　लवणङ्कुस-विओउ अण्णेत्तहिँ ॥ १
एक्केण जि खणेण[3] मुच्छिज्जइ[4]　　विहिँ दुहेहिँ पुणु किं[5] पुच्छिज्जइ[6] ॥ २
भाइ णिएँवि परियड्ढिय[7]-[1]मलहरु　　पुणु वि पुणु वि धाहावइ हलहरु ॥ ३
'हा लक्खण लक्खण-लक्खङ्किय　　पेक्खु केम महु सुअ दिक्खङ्किय ॥ ४
पइँ विणु को महु सहुँ गमु सन्धइ　　को सीहोयरु समरेँ णिवन्धइ ॥ ५

2 P S °र. 3 A °उं. 4 S अंधारउ. 5 P सुन्निअउं.
11. 1 P थियउ, S थिअउ. 2 A अच्च°. 3 P S सीराउहहो. 4 P °उं. 5 P S °ह. 6 A लइउ तवच्चरणु.
12. 1 P A °उं. 2 P एक्कु तहे. 3 P S खणे खणे 4 P मुच्छिअइं, S मुच्छियइ. 5 P वि, S वि किं. 6 P मुच्छिअइं, S पुच्छियइ. 7 A पारिअद्दिय°.

---

[१२] १ शोकः.

पइँ विणु को महु पेसणु सारइ वज्जयण्णु णरवरु साहारइ ॥ ६
पइँ विणु वालिखिल्लु को धीरइ[8] को तं रुद्दभुत्ति विणिवारइ ॥ ७
पइँ विणु को भञ्जइ धरणीधरु धरइ अणन्तवीरु को दुद्धरु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सत्तिउ अरिदमण-णराहिवहोँ पञ्च पडिच्छेँवि सइँ समरेँ ।
पइँ विणु लक्खण खेमञ्जलिहेँ कहोँ लग्गइ जियपउम करेँ ॥ ९

[१३]

हा लक्खण पइँ विणु गुणहराहँ उवसग्गु हरइ को मुणिवराहँ ॥ १
पइँ[1] विणु अ-किलेसें भुवणेँ कासु करेँ लग्गइ असिवरु सूरहासु ॥ २
पइँ विणु को हेलएँ[2] गरुअ-धीरु विणिवायइ सम्वुकुमारु वीरु ॥ ३
पइँ विणु संदरिसिय[3] वहु-वियारु को परियाणइ चन्दणहि [1]चारु ॥ ४
पइँ विणु को जीविउ हरइ ताहँ तीहि मि तिसिरय-खर-दूसणाहँ ॥ ५
पइँ विणु को धीरइ [2]पमय-सत्थु को कोडि-सिलुद्धरणहुँ समत्थु ॥ ६
पइँ विणु लङ्का-णयरिहेँ समीवेँ को जिणइ हंसरहु हंस-दीवेँ ॥ ७
पइँ विणु को इन्दइ धरइ भाइ को रावण-सत्तिएँ समुहु थाइ ॥ ८
पइँ विणु [3]कहोँ आवइ [4]किय-विसल्ल दिवसयरेँ अणुट्ठन्तएँ विसल्ल ॥ ९
पइँ विणु उप्पज्जइ कहोँ [5]रहङ्गु को दरिसइ वहुरूविणिहेँ भङ्गु ॥ १०
पइँ विणु कियन्तु को रावणासु को सिय-दायारु विहीसणासु ॥ ११

॥ घत्ता ॥

पइँ विणु मणिट्ठ महु भाइणर को मेलावइ पिय-घरिणि ।
पालेसइ णिरु णिरुवद्दविय को ति-खण्ड-मण्डिय धरणि ॥ १२

[१४]

हा तवहोँ विगय महु पुत्त वे वि लच्छीहर [1]गम्पिणु आउ लेवि ॥ १
हा मुएँ मच्छरु लहु पालिएँल[2] वट्टइ अणगार-मुणिन्द वेल ॥ २
हा किं महु उवरि[1] पणट्ठु णेहु हा जणु संथवहि रूवन्तु एहु ॥ ३
इहँ[2] चक्कें जें हउ वइरि-चक्कु सो विसहहि केव कियन्त-चक्कु ॥ ४

8 P S धी°.
13. 1 P S A °इं. 2 P S लीलइ. 3 A दरिसिय कोवहु.
14. 1 P S °रे. 2 P S °य.

[१३] १ चरित्रम्. २ सुग्रीवादिकम्. ३ अन्यस्य कस्यागच्छति. ४ कृतो विसल्लो यया विसल्लया. ५ चक्रम्.
[१४] १ गत्वा. २ इला=पृथ्वी.

हा काइँ करमि संचरमि केत्थु　　ण वि तं पएसु सुहु लहमि जेत्थु ॥ ५
णिड्डुहइ जेम भायर-विओउ　　तिह ण वि विसु विसमु ण पिसुणु लोउ ॥ ६
ण वि गिम्ह-यालेँ खर-दिणयरो वि　　ण वि पज्जालिउ वइसाणरो वि ॥ ७
हा उज्झाउरि-पायारु खसिउ　　इक्खुक्क-वंस-मयरहरु सुसिउ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पुणु आलिङ्गइ चुम्वइ पुसइ　　अङ्केँ थवेप्पिणु पुणु रुवइ ।
जीविऍण वि मुक्कउ महुमहणु　　रामु सणेहेँ ण वि मुयइ[3] ॥ ९

[१५]

लक्खण-गुण-गण मणेँ सुमरन्तें　　दसरह-जेट्ठ-सुएण रुवन्तें ॥ १
रुण्णु अउज्झा-जणेँण असेसें　　अवराइऍ सुप्पहऍ विसेसें ॥ २
रुण्णु सल्लसुन्दरिऍ विसालऍ　　रुण्णु विसल्लऍ तिह गुणमालऍ ॥ ३
रुण्णु रयणचूलऍ वणमालऍ　　तिह कल्लाणमाल-णामालऍ ॥ ४
रुण्णु सच्चसिरि-जयसिरि-सोमेँहिँ　　दहिमुह-सुअ-गुणवइ-जियपोमेँहिँ ॥ ५
रुण्णु कमलोयण-ससिमुहियहिँ　　ससिवद्धण-सीहोयर-दुहियहिँ ॥ ६
रुण्णु अणेयहिँ वन्धव-सयणेँहिँ　　खणेँ खणेँ विहिहेँ दिण्णे-दुव्वयणेँहिँ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

जसु सोएं मुक्कल मुक्क-सर　　सइँ जय-सिरि लच्छि वि रुवइ ।
तहेँ उज्झाउरिहेँ कमागऍहिँ　　को वि ण गरुअ धाह मुअइ ॥ ८

[१६]

तो दस-दिसु पसरिय एह वत्त　　सहसा विज्जाहरवरहँ[1] पत्त ॥ १
सयल वि स-कलत्त स-पुत्त आय　　सुग्गीव-विहीसण-सीहणाय ॥ २
ससिवद्धण-तार-तरङ्ग-जणय　　स-विराहिय गवय-गवक्ख-कणय ॥ ३
कोलाहल-इन्द-महिन्द-कुन्द　　दहिमुह-सुसेण-जम्वव-समुद्द ॥ ४
ससिकर-णल-णील-पसण्णकित्ति　　मंय[2]-सङ्ख-रम्भ-दिवसयर-जोत्ति ॥ ५
सयल वि अंसुअँ[3]-जल-भरिय-णयण　　तुहिणाहय-कमल-विवण्ण-णयण ॥ ६
वलएवहोँ चलणहिँ पडिय केवँ　　तइलोक्क-गुरुहेँ गिव्वाण जेवँ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

अवलोइउ पुणु असहन्तऍहिँ　　चक्काहिउ सम्पत्तु खउ ।
विगय-प्पहु दर-ओणल्ल-सिरु　　णं किउ केण वि लेप्पमउ ॥ ८

---

3 P मुवइ.

15. 1 P S दिंतु.

16. 1 A विज्जाहर आय. 2 A गय°. 3 P S अंसुज्जल°.

[१७]

तं णिऍवि सुमित्ता-तणउ तेहिँ धाहाविउ वर-विज्जाहरेहिँ ॥ १
'हा हा कालहों णिहाण-पाल अइ-दूरीहूअउ सामिसाल ॥ २
हा हा कहें पेसणु किं पि णाह हा अज्जु जाय अम्हइँ अणाह ॥ ३
हा हा जण-मण-जणियाणुराय कहें को पेसेसइ बहु-पसाय ॥ ४
हा हा सामिय जय-सिरि-णिवास पइँ विणु ण वि राहव जीवियास ॥ ५
हा हा सामिय सव्वोवयारि हा हा [1]मयरहरावत्त-धारि ॥ ६
हा सामिय तुह दय-रिणु इमेण परिसुज्झइ ण वि एक्कें[1] भवेण ॥ ७
तें कज्जें किं ऍउ जुत्तु तुज्झु जें मुऍवि जाहि ण कहन्तु गुज्झु' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तें कलुणारावें णरवरहँ दस-दिसि कण्णउं[2] सुरवर वि ।
वणसइउ णइउ मह-जलहि गिरि रोवाविय वर विसहर वि[3] ॥ ९

[१८]

अप्पउ सन्थविउ विहीसणेण पुणु पभणिउ राहवचन्दु तेण ॥ १
'परिसेसहि देव महन्तु सोउ कासु ण भुवणन्तरें हुउ विओउ ॥ २
ण वि एक्कहों एयहों [1]अन्तकरणु सव्वहों वि जणहों जर-जम्म-मरणु ॥ ३
जीवहों[1] भव-गहणें ण का वि भन्ति चञ्चलइँ सरीरइँ होन्ति जन्ति ॥ ४
उप्पत्ति जेव तिह धुवु विणासु किं रोवहि कारणें लक्खणासु ॥ ५
कइउ वि अम्हेहिँ तुम्हेहिँ एव पहु गमणु करेवउ एण जेव ॥ ६
जइ जीव-रासि आवइ ण जाइ तो मेइणि-मण्डलें केत्थु माइ ॥ ७
जइ मरणु णाहिँ भो रामयन्द तो कहिँ गय कुलयर जिणवरिन्द ॥ ८
कहिँ भरह-पमुह चक्कवइ पवर कहिँ रुद्द-कण्ह-बलएव अवर ॥ ९

॥ घत्ता ॥

एउ जाणेंवि सयलागम-कुसल वयणु महारउ मणें धरहि ।
झायहि स य म्भु तइलोक्क-गुरु दुहु दु-कलत्तु व परिहरहि' ॥ १०

*

इय पोमचरिय-सेसे सयम्भुएवस्स कह वि उव्वरिए ।
तिहुअण-सयम्भु-रइए हरि-मरणं णाम पव्वमिणं ॥

---

17. 1 A एक्केण. 2 P A °उं. 3 P °हरेहिं, S हरेहि.
18. 1 P °हं.

---

[१७] १ समुद्रावर्तधनुष्यधारकः.
[१८] १ यमः.

वन्दइ-आसिय-कइराय- तणय-तिहुअण-सयम्भु-णिम्मविए
पोमचरियस्स सेसे सत्तासीमो इमो सग्गो ॥
तिहुअण-सयम्भु णवरं एक्को कइराय-चक्किणुप्पण्णो ।
पउमचरियस्स चूलामणिव्व सेसं कयं जेण ॥

*

[८८. अट्ठासीमो संधि]

तहिँ अवसरेँ सिरसा पणवन्तेंहिँ[1] वलु विण्णविउ सयल-सामन्तेंहिँ ।
'परमेसर उवसोह समारहोँ[2] लच्छीहर-कुमारु संकारहोँ[3]' ॥ध्रुवकं॥

[१]

पभणइ सीराउहु इय वयणेंहिँ 'डज्झहोँ[3] तुम्हेंहिँ सहुँ णिय-सयणेंहिँ ॥ १
डज्झउ माय-वप्पु तुम्हारउ होउ[4] चिराउसु भाइ महारउ ॥ २
उट्ठि जाहुँ[5] लक्खण लहु तेत्तहेँ खल-वयणइँ सुव्वन्ति ण जेत्तहेँ' ॥ ३
एवँ चवेंवि चुम्वेंवि आलावेंवि वासुएउ णिय-खन्धें चडावेंवि ॥ ४
गउ वलएउ अण्णु थाणन्तरु पइट्ठु[6] तुरन्तु पवर-मज्जणहरु ॥ ५
'भाइ विउज्झहि केत्तिउ सोवहि ण्हाण-वेल परिल्हसिय ण जोयहि' ॥ ६
पुणु पीढोवरि थवेंवि [1]णवम्हेंहिँ अहिसिञ्चइ वर-कञ्चण-कुम्भेंहिँ ॥ ७
पुणु भूसइ मणि-रयणाहरणेंहिँ ससहर-तवण-तेय-अवहरणेंहिँ ॥ ८
पुणु वोल्लइ [2]समाणु सूयारहोँ 'भोयण-विहि लहु करहोँ कुमारहोँ' ॥ ९
तेण वि वित्थारिउ [3]हरि-परियलु देइ पिण्ड मुहेँ मणेँ मोहिउ वलु ॥ १०
ण वि अहिलसइ ण पेक्खइ लक्खणु जिण-वयणु[7] व अ-भव्वु अ-वियक्खणु ॥ ११

॥ घत्ता ॥

तहोँ आयइँ अवरइँ वि करन्तहोँ णिय-खन्धें हरि-मडउ वहन्तहोँ ।
भाइ-विओय-जाय-अइ-खामहोँ अद्धु वरिसु वोलीणउँ[8] रामहोँ ॥ १२

[२]

तो ताव एउ वइयरु सुणेवि लच्छीहर-मरणउँ[1] मणेँ मुणेवि ॥ १
खर-दूसण-रावण सम्भरेवि सम्वुक्क-वइरु णिय-मणेँ धरेवि ॥ २

1. 1 P S °मं°. 2 P °हुं, S A °हु. 3 P S A हु. 4 P S होइ. 5 P S जाहु, A जाहं. 6 P S A °ट्ठु. 7 P °भवणु, S °वणु. 8 P °उं.
2. 1 P A °उं.

[१] १ T नवकलश (?). २ T सहितः. ३ स्वर्णस्थाली.

परियाणेंवि रहुवइ सोय-गहिउ णीसेस [1]सेण-वावार-रहिउ ॥ ३
सामरिस-खयर-णरवर-[2]णिउत्त आइय वहु इन्दइ-[3]सुन्द-पुत्त ॥ ४
णहें वज्जमालि-रयणक्ख-[4]पमुह वलइय-कियन्त-धणु-भीम-पमुह ॥ ५
'मरु छिन्दहुँ अज्जु कुमार-सीसु वहु-कालहों संभाइउ हवीसु ॥ ६
जं लइउ खग्गु चिरु सूरहासु जं सम्वुकुमारहों किउ विणासु ॥ ७
जं खर-दूसण-तिसरयहँ मरणु किउ अक्खय-रावण-पाण-हरणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जं वहु-ठाएँहिँ अम्हहँ अणुदिणु दिण्णु अणन्तरु वइरु महा-रिणु ।
तं सयलु वि मेलेंवि णिय-वुद्धिऍं फेडहुँ अज्जु सव्वुं[2] सहुँ विद्धिऍं[3]" ॥ ९

[३]

तो सुणेंवि आय [1]रिवु राहवेण आयामिउं वज्जावत्तु तेण ॥ १
रहें चडेंवि थविउ उच्छङ्गें[2] भाइ जोइय पडिवक्ख जमेण णाइँ ॥ २
एत्थन्तरें जे [2]माहिन्द पत्त सुर जाय जडाइ-कियन्तवत्त ॥ ३
ते तक्खणें [3]आसंण-कम्प होवि अवहिऍं परियाणेंवि आय वे वि ॥ ४
गुण सुमरेंवि सामिहें भत्ति-वन्त सम्पाइय उज्झाउरि तुरन्त ॥ ५
[4]विउरुव्विउ सुरवर-वलु अणन्तु 'मरु वलहों वलहों ढुकहों' भणन्तु ॥ ६
तं पेक्खेंवि हरि-वल रिवु पणट्ठ लङ्घन्ति दिसउ णं हरिण तट्ठ ॥ ७
वोलइ रयणक्खु[4] स-वज्जमालि 'दुहु को व ण पावइ किय-दुवालि ॥ ८
अम्हहिँ सयल वि गलियाहिमाण णिल्लज्ज दुट्ठ दुज्जण अयाण ॥ ९
किह लङ्क गम्पि सुह-दंसणासु पेक्खेसहुँ वयणु विहीसणासु' ॥ १०

॥ घत्ता ॥

एम भणेंवि इन्दिय-दुब्भेयहों गम्पिणु पासें मुणिहें रइवेयहों ।
भव-विरत्त णर-णियरालङ्किय ते सुन्दिन्दइ-सुय दिक्खङ्किय ॥ ११

[४]

तो रिवु-भऍ विगयऍ सयलें[1] गुण-रयण-सायरेणं
सेणाणिय-सुरेंण राम-वोहण-कियायरेणं ॥ १

---

2 P S° व्व. 3 P S सुद्धिए.
3. 1 P °उं. 2 P उच्चंगे, S उच्चगे. 3 T सासण°, P S A T °कंप. 4 P S A °क्ख.
4. 1 P सय.

---

[२] १ लक्ष्मीधरं मुक्त्वाऽन्यत्र संपूर्ण-सर्व्व-सैन्यादिव्यापाररहित इत्यर्थः. २ T नियुक्तः. ३ T खरपुत्रः. ४ प्रमुखेति नामेदम्.
[३] १ शत्रवः. २ चतुर्थस्वर्गे. ३ T आसनकंपयुक्तः. ४ विकुर्वणा कृतः (?)

णिम्मिउ सिञ्चिज्जमाणु सलिलेण सुक्क-रुक्खो
सम्पत्तें वसन्त-मासें[१] विरहि व्व सुट्ठु सुक्खो[2] ॥ २
[२]ओलग्गिउ कु-पहु णाइँ णिप्फलु अदिण्ण-छाओ
किविणु व सइँ पत्त-फुल्ल-परिचत्तु समल-काओ ॥ ३
[३]वसह-कलेवर-जुअम्मि हलु थवेंवि ण-किय-खेवो
वाहइ [४]पक्खिरइ वीउ सिलवट्टें वीय-देवो ॥ ४
[५]रोवइ पाहाणे[3] कमल-उप्पल-णिहाउ पवरो
पविरोलइ मन्थणीएँ पाणिउ [६]कियन्त-अमरो ॥ ५
पुणु पीलइ वालुआएँ घाणउँ[4] जडाइ-णामो
अत्थ-विरुद्धाइँ ताइँ अवरइ मि णिऍवि रामो ॥ ६
पभणइ 'भो भो अयाण तुहुँ मूढ णिय-मणेणं
किं सलिलहोँ करहि[5] हाणि जर-रुक्खँ[6]-सिञ्चणेणं ॥ ७
[७]माँयासहि[7] पियर मडय-जुअले य [८]वीय-सीरे
ण वि लोणिउँ[8] होइ परिमन्थिए वि णीरे (?) ॥ ८
वालुअ-परिपीलणेण तेल्लोवलद्धि कत्तो
इच्छिय-फलु किं वि णत्थि [९]आयासु पर महन्तो' ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तो वुच्चइ कियन्त-गिव्वाणें   'तुहु मि एउ परिवज्जिउ पाणें ।
वहहि सरीरु जेण अविसिट्ठउ   कहेँ फलु काइँ एत्थु[9] पइँ दिट्ठउ' ॥ १०

[५]

तं णिसुणेंवि वयणु [१]णीसामें   हरि अवरुण्डेंवि वुच्चइ रामें ॥ १
'किं सिरि-णिलउ कुमारु दुगुच्छहि   जइ ण मुणहि तो 'सेरउ अच्छहि ॥ २
केत्तिउ चवहि अणिट्ठु अमङ्गलु   दोसु पढुक्कइ[1] तउ पर केवलु' ॥ ३
जम्पइ जाव वयणु इउ हलहरु   ताव लएविणु सुहड-कलेवरु ॥ ४
आउ जडाइ वहन्तउ खन्धें   वुत्तु वलेण भाइ-सोअन्धें ॥ ५

2 A दुक्खो. 3 P S पहाणे. 4 P A °उं. 5 P S करें°. 6 P °क्खें, S °क्खे. 7 P S णासहि.
8 P °उं. 9 P एउ, S यउ.

5. 1 P S पढुक्कं.

[४] १ वियोगी इव उत्कृष्टशुष्कः. २ सेवितो कुश्चिन् (?) नृपतिः निष्फलो भवति. ३ वृषभौ युगे योक्त्रितौ. ४ विस्तरति. ५ पाषाणे कमलसमूहं रोपति. ६ कृतान्तवक्त्रवरदेवः. ७ T मा खेदं कुरुष्व. ८ बीजहलौ. ९ खेदः.

[५] १ मौनेन.

णेह-वसेण विवज्जिय-रज्जें एँहु णर-देहु वहहि किं कज्जें' ॥ ६
तेण चविउ 'मइँ किर किं पुच्छहि अप्पाणउँ[2] किर काइँ ण पेच्छहि ॥ ७
जिह हउँ तेम तुहु मि मणेँ मूढउ अच्छहि खन्धेँ कलेवर-वूँढउ[3] ॥ ८
[२]पइँ पेक्खेप्पिणु महु अणुरूवउ मणेँ परिअड्ढिउ णेहु गरूअउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

भो भो मइँ-पमुहहुँ चिरु जायहँ तुहुँ राणउँ[4] सव्वहु मि पिसायहुँ ।
[३]आउ दुइ वि मह-मोह-ब्भन्ता हिण्डहुँ[5] गहिलउ[6] लोउ करन्ता' ॥ १०

[६]

इय वयणेँहिँ हलि-वलँ[1]-पउमँ[2]-णासु अइलज्जिउ सिढिलिय-मोहु रामु ॥ १
सहसा हुउ वियसिय-कमल-णयणु परिचिन्तहुँ लग्गु जिणिन्द-वयणु ॥ २
जं दुक्किय-कम्मइँ खयहोँ णेइ जं अविचलँ[3]-सासय-सुहइँ देइ ॥ ३
'हउँ णेह-वसङ्गउ पेक्खु केव जाणन्तो वि अच्छमि मुक्खु जेम ॥ ४
धण्णउ तिहुअणेँ अणरण्ण-राउ जो छिन्देँवि[4] मोहु मुणिन्दु जाउ ॥ ५
धण्णउ दसरहु चिरु जासु झत्ति कञ्चुइ पेक्खेप्पिणु हुअ विरत्ति ॥ ६
धण्णउँ[5] भरहु वि जें चत्तु रज्जु [१]वोहँ[6]हेँण वि किउ परलोय-कज्जु ॥ ७
धण्णउँ[5] सेणाणि कियन्त[7]वत्तु जें मुणेँ[8]वि [२]अणागय(?) लइउ तत्तु ॥ ८
धण्णी सीय विहय-कुगइ-पन्थँ[9] ण वि दिट्ठँ[10] जाएँ एही अवत्थ[11] ॥ ९
धण्णउँ[5] हणुवन्तु वि जो गरूवेँ ण वि णिवडिउँ[12] इय-मोहन्ध-कूवेँ ॥ १०
धण्णा लवणङ्कुस हरि-सुआ वि जे दिक्खालङ्किय णव-जुवा वि ॥ ११

॥ घत्ता ॥

हउँ [३]घइँ पुणु पाँ[13]एण [४]गएण वि अण्णु वि लच्छीहरेँण मएण वि ।
करमि काइँ वि अप्प-हियत्तणु कहोँ णिय-कज्जें ण होइ [५]'वढत्तणु[14]' ॥ १२

[७]

पुणु पुणु रहुकुल-गयणयल-चन्दु परिचिन्तइ हियवएँ रामचन्दु ॥ १
'लब्भन्ति कलत्तइँ मणहराइँ छत्तइँ लब्भन्ति स-चामराइँ ॥ २

2 P S °उं. 3 A °छूढउ. 4 P °उं. 5 P हिंडहं, S हिंड, A हिंडह. 6 P S गहिल्लउ.

6. 1 P S °लु. 2 P °मु. 3 P S °लु. 4 P S छिंदिवि, A छंडिवि. 5 P उं. 6 A गोदु°, P S वोदु°. 7 P S वि पुणु कियंतु. 8 P S A मुणि°. 9 P S °थु. 10 P S °ट्ठु. 11 P S °त्थु. 12 A पडिउ. 13 S पावेण. 14 P वड्ढ°, S वड्ड°.

२ त्वया अवलोक्य मह्यं अनुरूपो जातः. (?). ३ द्वौ अहं त्वं महामो भ्रान्ता भ्रमतौ ग्रथिलौ भवतः.

[६] १ यौवनेन, T तारुण्येन. २ अनागतम्. ३ इदानीम्. ४ यौवनावस्थया, T युवावस्थायाम्. ५ मुग्धत्वम्.

लब्भइ वहु-वन्धव सयण-सत्थु लब्भइ '[1]अणाय-परिमाणु अत्थु ॥ ३
लब्भन्ति हत्थि रह तुरय पवर अइ-दुल्लहु वोहि-णिहाणु णवर' ॥ ४
परियाणेंवि वलु पडिवुद्धु एव णिय-रिद्धि वे वि दरिसन्ति देव ॥ ५
सुरवहु-सङ्गीउ सुअन्ध-पवणु जम्पाण-विमाणेंहिँ छण्णु गयणु ॥ ६
'अहो रहुवइ किं गय-दिण-सुहेण' तेण वि पवुत्तु वियसिय-मुहेण ॥ ७
'चिरु पुण्ण-विहूणहों मज्झु एत्थु मणें मूढहों णि[2]विसु वि सोक्खु केत्थु ॥ ८
इय मणुय-जम्में पर कुसलु ताहँ जिण-सासणें अविचल भत्ति जाहँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

अण्णु वि णिसुणहों कहमि विसेसें ताहँ कुसलु ते मुक्क किलेसें ।
चत्त परिग्गह वयहिँ अलङ्किय जे जिण-पाय-मूलें दिक्खङ्किय' ॥१०

[८]

पुणरवि एव वुत्तु 'काकुत्थें '[1]के तुम्हे अक्खहों परमत्थें ॥ १
कें कज्जें इय रिद्धि पगासिय रिवु-साहणहों पयत्ति विणासिय' ॥ २
सरहसु एक्कु पजम्पिउ सुरवरु 'किं सामिय वीसरियउ णहयरु ॥ ३
तुज्झु पइट्ठहों चिरु दण्डय-वणें जो अल्लीणु महारिसि-दंसणें ॥ ४
तुहुँ घरिणिएँ जो लालिउ तालिउ [2]णियय-सरीरुब्भवु जिह पालिउ ॥ ५
सीयाहरणें समुट्ठेंवि गयणहों जो अब्भिडिउ आसि दहवयणहों ॥ ६
जासु मरन्तहों सुह-वड्ढारिय पइँ णवकार पञ्च उच्चारिय ॥ ७
तुज्झु पसाएं रिद्धि-पसण्णउ[3] सुरु माहेन्द-सग्गें उप्पण्णउ[4] ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जो अच्चन्त आसि [3]उवयारिउ भव-सायरें पडन्तु उद्धारिउ ।
हउँ सो देउ[5] जडाइ महाइउ पडिउवयारु करेवएँ आइउ' ॥ ९

[९]

तो ताव कियन्त-देउ चवइ 'किं मइँ वीसरिउ णराहिवइ ॥ १
जो सेणावइ तउ होन्तु चिरु ललक्क-महारण-सएँहिँ थिरु ॥ २
जो पेसिउ पइँ सहुँ भायरहों सत्तुहणहों समरें कियायरहों ॥ ३

7. 1 A अणेय°. 2 P S णिव°.
8. 1 P तुम्हेइं, S तुम्हेइ. 2 P S तुहु, A दुह. 3 A °उं. 4 P उप्पसण्णउं, A उप्पण्णउं. 5 P A देव.

[७] १ अज्ञातप्रमाणम्.
[८] १ रामेण. २ स्वपुत्र इव. ३ उपकारः कृतो यस्य मम.

जें वेढेँवि महुर पलम्ब-भुउ [1]'हउ लवण-महण्णउं[1] महुहेँ सुउ ॥ ४
जसु केवलि-पासेँ णिरन्तरइँ आयण्णेँवि तुम्ह-भवन्तरइँ ॥ ५
परियाणेँवि चउ-गइ-भवण-डरु सहसा वइराउ जाउ पवरु ॥ ६
जो पइँ पभणिउं "अवसरु मुणेँवि वोहिज्जहि मइँ आयरु[2] कुणेँवि" ॥ ७
सो हउँ किय-घोर-तवच्चरणु माहिन्देँ[3] जाउ सुरु दिव्व-तणु ॥ ८
अवहिएँ परियाणेँवि हरि-मरणु अण्णु वि उद्धाइउ वइरि-गणु ॥ ९
इह आयउ अक्खहि किं करमि तउ सव्व-पयारेँ उवगरमि' ॥ १०
तें वयणु सुणेप्पिणु चवइ वलु 'हउँ वोहिउ भग्गु अराइ-वलु ॥ ११
अप्पउ दरिसिउ रिद्धीएँ सहुँ ण पहुच्चइ एण जेँ काइँ महु' ॥ १२
इय वयणेँहिँ ते परितुट्ठ मणेँ गय सग्गहोँ सुरवर वे वि खणेँ ॥ १३

॥ घत्ता ॥

पुणु परिहरेँवि सोउं[4] सब्भेवें अट्ठमु वासुएउ वलएवें ।
णिय-खन्धहोँ महियलेँ ओयारिउ सरऊ-सरिहेँ तीरेँ संकारिउ ॥ १४

[१०]

तं डहेँवि सहत्थेँ महुमहणु पुणु पभणिउ रामें सत्तुहणु ॥ १
'लइ वच्छ सहोयर रज्जु करेँ रहु-कुल-सिरि-णव-वहु धरहि करेँ ॥ २
हउँ सयलु परिग्गहु परिहरेँवि तवु लेमि तवोवणु पइसरेँवि' ॥ ३
तं सुणेँवि[2] चवइ महुराहिवइ 'जा तुम्हहँ गइ सा महु वि गइ' ॥ ४
परियाणेँवि णिच्छउ तहोँ तणउ अवलोइउ सुउ लवणहोँ तणउं[3] ॥ ५
तहोँ सिरेँ विणिवद्धु पट्टु पवरु सहसत्ति समप्पिउ रज्ज-भरु ॥ ६
[1]गम्पिणु विणिहय[4]-चउगइ-णिसिहेँ सुव्वयहोँ पासेँ चारण-रिसिहेँ ॥ ७
परिसेसेँवि मोहु गुणब्भइउ उप्पण्ण-वोहि वलु पव्वइउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तो गिव्वाणेँहिँ दुन्दुहि ताडिय कुसुम-विट्ठि गयण-यलहोँ पाडिय ।
सुरहि-गन्ध-मारुउ खणेँ आ(?)इउ तूर-महारउ जगेँ जेँ ण माइउ ॥ ९

[११]

मेल्लेँवि राय-लच्छि वियसिय-मुहु णिय-सन्ताणेँ ठवेँवि णिय-तणुरुहु ॥ १

9. 1 P °उं. 2 P सायरु, A आयर. 3 P S माहिंदु. 4 A सो.
10. 1 P S क°. 2 P S सुणिवि, A णिसुणिवि. 3 P °उं. 4 P S °हि°.

[९] १ हतः.
[१०] १ गत्वा.

सत्तुहणु वि स-भिच्चु रिसि जायउ   वज्जजङ्घु णिय-भज्ज-सहायउ[1] ॥ २
लङ्कहेँ णिय-पएँ थवेँवि सु-भूसणु   सहुँ [1]तियडएँ पव्वइउ विहीसणु ॥ ३
णिय-पउ अङ्गय-तणयहोँ देप्पिणु   सुग्गीवु वि थिउ दिक्ख लएप्पिणु ॥ ४
तिह णल-णील सेउ ससिवद्धणु   तारु तरङ्गु रम्भु रइवद्धणु ॥ ५
गवउ गवक्खु सङ्खु गउ दहिमुहु   इन्दु महिन्दु विराहिउ दुम्मुहु ॥ ६
जम्बउ रयणकेसि महुसायरु   अङ्गउ अङ्गु सुवेलु गुणायरु ॥ ७
जणउ कणउ ससिकिरणु जयन्धरु   कुन्दु पसण्णकित्ति वेलन्धरु ॥ ८
इय अवर वि जिण-गुण सुमरन्ता   सोलह सहस पहुहुँ णिक्खन्ता ॥ ९

॥ घत्ता ॥

हरि-वल-मायरि-सुप्पह-पमुहहुँ   सुग्गइ-गमणेँ-परिट्ठिय-समुहहुँ ।
पव्वइयइँ जगेँ णाम-पगासइँ   जुवइहिँ सत्ततीस सहासइँ ॥ १०

[१२]

सो राम-महारिसि विगय-णेहु   छणदिण-ससहर-कर-धवल-देहु ॥ १
उद्धरिय-महव्वय-गरुअ-भारु   मय-वइरि-णिवारणु पहय-मारु ॥ २
वारह-विह-दुद्धर-तव-णिउत्तु   परिसह-परिसहणु ति-गुत्ति-गुत्तु ॥ ३
गिरि-सिहरेँ परिट्ठिउ एक्क-झाणु   सव्वरि-उप्पाइय-अवहि-णाणु ॥ ४
परियाणिय-हरि-उप्पत्ति-थाणु   सुमरिय-भव-भय-कय-गुण-णिहाणु ॥ ५
विहडिय-दिढ-दुक्किय-कम्म-पासु   अइकन्त-पवर-छट्ठोववासु ॥ ६
विहरन्तु पत्तु धण-कणय-पवरु   सन्दणथलि-णामु पइट्ठु णयरु ॥ ७
तहिँ पाराविउ णामिय-सिरेँण   भत्तिएँ पडिणन्दि-णरेसरेँण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तहोँ सुर-दुन्दुहि साहुकारउ   गन्ध-वाउ वसु-वरिसु अपारउ ।
कुसुमञ्जलिएँ समउं वित्थरियइँ   [1]अत्थक्कएँ पञ्च वि अच्छरियइँ ॥ ९

[१३]

पुणु पहुहेँ अणेयइँ वयइँ देवि   तं सन्दणथलि-पट्टणु एवि (?) ॥ १
विहरइ महियलेँ वलु-मुणिवरिन्दु   णं आसि पहिलउ जिण-वरिन्दु ॥ २

---

11. 1 A °उं.   2 PS °णु.
12. 1 P °उं.
13. 1 A महि महियले.   2 A °मुणिंदु.

---

[११] १ त्रिजटाभगिनीसह.
[१२] १ वेगेन । आकस्मिकम्.

तव-चरणु चरइ अइ-घोरु वीरु [1]सहसउणु पवड्ढइ हियएँ धीरु ॥ ३
गय-मासाहारिउ मयवइ व्व सव्वोवरि सीयलु [2]उडुवइ व्व ॥ ४
रस-रहिउ हीण-णट्टावउ व्व पर-भवण-णिवासिउ [3]पण्णउ व्व ॥ ५
[4]मोक्खहाँ अइ-उज्जउ [5]लोद्धउ व्व पयलिय-मय-विन्दु महागउ व्व ॥ ६
वहु-दिणेंहिँ भमेंवि महियलु असेसु सम्पाइउ कोडि-सिला-पएसु ॥ ७
मुणिवरहँ[3] कोडि जहिँ आसि सिद्ध जा तित्थ-भूमि तिहुअणेँ पसिद्ध ॥ ८
उद्धरिय-भुएँहिँ जा लक्खणेण तहेँ देवि ति-भामरि तक्खणेण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

उवँरि[4] चडेवि पलम्बिय-वाहउ णं तरुवरु गिरि-सिहरेँ स-साहउँ[5] ।
सुग्गीवाइ-मुणिन्द-गणेसरु थिउ झायन्तु स य म्भु-जिणेसरु ॥ १०

*

इय पोमचरिय-सेसे सयम्भुएवस्स कह वि उव्वरिए ।
तिहुअण-सयम्भु-रइए राहव-णिक्खमण[1]-पव्वमिणं ॥
वन्दइ-आसिय-कइराय-चक्कवइ-लहु-अङ्गजाय-वज्जरिए ।
रामायणस्स सेसे अट्ठासीमो इमो सग्गो ॥

*

[८९. णवासीमो संधि]

वायरण-दढ-क्खन्धो आगम-अङ्गो पमाण-वियड-पओ[1] ।
तिहुअण-सयम्भु-धवलो जिण-तित्थे वहउ कव्व-भरं ॥

*

तो अवहिएँ जाणेँवि तेत्थु राहउ मुणि थियउ ।
अच्चुय-सग्गहों सीएन्दु तक्खणेँ आइयउ ॥ ध्रुवकं ॥

[१]

णियय-भवन्तराइँ सुमरेप्पिणु जिण-धम्महों वि पहाउ मुणेप्पिणु ॥ १
चिन्तइ तक्खणेँ अच्चुअ-सुरवइ ‘एँहु सो मइँ मणेँ जाणिउ रहुवइ ॥ २
जो मणुअत्तणेँ कन्तु महारउ जसु चक्कवइ भाइ लहुआरउ ॥ ३
सो गउ णरयहों णेहेँ छइयँउ[2] एहु वि तहों विओएँ पव्वइयँउ[3] ॥ ४

---

3 P A °ह, S °हो. 4 P उअरे, S उअरि. 5 P °उं. Puṣpikā : 1 SA °वण°.
1. 1 P S A °उ. 2 P छइउ, S छायउ, A खइयउ. 3 P S A पव्वइउ.

---

[१३] १ रिषिभिः सह (?). २ चंद्र इव. ३ सर्प इव. ४ वेज्झकस्य (?). ५ लुब्धकबाण इव.

खवय-सेढि आरूढहों आयहों   तिह करेमि इह झाण-सहायहों ॥ ५
जिह मणु टलइ ण होइ पहाणउ[4] धवलुज्जल-वर-केवल-णाणउं[4] ॥ ६
जिह वइमाणिउ जायइ सुरवरु   मित्तु मणिट्ठु मज्झु 'मणि-गण[5]-धरु ॥ ७
पुणु तें सहुँ भमेवि अहिणन्देंवि   सव्वइँ जिण-भवणइँ जगेँ वन्देंवि ॥ ८
पञ्च वि मन्दर णवेंवि 'सुरोहएँ   जामि दीवु णन्दीसरु सोहएँ ॥ ९
पुत्तु सुमित्तहें णरयहो होन्तउ[6]   आणेंवि लद्ध-वोहि-सम्मत्तउ ॥ १०
पुणु तइलोक्क-चक्क-जस-भामें[7]   जम्पमि सुहँ[8]-दुक्खइँ सहुँ रामें[9]' ॥ ११

॥ घत्ता ॥

चिन्तन्तु एम सो देउ   आउ णहन्तरेँण ।
तं कोडि-सिला-यलु पत्तु   [10]णिविसब्भन्तरेँण ॥ १२

[२]

पुणु चउ-पासिउ तहिँ विणु खेवें   कउ उज्जाणु सयम्पह-देवें ॥ १
जं णवल्ल-पल्लव-सोहिल्लउ   जं अल्लल-फुल्ल-रिद्धिल्लउ ॥ २
जं वहु-कोमल-कोम्पल-फल-दलु   जं कल-कोइल-कुल-किय-कलयलु ॥ ३
जं सीयल-मलयाणिल-चालिउ   जं चल-महुलिह-वलय-वमालिउ ॥ ४
जं साहार-णियर-मञ्जरियउ   जं कुसुम-रय-पुञ्ज-पिञ्जरियउ ॥ ५
जं 'सुय-सयइँ(?)सु-किंसुअ-भरियउ जं वहुविह-विहङ्ग-संचरियउं[1] ॥ ६
जं दस-दिसि-वह-पसरिय-परिमलु   तरु-पब्भारन्धारिय-महियलु ॥ ७
जं सुरपुर-उज्जाण-समाणउं[2]   मन्दर-णन्दण-वण-अणुमाणउं[2] ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तहिँ वियणेँ महावणेँ रम्मेँ   मन्थरु णाइँ[2] गउ ।
सुरु 'जाणइ-रूवु धरेवि   रामहों पासु गउ ॥ ९

[३]

पुणु णियडन्तरेँ लीलएँ जाएँवि   एवँ पवोल्लइ अग्गएँ थाएँवि ॥ १
'विरह-वसङ्गइयएँ[1] सुमरन्तिएँ   सग्ग-पएसु असेसु भमन्तिएँ ॥ २
णिय-पुण्णेँहिँ गरुएहिँ मणिट्ठउ   वहु-कालहों केम वि तुहुँ दिट्ठउ ॥ ३

4 P A °उं.   5 P °गण° corrected as °गुण°, A °गणहर.   6 A °उं.   7 A °भामहो.
8 A सुहुं.   9 A रामहो.   10 P S णिव.°
2. 1 P °अउं.   2 P A °उं.
3. 1 P S °गए अइ.

[१] १ (P.'s reading) वहुगुणरत्नधारकः, बहुरत्नधारकः.   २ सुराणामोघो यस्यां शोभायाम्.
[२] १ T शुकशतरुतशब्दः.   २ T गज इव.   ३ सीतारूपं कृत्वा.

णिविसु वि सहेँवि ण सक्कमि राहव दे [1]साइउ णिव्वूढ-महाहव ॥ ४
पिय-महुरालावेँहिँ सम्माणहि किं तवेण महु जोव्वणु माणहि ॥ ५
णिच्चलु पाहाणु व किं अच्छहि सवडम्मुहु स-विआरु णियच्छहि ॥ ६
लइउ पिसाएं [2]जेम अलज्जिउ कालु म खेवहि वत्थ-विवज्जिउ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

सो लोयाहाणउ एहु सच्चउ पइँ कियउ
[2]सुन्दरु णन्दन्तउ जेम [3]जो णियँ[4]-णिग्गयउ ॥ ८

[४]

हउँ सा सीय तुहुँ जेँ सो रहुवइ एह जेँ पिहिमि ते जि इय णरवइ ॥ १
सा जि अउज्झा-णयरि पसिद्धी धण-कण-जण-मणि-रयण-समिद्धी ॥ २
राउलु तं जेँ ते जि हय-गय-वर पुप्फ-विमाणु तं जेँ ते रहवर ॥ ३
ऍउ मइँ-पमुहु सव्वु अन्तेउरु अवइण्णउ मयरद्धय णं पुरु ॥ ४
भुञ्जहि काम-भोय हियइच्छिय छंँडुहि[2] [1]लच्छीहर-दुक्खु च्चिंय[3] ॥ ५
अण्णु वि [2]पउम होन्ति अइ-दूसह चउ कसाय वावीस परीसह ॥ ६
पञ्च वि इन्दिय सत्त महब्भय को विसहइ पुणु अट्ठ महा-मय ॥ ७
जिण-तवचरणु [3]जाइ कहोँ छेयहोँ भज्जेवउ कालेण वि एयहोँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तो वरि एवहिँ[4] जेँ ण लग्गु हासउ दिणेँहिँ पर ।
सङ्गम-[4]भण्डणेँ[5] पइसेवि भग्ग अणेय णर ॥ ९

[५]

महु कारणेँ पइँ आसि चडन्तइँ चावइँ सायर-वज्जावत्तइँ ॥ १
महु कारणेँ साहसगइ मारिउ किक्किन्धेसरु णिरु उवयारिउ ॥ २
महु कारणेँ मारुइ पट्ठवियउ तें वज्जाउहु रणेँ णिट्ठवियउ ॥ ३
महु कारणेँ कोडि-सिलुच्चाइय अण्णु वि आसाली विणिवाइय ॥ ४
महु कारणेँ भग्गउ णन्दण-वणु घाइउ अक्ख-कुमारु स-साहणु ॥ ५

2 The portion from जेम up to जेम (line 8 c) is omitted in A. 3 P °उं. 4 P S A णिए.

4. 1 P A °उं. 2 P छं°. 3 P चिय, S विय, A च्छिय. 4 P S A °हि. 5 P S A° णि.

---

[३] १ आलिङ्गनम्. २ तदत्र कथा । दक्षिणापथे गिरिकूटग्रामे प्रधानपुत्रः (T पटकिलस्य पुत्रः) सुंदरनामा । स चिरपत्नीं परित्यज्य निज-मामपुत्री-निमित्ते वृक्षशाखामालम्ब्य मृतस्तथा त्वमप्युभयभ्रष्टो भविष्यसीति. ३ निजेभ्यो निर्गतः.

[४] १ लक्ष्मणदुःखम्. २ T हे राम. ३ प्रमाणं कस्य जातः. ४ संग्रामे.

महु कारणेँ रयणायरु लङ्घिउ जिउ हंसरहु सेउ आसङ्किउ ॥ ६
परिपेसिउ अङ्गउ महु कारणेँ मारिय हत्थ-पहत्थ महारणेँ ॥ ७
इन्दइ वन्धेँवि रणेँ लेवाविउ णारायणु सत्तिएँ भिन्दाविउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

महु कारणेँ लङ्का-णाहु विणिवाइउ समरेँ ।
तेँ मइँ सहुँ राहवचन्द अविचलु रज्जु करेँ ॥ ९

[६]

तउ पेक्खन्तहोँ उववणु गइय जइयहुँ सहसा हउँ पव्वइय ॥ १
तइयहुँ विहरन्ती गुण-भरिया विज्जाहर-कं[1]ण्णेँहिँ अवयरिया ॥ २
पुणु तेहिँ पवोल्लिउ "दय करहि दरिसावहि अम्हहुँ दासरहि ॥ ३
जेँ सो भत्तारु तुरिउ वरहुँ पइँ-पमु[2]हउ गम्पि कील करहुँ" ॥ ४
तो एत्थन्तरेँ सुरवइ-कियउ णाणालङ्कार-विहूसियउ ॥ ५
दस-सय-सङ्ख[3]उ वरँ-भामिणिउ प[4]त्तउ स-विलासउ कामिणिउ ॥ ६
अण्णउ मणहरु गायन्तियउ अण्णउ वीणउ वायन्तियउ ॥ ७
अण्णउ चउदिसेँहिँ [5]णँडन्तियउ स-कडक्ख दिट्ठि पयडन्तियउँ[6] ॥ ८
कुङ्कुम-चच्चिक्क करन्तियउ अण्णउ थणहरु दरिसन्तियउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तो विअन्ति(म्भि ?)उ णिम्मल-झाणु हय-परिसह-वइरि ।
थिउ णिच्चलु रामु मुणिन्दु णावइ मेरु-गिरि ॥ १०

[७]

जं केम वि दुरिय-खयङ्करासु मणु टलिउ ण राहव-मुणिवरासु ॥ १
तं माह-मासेँ सिय-पक्खेँ पवरेँ वारसि-दिणेँ णिसिहेँ चउत्थ-पहरेँ ॥ २
[1]चउ-घाइ-कम्म-जिणियावसाणु उपण्णु समुज्जलु परम-णाणु ॥ ३
खणेँ केवल-चक्खुहेँ जाउ सयलु गोपय-समु लोयालोय-जुअलु ॥ ४
सहसा चउ-देव-णिकाउ आउ अइ-गरुअ-विहूइएँ अमर-राउ ॥ ५
कियँ[2] भत्तिएँ वन्दण '[1]जाऽणवज्ज वर केवल-णाणुप्पत्ति-पुज्ज ॥ ६
तो ताव '[2]सयम्पह-णामु एवि सीएन्दु केवलच्चण करेवि ॥ ७
णविउत्तमङ्गु सो भणइ एव 'मइँ तुम्हहेँ अण्णाणेण देव ॥ ८

6. 1 P °कंत्तेहिं, S° कंतिहि. 2 P समुहउं, S सहुमुहउ. 3 P S मण. 4 P S एत्तउ. 5 A प°. 6 P °उं.

7. 1 The portion from चउ° up to सयलु (line 4 a) is omitted in A. 2 A °उ.

[७] १ T अनवद्या या. २ सीतेन्द्रः.

॥ घत्ता ॥

'जो अविणय-वन्तें सुट्ठु गुरु अवराह किय ।
ते सयल खमेज्जहि सिग्घु तिहुअण-जण-णमिय' ॥ ९

[८]

अप्पाणउं[1] गरहेँवि सय-वारउ कह वि खमावेँवि रामु भडारउ ॥ १
पुणु पुणु वन्दण-हत्ति करेप्पिणु[2] सोमित्तिहिँ गुण-गण सुमरेप्पिणु ॥ २
पडिवोहणहिँ 'पयट्टु सयम्पहु लङ्घेँवि पढम-णरउ रयणप्पहु ॥ ३
पुणु अइक्कमेँवि पुढवि-सक्करपहु सम्पाइउ खणेण वालुयपहु ॥ ४
तेत्थु को वि कणु जिह कण्डिज्जइ कोँ वि पुणु रुक्खु जेव खण्डिज्जइ ॥ ५
कोँ वि सरसुच्छु जेम पीलिज्जइ तिलु तिलु करवत्तेँहिँ कप्पिज्जइ ॥ ६
कोँ वि वलि जिह दस-दिसु घल्लिज्जइ कोँ वि मयगल-दन्तें[3]हिँ पेल्लिज्जइ ॥ ७
कोँ वि पिट्टिज्जइ वज्झइ मुच्चइ कोँ वि लो[4]'ट्टिज्जइ रुज्झइ लुञ्चइ ॥ ८
कोँ वि पुणु डज्झइ रज्झइ सिज्झइ कोँ वि णरु छिज्जइ छ[5]ँज्जइ विज्झइ ॥ ९
कोँ वि मारिज्जइ खज्जइ पिज्जइ कोँ वि चूरिज्जइ पुणु मूरिज्जइ[6] ॥ १०
कोँ वि पउलिज्जइ को वलि दिज्जइ को वि दलिज्जइ को वि मलिज्जइ[7] ॥ ११
को वि कणइ कन्दइ धाहावइ को वि पुव्व-रिउ णिएँवि पधावइ ॥ १२

॥ घत्ता ॥

तहिँ 'सम्वुक्कें हम्मन्तु घोरारुण[8]-णयणु ।
गय-पाणि-सवन्त-सरीरु दीसइ दहवयणु ॥ १३

[९]

पुणु सम्वुकुमारहोँ समउ तेण वोल्लिज्जइ झत्ति सुराहिवेण ॥ १
'रे रे खल-भावण असुर पाव आढत्तु काइँ एँउ दुट्ठ-भाव ॥ २

---

8. 1 P °उं. 2 P S कहि. 2 P marginally reads the following passage after this : कहि सो लक्खणु जो चिरु देवरु । जेण सचक्कें मारिउ दससिरु ॥ पभणइ वलु अइ भोयासत्तउ । वालुप्पहणरयहं सो पत्तउ ॥ तं णिसुणेविणु हियए धरेप्पिणु । 3 P S A °दंति°. 4 P S को°. 5 P S सु°. 6 After this P S read : को वि हम्मइ पुणु तेल्लें कढिज्जइ । को वि ताविज्जइ को वि ताडिज्जइ । को वि चूरिज्जइ को वि पाडिज्जइ । 7 After this P S read को वि धरिज्जइ सूले भरिज्जइ । को वि णरु केण वि हक्कारिज्जइ ॥ को वि मोडिज्जइ को वि तोडिज्जइ । को वि पीसिज्जइ को वि छोडिज्जइ ॥ 8 P S A °णु.

---

[८] १ प्रवृत्तः सीतेन्द्रः. २ T 'संवुक्कें दीसइ' इति सम्बधः । सम्बुकुमारेण सुरकुमारभूतेन नरकं गत्वा हन्यमानो रामणनारको दृश्यते इत्यर्थः (?).

अज्ज वि दुरास उवसमु ण होइ   दुहु पत्तउँ अण्णु जि णाइँ कोइ ॥ ३
कूरत्तणु मुऍ करेँ विमल चित्तु   तं णिसुणेँवि णं अमिएण सित्तु ॥ ४
उवसम-भावहोँ सम्बुक्क ढुक्क   पुणु पुणु वि पवोहइ सीय-सक्क ॥ ५
तो णवरि विमाणोवरि णिएवि   लक्खण-रावण पुच्छन्ति वे वि ॥ ६
'को तुहुँ केँ कज्जेँ एत्थु आउ'   विहसेप्पिणु अक्खइ अमर-राउ ॥ ७
'हउँ सा चिरु होन्ती जणय-धीय   जा रावण पइँ अवहरेँवि[2] णीय ॥ ८
जा [1]मत्तेँ[3] सार रामा-यणासु   जा जम-दिट्ठि व णिसियर-जणासु ॥ ९
तव-चरण-पहावेँ जाय इन्दु   अण्णु वि दिक्खङ्किउ रामचन्दु ॥ १०
तहोँ कोडि-सिलायलेँ णाणु जाउ   हउँ पुणु तुम्हहँ बोहणहँ आउ ॥ ११

॥ घत्ता ॥

महु कारणेँ विहि मि जणेहिँ   जाइँ महन्ताइँ ।
भव-सायरेँ कोह-वसेण   दुक्खइँ पत्ताइँ ॥ १२

[१०]

कोहु मूलु सव्वहुँ वि अणत्थहुँ   कोहु मूलु संसारावत्थहुँ ॥ १
कोहु विणास-करणु दय-धम्महोँ   कोहु जेँ मूलु घोर-दुक्कम्महोँ ॥ २
कोहु जेँ मूलु जग-त्तय-मरणहोँ   कोहु जेँ मूलु णरय-पइसरणहोँ ॥ ३
कोहु जेँ वइरिउ सव्वहोँ जीवहोँ   तेँ कज्जेँ अहोँ हरि-दहगीवहोँ ॥ ४
कोहु विसज्जहोँ[1] विसम-सहावहोँ   अवरोप्परु मित्तत्तणु भावहोँ' ॥ ५
तं णिसुणेँवि इय वयणाणन्तरेँ   तिण्णि वि ते[2] उवसमिय खणन्तरेँ ॥ ६
'किं दय-धम्मेँ ण किय दिहि तइयहुँ   आसि लद्धु मणुअत्तणु जइयहुँ ॥ ७
हा [3]हा काइँ[4] पाउ किउ वड्डउ[5]   जेँ सम्पाइय दुहु एवड्डउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तुहुँ पर धण्णउँ[6] जिय-लोयऍ   जेँ छण्डिय कु-मइ
जिण-वयणामय परिपीयउ   जाउ सुराहिवइ' ॥ ९

[११]

तो परिवड्ढिय मणेँ कारुण्णेँ   वासवेण [1]दुव्वङ्कुरेँ-वण्णेँ ॥ १

9. 1 A °उं. 2 P S A °रिवि. 3 S मत्ति, A मंति.
10. 1 P S A °हु. 2 P S ते विन्नि (S °ण्णि) वि. 3 A हो हो. 4 P S A °इ. 5 A वड्डउं. 6 P A °उं.
11. 1 P °कुरु°, S °कु°.

[९] १ या मर्त्ये मनुष्येषु स्त्रीषु मध्ये सारभूता सीता.
[११] १ पाण्डुरेण.

सद्द-परम्पराएँ मम्भीसिय 'एहु एहु' आलाव पभासिय ॥ २
'लइ वट्टइ एत्थहोँ उद्धारमि दुग्गइ-दुत्तर-[2]तडिणिहिँ तारमि ॥ ३
विण्णि वि जण सहसा सोलहमउँ[2] सग्गु पराणमि अच्चुअ-णामउँ[3]' ॥ ४
एवँ भणेवि लेइँ[4] किर जावहिँ लोणिउँ[5] जेम विलेँवि गय तावहिँ ॥ ५
जलणें तुप्पु जेम तिह ताविय अइ-दुगेज्झ दप्पण-छाय व थिय ॥ ६
सव्वोवायहिँ भग्गाणन्दें केम[6] वि लेवि ण सक्किय इन्दें ॥ ७
अह जहिँ जेण जेव पावेवउँ[3] सुहु व दुहु व तिहुअणेँ भुञ्जेवउँ[3] ॥ ८
तं समत्थु को [7]विणिवारेँवएँ[8] कासु सत्ति परिरक्ख करेवएँ ॥ ९
पुणु वहु-दुक्खाणल-सन्तत्ता वे वि चवन्ति एव वेवन्ता ॥ १०

॥ घत्ता ॥

'उवएसु दयावर[9] किं पि कहेँ गिव्वाण-वइ ।
जें पुणु वि ण पावहुँ एह भीसण णरय-गइ' ॥ ११

[१२]

तेण वि पवुत्तु 'जइ करहोँ[1] वयणु तो लेहु तुरिउ सम्मत्त-रयणु ॥ १
जं परमुत्तमु तिहुअणेँ पसिद्धु अइ-दुल्लहु पुण्ण-पवित्तु सुद्धु ॥ २
जं कम्म-महणु कल्लाण-तत्तु दुण्णेउ अभव्वहँ[1] भव-भयन्तु ॥ ३
जं कहिउ परम-तित्थङ्करेहिँ परिपुज्जिउ सुर-णर-विसहरेहिँ ॥ ४
जं सुन्दरु कालें वोहि देइ सासय-सिव-थाणु पहाणु णेइ' ॥ ५
इय-वयणेँहिँ दूरुज्झिय-भएहिँ सम्मत्तु विहि मि [2]पडिवण्णु तेहिँ ॥ ६
गउ [3]सीया-हरि वि [4]स-सङ्कु तेत्थु वलएउ स-केवल-णाणु जेत्थु ॥ ७
समसरणब्भन्तरेँ पइसरेवि भत्तिएँ पुणु पुणु वन्दण करेवि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वोल्लणहुँ लग्गु 'महु होहि परमेसर-सरणु ।
तिह करेँ परिच्छिन्दमि (?) जेम जैरा[2]-मरणु ॥ ९

[१३]

तुहुँ पर एक्कु वियड्ढु वियड्ढहुँ सूरहुँ सूरु गुणड्ढु गुणड्ढहुँ ॥ १

---

2 PA °उं. 3 A °उं. 4 PS लेवि. 5 S °उं. 6 PS °व. 7 PS को ण्विणि°, A को वि विणि°. 8 PS °व्वए, A °वइ. 9 A रि.
12. 1 PSA हु°. 2 PS जाइजरा°.

---

२ नदी.
[१२] १ विनाशः. २ अङ्गीकृतम्. ३ सीतेन्द्रः. ४ निन्दापरायणः.

णाण-[1]मेसवाहणेंण भयावणु   जेण दड्ढु भव-चउगइ-काणणु ॥ २
[2]उत्तम-लेस-तिसूलें दुद्धरु   जें किउ मोह-वइरि [3]सय-सक्करु ॥ ३
दिढ-महन्त-वइरग्गहों पासिउ[1]   जेण णेह-णामु वि णिण्णासिउ ॥ ४
अण्णु वि एउ काइँ तउ जुत्तउ   सिव-पउ एक्कें जइ वि विढत्तउ ॥ ५
तो वि किं मइँ मुएँवि जाइज्जइ   आवमि जेम हउ[2] मि तह किज्जइ' ॥ ६
पभणइ मुणिवरिन्दु 'सुणें सुन्दर   दूरें पमायहि राउ पुरन्दरें[3] ॥ ७
जिणेंहिँ पगासिउ मोक्खु [4]वि-रायहों   कम्म-वन्धु दिढु होइ स-रायहों[4]' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

इय-वयणेंहिँ विमल-मणेण   अञ्जलि-उड-जुएँहिँ ।
सीएन्दें राम-मुणिन्दु   णमिउ[5] स य म्भु एँ हिँ ॥

*

इय-पोमचरिय-सेसे   सयम्भुएवस्स कह वि उव्वरिए ।
तिहुअण-सयम्भु-रइए   वल-णाणुप्पत्ति-पव्वमिणं ॥
इय एत्थ महाकव्वे   वन्दइ-आसिय-सयम्भु-तणय-कए ।
रामायणस्स सेसे   एसो सग्गो णवासीमो ॥

*

[९०. णवइमो संधि]

तिहुअण-सयम्भु-धवलस्स   को गुणे[1] वण्णिउं [1]जए तरइ ।
वालेणं[2] वि जेण सयम्भु-कव्व-भारो समुव्वूढो ॥

*

पुणरवि सुरवइ आहासइ   'जो तव-सञ्जम-णियम-जुउ ।
परमेसर कहेँ सङ्खेवेंण   दसरह-राणउ[3] केत्थु हुउं[4] ॥ ध्रुवकं ॥

13. 1 P °उं. 2 P A हउं, S हउ सि जेम. 3 P °रु corrected as °र, S °रु. 4 After this P marginally and S read the following passage: मोक्खु होइ भवसुहह विरत्तह । सुपर(S परम)विचेयणाणु चिंततहं ॥ सव्वसंगपरिचाउ करंतहं । सिवपउ होइ अप्पु झायंतहं ॥ रयणत्तउ णिम्मलु धारंतहं । सेसकसायरायणिहणंतहं (S सेस भावणियवहि-जाणंतहं). After this P further reads: बज्झब्भंतरसुद्धिकरंतहं । धम्मसुक्कज्झाणइं झायंतहं । संवरपुव्वकम्मणिहणंतहं । सिवसुहु होइ एम णिवच्छ...5 P A °उं.

1. 1 P S गुणो. 2 P S वोलीण. 3 P °उं. 4 P S भउ.

[१३] १ अग्निना. २ शुक्ललेश्यात्रिशूलेन. ३ शतखण्डः. ४ T वैराग्यात्.

[१] १ जगति.

[१]

अण्णु वि पइँ लक्खिय सुद्ध-मइ कहेँ लवणङ्कुसह मि कवण गइ ॥ १
का जणयहोँ कणयहोँ केक्कयहेँ का अवराइयहेँ सु-सुप्पहहेँ ॥ २
का लक्खण-मायहेँ केकयहेँ का भामण्डलहोँ चारु-मइहेँ' ॥ ३
अक्खइ केवलि सुर-णमिय-पउ दसरहु तेरहमउ सग्गु गउ ॥ ४
परमाउ वीस सायरइँ जहिँ जणउ वि कणउ वि उप्पण्णु तहिँ ॥ ५
परिमाणु जेत्थु आहुट्ठ कर अवर वि अणेय तहिँ जाय णर ॥ ६
अवराइय-केक्कय-सुप्पहउ कइकइ-सहियउ परिसह-सहउ ॥ ७
अण्णउँ वि घोर-तव-तत्तियउ सव्वउ देवत्तणु पत्तियउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जे पुव्व-जम्में तउ णन्दण विण्णि वि तिहुवणेँक्क-विजइ ।
लवणङ्कुस-णामालङ्किय तहुँ होसइ पञ्चमिय गइ ॥ ९

[२]

णन्दण-वण-भूसिय-कन्दरहोँ दाहिण-दिसाएँ गिरि-मन्दरहोँ ॥ १
कुरु-भूमिहेँ भामण्डलु वि हुउ पल्ल-त्तय-आउ-पमाण-जुउ ॥ २
पुच्छिउ सुरवइणें[1] 'केण फलेँण' आयण्णहि तं पि वुत्तु वलेँण ॥ ३
उज्झहेँ[2] चिरु कुलवइ पवर-भुउ 'मयरिएँ मणिट्ठ-'मेहलिय-जुउ ॥ ४
वज्जय-णामङ्किउ 'तहु तणउँ[3] णिय-धण-सम्पत्तिएँ जिय-धणउँ[4] ॥ ५
णिव्वासिय सीय मुणेवि खणेँ सो चिन्तावियउ स-सोउ मणेँ ॥ ६
सा दिव्वेँहिँ गुणेँहिँ अलङ्करिय सोमाल-देह अइ-सुन्दरिय ॥ ७
वरँ-रूवें सिरि-देवयहेँ णिह काऽवत्थ पेक्खु वणेँ पत्त किह ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वइराउ तं जें तें भावेंवि पुत्त-कलत्तइँ परिहरेँवि ।
'दुइ-मुणिहेँ पासेँ तवु लइयउ मुणि-सुव्वय-जिणु मणेँ धरेँवि ॥ ९

[३]

तासु असोय-तिलय दुइ णन्दण जणण-णेह-किय-गुरु[1]-अक्कन्दण ॥ १
सहुँ कन्तेँहिँ[2] वइराएं लइया तेँ वि दुइ-मुणिहेँ पासेँ पव्वइया ॥ २

2. 1 P S °णा. 2 P S A °हि. 3 P °उं. 4 P S वरु.
3. 1 P S °गरु°. 2 P S कंतें.

[२] १ मगरीस्त्रीयुक्तः. २ T भार्यया. ३ कुलपतेः कुटुम्बिन्याः पुत्रः. ४ वनप्रेक्षिता यस्मिन् प्रस्तावे; T has णिण्णासियसिय rendered as लक्ष्मीनिर्नाशितः. ५ द्युतिनामा मुनिः.

[3]वहु-दिवसहिँ तउ घोरु करन्ता परमागम-जुत्तिऍ विहरन्ता ॥ ३
तम्वचूड-पुरवरु गय अत्तिऍ तिण्णि वि गय जिण-वन्दण-हत्तिऍ ॥ ४
तावऽग्गऍ वालुय-रयणायरु दीसइ णरउ[4] व दुग्गम-दुत्तरु ॥ ५
तवण-तत्त[5]-वालुअ-[1]णिवहालउ मणु सप्पुरिसहोँ णाइँ विसालउ ॥ ६
सो कह कह वि दुक्खु आसङ्घिउ सिद्धेँहिँ भव-संसारु व लङ्घिउ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

ते तिण्णि वि[6] जण मुणि-पुङ्गव णिण्णासिय-दुट्ठट्ठ-मय ।
वज्जय-असोय-तिलएसर जोयणाइँ पञ्चास गय ॥ ८

[४]

तो [1]घण-घण[2]-घोरोरालि दिन्तु सुरधणु-पईह-णङ्गूलवन्तु ॥ १
अइ-धवल-वलाया-पन्ति-दाढु जलधारा-धोरणि-केसराढु ॥ २
ओसारिय-सूरायव-कुरङ्गु णिद्दारिय-गिम्भ-महा-मयङ्गु ॥ ३
[3]हरिवर[1]-वरहिण-[4]रव-रुञ्जमाणु फुलन्त-णीम[3]-णहरेँहिँ समाणु ॥ ४
जल-पूरिय-[5]तडिणि-पवाह-चलणु वावी-तलाय-सर-णियर-सवणु ॥ ५
पचलन्त-महद्दह-[6]रुन्द-वयणु दुत्तार-खड्डु-विच्छिड्डु-णयणु ॥ ६
चल-विज्जु-ललाविय-दीह-जीहु सम्पाइयउ [7]वासारत्त-सीहु ॥ ७

॥ घत्ता ॥

तं पेक्खेँवि णिरु आसण्णउँ[4] वियणेँ महा-वणेँ भय-रहिय ।
वड[5]-पायव-मूलेँ [6]सु-वित्थऍ तिण्णि वि जोगु लएवि थिय ॥ ८

[५]

तहिँ अवसरेँ सिरिमालिणि-कन्तेँ उज्झाउरि गयणङ्गणेँ जन्तेँ ॥ १
जणयहोँ णन्दणेण विक्खाएं पेक्खेँवि चिन्तिउ विणय-सहाएं ॥ २
ऍउ महन्तु अच्चरिउ मणोहर कहिँ वालुय-समुद्दु कहिँ मुणिवर ॥ ३
कहिँ भव-पहु कहिँ सिद्ध-भडारा कहिँ अ-णिउणु कहिँ गुण-गरुआरा ॥ ४
कहिँ देसिउ कहिँ वर-णिहि-रयणइँ कहिँ दुज्जणु कहिँ सुन्दर-वयणइँ ॥ ५

3 The portion from वहु° to अत्तिए (line 4 a) is omitted in A. 4 A णरउ दुसमदुरुत्तरु. 5 P S °त्तु. 6 P S मि.
4. 1 P S हरि. 2 P S ओरुं°. 3 P S °णीम्व.° 4 P A °उं. 5 A वे°. 6 P S सुवित्थडए.

[३] १ समूहस्थान.
[४] १ T मेघसिंहः. २ 'गुरुहराट' शब्दः लोके. ३ मण्डूक. ४ शब्दः. ५ नदीप्रवाहः पादौ यस्य. ३ विस्तीर्ण. ७ वर्षाकाल एव सिंहः.

कहिँ दुग्गन्ध-[1]रेण्णु कहिँ महुयर कहिँ मह-णरय-भूमि कहिँ सुरवर ॥ ६
दूर-भव्वु कहिँ कहिँ सु-पहाणइँ तव-चरित्त-वय-दंसण-णाणइँ ॥ ७
अह जाणिय-कंङ्कालासण्णा महु पुण्णोदएण सम्पण्णा' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

एँउ भामण्डलेँण वियप्पेँवि अच्चासण्णउ पय-पउरु ।
वर-विज्जा-वलेँण स-देसउ किउ मायामउ परम-पुरु ॥ ९

[६]

णिम्मियाइँ विउलइँ अ-पमाणइँ थामेँ थामेँ मणहर-उज्जाणइँ ॥ १
थामेँ थामेँ धण-कण-जुअ-णयरइँ गोट्ठइँ गोहण-गोरस-पउरइँ ॥ २
थामेँ थामेँ जिणहर-देवउलइँ डिम्भइँ णाइँ [1]महच्छुह-वहुलइँ ॥ ३
थामेँ थामेँ वहु-गाम पुरोवम थामेँ थामेँ आराम मणोरम ॥ ४
थामेँ थामेँ पोक्खरणिउ सरवर वावी-कूव-तलाय लयाहर ॥ ५
थामेँ थामेँ णिम्मल णिरु णीरइँ महिय-[2]ससाह-सिसिर-धिय-खीरइँ ॥ ६
थामेँ थामेँ सालिउ फल-सारउ इक्खु-महारसु अइ-गुलियारउ ॥ ७
थामेँ जण-णयणाणन्दणु भविय-लोउ जिणवर-कय-वन्दणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं करेँवि एव णिविसद्धेँण चरिया-गयं खम-दम-दरिसि ।
सद्धाइ-गुणालङ्करिएँण तेँ भुञ्जाविय परम रिसि ॥ ९

[७]

जिह ते तिह अवर वि वहु-देसहिँ दुग्गम-दीव-समुद्ददेसहिँ ॥ १
भरह-पमुह-खेत्तेँहिँ गिरि-विवरेँहिँ[1] काणणेहिँ जिण-तित्थेँहिँ पवरेँहिँ ॥ २
णिज्जण-णिप्पाणिय-दुपवेसेँहिँ मुणि पाराविय विसम-पवेसेँहिँ ॥ ३
तेण फलेण मरेवि स-[2]कन्तउ उत्तम-भोग-भूमि सम्पत्तउ ॥ ४
तहिँ अच्छइ जण-णयण-मणोहरु तुह केरउ चिर-पढँम-सहोयरु ॥ ५
[1]'दण्ड-सट्ठि-सय-तणु-परिमाणउँ तिण्णि-पल्ल-परमाउ-समाणउँ ॥ ६
तण्णिसुणेवि वयणु सिय-इन्देँ(?)[5] पुणु वि पपुच्छिउ गुरु-आणन्देँ ॥ ७
'णारायणु दस-कन्धरु दुम्मइ वेण्णि वि जण सम्पाइय-[2]दुग्गइ ॥ ८

5. 1 P S °रण्णे, A °रयणु.

6. 1 P S °मे.

7. 1 P S °वरेहिं. 2 A संकं. 3 P S °पवर°. 4 P A उं. 5 A सियदेवें.

[५] १ कं पानीयं तस्य कालः वर्षाकालः.

[६] १ T महत् क्षुधा; बुभुक्षा । छुधा चूर्णं वा. २ स–'मलाइ' लोके.

[७] १ T क्रोशत्रयशरीरप्रमाणम्. २ तृतीयनरके.

॥ घत्ता ॥

दुरियहों अवसाणें विणिग्गेंवि   कहें किं होसइ महुमहणु ।
को हउ मि भडारा होसमि   को होएसइ दहवयणु' ॥ ९

[८]

तं णिसुणेंवि केवल-णाण-धरु   पभणइ सीराउहु मुणि-पवरु ॥ १
'आयण्णहि पुव्वें[1] सुरगिरिहें   जग-पायड-विजयावइ-पुरिहें ॥ २
सम्मत्त-धीर-अंवलम्वियहों[2]   होसन्ति सुणन्द-कुडुम्वियहों ॥ ३
रोहिणिहें गब्भें दिढ-कढिण-भुअ   तो अरुहदास-रिसिदासँ[3] सुअ ॥ ४
वहु-कालें वय-गुण-णियमँ[4]-धर   होसन्ति सुरालएँ पुणु अमर ॥ ५
तेत्थहों चवेवि णिम्मल-विउलें   होसन्ति पडीवा तहिँ जें कुलें ॥ ६
दरिसाविय-चउविह-दाण-गुणु   [1]हरि-खेत्तें वे वि होसन्ति पुणु ॥ ७
तेत्थहों वि पीय-जिण-धम्म-रस   [2]होसन्ति सणय-कुमारें तियस ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सायरइँ सत्त सुहु भुञ्जेंवि   चवणु करेप्पिणु सुरपुरिहें ।
होसन्ति पडीवा वेण्णि वि   ताहें जें विजयावइ-पुरिहें ॥ ९

[९]

जस-धणहों कुमार-कित्ति-पहुहें   गब्भब्भन्तरें लच्छी-वंहुहें[1] ॥ १
होसन्ति मणिट्ठ पहाण सुय   जयकन्त-जयप्पह-णाम-जुअ ॥ २
तहिँ[2] धरेंवि घोर-तव-भार-धुर   सत्तमएँ सग्गें होसन्ति सुर ॥ ३
तहिँ कालें सयल-णिहि-रयणवइ   तुहुँ भरहें हवेसहि चक्कवइ ॥ ४
लन्तव-सग्गहों चवेवि विवुह   होसन्ति वे वि तउ अङ्गरुह ॥ ५
णामें [1]इन्दरहं[3]म्भोयरहं[4]   तियसहँ वि रणङ्गणें दुव्विसह ॥ ६
रयणत्थलें णयरें रज्जु करेंवि   पच्छएँ पुणु दुद्धरु तउ चरेंवि ॥ ७
पावेंवि समाहि तुहुँ विमल-मणु   होएसहि वेजंयन्तें[5] सुमणु ॥ ८
इन्दरहु वि[6] जो चिरु दहवयणु   जें वसिकिउ णीसेसु वि भवणु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सो मणुअत्तणें देवत्तणेंहिँ   कइहि मि भवेंहिँ[2] भवेवि णरु ।
अट्ठविह-कम्म-विणिवारणु   होसइ कालें तित्थयरु ॥ १०

8. 1 P S पुव्वेहि. 2 P S °अवलोइयहो. 3 A सिरि°. 4 P S °रु.
9. 1 P °वइहे, S °वइहि. 2 P S A °हि. 3-4 P S °रुह. 5 P वयि°, S वय°.
6 P S जो वि.

[८] १ भोगभूमि. २ T इन्द्र भविष्यन्ति.
[९] १ इन्द्ररथाम्भोजरथनामानौ. २ T देवः.

[१०]

अहमिन्द-महासुहु अणुहवेँवि वर-वइजयन्त-सग्गहोँ चवेँवि ॥ १
पुणु गणहरु होसहि तासु तुहुँ तहिँ कालेँ लहेसहि मोक्ख-सुहु ॥ २
अम्भोयरहो वि जो आसि हरि णामेण जि जसु कम्पन्ति अरि ॥ ३
सो भमेँवि चारु जम्मन्तरइँ भाविय-जिणधम्म-णिरन्तरइँ ॥ ४
पुव्वविदेहेँ पुक्खर-दीवेँ वरेँ होसइ सयवत्त[1]ज्झय-णयरेँ ॥ ५
भरहेसर-सण्णिहु चक्कहरु पुणु होसइ तित्थहोँ तित्थयरु ॥ ६
णाण-मरुड्डाविय-कम्म-रउ जाएसइ वर[2]-णिव्वाण-पउ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

वोलीणेँहिँ सत्तेँहिँ वरिसेँहिँ गमणु करेसमि हउ मि तहिँ ।
भरहेस-पमुह वहु-मुणिवर अविचल-सुहु णिवसन्ति जहिँ ॥ ८

[११]

सु-णेँवि भविस्स-काल-भव-वइयरु पुणु पुणु पणवेँवि[1] हलहरु मुणिवरु ॥ १
अप्पउ सो सीएन्दु पणिन्दइ गरहइ मणु जिण-भवणइँ वन्दइ ॥ २
तित्थङ्कर-तव-चरणु[1]देसइँ केवल-णाणुग्गमण-पएसइँ ॥ ३
दिव्व-ज्झुणि-णिव्वाण-णिवेसइँ अञ्चेँवि पुज्जेँवि णवेँवि असेसइँ ॥ ४
सुट्ठु विसाल तुङ्ग सकन्दर खणेँ परिअञ्चेँवि पञ्च[2]वि मन्दर ॥ ५
पुणु गम्पिणु णन्दीसर-दीवहोँ थुइ करेवि तइलोक्क-पईवहोँ ॥ ६
कुरु-भूमिहिँ चिरु भाइ गवेसेँवि भामण्डलु स-कन्तु संभासेँवि ॥ ७
गउ राहव-गुण-गण-अणुराइउ सरहसु अच्चुअ-सग्गु पराइउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तहिँ सुह-भावण-संजुत्तउ अमर-सहासेँहिँ परियरिउ ।
णिय-लीलएँ सीया-सुरवइ सइँ अच्छरहिँ रमन्तु थिउ ॥ ९

[१२]

लवणङ्कुस वि वे वि वहु-दिवसेँहिँ णाणुप्पण्ण णमिय [1]वर-तियसेँहिँ ॥ १
कय-कम्म-क्खय णाणा-तरुवरेँ गय णिव्वाणहोँ पावा-महिहरेँ ॥ २
वहु-कालें पुणु इन्दइ-मुणिवरु णिय-तणु तेओ[1]हामिय-दिणयरु ॥ ३
देउल-वीढि[2]आएँ [2]वर-सत्तउ णाणुप्पाएँवि णिव्वुइ पत्तउ ॥ ४

10. 1 A °ब्भय°. 2 P S पर°.
11. 1 P S A °विवि. 2 S सि, A omits पंच वि.
12. 1 P S °तियसेसहिँ. 2 P विढि°, S विड्डि°.

[११] १ उत्तमस्थानानि.
[१२] १ तिरस्कृत. २ उत्तमसम्बधः (?).

जिह सो तिह अणन्त-सुह-थाणहा गउ [३]घणवाहणो वि णिव्वाणहों ॥ ५
जसु केरउं[3] अज्ज वि अहिणन्दइ लोउ मेहरहु तित्थु पवन्दइ ॥ ६
कुम्भयण्णु पुणु सासय-सोक्खहों सो वि वडहें खेड्डुहें[4] गउ मोक्खहों ॥ ७

॥ घत्ता ॥

गउ रहुवइ कइहिं[5] मि दिवसेंहिं तिहुअण-मङ्गलगाराहों ।
अजरामर-पुर-परिपालहों[7] पासु[8] स य म्भु-भडाराहों ॥ ८

*

इय पोमचरिय-सेसे सयम्भुएवस्स कह वि उव्वरिए ।
तिहुअण-सयम्भु-रइए राहव-णिव्वाण-पव्वमिणं ॥
वन्दइ-आसिय-तिहुयण-सयम्भु-परिविरइयम्मि मह-कव्वे ।
पोमचरियस्स सेसे संपुण्णो णवइमो सग्गो ॥

*

॥ पोमचरियं समत्तं ॥

* * *

[प्रशस्तिगाथाः]

सिरि-विज्जाहर-कण्डे संधीओ होन्ति वीस परिमाणा[1] ।
उज्झा-कण्डम्मि तहा वावीस मुणेह गणणाए ॥ १
चउदह सुन्दर-कण्डे एक्काहिय-वीस जुज्झ-कण्डे य ।
उत्तर-कण्डे तेरह सन्धीओ णवइ सव्वाउ ॥ २

*

तिहुअण-सयम्भु णवरं एक्को कइराय-चक्किणुप्पण्णो ।
पउमचरियस्स चूलामणि व्व सेसं[2] कयं जेण ॥ ३
कइरायस्स विजय-सेसि[3]यस्स वित्थारिओ जसो भुवणे ।
तिहुअण-सयम्भुणा पोमचरिय-सेसेण णिस्सेसो ॥ ४
तिहुअण-सयम्भु-धवलस्स को गुणे वण्णिउं जए तरइ ।
वालेण वि जेण सयम्भु-कव्व-भारो समुव्वूढो ॥ ५
वायरण-दढ-क्खन्धो आगम-अङ्गो पमाण-वियड-पओ ।
तिहुअण-सयम्भु-धवलो जिण-तित्थे वहउ कव्व-भरं ॥ ६

*

3 A °उं. 4 S °डहिं, A वहेडखड्डहे. 5 P S °ह. 6 P A °रहो 7 P S A °लहो. 8 P गउ पासु, S गउ पासे.

Praśasti. 1 P A °णं. 2 S °से. 3 A °ससेसि°

३ मेंघवाहनः.

चउमुह-सयम्भुएवाण वाणियत्थं अचक्खमाणेण ।
तिहुअण-सयम्भु-रइयं पञ्चमिचरियं महच्छरियं ॥ ७
सव्वे वि सुआ पञ्जर-सुअ व्व पढियक्खराइँ सिक्खन्ति ।
कइरायस्स सुओ पुण सुय व्व सुइ-गब्भ-संभूओ ॥ ८
तिहुअण-सयम्भु जइ ण होन्तु[4] (?) णन्दणो सिरि-सयम्भुदेवस्स ।
कव्वं कुलं कवित्तं तो पच्छा को समुद्धरइ ॥ ९
जइ ण हुउ छन्दचूडामणिस्स तिहुअण-सयम्भु लहु-तणओ ।
तो पद्धडिया-कव्वं सिरि-पञ्चमि को समारेउ ॥ १०
सव्वो वि जणो गेण्हइ णिय-ताय-विढत्त-दव्व-सन्ताणं ।
तिहुअण-सयम्भुणा पुणु गहियं सुकइत्त-सन्ताणं ॥ ११
तिहुअण-सयम्भुमेक्कं मोत्तूण सयम्भु-कव्व-मयरहरो ।
को तरइ गन्तुमन्तं मज्झे निस्सेस-सीसाणं ॥ १२

*

इय चारु पोमचरियं सयम्भुएवेण रइयं (यम ?) समत्तं ।
तिहुअण-सयम्भुणा तं समाणियं परिसमत्तमिणं ॥ १३
'चेष्टितमयनं चरितं करणं चारित्रमित्यमी यच्छब्दाः ।
पर्याया रामायणमित्युक्तं तेन चेष्टितं रामस्य ॥ १४
वाच[5]यति श्रुणोति जनस्तस्यायुर्वृद्धिमीयते पुण्यं च ।
आकृ[6]ष्ट-खड्ग-हस्तो रिपुरपि न करोतिं वैरमुपशममेति' ॥ १५

*

माउर-सुअ-सिरिकइराय-तणय-कय-पोमचरिय-अवसेसं ।
संपुण्णं संपुँ[8]ण्णं वन्दइओ लहँ[9]इ संपुण्णं ॥ १६
गोइन्द-मयण-सुयणन्त-विरइयं वन्दइ-पढम-तणयस्स ।
वच्छलदाएँ तिहुअण-सयम्भुणा रइयं (?) महप्पयं ॥ १७
वन्दइय-णाग-सिरिपाल-पहुइ-भव्वयण-गण-समूहस्स ।
आरोगत्त-सँ[10]मिद्धी-सन्ति-सुहं होउ सव्वस्स ॥ १८
सत्त-महासग्गङ्गी ति-रयण-भूसा सु-रामकह-कण्णा ।
तिहुअण-सयम्भु-जणिया परिणउ वन्दइय-मण-तणयं[11] ॥ १९

*

4 S हुंतु. 5 A वोधयति. 6 A श्रीकृष्ण°. 7 A मोवर°. 8 A. omits. 9 A लहुउ. 10 A °ससिद्धी°. 11 A °तणउ.

***

'पउमचरिउ' तृतीय भाग

परिशिष्टम्।

***

APPENDIX IV

Noteworthy glosses etc. from the anonymous Paumacariyu-Ṭippaṇa

(for PC. Sandhi 1 to 67.5.)

[For the description of the Ṭippaṇa Ms. see under the section 'Miscellanea' in the Introduction. I and II here mean the respective PC. Parts published earlier. P., S., A. stand for the three PC. Mss.]

ॐ नमः सर्वज्ञाय ॥

स्वयम्भुवं महावीरं प्रणिपत्य जगद्गुरुम् ।
रामायणस्य वक्ष्यामि टिप्पणं मति-शक्तितः ॥

पढमो संधि

१ **गुरु परमेट्ठि** वृषभनाथ । अथवा गुरवश्च ते पञ्चपरमेष्ठिनश्च तेऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसाधवस्तत्र । **तिहुयण-लग्गण-खम्भ** इति पाठः । **पुणु** पुनः, संस्कृत-प्राकृत-व्याकरण-छन्दो-द्विसन्धान-भारत-सूत्रकानन्तरम् । **आरिसु** चिरन्तन-महामुनि-प्रणीत-रामायण-शास्त्रम् । पर-गुरु-परमेट्ठि नत्वेति पूर्वं-नमस्कारादुपरि चतुर्विंशति-परम-जिनान्नमस्कृत्य । २.८ **अराएं** अरातीन् (°तिना?). २.११ **छिव्विर** (A.'s reading) छिव्विरा । २.११ **पविरल** सान्तरम् । २.१२ **णिम्मलु** परदारादि-दोष-रहितमपशब्दादि-दोष-त्यक्तं च । २.१२ **पुण्णं** धर्मार्थ-काम-मोक्ष-परिपूर्णम् । ३.३ **पच्चाहार** अपश्लेषिकः । वैषयिकः । अभिव्यापकः । अपचारिक । सामीप्यक । ३.४ **सत्त विहत्तियाउ** कर्तरि कारकेति प्रथमा । कर्मणि द्वितीया । करणे तृतीया । सम्प्रदाने चतुर्थी । अपादाने पञ्चमी । सम्बन्धे षष्ठी । अधिकरणे सप्तमी । ३.४ **छव्विह समास** कर्मधारय । द्विगु । तत्पुरुष । बहुव्रीहि । द्वन्द्व । अव्ययीभाव । ३.५ **छकारय** कर्ता । कर्मु । करणु । सम्प्रदान । अपादान अधिकरणु । इति कारक ६ । ३.५ **दस ल**(1 b)**यार** संज्ञा । परिभाषा । विधि । नियम । प्रतिषेध । अधिकार । अतिदेसु । अनुवाद । विकल्प । निपात । लता सूत्रेति । ३.५ **वीसोवसग्ग** प्र-पराप-समन्वव-निर्दुरभि-व्यधि-सूदति-निप्रति-पर्यपयः । उप आदिति विंशतिरेष सखे उपसर्गगणः कथितः कविना ॥ व्याख्या—प्र परा अप सम् अन् (i. e. अनु) अव निर् दुर् अभि वि अधि अपि (?)सु उत् अति [नि] प्रति परि उप [आ] २० । ३.६ **वलावल धाउ णिवाय-गणु** 'वलावल' वृत्ति, 'धाउ'—भुवादि । अदादि । दिवादि । स्वादि । चुरादि । रुधादि । तनादि । क्रियादि । एवं धातु । ['णिवाय-गणु'] निपात-गण । ३.७ **सव्वु** सर्व्वम् । ३.८ **पिंगल-पत्थार** पिङ्गल-च्छन्दः-प्रस्तारः । ३.९ **रयडा** राडा । ३.१० **छुडु** उवरि । ५.८ **पुरवइ व** श्रेष्ठिभिः । ६.२ **तिणयणु** ईश्वरः । ६.५ **खारणीरु** क्षारं

जलमन्यत्र क्षारमनिष्ठं नीरयति ददातीति । ६.७ **सक्कु** सक्यत इति । तरुस्तारक—रावणादिभिरभिभवनीयो, राजा पुनर्न केनापि अभिभूयते । ७.२ **चउकल्लाण** गर्भावतरण-जन्माभिषेकनिष्क्रमणज्ञानोत्पत्तयः । ७.९ **सम्भरहि** आराधय(2 a)सि । ९.३ **अट्ठविह परमगुणरिद्धि** अष्ट महाप्रातिहार्याणि । तद्यथा—छत्रत्रयं त्रिदशदुन्दुभिपुष्पवृष्टि-र्भाषाप्रभावलयविष्टरचामरं च । अशोकवृक्षश्चेति । ९.६ **परंपर** आराध्यानामप्याराध्यः । १०.६ उव्वहंति उच्चाययन्ति । **झल्लरिमज्झाणुमाणु** टिविलामध्यसदृशः । ११.६ **छव्विह कुलपव्वय** समीपपर्वताः । हिमवान् महाहिमवान् । निषधनीलरुक्मि-शिखरिनामपर्वताः । ११.७ **कणय-सेलु** मेरोः । ११.७ **सहसिक्क-मूलु** तया भूम्या द्व(?)तैते शैलः । कोऽर्थः । सहस्रमेकं भूमौ निमग्नः । १२.१ **सुइवन्तो** अवधि-ज्ञान-युक्तः । १३.३ **मरुएवि** मरुदेवी । १३.३ **महिसी** प्रधान-राज्ञी १३.८ **कन्दोट्ट** नीलोत्पल । १५.२ **पईहरच्छि** दीर्घचक्षुः ॥

विईओ संधि

१. **पुण्णपवित्तु** पूर्वजन्मोपार्जित-तीर्थंकर-नाम-पुण्येन पवित्रोऽथवा पूर्णं सर्व-पुरुषार्थ-परिपूर्णम् । **सहसा** उत्पत्त्यनंतरम् । १.४ **अहिट्ठिय** सर्व्वकालं द्रव्यरूपेण ये स्थिताः सिंहाकारास्तेभ्यः । २.५ **परियंचिय** प्रदक्षिणीकृताः । २.७ **उवसोवणि** उत्कृष्ट-निद्रा । ३.१ **अंकि** उच्छोली । ३.२ **तं** प्रसिद्धम् । ३.३ **सणवइहिं** नवति-योजन-सहितैः । ३.८ **सुरवरसारउ** इंद्राराधनीयः । ६.२ **वज्जसूइ** वज्रसूचिका । ६.८ **तरणि** आदित्यः । ७.३ **पंगुत्तइ** प्रकर्षेण गुप्तानि । ७.३ **दावइ (?ढोरइ)** पशवः । ७.८ **रिसहु** वृषभः । कोऽर्थः । वृषभो धर्मस्तेन भाति शोभते । ८.२ **भुक्खावारें** बुभुक्षामरणेन । बुभुक्षासमयेन वा । ८.४ **खाणें** तांबूलादिके । ९.३ **सवसत्तहियत्तणु** सर्वजीवहितत्वम् । १०.२ **धिद्धिगत्थु** धिक् २ निंद्यमस्तु । निंदाभर्त्सनयोर्धिक् । ११.४ **नमह** नमःशब्दमुच्चारयता । अथवा अत्रार्थशब्दो (?) भरतराज्यदानानंतरे । १२.१ **अविउलु** अव्याकुलचित्तो निराश्रयो वा । १३.२ **कवडकूड** माया-बहुत्वमथवा 'कवडं' माया । 'कूडं' असत्यम् । १३.४ **णं तो** सिग्घ (सद्यः ?) अथवा शीघ्रम् । १७.३ **जलवास** पुष्पांजलिः । १७.९ **चाहिउ** (for वन्दिउ ?) दृष्टः ॥

तईओ संधि

१. **गयसंतो** गतश्रमोऽथवा गतं ज्ञाने स्वांतं मनो यस्य स गतस्वांतः । १.४ **कुडंगेहिं** केदारैः । १.६ **खज्जूरि** पिंडखजूरी । १.९ **मालूर** कपित्थ । १.९ **सिरि** (in सिरिसामली to be divided as सिरि-सामली) बिल्व । १.११ **भूय** (for भुव) विभीतकः । १.१२ **अवरहि मि जाईहि** अपर-पुष्प-जाति । १.१३ **मोरउ** पिच्छछत्रम् । ३.११ **परसमाणु** सिद्धस्वरूपः । ५.२ (?) **तरच्छ** तरक्षः । ५.४ **सारंग** चातकः । ५.४ **पवंग** मर्कटः । ५.५ **गयगंडा** गजाकार-गंडः ।

गजा गंडका वा। **५.९ विब्भमो** भ्रूविकारः। **५.९ हावो** मुखविकारः। **५.९ भावो** चित्तसंभवः। **५.९ संखोडिहिं** आघाभिः। **६.९ फंफावेहिं पढंतिहिं** प्रोत्साहनैः पठ्यमानैः। **७.२ मणुसोत्तरेत्यादि** मानुषोत्तरपर्वत-शिखरं प्राप्ताः। **७.४ विउव्वण** विकुर्वणायुक्तः। **७.५ वेसें** प्रमाणेन। **७.९ गोत्त** इंद्र-सामानिक-त्रायत्रिंश-भवनवासि-व्यंतरादि। **७.१० णज्जइ** यथा ज्ञायते। **८.१ उत्तिण्ण** उत्तरित। **८.४ रोहण** क्षेत्रम् (?)। **८.१० पवहन्तएण** अग्रे प्रवर्द्धमानेन। ९.१० Reading **उद्देसें** व्याजेन। **१३.३ दह पंचासउ** पञ्च शतानि।

चउत्थो संधि

१.१ पुण्णजयासहि पूर्णा जयस्याशा येषु तानि। **२.८ वीर** वीर्य। २.९ v. l. **खंतिपधरियउ** क्षमाधारकः। ३.९ v. l. **विरिक्की** (for गुरुक्की)—वंटिता (?)। ३. v. l. परिच्छिया। **५.६ मुसंडि** वज्रमुष्टिः। **१०.९ ओहट्टिउ** अपसृतः। १०.९ v. l. **झुलुकए** ज्वालया। **१३.७ वज्जरिउ** कथित। **१४.७ तिहुयण-जणारि** त्रिषु जाति-जरा-मृत्यु-म....जनस्य तस्यारयः। 'तिहुयणजणेरि' च पाठः।

पञ्चमो संधि

२.१ वेत्तालए अस्तमनकाले मुहूर्त्तद्वयेन... **९.५ मागहभासए** मागधीभाषया। ११.२ v. l. परियत्तिय। **१२.३ [णिद्धुयगायइं]** भ्रमररहितानि।

छट्ठो संधि

५.७ [करंवि]यइं पुष्पितानि। **६.२ कुहिणिउ** मार्गाः। **६.९ वुक्कारु** पूत्कारः। **७.५ दिय** ब्राह्मणाः। **७.९ पईवहो** प्रदीपस्य। **९.५ अइकमिउ** फुसिता अतिक्रमिताश्च **९.९ मरिसाविय** क्षमां कारिताः। **१०.४ उवहिरउ** उदधिरवः। १०.७ v. l. **तक्कडेण** चपलसमर्थेन। **१०.८ तउ जउ** तत्र यत्र। **जइ** यतिः। **११.१ विहाइयउ** रुष्टः। **११.३ खुद्दु** उपद्रवकारी लघुर्वा। **मायापमय** मायाप्रपञ्च (?)। **१२.९ सेरउ** स्थिर आलस्य (?) वा। **१३.९ संतिहरु** कल्याणगृह। **१५.४ इसीसि** स्तोकस्तोकम्। १६.४ v. l. **णामालउ** नाम्ना पुरुषाभिधानामालयः स्थानम्। मकारस्य वकारः प्राकृते क्वचिदन्यत्र नात्रा काष्ठतरंडकानाम्। १६.५ v. l. **णिरयदलु** धूलीरहितपुटः। 'णिरयउलु' पाठान्तरे चौरकुलमित्यर्थः।

सत्तमो संधि

१.५ परए प्रभाते। २.८ v. l. **पुणो ण सत्थ** पुनः न स्वस्थः। 'विसत्थ' इति पाठे विश्रब्ध इत्यर्थः। **२.९ सपसाहण** सुप्रसाधन। **३.४ णउरुंवु** समूहम्। **४.५ ईहा** (?) अभिलाषुकः। **४.७ वंसयरु** वंशतरुः। ९.२ v. l. **एंतिउ** आगच्छन्त्या। अन्यथा। १०.५ v. l. **महुपह** मधुप्रभापर्वतः। **११.८ सीसे** राज्ये। **णवर** साम्प्रतम्।

अट्ठमो संधि

२.१ v. l. **णिल्लाडिहिं** ललाटैः। २.३ **कप्पु** दण्डः। **गारहिं** गर्वैः। v. l. **आण गणंति वि ण** आज्ञा न गणयत्यपि। २.४ v. l. **णिदालिहिं** आज्ञा। ४.२ **पइट्ठा** प्रस्थिताश्वलिता इत्यर्थः। ४.९ **णीसावण्ण** द्वितीयप्रभुरहिता। ५.१ v. l. **पउहत्थिय** भृताः। ५.३ **तणुहेइ** तनुप्रहरणः। v. l. **कुजारि** (cf. A.'s reading) वृक्षारि। ५.५ **णइरिउ** नैर्ऋत्यः। ५.६ **करि मयरासणु** मकरवाहनं कृत्वा। ५.९ **विसासणु** बलीवर्दारूढः। ५.११ **पुलउगयइं** पुलवेनोच्छ्वसितानि। ८.५ **गोट्ठिं** (?) सभायाः। ८.६ **चारित्त** उपशमः। ८.७ **वरुणहों** जलस्य। ९.५ **ओणल्लु** अवष्टम्भितः। ११.१ v. l. **धारायराः** (cf. A.'s reading) रात्रिचराः। ११.९ v. l. **अवससइ** उद्वेगं करोति। १२.२ v. l. **फंफय** वामनाः। **कइविंदहिं** कविसमूहः।

नवमो संधि

२.५ **केण ण च(व)रिय** सर्वैरपि याचिता। ३.१ **दइएं** भर्त्रा। v. l. **वियसिकिय** विकशित्वा। ३.२ **अट्ठंगणिमित्तइं** अंगं सरं वंजणलक्खणं च, छिण्णं च हिउत्र(?) भौमं सिमिणंतरिक्खं। एदे णिमित्ते हिदयम्मि किच्चा, जाणंति लोयस्स सुहासुहाइं॥ ३.४ **डमर** भयं। ६.३ v. l. **विस्सावसु** विश्वावसुः कैकसविद्याधरस्य पिता। ७.४ **विप्पयइ** पक्षिपुत्रकाः। प्रजाः, पुत्रका वा। ७.९ **भाणुसुइ** कुम्भकर्णः। ९.४ v. l. **अणिउणहो** अनृ(नि)पुणस्य। ९.६ **वियंभियओ** विकुर्वितः। ९.९ v. l. **रुंजेवि** अभ्यन्तरे उरुं गभीरं निनादं गर्जयित्वा। **गज्जेवि** तडतडशब्देनातीव गर्जनं कृत्वा। **वासारत्तु** वर्षाकालः। १०.७ **छारहडि** छारहंडिका। १०.९ **जहेत्यादि** यथा पापात्मा-अग्रे धर्मविचारः कृतः। ११.२ **रावणउ** रावणस्येव रमणीयम्। १२.६ v. l. **थिरजोवणइं** स्थिरावलोकनानि। १४.४ **रस्सि** किरणाः।

दसमो संधि

१.७ v. l. **एंतिउ** पुनर्व्याघुट्य। १.८ **कउह** दिशाः। २.३ **[मुणिउ] पयाउ** प्रजायाः प्रतापं ज्ञात्वा। २.५ **दूसावासु णियंतु** गुड्डरावासं कटकमालोकयन्तः। २.६ v. l. **समहरेण**। २.८ **णमुक्कु** नमस्कृतः (?)। ३.५ **सिहिण** स्तनौ। ३.७ v. l. **सेयवंधु** वारयपालीत्यर्थः। ६.३ v. l. **इत्थियाउ** भार्याः। ८.१ v. l. **परयाएं** पर्यायेन। v. l. वियडिवण्णु।

एगारहमो संधि

१.७ or १.८ **कियइं** (?) अत्र 'किय' कृत। इंकारश्च पदपूरणं। २.९ **एयइं** एतानि। 'राजअनुच्छाया' इति लक्षणात् (?)। ३.५ **सीयरेण** सीत्कारेण। ११.१ **जमकरणु** मृत्युः। १२.६ **उद्धायउ** अतीव वेगेन। १४.४ **कीररिंछोलिउ** शुकपङ्क्तयः। १४.६ v. l. **गल्लोल्लउ** कपोलौ।

बारहमो संधि

६.१ **अण्णमणु** विषण्णचित्तः। ६.४ **सयणकिय** स्वजनक्रिया। ७.९ v. l. **समरउ** (for म मरउ)–पृथ्वी रजः समं जातम् (?)। ८.८ v. l. **सुवचि** (cf. A.'s reading) शोभनगिरा। ९.१० **पुण्णालि** पुंश्चली। १०.१ **गरुडपरायणिय** गरुडतर्जनी।

तेरहमो संधि

१.४ v. l. **पुत्तु** (for °वत्तु in महायवत्तु)–यानपात्रम्। ३.२ **किलित्त** आर्द्रीभूतः। ३.४ **°तम्बु** आरक्तः। ३.५ **पङ्गुत्त** झंपितः। ३.६ v. l. **अहिगिलियगइंदपसूयसासु** सर्पैर्ये ग्रस्ता गजेन्द्रास्तेभ्यः प्रसूत उत्पन्नः श्वासो यस्मिन् पर्वते। ४.३ **सिद्धउ** श्रीध्वजः। ४.१० **सायर** समुद्र। लक्ष्म्याकरश्च। ५.८ **वलाय** बकानि। ५.१० v. l. **मेल्लावियइं** मोचापितः। ६.३ **गिरीत्यादि** गिरिडिम्भस्य कटिसरं त्रुटितम्। ६.७ **कुंचिय** संपुटित। ७.४ **रंखोलिरेण** भासुरेण विलसता वा। ७.८ **परित्त** रक्षाम्। ७.१० v. l. **पच्चुद्धरिउ** प्रत्युद्धरितम्। ८.४ **झड** झम्पा लुञ्चनं वा। ९.१० v. l. **पलोट्टिएण** प्रवृत्तेन। १०.५ v. l. **तं साहु णवेप्पिणु** तं वालिमुनिं नत्वा। 'तीसाह' इति पाठे त्रिंशद्दिनानीत्यर्थः। ११.७ **खल खुद्द पिसुण** (v. l.) **परधिट्ठ** दुर्जनाः, निकृष्टा नीचा वा, दोषभाषकाः, अतीवधृष्टाः। १२.१ v. l. **समग्गु** समस्तः। १२.२ **साहिय** साधिकः। १२.६ **वरिसग्गवत्थ** उपरिस्वर्गवस्त्राः।

चउद्दहमो संधि

१.३ v. l. **भोइ** (for दूउ; cf. A.'s reading होइ) भोक्ता.

As folio No. 7 is missing we have a gap in the Gloss extending from here up to Sandhi 16, Kaḍavaka 1, line 7.

सोलहमो संधि

From the Sanskrit passage given in the footnote on p. 128 of Part One, the explanation of terms अरिषड्वर्ग and अष्टादश तीर्थ is found in the gloss. The portion preceding it is lost with the missing folio.

१.९ v. l. **पसाहणि** (for ए साहणे; the same is noted at the end of the passage on p. 128) शृङ्गारिते। ([अ]ष्टाङ्गानि ते in the above-mentioned passage is thus corrupt).

५.७ मन्त्रमध्ये किं मन्त्रं विशिष्टं सारं मन्त्रं बलदं तम्। ७.८ v. l. **अवमाणमि** अवमानयामि। ९.९ **कप्पिणु** कल्पित्वा। १५.७ v. l. **आरणिहिं तिहिं** आ समन्ततो हस्तैस्त्रिभिः।

सत्तरहमो संधि

२.२ **हेइ** प्रहरण । १२.१ v. l. **पहरे समिछिएवि** प्रहारे दत्तेऽपि । १२.६ **वाहिरंतरु** शरीरबहिर्भागः । १२.८ **हरि व** विष्णुरिव बलिबन्धनकाले । १२.१० **फग्गुणि णाइं सहसकिरणु** फाल्गुनमासे शीतपटलं भेदित्वा आदित्यो रक्तच्छविः प्रतिभासते । १४.४ **वलिउ** व्याघुटितः । १४.८ **आलीविउ** प्रज्वालितः । १५.८ v. l. **खगउले** पक्षिकुले । १६.१ **उद्भिण्ण** प्रकटम् । १६.८ **पंतिणो** श्रृङ्गारितौ पत्रावलीवन्तौ वा । १६.९ **सुरवइ लंकाहिवेत्यादि** इन्द्ररावणयोर्यदुत्तमं प्रचुरं भवभ्रमणं तदेव भवनं गृहं तत्र । १७.४ **अंसुएण** वस्त्रेण (the gloss वरत्र, Part I, p. 145, is a mistake).

अट्ठारहमो संधि

३.७ **लइ वट्टइ** पूर्यते । पर्यालोचनेन प्रस्तावं पूर्यते । ४.३ **दूसावासु** गुड्डरावासम् । ४.५ **णन्दीसराहे** नन्दीश्वरदिने । ५.४ **जलद्द** जलार्द्रवस्त्राणि । ८.५ **पवर** प्रधानपुरुषः । १०.३ v. l. **ण इट्ठ** । १०.४ **म होसइ** मा कदाचिद् भविष्यति ।

एगुणवीसमो संधि

४.७ **सुचवि** सुवचनवान् । 'सुय वि' इति पाठे श्रुतेऽपि । ५.२ **भत्तारु भणेसइं** etc. पवनञ्जयो यदा दोषवती भणिष्यति तद्दिवसे दोषो भविष्यति । १०.५ **वाहंभ** अश्रुजलम् । १४. v. l. वे पच्चक्खाणउ (cf. P's reading)—द्विविध सन्या... [As folios No. 20 and 21 are missing, there is a gap in the Gloss extending from here up to Sandhi 23, Kaḍavaka 10, line 5].

तेवीसमो संधि

१२.२ v. l. **मुकु कुमारि व** त्यक्ता विद्या यथा न शोभते । 'मुक्क कुमारि व' केचित् पठन्ति । तत्र विदग्धस्त्रीः । १३.५ **जलपओह** जलस्य प्रकृष्टा ओघाः । १३.६ v. l. **समुल्लसंति** उच्छलन्ती । १३.६ **वोल** उपर्युपरिसंभवनम् । १५.४ **तिमुंडं** मनोवचनकायाः (?) । १५.५ v. l. **अण्ण धवल धवल** अन्ये राजानो निश्चिता धवला इव धवलाः । १५.७ **विजय** नामेदम् ।

चउवीसमो संधि

१.२ **मुरव** मृदङ्ग । १.३ **सुइ** आचारोपासकाध्ययनादि । १.१० v. l. **उवहाणउं** गंडुकम् । २.३ **संगीयं** समुदायः । २.५ v. l. **घोणउल्लोल** etc. चतुर्दिक्षु भूमिं ऊर्ध्वं गच्छन् जनसमुदायकोलाहलप्रतिध्वनिः । २.६ **गुंदल** etc. युद्ध-उद्दाम-उच्छलत्-प्रचुर-उपर्युपर्याश्चर्यं येषां ते सुभटसङ्घाताः । ४.१ etc. **अज्ज वि** तावत् । ४.६ v. l. **लोउ** (cf. P.'s reading) लोचः । ४.७ **आयामिय** केनाक्रम्यते ।

६.६ **परयारिय** परस्त्रीगमन । भिक्षार्थं परगृहद्वारगमनश्च । १०.९ v. l. **दुइ मुणि** द्युतिनामा मुनिस्तस्य पार्श्वे । ११.६ **जडहारिय** शिरे जटाभारधारिणः । वृक्षभक्षकाः । ११.७ **धाडीसर** तीर्थयात्रागामिनः । छलप्रहारिणः । ११.२ v. l. **मणिवत्थ** कंबली । 'मयवत्थ' पाठे मृगचर्म । १२.३ **मूल** दीर्घजटाः । १२.६ v. l. **आवइयउ** आपतिताः । १३.७ **णावइ कुडउ** नमुक्करोति कुटजवृक्षम् । 'णावइं' न आगच्छति । १४.३ v. l. **सवंदणं** स्तुति । वनपक्षे च वन्दननामवृक्षाः । **ससावयं** सश्रावकम् । वनपक्षे पशवश्च । १३.४ v. l. **सवाणयं** वाणाः काण्डाः । वृक्षविशेषाश्च । १५.८ v. l. **हडहडपुट्टसीसु** ।

पञ्चवीसमो संधि

२.८ Like P. and S., T. also appears to have read two lines o a Dohā between lines 8 and 9, for like P. it gives the gloss v.l. **णियत्तु** निसृतः । ३.१० **ओलग्गए** स्थानरचनायाः (?) । ४.४ v. l. **धूअंतइं** उड्डुतानि । ४.७ **पचलंतउ** प्रकर्षेण चलन्तः । ६.८ **हक्कडक्कलल्लक्क** हुडुक्काडक्कयोरतीवरौद्रशब्दः (?). ६.९ v. l. **सीरि** हलः । १०.९ **कलाए** (the gloss at II 36 is to be corrected accordingly). ११.२ v. l. **वुल्लु** (for अण्णु ?)—भोजनम् । १२.४ v. l. **मुहरसयड्ढिउ** मुखेन रसमाकर्णिते (? रस आकर्षितो) यस्य । मुखरसाद् यो वा । १५.५ **णिसुंभिउ** मारितः । १५.६ **रसंतु** शब्दायमानः । १८.८ v. l. **गंधउ** गन्धर्वः । २०.३ **अत्थंतउ** अस्तंगतः ।

छव्वीसमो संधि

४.२ v. l. **तावे लित्तउ** । ४.२ v. l. **चत्तउ** (cf. A.'s reading)—मद्यकोसकः (?) । ९.७ **णड्डु जह** (v. l.)—नृत्यकारी यथा । १०.४ v. l. **मंथरु** नातिदीर्घम् । ११.८ v. l. **फुलंधुव** भ्रमर इव । १२.४ **पियासणु** मिष्टान्नम् । १५.९ **हार** अङ्गहारः । सूर्यपक्षे (?) थालं मुखमण्डलम् । १७.२ **पट्टइं** जलसारणी इक्षुपक्षे । १७.३ **डालइं** अञ्चलानि वस्त्रपक्षे । १७.४ **चारण** नग्नाचार्याः । १५.७ v. l. **महव्वलवलु** निद्राबलम् ।

सत्तवीसमो संधि

१.५ v. l. **मुहु** (cf. S.'s reading) वारंवारम् । २.१ **सिरिवच्छें** लक्ष्मणेन । ४.२ v. l. **अब्भयघण** लघुमेघाः । ५.५ **घण** नृ(नि)बिड । ८.९ v. l. **विगयगउ** (cf. P.'s reading) विगतगर्वः । १२.३ **मोक्ख** देशत्यागः कर्माभावश्च द्वाभ्यां त्यक्तम् । १३.२ **णिम्माणु** गौरवहीनं नरक्षेत्रप्रमाणं च ।

अट्ठावीसमो संधि

४.५ v. l. **पराइउ** । ४.९ v. l. **णिविसद्धहो अद्धे** क्षणमात्रेण । ६.३ **ससंकउ** सम्यक् क्रमः परिपाटी संक्रमः । सह संक्रमेण वर्तते 'ससंकउ' । अन्यत्र सह संक्रमेण

संक्रान्त्या वर्तते 'ससंकउ'। पुनः 'ससंकउ' नगरपक्षे सह शङ्कया वर्तते 'ससंकउ,' अकस्मादुत्पन्नत्वात्, अथवा सह संक्रमेण मार्गेण वर्तते 'ससंकउ'। अन्यत्र 'सं' सुखं तदर्थं 'कं' पानीयं 'संकं', सह संकेन वर्तते सहांतकं (?) 'ससंकउं'। 'क'शब्दो जलपर्यायः अकारान्तः। १२.९ v. l. **जगसूहउ** जगत्सौभाग्यः।

एगुणतीसमो संधि

२.८ v. l. **उक्कमिउ** उद्वातः (?)। ५.२ **परिवायणु** निवडणकं जल्पनं वा। १०.९ v. l. **गुणियउ** (cf. P.'s reading)—अभ्यस्तः। ११.३ **हवि** अग्निः। ११.३ **अपरायणासु** न परे जना लोका यस्य। नाभिभवनीयस्य वा।

तीसमो संधि

२.३ **हरिणक्खरहिं** पाण्डुराक्षरैर्हरिताक्षरैर्वा। हरिणवसतिस्थानैश्च 'लंपिक्कु (?) व' व्याधो यथा। ५.१ **वेल्लहले** ललितगर्भेश्वरे बिल्वीफले च।

[As folio No. 26 is missing, there is a gap in the Gloss extending from here up to the end of Sandhi 32.]

तेत्तीसमो संधि

२.७ v. l. **उववाएवी** महादेवी उपवाचित्वा (?). ३.६ **आलवाल** अटमटान्यायो वृक्षमूलजलास्थानकं च। ६.१ v. l. **दुव्वहइ** दुःखेन धरति। ६.४ v. l. **जियंतिहिं** (cf. S.'s reading)—तुलाभिः। ९.१० v. l. **पच्चेडिवि** (cf. A.'s reading)—अभिभूय। v. l. **अवरत्तएण** पश्चात्तापेन।

चउतीसमो संधि

१.२. v. l. **उववासपोसहवयं वंछिए** उपवासप्रोषधं व्रतं गृह्यते। २.६ **कुंटमंट** कुब्जः, हस्तबद्धः। २.७ **काणीण** कन्याजातः। ५.६ **पंकए** पद्मे पापे च। ७.९ v. l. **महइ** वाञ्छति। 'वहइ' वा धरतीत्यर्थः। ८.८ **उम्महइ** निराकरोति। ११.२ v. l. **गोलउ** गावः। ११.४ v. l. **धणधण्णतंदुलेहि** धनधान्यतन्दुलैः।

[As folio No. 28 is missing, there is a gap in the Gloss extending from here up to Sandhi 37, Kaḍavaka 3, line 2]

सत्ततीसमो संधि

३.२ v. l. **लंवंति केस** लम्बकेशाः। ३.९ **पलउ** भञ्जनम्। ४.३ v. l. **जरण** (cf. A.'s reading)—परिणामः। 'चरणु' वा पाठे भक्षण इत्यर्थः।

अट्ठतीसमो संधि

१.५ v. l. **उच्चारिउ** कथितः। १७.७ **जण्हुवजोत्तेहि** जानुयुगलाभ्याम्। जानुभ्यामित्यर्थः।

एगुणचालीसमो संधि

३.९ अत्र कथा। उत्तरमथुरायां श्रावको जिनदासस्तेन मुनिभक्त(?)नामा ब्रह्मचारी विद्या याचितस्तेन च कामरूपिणीविद्या दत्ता। ततो जिनदासो यस्मिन् दिने यद्रूपं ग्रहीस्यति (?) तस्मिन् दिने न तद्रूपं पुनः गृह्णीयास्त्वमिति। एवमेकदा जिनदासो निजभार्यागुणमल्या सह अटव्यां क्रीडितुं गतः तत्र सरलतरा[णि] सुवृक्षाग्रे फलान्यालोक्य याचितस्तया। जिनदासेन च तस्याश्चक्षुषी वस्त्रेण बद्ध्वा मर्कटरूपेणानीय दत्तानि। तया मृष्टानि ज्ञात्वा पुनराग्रहेण याचितः स यावत् तथा पुनर्वृक्षमारूढस्तावद् विद्यया मर्कट एव कृत इति। ४.५ **णमिय** आरोपित। ६.५ **सिक्किरिउ** वर्धते पुष्यप्रदेशः।

चालीसमो संधि

Opening Stanza. **सम्मय** शोभनमतम् (P.'s gloss also, given at I 146 as on a word in 1 1, is to be connected here).)

१.१ 'गयंगसं' इति गतशरीरसुखम्। **चारु रुचा** शोभनदीप्त्या कृत्वा। अथवा रुचा अन्तरङ्गभक्त्या वन्दे। **णएण वंदे** नीत्या आगमोक्तविधिना वन्दे। **सासं** अहिंसकं। अत्र कियती वाऽक्षरावृत्तिर्यथा 'तंसंतं तंसंतं। गयंग गयंग। संधीअधीसं संधीअधीसं' इत्यादि। (The text of the gloss on I 146, last two lines, is to be corrected as here). १.२ **असाहणं** मण्डनरहितम्। २.६ **गए** गजे सति। २.६ **आहए** पातिते सति तुरङ्गमे। २.७ **'रुहिर'** etc.—रुधिरबिन्दुमण्डिते। **सायरे** etc.—समुद्र इव सुरमथिते तथा...स्थिते सति। २.८ v. l. **विच्छिड्ड**। १६.४ v. l. **धुव** हस्तिषु रथेषु निश्चलाः। १६.५ **चवल** वक्रग्रीवा धावनशीलाश्च। **चडुल** अस्थिरक्षुराः।

एक्कचालीसमो संधि

१.९ v. l. **पइं संतें भाएण**। ५.९ v. l. **दुक्खच्छइ** दुःखं तिष्ठति। ११.११ v. l. **सीमंतं** मर्यादावसानं(?न)करोति। 'संयल' वा। १६.८ **णिसण्डिहिं** नृसमूहैः। १७.५ v. l. **अद्दउ** आदर्शः।

बायालीसमो संधि

२.९ v. l. **सेज्जए** (cf. A.'s reading)—लीलया। ३.४ **णियलीलए** सरा-(?स्वैरा)गमनेन। ४.४ v. l. **सुवउ**। ६.७ **मणि** रत्नप्रभा चेंद्रग्रीवा। पश्चात्यभागः(?)। ९.४ v. l. **सवासउ** म-इन्द्रः। १२.१ v. l. **वाइ** वापी। १२.११ **ताडिय** विस्तारिता।

चउयालीसमो संधि

Opening Stanza. v. l. **सहीरण** आत्मनो धीरणम्। ४.४ **विसंथुल** शिथिलाङ्गः। ५.४ **सिद्ध** प्रमाणाबाधितम्। ६.१ **अणिद्दिय** असङ्ख्यात। ६.४ **अद्धे** अध्वनि। १४.९ **धरमि** उद्धरमि। १५.६ **कंकाले** कं जलं तस्य काले, वर्षाकाले।

पञ्चचालीसमो संधि

२.३ v. l. **सज्झे** साध्ये। २.८ v. l. **मज्झारणुउ** मध्ये क्षामः। २.९ v. l. **उवएसु** उपदेशो मन्त्रः। ४.९ v. l. **अइवडउ** श्रीमदणहिलपत्तनस्य नामेदम्। १०.५ v. l. **इंदु** चन्द्रः। १०.१० v. l. **छुलुच्छुलु** शीघ्र, उत्तावलकम्। १२.१४ **रिह** लेखा।

छायालीसमो संधि

१.१ v. l. **खइयाय** (cf. S.'s reading) खचिते। ५.२ **वाइणा** वातस्यापत्येन। **तमालयं** अन्धकारगृहम्। ६.२ **जुए** युग्मे। ७.७ **वहलपत्तलो** घनपर्णः।

सत्तचालीसमो संधि

१.९ **भुव** etc. भूर्य, हस्ताश्च। **णेत्त** नेत्र, वस्त्रविशेष नयनश्च (?)। **सुत्त** सूत्र, यज्ञोपवीतश्च (?)। ४.४ v. l. **हरिहरु** स्वर्गः। ४.५ **पुण्णाय** पुरुषे सर्पे च। स्वरहितः प्रसिद्धवचनं पक्षे (?)। ११.८ v. l. **संवउरु** (cf. P.'s reading.).

एकुणपण्णासमो संधि

४.८ **सर** गुणा बाणाश्च। ८.५ v. l. **णयपालएण** नयपालदेशानाम्। १०.१ **तियडइ** तृ(त्रि)जटायैः। ११.१ **धयरट्ठगइ** हंसगतिना (?). ११.७ **गंभीरउ** महत्। ११.८ **रंखोलिर** झात्कारः। ११.९ **कंची** चीर (?). १२.२ v. l. **णिम्मयलंछण** मदकलङ्करहिता (?). १२.७ **सेरी** स्थिर। १३.११ v. l. **जूडि** (cf. P.'s reading)—केशजूडिका। १४.७ v. l. **अहिसारइ** (cf. P.'s reading)—स्थापयति। १६.९ v. l. **भीसाणहं** भीष्माणाम्। १७.२ **णियाणे वि** निदानेऽपि। १८.६ v. l. **कुसामउ** (for कुदेवउ; cf. P.'s reading) कुसमयैः (?).

पण्णासमो संधि

२.२ v. l. **णिरु णंदणु माया इव** अतीव पुत्रो मातरं यथा स्मरति। **सिहि** मयूरः। २.३ **पहु** प्रभुः। ४.७ v. l. **पच्चायारु** प्रत्याख्यान इव। ५.१ v. l. **गुणग्घविउ** (cf. P.'s reading)—गुणैः भरितः। ६.९ v. l. **पवंधहो** (for °पवञ्चहो ?)—विस्तारस्य। ७.९ v. l. **मोक्खसुहासेहिं** मोक्षसुखासीनैरितिभाषितम्। ७.१० v. l. सव्वु (for चउ; cf. P.'s reading)—अहोरात्रि। ८.१० **सुहासय** शोभनहृदयानि। ९.६ v. l. **मेहली** सीता। १०.५ **कंचीदामु** वस्त्रमाला। १०.६ **हलीसमणोहरि** सीता। ११.१३ v. l. **धूयवत्ति** वधारितानि। **सोवीरिहिं** काञ्जिकैः। The Gloss figures in II 11 13*b* are to be adjusted according to this. १२.१*b*. v. l. **हत्थासोयणउ** cf. P.'s reading. The gloss is same as in P. १३.२ **वासाणि व** मार्गे इव (?).

एक्कवण्णासमो संधि

२.३ v. l. **अइमुत्तमा** अत्युत्तमा (?). २.६ **वया** वचा। ३.३ **रसंतु** आरटन्तः। ३.७ v. l. **णम्मय** (for णिम्मउरु?)—नर्मदा। ४.३ **उब्भिण्ण** उत्पन्न। ४.४ **चंचरिय** भ्रमरः। ४.७ **अलि** तेजः (?)। ४.८ v. l. **वित्थिण्ण** विस्तीर्णः। ४.९ **समग्गु** समानः। ६.९ **दलणिवेसु** दलानि पदानि पत्राणि च। ७.९ v. l. **तमि** रात्रि। ८.७ **वहुखम** बहु भूमिं प्रविष्टोऽन्यत्र बहुक्षान्तिः। ११.३ **परिकरावद्ध** सन्नाहकृतः। ११.७ v. l. **उब्भिण्णकरवाल** उद्घुषितहस्तरोमाणः। १२.५ **पहंजणेहिं** वातवलयैभिः (?)। १५.१ v. l. **विणकु** The reading and its gloss here correspond to those in P.

दुवण्णासमो संधि

२.१c. **ण विहावमि** न पश्यामि। २.१० **दलु** निर्णयः। ८.१० v. l. **छायाविक्खणउं** (cf P.'s reading). ९.१b. v. l. **जीवभयाणवसरइ** (cf A.'s reading)—जीवितव्यभयणेवसराणि (?)। १०.१० v. l. **ससणुद्धुय** (cf P.'s reading)—वातोद्धुतैः।

तिवण्णासमो संधि

१.३ v. l. **संसारएं** सा-रते, अथवा 'संसा' प्रशंसां रदति, अथवा 'संसा' सुखलक्ष्मीं रदति 'संसारदे'। 'रद' विलेखने धातुः। १.५ **णरवरसंदण** नरवरमर्दकाः। १.७ v. l. **अवराहउ** अपराभवः। [पराभव]रहितः। १.९ v. l. **उव्वडइ** (cf. P.'s reading). ३.५ **आमेल्लिय** गृहीताः। ५.६ **चाल** चत्वारिंशत्। ७.३ v. l. **अणिट्ठियगव्वें** अनस्थित (?)गर्वेण। ७.६ **गयरुप्पें** गजा(?दा)रूपेण।

चउवण्णासमो संधि

६.१० v. l. **परिरक्खइ** सर्वत्ररक्षां करोति। ७.२ **कुवलय** गदहूल (?). ७.१० **पर** किन्तु। ८.६ **मेलावकें** मेलापकेन। ८.९ v. l. **एहए** अस्मिन्नपि जन्मनि। **अण्णभवंतरे अंतरे** अस्मिन् जन्मान्तरेण विना। १०.५ **वेत्तासण** स(श)-राव। वेत्रासनो वा। ११.७ v. l. **आयहु** (cf P.'s reading) एतानि (?) कलुषितैः पीडितैर्जीवः। १२.१ **साउ** सर्व्वम्। १२.७ **मइलसमुज्जलेहिं** उच्चनीचैभिः(?)। १६.२ **वोहि** ज्ञानानुप्रेक्षा।

पञ्चवण्णासमो संधि

Opening Stanza: **दुवक्खी** द्विपक्षे जातः। २.३ **वाल** विवेक (?)। ५.३ **सकुसुमं** गृहप्राकारसहितम्। ५.४ **तवंग** उपरितनभूमावस्थानपट्टमण्डपिका।

छप्पण्णासमो संधि

३.९ v. l. **आहवइ** (for अप्पाहइ)—आढवति। ४.४ **पवलयमालारंखोलिर**

प्रवालता-आन्दोलिता । ५.१ v. l. **गज्जो** (?) शब्दितः (?). ५.३ **फार** वितीर्ण । १२.९ **डीणु** उड्डित्वा ।

सत्तवण्णासमो संधि

१.३ **कुलसेलु** कुलपर्वतः । १.८ v. l. **परिहरिएवउ** P.'s reading and gloss correspond. ३.१ **०[हि]रावणो** अभिरामकः । v. l. **हरिणाएरावणो** हरिणामेरावतः शक्रराजः । ३.४ **परिहरावणो** मोचकः । ३.५ v. l. **मणोहरवहु-परावणो** मनोहरवधूनां प्रकर्षेणानन्दकारकः (cf. P.'s reading and gloss). **'बहुय-रावणो'** इति पाठे अमरमनोहरवधुकानां रावणः प्रक्रन्दकारकः । ३.६ **तुरावणो** प्रेरकः । ४.१ v. l. **विहीसणो** हे विगतभीस्तथा हे इस णोऽस्माकम् । ४.२ v. l. **विसोसहिं** (cf. P.'s reading and gloss) कदर्थयसि । ४.५ Between the glosses on कंधरो (line 5) and on जंपिरं (line 6), T has 'णायउ' ज्ञातः and गहिरणायउ' गम्भीरशब्दः Possibly these suggest an extra Yamaka between lines 5 and 6, not read by PSA. The fact that the Kaḍavaka-body here unusually contains six lines only, instead of eight or even seven may go to support this surmise. ६.१ **विरुयउ** अशोभनं कृतं त्वया। ६.२ **दुद्धर** etc. T. has P.'s reading and gloss. ६.८ **पवराहउ** प्रवरा आहवाः सङ्ग्रामा यस्य । अथवा प्रवराः श्रेष्ठा विटसुग्रीवादयो हता येन । ७.४ **जो जणे संकुइउ** यो लोकमध्ये पूर्वं संकुपितः । ७.४ **विहीसणो** विगतभीर्भयरहितःस्वनः शब्दो यस्य । ९.१ *a*. **वरत्थयं** उत्तमप्रहरणकम् । ९.२ **सुहडसुहड** सुभटाः । रथाः । **भासुरं** भीष्मम् । **संखोहभासुरं** पटहभेरीशङ्खौघानां शब्दमाहात्म्यं सुष्ठु राभि(?ति) ददाति भासुरं । ९.३ *a*. **'रिउमंडलगए'** इति पाठे रिपुमंग(?ड)लगते इत्यर्थः । १०.३ **देइ** ददाति पत्नीं सीतां यदि (The foot-note under 10–2 is to be corrected as P. देइ.). १०.७ *a*. v. l. **पहु रुच्चइ** (cf. P.'s reading)—प्रभुरुच्यते भण्यते ।

अट्ठवण्णासमो संधि

६.५ v. l. **मुसंढिगय** वज्रमुष्टिगदाः । ६.७ *a*. v. l. **समायरेहि** आदरयुक्तैः। ९.३ *b*. v. l. **विंदूय परे सविसज्जणीउ** दूतहेरिकसहितोऽन्यत्र बिन्दुद्वयं । ११.९ *a*. v. l. **हत्थहुं** (The Gloss corresponds to that in P. for ऊंकार; T. reads अकार). ११.९ *c*. v. l. अण्णउ दुव्वयणं (cf. P.'s reading)—अकाररूपवर्जितं द्विवचनानाम् । v. l. **सरासणहं** स्वरसंज्ञकानाम् । १२.५ v. l. **वलिविरिंच** बलिदानम् । १५.८ **कइकइअवरज्जिय(सुअ)** बलिभद्रः । लक्ष्मणः ।

एक्कसट्ठिमो संधि

४.१३ **जसोहभूरिणा** यशौघभूरिणां शत्रूणाम् । ७.२ v. l. तामिच्छं (=P.'s

reading)—अ[ग]स्थिवृक्ष । हड्डतरु इत्यर्थः । १२.३ घारा रात्रि । १३.६ करि etc. हस्ती रटन्तः सन् कर्परितः ।

बासट्ठिमो संधि

१०.२ v. l. उड्डहणु (=P.'s reading) उपतापकः । १२.६ v. l. समदिट्ठि (=P.'s reading)—समविषमक्रूरादयो दृष्टयः । १२.७ अयणु अयनषट्केति ।

तिसट्ठिमो संधि

१.४ रुंजा शब्दायमान । ३.६ कलेवरं रुण्डम् । ७.३ विड शुक्रः (?).

[The folio No. 39 is missing. The gap in the Gloss extends up to Sandhi 66.]

सत्तसट्ठिमो संधि

१.७ लवंतिए स्फुरन्त्या ।

[Useful materials from this *Ṭippaṇa* for the rest of the PC. will be found under the designation T among the glosses reproduced in the footnotes to the text-portion].

शब्दसूचिः

Abbreviations : D—Deśīnāmamāla of Hemacandra. f.—feminine gender. gl.—gloss in Ms. P. or T. G.—Gujarati. H.—Hindi. Hc.—Hemacandra's Prakrit Grammar (= Siddhahema, Chapter VIII). m.—masculine gender. M.—Marathi. n.—neuter gender. ND.—Turner's Nepālī Dictionary. nom. prop.—nomen proprium. op. st.—opening stanza. PSM.—*Pāiasaddamahaṇṇavo* of H. Sheth. Sk.—Sanskrit. ref.—referring to. Part I—word-index of the first Part of the *Paumacariu*. Part II—word-index of the Second Part of the *Paumacariu*. A query (?) indicates doubtfulness of form or sense. √—verbal root.

Reverting to the practice adopted in Part I, य़् has been placed between the vowels and consonants in the alphabetical order.

अइरावण 57 3 1 ऐरावत

अइहव 69 22 9, 79 4 2 अविधवा

अग्गलें 64 10 5 in front

अग्गाहर 65 3 9 [अग्रगृह] front yard (or = अग्रहार ?).

°**अग्गिमय** 58 6 3 सूपमुद्गादि (cf. 34 13 3)

अङ्गहर 62 4 7 अङ्गहार, gl. करणभेद

अङ्गुत्थलिय 77 20 6 finger-ring

अच्छहल्ल 81 10 8 bear (D. 1 37 अच्छभल्ल)

अच्छोडिय 66 9 9 आस्फालित

अजड्ड° 71 11 22 (१) अजड, (२) अजाड्य

अट्ठ-उण 64 10 3 अष्ट-गुण

अड्ड 61 4 8, 61 6 9 crosswise, sideways (PSM; G. आडुं)

√**अड्ड** 71 14 6 station (ref. army) स्थापय् (cf. PSM अड्डिय=आरोपित)

अड्डय 74 7 3 gl. takes this to be a sort of weapon (प्रहरणविशेष), but it may mean shield (cf. PSM अड्डण 'shield')

अणयाणन्त 84 3 5 अजानत्

अणिट्ठिय 78 2 2 अनिष्ट

√**अणुअत्त** 57 1 9 अनु + वर्त्

अणुअप्पाइय 68 1 10 अन्वाप्यायित replenished

√**अणुण** 57 4 8 अनु + नी–

अणुसरिस 60 10 9, 68 1 4 [अनुसदृश] योग्य (PSM)

अत्थक्कएँ 65 8 2, 67 4 2, 69 18 11, 79 11 10 all of a sudden

अत्थन्तय 67 12 9 dying

अन्दोलिय 74 17 7 [आन्दोलिका] आन्दोलन

अप्पंपरिहूअ 75 9 6 confused as to one's own and enemy's flanks.

अप्पाण 57 1 8 आत्मीय

°**अप्पायण** 77 3 8 आप्यायन

√**अप्पाह** 59 3 2 teach (PSM) (gl. आढव 'begin' does not fit the context)

अप्पुणु 68 4 9 स्वयम्

√**अब्भइय** 71 9 10, 80 7 3, 86 19 11, अब्भइयय 85 11 4 अतिशय, अभ्यधिक

अब्भरुहुल्लइँ (v. l. आभ°, आसर°) 73 6 4 gl. उभयत्र श्लाघ्यानि (?)

अब्भिट्ट 61 op. st., 62 12 6, 63 7 2, 64 1 1 joined in battle

√**अब्भिड** 59 5 4, 61 9 9, 62 2 7, 64 5 4, 64 6 3 fight

°**अब्भिड** 74 5 6 सङ्ग्राम

अब्भोक्खण° 68 2 10 अभ्युक्षण

अब्भोक्खियय 68 2 9 अभ्युक्षित, gl. सिञ्चित

अमी-ईयार 58 15 7 the vowel *ī* of *amī*

अरित्त 73 13 8 अरित्व

अलमल° 82 4 1, 82 5 9 दुर्दान्त (qualifying बल 'strength'); gl. प्रचुर (cf. D. 1 25 अलमल=दुर्दान्त-वृषभ)

अलयं 71 5 5 gl. अलम्

अलियल्ल° 60 5 3, 81 10 8 व्याघ्र (cf. D. 1 24 अरिअल्ली, 1 56 अलिअल्ली); gl. चित्रकः, व्याघ्रः

अलिमा 71 5 4 gl. असत्यम्

अल्लल्ल° 84 7 6 आर्द्रार्द्र

अल्लीण 66 2 2 प्राप्त

अवयज्जिय 73 1 1 gl. अवलोकित

अवज्झ 70 8 7 अयोध्या

अवड 71 5 3 gl. न वियतेऽन्यत्र बृहद् यस्माद् वटात् (?)

अवरत्तण 62 1 6 [=अपरत्व] gl. पश्चिमभागे.

°**अवरुण्डण** 63 7 5 आलिङ्गक

अवरुण्डिय 57 12 9 आलिङ्गित

अवहेरि 59 5 7, 71 12 10 अवधीरणा

अविणीयय 81 4 7 (१) अविनीत, (२) अवि-नीत.

असणि-जलय 59 1 9 [अशनि-जलद] प्रलय-मेघ (PSM)

°**अहिरावण** 57 3 1 अभिरामक [gl. अभिराम]

°**आअल्लियय** 69 20 10 उत्कण्ठित (मयणा-अल्लियय love-sick; cf. PSM आयल्लया; D 1 75 आअल्ल=रोग)

आयल्लउ 83 2 1 gl. आरार्तिकं कामपीडा वा (see आअल्लियय)

√**आयाम** 61 11 1, 61 12 2, 63 8 9, 63 10 7, 64 3 9, 64 12 8, 64 13 9, exert force (Pc. I)

आखञ्चण 02 6 9 plucking

°**आजाण** (?) 82 6 2 देशविशेष

°**आडुम्भण** 77 10 4 causing turbulence

√**आडोह** 76 9 5 cause turbulence by wading through.

आढविय 78 14 1 आरब्ध

°**आणन्दयर** 60 2 1 आनन्दकर

आण-वडिच्छा 77 19 6 obedient

आदण्ण 67 2 8 व्याकुल

°**आभङ्गण** 73 1 6 अभ्यञ्जन

आमेल्ल 58 14 3, मुच्, त्यज्; **आमेल्लिय** 61 11 8, 61 8 4, 63 6 10 मुक्त

√**आरणाल** 75 17 7 कमल (D. 1 67)

°**आरुक्किय** 68 11 7 grunting (ref. boar)

√**आरोक्क** 65 1 2 check the advance (cf. रोक्क I)

√**आरोड** 57 2 7 आक्रम् attack

°**आलण**° 76 6 9 आलान

आलिय 79 12 6 tied (cf. PSM आलइय= आलगित, यथास्थानस्थित and आला-णिय=बद्ध)

आलेक्खिम° 72 2 7, 72 4 10 आलेखित-रूप

आवग्गय 62 2 7, 63 12 8, 79 5 8 entirely, आवग्गी 58 5 9 gl. स्वाधीना समस्ता वा

√**आवट्ट** 70 3 10 विलयं प्राप्; **अवट्टिउ** 66 9 5, 81 13 5 विलयं प्रापितम्, विनाशितम्

√**आवड** 62 5 8, 81 5 10 [आपत्] भास्; **आवडिय** 78 8 9 भावित

°**आविद्ध**° 73 8 9 व्याप्त (cf. D. 1 63 आविद्ध=प्रेरित)

आवन्धुर 68 5 3 [आवन्धुर] gl. मनोज्ञ

आवीलिय 60 1 5, 67 15 4, 68 1 1 [आपीडित?] (ref. quiver) fasten, put on

आसङ्घिय 68 10 3, 89 5 6, 90 3 7 संभावित, आश्रित

°**आसीविसहर** 74 11 5 [आशीविषधर] आशीविष

आहयण 63 9 2, 66 6 1, 74 13 1 सङ्ग्राम

√**आहिण्ड** 62 4 2, 63 12 10 भ्रम्

°**आहिन्दोलण** 77 10 1 causing to undulate

आहीरिया 71 9 7 damsel from the Ābhīra country

°आहुट्ठ° 86 3 4, 90 1 6 अर्धचतुर्थ
इण्ण (in ण-इण्ण) 70 4 1 दत्त
इन्दाइणि 62 14 5 gl. इद्रमणि-आभरण
°इन्दिन्दिर 63 1 6, 64 4 8, 71 2 3 bee
ईसाइय 59 3 10 ईर्ष्यायित
उक्कण्ठुल° 81 12 4 उत्कण्ठ, उत्सुक
उक्कप्पणय 80 5 3 उत्कर्तन
उक्करुड 77 4 6 [उत्कर] dung-heap (G. ऊकरडो)
°उक्कोयण 81 3 1 see उक्कोवण
उक्कोवण° 62 13 8 [उत्कोपन] उद्दीपन
उक्खन्ध 70 11 6, 80 5 7 invasion
उग्गामिय° 61 1 5 raised
°उग्गिण्ण° 58 3 8, 59 1 1, 63 9 4 उक्षिप्त
°उग्घाय 72 15 6 समूह
उच्चल्लाविय 77 5 9 was caused to be carried (cf. Marathi उचलणें carry)
उच्चारय 83 10 1 उच्चतरक (gl. ऊर्ध्वीकार)
उच्चालण 77 10 6 carrier
उज्जोत्तिय 64 13 7 forced to unyoke
°उज्झर 66 3 2, 72 1 8 निर्झर
उट्टुद्ध 87 1 6 नियन्त्रित, गृहीत subjected, possessed
√उड्ड 64 14 2 offer, present (cf. समोड्ड) (G. ओडवुं)
उड्डमर 63 2 2 nom. prop.
°उण्ड 77 4 8 lump
उण्णिद्दाविय 69 20 6 made to dispel sleep (i. e. swoon), brought to consciousness.
उत्तर-सक्खिणय 69 1 8 [उत्तरसाक्षिन्] assistant
°उत्ताल 80 11 1 उद्धत
√उत्थर 62 10 4, 64 14 9, 63 10 2, 65 6 1 आक्रम्; उत्थरन्त 59 5 3, उत्थरिय 61 9 5, 63 9 7 (see Part I उत्थर)
°उत्थार 72 1 11 आक्रमण

उद्दहण 62 10 2, 68 5 9 (v. l. उड्डहण) चोर [D. 1 101 उड्डहण]. At 68 5 9 P. S. read उड्डदहण and gl. in P. gives उड्ड=मनः; gl. in T. wrongly रुद्दहणो=मर्कटः.
√उद्दाल 72 8 3 snatch, उद्दालिय 74 4 1
°उद्देहि° 81 10 5 [उपदेहिका] termite (G. उधेई, उधई)
उद्धुसिय 64 12 3, उद्धूसिय 58 12 10, 60 1 4 पुलकित (see Part II)
°उप्पङ्क° 73 3 6 बहुल (D. 1 130)
°उप्पित्थ° 60 5 8 nom. prop. (cf. D. 1 129 उप्पित्थ=कुपित)
°उप्पील° 66 3 1, 66 4 5, 72 15 5, उप्पीलय 77 9 1 समूह, सङ्घात
√उम्मज्ज 77 14 6 gl. मर्दं मुच्
उम्माहय 79 7 7 uneasiness due to intense longing
उम्मिल्ल° 68 7 4 gl. उन्नत, ऊर्ध्वीभूत
उव्वट्टिय 73 2 1 [उद्वर्तित] shampooed with frangrant unguents
√उव्वर 66 3 5 escape, be saved
उब्भड 58 4 7 उद्धत
उलुह 81 10 3 उलूक (cf. D. 1 109 उलुहंत=काक derived from उलूकान्त 'destroyer of owls')
°उल्लाव° 71 4 8 [उल्लाप] आलाप
उल्लूरण 60 7 5 nom. prop. (cf. Hc. 4 116 उल्लूर=त्रुट्)
°उल्हावण 59 8 10 nom. prop. (cf. उल्हाव Part I)
°उल्हास° 59 8 10 [उल्लास] nom. prop.
उव 69 20 8 पश्य
√उवडस 78 3 1 [उपदश्] bite
°उवहाण 62 8 5 [उपधान] pillow (gl. गंडूक इव शिरोवष्टंभ)
उहु 69 10 2, 69 17 1, 78 20 7 yonder one (H. वह, G. ओ)
ऊदन्ताइ-णिवाय 58 2 9 [ऊदन्तादि-निपात] ocurrence of words ending in ऊ
एक्कन्तर 74 5 7, gl. 76 3 6 सङ्ग्राम

°कल्लवण° 58 6 6 [cf. PSM कल्लविअ=आर्द्रित; G. कालववुँ mix with a liquid; Tamil *kala* 'mix', *kalavai* 'mixture.'] sort of savoury food additive in the daily dish.

कलुणइ 68 13 7 pathetically

कवणीय 81 15 7 कमनीय

कविलास° 66 12 4 कैलास

कहकहकहन्त 59 1 5 roaring with *kakahaha* sound (ref. *pralaya*)

कायल° 81 10 3 काक (D. 2 58; cf. Marathi कावळा)

कालेञ्जर 87 3 3 deity at Kāliñjara?

काहार° 82 6 3 देशविशेष

किय 65 4 2, 71 14 6 किल (cf. Part I)

किडिकिडिजन्त° 68 6 6 cf. Part I (Perhaps some meaning like 'tardily moving' fits better)

किण्णरय 72 7 12 वाद्यविशेष?

किलिकिञ्चिय° 79 11 3 रमण; gl. विपरीत-सुरतभेद (Hc. 4 168 किलिकिंच=रम्)

किलिविण्डि° (f.) 61 6 8 gl. कन्दल, सङ्गाम

कु 73 13 8 पृथ्वी

कुट्ठारियय 82 10 2 कुठारधारिन्

कुढ 58 2 4 पृष्ठ

कुद्दल° 82 10 2 कुद्दाल

कुमुणिवर 61 68 कुमुनि

कुम्हार 77 14 9 कुम्भकार (H. कुम्हार)

कुरल (for कुरुल) 71 2 7 कुटिल-केश

कुरव 82 6 1 देशविशेष

कुरुड 60 10 3 निर्दय (D. 2 63); gl. क्रूर; 61 7 1 कठोर

कुरुमालण 72 6 8 gl. कंडुवण (i. e. कडूयन) stroking.

कुरुल 72 5 3 कुटिल-केश

°कुरूर° 59 6 4 nom. prop.

√कुलकुल 78 15 3 caw (G. कळकळवुं)

कुसिय (f.) 82 10 4 [कुशिका] a digging iron implement (cf. G. कोश)

°कुहिणि 63 5 4, 73 13 3 रथ्या

केकार° 65 8 3 केकारव

°केर 82 11 9 सेवा

°केसुअ° 61 2 1 किंशुक (G. केसू)

√कोक 63 6 1, 64 9 1, 77 15 1, 83 4 1 call

कोक्काविय 69 16 5 called (causative)

कोट्टमिय° 79 11 4 सुरत-विशेष (Hc. 4 168 कोट्टुम=रम्; and PSM कोट्टुम, कोट्टुमिय, which may be corrupt readings)

कोट्टवाल 58 12 6, 74 5 4 दुर्गपाल

कोड्डु 77 11 10 कुतूहल

°कोम्पल° 89 2 3 कुड्मल (cf. G. कूँपळ f.)

°कोहल 59 7 5 [कुतूहल] nom. prop.

कोहल 82 6 4 देशविशेष

√खञ्च 70 12 10 curb, pull back; खञ्चिय 59 10 1 curbed

खड° 83 11 3, 83 12 1 तृण (D. 2 67; G. खड)

°खडक्क 81 10 6 rock (G. खडक m.)

°खड्ड° 90 4 6 गर्ता (G. खाड f.)

खड़िया-जुत्ति 62 6 5 a technical term in the gambling game called *andhikā* (see कत्ति) (cf. the term खड्डुं करवुं used in the present day game of चोपाट as current in Gujarat etc.)

खणखणखणन्त 63 3 4 clanging

खत्थय 81 4 8 (१) [ख-स्थ] gl. गगनस्थ, (२) gl. भीत

ख-मग्ग 61 12 4 [ख-मार्ग] आकाशमार्ग

°खयाल 58 4 9 पर्वत-गर्ता (see Part I)

√खस 78 3 1 swerve, 87 14 8 be dislodged

√खील 82 2 9 [कीळ] nail to a place, confine (cf. G. खीलो nail; freezing the free movement of commodity by cornering it)

√खुड 64 7 8 खण्ड् cut off, chop off; खुडिय 57 6 7, 63 8 10, 69 4 8 खण्डित

√खुड्ड 63 11 7 pluck (ref. fruit)

खुण्ट 81 10 6, 85 7 9 stump (H. खूँटा)

°खुत्त° 82 13 7 निमग्न

°खुप्पन्तय 60 1 2, 70 5 8, 76 5 4, 72 15 5 getting stuck up

°खुरुप्प° 58 6 3, 61 7 6, 63 8 10 क्षुरप्र

खेरि 82 2 7, 82 12 5 क्षार hostile malice gl. कन्दल (i. e. कलह)

खेव 69 18 4 विलम्ब (Old G. खेव)

खेवणि° 82 10 3 [क्षेपनी] sort of implement

गयासणि 74 7 2 गदा (see Part II)

गग्गर° 67 9 3 गद्गद

गञ्जोल्लिय° 61 12 8, 66 12 8, 84 21 1 रोमाञ्चित

गणियारि° 73 14 2, 76 5 6 करिणी

गण्ण (f.) 66 8 12, 75 22 8 गणना

गमयत्तण 67 1 1 गमकत्व

°गम 60 10 4 march

°गलगज्जिय° 59 5 4 grunting (ref. elephant)

°गलत्थिय 65 10 2 प्रेरित, क्षिप्त

गलथल्लिय 70 10 8 गलहस्तित caught by the nape

गलथल्लाविय 78 20 2 caused to be thrown out

गलीण 67 2 1 गलित

गहकल्लोल 77 12 2 ग्रहवैरिन्, राहु

°गहण 62 6 8 a technical term of a gambling game (see कत्ति)

गहिल्लिय 61 7 9 उन्मत्ता (G. घेली)

°गाउ (v. l. गव्वु) 61 14 5 गर्वः

गिरोमय 60 2 9 (v. l. गिरोसह) tiny seedvessel; gl. on v. l. अजमोदस्य मध्यबीजम्. Possibly made up of गिरि 'seed-vessel' (D. 6 148) + ओम (=अवम) 'tiny' (PSM) (cf. G. गर 'flesh of the fruit')

गिल्ल° 58 3 3, 61 9 3, 66 5 4 आर्द्र

गीढ 59 2 8 गृहीत

°गुञ्जा° 79 3 8 वाद्यविशेष

गुड 58 7 7, 65 1 7 अश्वसन्नाह; 61 6 9 करिसन्नाह

°गुप्पन्तय 60 1 2 72 15 5, 74 16 7 becoming entangled in (cf. 20 10 5, 23 6 7, MP. 7 24 10)

°गुप्फ 71 9 2 ग्रथन

गुमुगुमुगुमन्त° 63 1 6 humming

गुरुअत्ति (for गुरुअन्ति?) 71 2 9, गुरुएन्ति 85 1 7 great eagerness (?) (cf. परमन्ति)

गुरुएन्ति 85 1 7 see गुरुअत्ति

गुरु-हार 82 19 3 pregnant

गुलगुलन्त 59 1 7, 66 10 1 grunting (ref. elephant)

गुलियारय 90 6 7 मधुरतर

गुलुगुलुगुलुन्त 63 3 5 giving a prolonged grunting (ref. elephant)

गेज्ज° 73 7 5 ग्रैवेयक

गोस° 70 6 3 प्रभात (D. 2 96)

घइँ 71 13 4, 74 5 3, 75 9 10, 75 22 8, 80 2 3, 88 6 12 indeclinable particle, generally signifying an alternative position, a counterposition or a modification to a position previously stated; glossed with शीघ्रम्, इदानीम् or साम्प्रतम्; Hc. 8 4 424 takes it to be अनर्थक 'expletive'. Actually it has the force of पुणु = पुनः or supplements it.

°घग्घर° 60 4 5 क्षुद्रघंटिका

°घङ्घल 59 7 10 nom. prop. (cf. Hc 8 4 422 घंघल=झकट=कलह)

घडिया-वन्ध 73 6 5 (१) घटिका-बन्ध 1 (२) folded? (cf. G. घडिबंध?)

√घत्त 57 1 9, 63 5 1 क्षिप्

घत्थ 69 13 3 ग्रस्त

घल्लियय 63 9 10 क्षिप्त

घाणय 88 4 6 [घातनक] oilpress (G. घाणो)

√ घार 78 2 8 induce a toxic swoon

√ घिड (for भिड?) 72 4 3 bump into ?

घिणिवन्त 77 4 10 जुगुप्सा-जनक

°घुग्घ° 60 11 5 nom. prop. (cf. PSM घुग्घ=कपिचेष्टा and G. nom. prop. घूघो)

घुग्घुर 60 11 5 nom. prop. (cf. D. 2 109 घुग्घुरी = मण्डूक)

घुम्मुक° 63 1 4 sounding *ghummukka*? (cf. cf. घुम्मन्त Part II and घुमघुमिय PSM)

घोरिय 73 8 3 snored

√ घुरुहुर 65 5 6 snore

√ घुल 66 9 3 घूर्ण्

घोलन्त 61 11 5 घूर्णमान

चउ-धुर 62 6 5 a technical term of the gambling game called *andhikā* (see कत्ति)

चक्खियय 84 7 5 आस्वादित

चङ्गय 66 6 3, 70 3 4 सुन्दर

चच्चरि 62 9 6, 71 3 6 चर्चरी

°चच्चिक्क 89 6 9 विलेपन

°चच्चिक्किय° 75 20 6 विभूषित

°चडक्क 75 6 3 विनाश ?

चडीण 74 15 9 आरूढ

°चड्डुण 77 9 10 मर्दन

चण्ड 69 5 2 चन्द्र

चन्दिम 73 8 3 चन्द्रिका

°चन्दुज्जय 58 11 6 कमल day-lotus

√ चप्प 69 13 2, 81 15 10 press, crush, occupy with force

√ चलवल 72 9 3 tinker

√ चव 58 2 8, 59 4 1, 62 5 1, 69 17 2 speak; चवन्त° 61 4 4

चव 78 8 1 वार्ता talk

च-सद्द 58 4 7 the word *ca*

°चाउल° 83 4 9 तण्डुल (D. 3 8)

°चिक्खिल्ल° 72 15 5 कर्दम (M. चिखल)

°चीर 72 13 5 विदारक (G. चीरवुं 'to tear'); चीरण° 63 10 4 tearing

√ चुक्क 58 13 4, 5 etc. (Hc. 4 177 भ्रश्) escape unharmed; °चुक्क 61 14 4 भ्रष्ट

°चुण्णुग्घ 81 10 5 gl. अग्नि

°चुम्भल 61 4 9 शेखर (see part I चुम्भल; and M. चुंबळ 'a ring put under a load upon the head')

चोज्ज 58 6 2 आश्चर्य (D. 3 14)

°चोप्पडय° 58 6 4 fatty substance i. e. oil or ghee. (cf. Hc. 4 191 चोप्पड=म्रक्ष्)

चोल 57 8 1 nom. prop. (cf. D. 3 18 चोल=वामन)

°चोवाण 62 8 9 the stick for hitting the playing ball (called *geḍī* in Hindi, Guj. etc.)

°च्छोह° 75 3 7 क्षेप

छइय° 75 1 9, 80 7 3, छइयय 89 1 4 छादित

छउअ 71 9 8, 73 6 6 कृश (D. 3 25)

°छड° 76 5 4, छडय 73 10 11, °छडा° 79 4 2 floor-plaster

√ छड्ड 58 9 9 मुच्

छणछणछणन्त° 63 3 2 twanging (ref. bow-string)

√ छम्म 58 2 4 (from छद्म) वञ्च्, छलय्

छह 78 14 9 षट्

छार 62 11 9, 71 13 5 [क्षार] ashes

छिञ्छइ° 69 2 3 पुंश्चली

छित्त 65 8 4, छित्तय 61 8 7 स्पृष्ट

√ छिव् 72 3 2 स्पृश्

छुडु 64 9 4 (with म) lest (In many of the occurences of मञ्छुडु in Part I & II this is the sense and hence its derivation from मं=म plus छुडु is now quite clear. Its connection with मंक्षु first

suggested by Alsdorf is to be given up)
छुड 75 22 5 यदि
छुडु 69 4 9, 73 1 9, 74 16 5 शीघ्रम्
छुडछुडु 72 14 4 hastily, just then
छुद्ध 63 10 10 क्षिप्त
√छुह 63 12 6 क्षिप्
छेव° 72 6 8 [छेद] प्रान्त
°छोह 62 6 6 [क्षोभ] a technical term of a gambing game (see कत्ति)
√जगड 64 13 8, 65 1 9, 75 14 9, 82 14 13 युध्
जगडावण 71 op. st., 75 op. st. पीडक
जट्ठिय 64 3 9 यष्टिका
जजु° 69 20 4 यजुस्
जट्ट 82 6 2 देशविशेष
जड्ड 71 2 8 जड, स्थूल (cf. G. जाडुं thick, fat)
जण्णु-जोत्त 71 11 33 जानुयुगल (see Part I जुण्ण-जोत्त)
जमकरण 64 4 7, 67 13 3, 71 14 1 मृत्यु
जम्पणय 71 14 6 वदन
जम्पाण 79 1 6, 88 7 6 वाहनविशेष
जवणि (f.) 73 5 3 invitation for dinner ? gl. जेवनार (=H. dinner) मंदिरे (?)
जससेसीहूअय 78 1 1 यशःशेषीभूत
जाई-सर 79 11 8 जातिस्मर remembrance of the past existence
√जिगिजिग् 66 7 5 glitter
जीवण 80 op. st.; 80 1 8 जीवनवृत्ति land for subsistence
°जूरावण 59 1 10, 66 6 1, 77 10 10 खेदयितृ, पीडक
जेत्तडय 59 3 1 यावत् as many
जेवणय 61 12 6 [जेमनक] right (hand) (i. e. the hand used in eatiug; G. जमणो)
√जोअ 80 6 8 द्योतय्
जोक्कारिय 62 1 2, जोक्कारियय 65 13 9 जयकारित hailed
√जोत्त 74 6 4 [योक्त्रय्] yoke; जोत्तिय 58 1 9 योजित
°झड 69 5 9 gust
झड° 75 6 3 प्रहार
°झडक्क (f.) 59 4 4 प्रहार
°झडक्क (f.) 75 6 3 शीघ्रपात
°झडक्किय 67 4 7 onslaught
झडझडझडन्त 66 10 3 lashing
झम्प 61 2 4, 66 3 8 jump
°झम्प 75 10 12 आच्छादक
झलझलझलन्त 63 3 7 gushing
°झसर° 58 6 4 आयुधविशेष
झसिय 82 10 3 टङ्क-घर (cf. D. 3 60 झस=टङ्कच्छिन्न)
°झिक्किरी 71 6 9 वाद्यविशेष
झिन्दुअ 62 8 9 कन्दुक
झिन्दुवय 72 10 2 कन्दुक
झुणुक° 71 6 9 वाद्यविशेष
√झुलुक्क 77 7 9 burn (cf. G. झळकवुं to shine brightly)
°टक्क° 82 6 1 देशविशेष
टक्कर° 70 10 28 knock or bump dealt with body-part (cf. G. H. टक्कर)
°टट्टरी (v. l. ढक्करी) 71 6 9 वाद्यविशेष
√टल 89 1 6 नश्
टलटलिहूई 69 11 8 became unsteady, wobling.
टालिय 72 11 1 dislodged
टिण्टाउत्त 71 10 6 officer in charge of gambling houses (D. 4 3 टेंटा=द्यूतस्थान; D. 1 16 आउत्त=ग्राम-महत्तर (=आयुक्तक))
°टिविल° 79 3 7, टिविला 63 1 4, 72 15 3 वाद्यविशेष
ठउल 62 6 4 gl. दाय a stake in the gambling game called *andhikā* (see कत्ति)
डउण्ड° 71 6 9 वाद्यविशेष

°डक्क 61 4 7 battle cry (cf. 25 6 8)
°डक्क° 71 6 9 वाद्यविशेष
√डक्क 67 4 7, 78 4 9 bite
°डमर 71 12 10 rebellion
°डमर° 74 1 9 भय
°डर 63 8 6, 88 9 6 भय
°डरावण 57 3 5 gl. भयोत्पादक
डवित्थ° 59 7 2 nom. prop.
√डह 67 12 9 दह्
°डामर° 73 op. st., 75 op. st. भयङ्कर
°डामर 86 10 11 भय
डाल 63 11 3, 64 7 6 शाखा
°डिण्डिरह° 59 7 1 (A.'s variant डिण्डिहर is preferable) nom. prop. (cf. D. 4 7 डिंडी=सूचीसंघटित-वस्त्रखण्ड)
°डिण्डीर° 58 8 3, 66 3 1 फेन
°डित्थ° 59 7 2 nom. prop.
डीण 62 2 3 jumped on ? (cf. D. 4 10 डीण=अवतीर्ण)
डोम्ब 79 4 8 श्वपच (D. 4 11 डुम्ब; H. डोम)
°ढङ्क° 59 7 6 nom. prop. (cf. PSM ढंख=ढंक=काक)
ढड्ढरी 72 15 3 वाद्यविशेष
ढड्डस 73 9 7 साहस wonderful feat (H. ढाढस m. =धैर्य, दृढता, साहस; G. ढाढस f.=धैर्य)
ढड्डिय° 79 3 8, ढड्डिया 72 15 4 वाद्यविशेष
°ढण्ढर 59 7 6 nom. prop. (cf. D. 4 16 ढंढर=पिशाच)
°ढेक्किय 68 11 8 bellowing (ref. bull) (Hc. 4 99 ढिक्क=गर्ज्)
√ढोय 59 3 9 [ढौकय्] bring forth, offer
णयणकडक्खिय 69 16 1 looked at sideways (Part II)
णक्क 81 10 2 न्य
णट्ट 62 4 4, 9 [नाट्य] dance
णन्दिणि 78 16 1 [नन्दिनी] गो
णवम्ह 88 1 7 नवाम्भस्
णं णं 79 9 2 etc. ननु (Part I)
णा 73 13 8 नृ
°णाडय° 74 17 6 rope (G. नाडुं)
णियत्थ 73 6 8 (१) निरर्थ, (२) परिहित
°णिक्क° 59 7 8 nom. prop. (v. l. नक्क)
णिक्कय 61 10 9 [निष्क्रय] repayment of debt
णिक्कय 78 10 4 सुनिर्मल (PSM णिक्क) cleaned by sweeping away dirt
णिक्खन्त° 64 11 2 निखात, gl. आरोपित
√णिजन्त् 80 2 6 नियन्त्र्
णिज्जीवय 74 6 10 diver (gl. renders it with मरजीवा=G. 'diver for pearls'). (v. l. णिज्जावय=gl. निर्यामक helmsman)
णिज्झाइयय 60 2 8 दृष्ट
√णिट्ठव 58 7 9 विनाश्
णिट्ठिय 65 10 4 नष्ट
णिड्डुरिय° 58 7 3, 64 12 3, 74 1 7 भयोत्पादक
णिद्दट्ठाहर (v. l. P. निद्दतिट्ठहर, णिद्दिट्ठाहर) 68 5 2? (Gl. in Ms. P. paraphrases: तृष्ठा निःक्रांतो (i. e. तृष्णानिष्क्रान्तो ?) अधरो यस्य, अथ निद्रा तृष्णा वा हरिता येन वा
णिन्दयर 57 7 3 निन्दक
णिब्भच्छिय 65 7 9, 66 6 1 denounced
णिरारिउ 57 1 4, 59 3 7, 76 11 2 अतिशयम्
णिरुत्तउ 57 1 7 निश्चितम्
णिरोसह 68 13 5 [=निरावसथ] गृहवास-रहित ?
√णिलुक्क 65 3 8, 84 17 7 hide
णिल्लोट्ट 63 9 2 पतित
णिल्लोट्टाविय° 58 10 5 पातित
णिल्लोण 69 6 11 [निर्लवण] (1) saltless, (2) without beauty, ugly.
°णिवली° 72 10 4 gl. आघात

णिवाण 78 10 1, 9 gl. शुभस्थान memorable places
°णिसत्थर° 81 10 6 स्रस्तर, शय्या (?)
°णिसुढिय° 62 op. st., 63 11 9 शिथिलीकृत; gl. शिथिल.
°णिसुम्भण 77 10 4 विनाशक
णिहट्ट 58 10 7, 60 2 8, 72 10 4, 60 3 4 [निघृष्ट] मृदित (D. 4 34 णिग्घट्ट= कुशल is different)
°णिहस° 81 10 5 घर्षण
णिहालय 77 11 10, 78 5 6 [निभालक] दर्शक
°णिहि (f.) 68 13 4 निधि
°णीम° 90 4 4 नीप
णीवट्टिय 66 9 5 ? (cf. PSM. वट्टिय; G. वाटवुँ grind)
णीसाम 77 20 1, 88 5 1 [*निःशाम] विनाशक
णीसावण्ण 57 12 2 gl. समस्त
णीसीह-वड 69 3 9 (corrupt for णीसियवड) [निःसितपट] without sail
√णे 58 2 1 take [नी; H. G. ले; M. ने; ND. linu]
णेत्त 77 6 6 [नेत्र] वस्त्रविशेष
√ण्हाण 77 15 7, 77 17 9 स्ना
तज्जोणि° 77 7 8 [तद्योनि] gl. काष्ठ
तडयडन्त 65 8 2 emitting crackling sound (ref. lightning)
तडतडतडन्त 59 1 9 intensively emitting crackling sound (ref. lightning)
तणव 79 3 8 वाद्यविशेष
तण्डविय° 63 1 6, 65 2 4 विस्तारित (Part I)
तण्णय 78 16 10 [तर्णक] gl. वत्स
तत्ति 70 7 9 चिन्ता
तप्पय 74 17 5 raft, boat (cf. G. त्रापो)
तमाल 63 10 6, 63 11 8, 66 10 8 84 8 2 gl. अन्धकार
तम्मिच्छ° (v. l. तामिच्छ) 61 7 2 तापिच्छ
तम्वार 62 3 1 मृत्यु, विनाश
°तरण्डय 83 18 6, 86 10 11 नौका
°तलवर 78 10 7 नगरारक्षक
ताइय 82 6 3 [ताजिक] देशविशेष
°तिय° 57 2 1, 58 2 2, 67 7 9 स्त्री
तियक्ख 67 12 4 त्र्यक्ष i. e. त्र्यंबक
तियमइ 69 6 11, 83 17 9, 85 7 11; तियमइया 73 13 6 स्त्री
तिय-हच्च 81 13 9 स्त्री-हत्या
°तिडन्त 61 1 9
°तिडिक्क (f.) 84 17 2 स्फुलिङ्ग
°तिडिक्किय 63 5 9 (v. l. तडक्किय) चमत्कृत suddenly scared
तिम्मण 48 6 5 sort of curry (?); at 71 10 4 one of the two meanings is the same as the preceding, and gl. renders it with व्यञ्जन (see Part II तिम्मण); the second meaning at 71 10 4 is स्त्री-मनस्
तिरिडिक्किया 72 15 4 वाद्यविशेष
तिसिर 82 6 4 देशविशेष
तिहासरी (?) 71 6 10 वाद्यविशेष
तीर 75 17 3 शस्त्रविशेष
तीरिय 58 6 5, 75 21 1 बाणविशेष
तुङ्ग 82 6 1 देशविशेष
तुणव 72 154 वाद्यविशेष
तुप्प 89 11 6 घृत (cf. D. 5 22 तुप्प= म्रक्षित, स्निग्ध; M. तूप 'ghee')
°तूह 58 8 7 gl. तट
तेत्तडय 59 3 1 तावत् so many
तोरणिय 68 6 7 practising the penance called तोरण (?)
थक्कय 64 8 11, 64 9 1 stood
थट्ट 58 10 5, 61 6 9, 63 9 2, 65 1 3, 65 8 7, 68 9 7 घटा row
थड 60 9 5, 63 7 3, 72 7 14, 74 11 10 घटा, पङ्क्ति
थत्ति 69 18 1, 75 19 1 स्थान, स्थिति

थरहरन्त 59 1 7, 61 13 6 fluttering, trembling
थरथरहरन्त 65 6 1 flashing (ref. sword)
थाणु 87 3 3 स्थाणु, शङ्कर
°थामलय 62 7 4, 69 3 10 स्थान
°थावर° 80 2 3 [स्थावर] gl. दोहलीभूमि as much land as can be sown by two ploughs
थेरासण 69 2 5 कमल (D. 5 29)
थोडय 62 14 6 ?
दडि 59 5 2, 61 11 2, 62 10 5, 79 3 8; दडी 72 15 3 वाद्यविशेष
दडिक्क° 71 6 7 वाद्यविशेष
°दद्दुर° 62 10 5, 79 3 8 [दर्दुर] वाद्यविशेष
√दरमल 72 12 7 crush; दरमलियय 76 1 3 crushed
दलवट्टण 77 10 8 crusher, destroyer
दवणा-भञ्जणिय 62 9 8 [= दमनकभञ्जनिका] a game connected with the spring festival
दवत्ति 69 17 7 द्रुतम्
दाढिय (pl.) 58 2 7, दाढिया° 75 17 9 श्मश्रु (D. 2 101)
°दालि 72 7 7 small block-like piece? (cf. Sk. दल)
°दावणि 76 10 6 [दामन्+इन्?] बन्धक
दिणार 62 14 6 दीनार
दिवेँदिवेँ 61 4 14 daily (Part I दिउ)
दिहि° 65 11 2 धृति
दुअं 86 7 4 द्रुतम्
दुग्घोट्ट 58 10 5, 61 6 9, 63 9 2, 65 8 7, 68 2 6 (= द्विप) गज
दुट्ठकुर° 73 6 6 दुष्ठकुर a bad master
दुप्पगउ (v. l. दुप्पगउं) 62 12 3 [*दुष्प्रगमम्] दुर्गमम्
°दुवालि 88 3 8 mischief?
दूण 75 16 10 द्विगुण
दूसन्थवय 57 1 4 gl. दुष्कर; 74 5 7
√दोच्छ=जुगुप्स, निन्द्; दोच्छन्त 65 7 7; दोच्छिय 64 9 5, 66 9 1
°दोव° 78 12 2, °दोवा° 79 4 3 दुर्वा
धगधगधगन्त 59 1 5, 65 9 7 blazing hot, raging (ref. fire)
धण 59 4 9, 59 4 10, 62 3 4, 62 6 3, 72 14 11 प्रिया
धणिय 73 13 7 प्रिया
धणेइ 73 13 7 gl. प्रीणयति पीडयति वा
धन्त 59 10 7 ध्वान्त
°धम्मेल्ल 68 1 10 धम्मिल्ल
धर 75 9 10 (derived from √ध्रा 'be satisfied') सुख (gl. wrongly equates with धरा, as its rendering भूमिः indicates)
धरत्ति 79 6 4 धरित्री
धव 75 13 3, 75 13 10, gl. तृप्ति (cf. G. धरव=तृप्ति)
धाइउ 62 13 10 [ध्रातः] satisfied
धाणुक्किय 61 6 7 धानुष्किक
धामिर° 60 7 4 nom. prop.
धारायर° 84 1 3 निशाचर
धाह 67 5 1 cry for help (Part I)
धाहाविय 62 3 4 cried for help (Part I)
धीर 58 9 9, 72 13 5 धैर्य
धुद्धुवन्त 66 10 3 roaring (cf. Hc. 8 4 396 (7) धुद्धुअइ and G. धूधकारो)
धुद्धुद्धुवन्त 59 1 9 thundering (see धुद्धुवन्त)
धुन्धु° 59 7 1 nom. prop.
धुम्मुक 72 15 4 वाद्यविशेष
धुवगाय 73 14 3 भ्रमर (D. 5 57 धुअगाय)
√धूलिहो 74 14 5 धूलीभू
धूमवत्ति 73 6 1 gl. कर्पूरागरुमिश्रितं पानीयम्
°धोरिय 60 11 2 धौरेय
ध्रुव 84 25 5 [ध्रुवा] nom. prop.
ध्रुव-तार 85 7 4 ध्रुवतारा pole star
°पइउल्ल° (v. l. वइहल्ल) 81 10 8 gl. वृक्षविशेष (?) (cf. D. 7 51 वइवलय=दुन्दुभसर्प)
°पइग्घ 63 10 7 प्रदीर्घ

पइज 67 13 1; पइजा 62 10 2 प्रतिज्ञा
√पइसर 62 9 3 enter
पईह 64 13 9 प्रदीर्घ
पउञ्जिय 71 6 17 प्रयोजक (?)
पउराणिय 83 8 9 gl. पवित्रा चिरन्तना वा
√पउल 89 8 11 पच् (Hc. 8 4 90)
पओलिय 77 13 1 पक्व (see पउल)
पय-रक्ख 74 6 4 पदरक्षक
°पक्कन्द° 58 10 6 क्रन्दन
पक्कन्दन्त 67 5 1 आक्रन्दमान
पक्कल° 75 3 1 दृढ (cf. PSM. पक्कल=समर्थ)
पक्खरिय 60 9 5, 63 1 7 सन्नाहित (D. 6 10 पक्खरा=तुरगसन्नाह)
√पक्खिर 88 4 4 प्रकीर्
°पगीढ° 64 10 4 प्रगृहीत
पघल्लिय 63 10 8 प्रक्षिप्त
√पङ्गुर 76 5 9 प्रा+वृ to cover oneself with
√पचव 57 12 6 वद् (see चव); पचविय 57 11 1, 69 17 7 उक्तवत्; पचविय° 63 1 3 भाषित, नादित
पच्चविय° see पचविय
पच्चल 75 21 4 दृढ (cf. D. 6 69 पच्चल=समर्थ)
पच्चारिय 61 12 8, 72 12 1 challenged
पच्चाहार 72 3 11 [पश्चाद्गृह] backdoor? (cf. पच्छहर)
पच्चोल्लिउ 71 13 9 प्रत्युत (?) (cf. पच्चेल्लिउ Part I)
पच्छल 58 7 1, 61 2 3, 64 10 5, 64 11 9, 68 5 5 पृष्ठ, पृष्ठतः, पश्चात्
पच्छहर 77 4 5 latrine, gl. वेष्ट. At 54 11 8 gl. equates पच्छाहर with वेढाकार, which seems to be a corrupt reading for वेष्टागार (or विष्टागार?). (cf. D. 6 22 पडोहर backyard, and the words पलोहड, परोहड in PSM).
पजोइय 69 1 1 दृष्ट looked at
पज्झर 77 14 5 flow
°पडहत्थ 82 3 7 gl. सृत

पडि 78 15 8 (v. l. पुणु) [प्रति] back, again
पडिकत्तय 62 6 6 a technical term of a gambling game called *andhikā* (see कत्ति)
पडिकूलणय 57 1 9 प्रतिकूलकारिन् (gl. शत्रु).
पडिवारय 83 17 9 again; 64 3 6 in return
पडिहत्थिय 86 5 3 परिपूर्ण
पडीवय 62 14 10, 64 9 8, 65 5 9 again, towards (Part I)
पडोल्लिय 71 13 9 highly agitated (cf. डोल्ल Part I)
पणव 79 3 8 वाद्यविशेष
पण्ण 59 4 7, 61 3 5 [पर्ण] betel-leaf (G. H. पान)
पण्हु 79 6 1 प्रस्नव (G. पानो)
पत्तल° 75 21 5 तीक्ष्ण (D. 6 14)
पत्त-वाड 74 16 3 fence(?) (cf. H. पतवार?)
°पमय 60 5 5, 64 14 2, 75 14 10, 82 7 6 मर्कट
पमयवइ 75 6 10 वानरपति; gl. सुग्रीव
√पमाय 57 4 8 (?)
परत्तिय 77 9 9 (cf. 17 14 1 °वण्णुपरत्तउ) प्राप्त, कृत reduced to (cf. परत्तिवि= भस्मीकृत्य Mahāpurāṇa 65 24 1)
परएँ 58 6 7, 62 7 9, 72 11 9 प्रभाते; 58 5 9 कल्ये tomorrow
परमन्तिएँ 79 13 1 gl. अत्यादरेण (see गुरुअत्ति)
√परिअच्छ 87 4 11; परियच्छ 58 14 3 ज्ञा (PSM)
√परिअच्छाव 74 2 3 दर्शय्, ज्ञापय्
°परिअन्त° 79 9 6 पर्यन्त
√परियच्छ 58 14 3 see परिअच्छ
परियल 73 5 6, 88 1 10 स्थाल, भोजन-भाण्ड (D. 6 12 परिअली)
परिकअण° 70 8 4 ?
परिगीढ 65 1 7 परिगृहीत

परिचक्कलिय° 64 5 7 made into a circle; gl. प्रगुणीकृत

°परिचड्डण 63 7 5 परिमर्दक; 66 5 1, 76 10 3 परिमर्दन

परिचड्डिय 77 6 10 परिम्रदित

°परिचड्डिय 77 13 1 आस्वादित (cf. HC. 4 110 चड्ड=भुज्)

√परिचप्प 86 8 8 press

परिल्हसिय 88 1 6 स्नस्त, व्यतीत

परिवाह 77 4 7 city drain

√परिसक्क 64 3 8, 65 3 5 move

°परिहच्छ° 58 8 6, 66 3 3 चपल (D. 6 76 पटु, दक्ष and PSM. परिहत्थ erroneously interpreted as जलजलन्तु-विशेष are same as this)

√परिहच्छाव (v. l. परिअच्छाव) 57 1 5 gl. संबोधय् (cf. D. 6 19 पडिहत्थ= प्रतिवचन)

√परिहास 59 5 5 (प्रतिभाष्) speak

पलय-चण्ड 64 6 8 gl. प्रलयवायु

पलोट्टिय 63 10 1 पातित

पल्हत्थय 77 1 1 gl. पतित

पल्हत्थिय 73 3 9, 78 14 3 पर्यस्तित overturned i. e. emptied

°पवट्ट 58 10 7 प्रद्विष्ट (?) (Is this same as the following ?)

°पवट्ट 60 3 4 gl. दक्ष

√पविरोल 88 4 5 मथ्

पवोल्लिय° 77 19 8 spoke

पसंडि° 71 6 12 सुवर्ण (D. 6 10)

°पहंस° 59 8 3 [प्रभ्रंश] nom. prop.

पहिण्डिय 64 13 8 wandered

पहुग्गउ 73 1 8 gl. प्रभातो भवितः (sic.). dawning of the day [Sk. प्रगे; Pk. पगे; Old G. प्रहि; mod. G. पहो; plus उद्गमः]

√पहुच्च 64 7 2 suffice (cf. G. पहोंचवुं reach)

पाण-वह (f.) 68 13 3 [=प्राणवध] हिंसा

पाणिकत्तरी 71 6 7 वाद्यविशेष

पाणि-वह (f.) 68 13 3 प्राणिवध

पारक्कय 75 6 6 पर, शत्रु

पाराउट्टय 76 11 4 gl. पराङ्मुख (Part I)

पारायारिय 57 1 8 पारदारिक

°पासेइअ° 59 10 8 प्रस्विन्न

पासेय 73 1 8 प्रस्वेद

°पाहण° 61 1 4, 61 9 6, 63 6 9 पाषाण

पियइत्ति 77 18 1 प्रिया

°पियल्लिया 81 1 1 प्रिया

°पिड 74 17 8 शारिपट्ट, शारिफलक (At 4 5 9 A's reading पिड्ड is to be preferred to the accepted पिड्ढ and the glossary is to be corrected accordingly)

√पिण्ड 62 6 8 एकत्रीकृ

पिण्डवास 58 14 6, 76 15 6 सेवक

पिहु 74 17 8 पृथक् (?)

°पुडिय° 68 6 6 [=पुटित] संपुटित

°पुडिङ्ग (for फुडिङ्ग ?) 73 1 9 [स्फुलिङ्ग] कण (cf. फुडिङ्ग)

पुणण्णवय 68 2 10; 78 18 3 (f.) fresh, renoviated, rejuvinated

पुण्णालि 69 17 3 पुंश्चली

पुप्फस° 63 3 6 (cf. PSM फुप्फुस, फिप्फिस, फेप्फस, G. फेफसुं) lung

°पूसय° 70 9 1 शुक (D. 6 80)

पेल्लावेल्लि 79 1 6 (from Pk. पेल्ल+आ।पेल्ल; Sk. प्रेर्) pushing and counter-pushing from all sides

पेसण 62 5 3 सेवा

°पेहुण° 76 10 7 पिच्छ (D. 6 58)

पोट्टल 63 5 10, 76 3 7, 83 4 4 bundle (G. पोटलुं)

पोत्ति 73 1 4, 73 4 8, 77 20 4 स्नानशाटी (G. पोतियुं, पोतडी).

पोमाइय 61 10 7, 69 16 3, 82 6 8; पोमाइयय 82 19 9 श्लाघित (Part II)

फर° 62 6 3 स्फरक shield

फम्फाव° 73 3 8, 79 4 5; फम्फावय 78 12 5 बन्दिविशेष

मण्ड 57 7 7, 59 5 8, 67 9 7, 74 4 1, 75 22 10 बलात्

मत्त 89 9 9 मर्त्य

°मत्तवारण° 62 8 6 [मत्तवारण] veranda, pavilion

मन्दल 78 12 4 मृदङ्ग

√मम्भीस 71 14 5 अभयवचनं दा comfort, allay fear (Pat I)

मम्भीस 61 9 1, 66 4 1, 66 5 1, 68 12 3, 77 10 2 अभयवचन (Part I)

°मम्भीसण 60 4 8 comforter, pacifier

°मरट्ट 60 2 1, 64 2 8, 64 10 8, 77 16 1 गर्व; मरट्टिय 72 14 11 गर्वित

मरहट्ठिया 71 9 9 damsel from Mahārāṣṭra

√मरुस 83 16 3 मर्श्

°मलण° 60 2 2 मर्दन

°मलणकर 60 2 2 मर्दनकर

°मलहर 72 1 4 तुमुलध्वनि (D. 6 1 20), gl. गर्जि; 87 12 3 gl. शोक (Part II)

मलित्त 82 8 2 [मलित्व] कलङ्क

मल्हण 59 8 10 nom. prop. (cf. मल्ह Part II)

मल्हण° 81 2 1 sportive joyful movement (Part II)

महाइय 84 10 4, 88 8 9 [महादृत] महर्धिक

महिय° 90 6 6 [मथित] diluted curds

माम 64 7 1, 68 4 2, 82 2 6 मातुल, श्वशुर (cf. D. 6 112 मामा=मातुलानी; G. मामो=मातुल)

मालविणिया 71 9 8 damsel from Mālava

माहव° 76 7 6 [माधव] वसन्त

मित्तु 86 17 4 मृत्यु

मुद्धड 68 8 4 gl. अकुटिला, प्राञ्जला

मुद्धयन्द° 68 8 4 gl. पौर्णमास्यामुदयकाले यो भासुरश्चन्द्रः

मुसण्ढि 74 7 9; °मुसुण्ढि (v. l. मुसंढि) 58 6 5 आयुधविशेष

√मुसुमूर=भञ्ज् (Hc. 4 106); मुसुमूरिय 74 13 8, 75 15 1 मुसुमूरण 67 3 11 (Part I)

मुह-पत्ति 59 3 3, 59 4 4, 61 3 3 [मुखपत्री] पत्रवल्ली ornamental designs drawn on the face

°मुहवड 74 11 3 मुखपट veil

√मूर 89 8 10 भञ्ज् (Hc. 4 106); मूरण 72 10 4 भञ्जन

√मेल्ल 62 2 5, 64 2 5, 88 11 1 मुच् (Hc. 4 91)

मेरय 57 1 4, 68 2 10 मदीय

मेसवाहण 89 13 2 [मेषवाहन] gl. अग्नि

मेहलि 78 7 9; मेहलिय 90 2 4 gl. भार्या (H. मेहरी)

मेहुणिय 68 2 5 मातुलात्मजा (D. 6 148)

√मोक्कल्लि 85 5 2, 86 11 9 send, permit (PSM; G. मोकलवुं send)

मोट्टाविय 79 11 4 मोट्टायितं; gl. बलात्कारेण यत् सुरतं तद्

√मोड 58 7 5, 58 12 8 भञ्ज्; मोडन्त 65 8 7; मोडिय 61 8 3

रव 76 7 5 इव

रय° 80 8 8 [रद] दन्त

√रङ्खोलाव 76 12 1 make to dangle (Hc. 4 48 रंखोल=दोलय्)

°रङ्खोलिर° 61 11 3, 63 11 4, रङ्खोलिरय 62 13 3 dangling (Part I)

रडि 62 3 3 cry

रणउह 58 6 9, 61 3 9 रणमुख battle front

°रणझणन्त° 68 1 1 jingling

रण्ण 68 11 2 अरण्य (G. रान f.)

रत्तिन्दिहु 78 15 2 रात्रिंदिवम्

रमाउल 84 4 3 [रमाकुल] रमणीय

रवण्ण 66 2 5 रमणीय

°रावण 57 3 5 रञ्जक

रावणहत्थय 71 6 18 वाद्यविशेष (G. रावणहत्थो)

°रिउ° 79 4 4 ऋच्

°रिय 69 20 4 ऋचा

°रिच्छ° 60 5 4 ऋक्ष (G. रींछ)

रिञ्छोलि 72 9 8, 79 12 6 पङ्क्ति (D. 7 7)

रिव 71 7 4 ?

°रुच्छ° (v. l. °कच्छ°) 59 8 4 nom. prop.

°रुञ्ज° 71 6 7; °रुञ्जा° 63 1 4, 79 3 8, 86 4 7 वाद्यविशेष (cf. Hc 4 57 रुंज)

°रुञ्जमाण 90 4 4 गर्जत् (cf. Hc. 4 57)

रुञ्जा see रुञ्ज

रुण्टन्त° 64 4 8; रुण्टमाण 58 3 4 humming (cf. Hc. 4 57)

°रुन्द° 61 11 3, 5, 77 13 4 विस्तीर्ण

रुप्पिम° 73 4 2, 73 5 5 रौप्य

रेकारिय 72 12 1; रेक्कारिय 71 15 1 आक्षिप्त [रे+कारित] (cf. D. रेंकिअ= आक्षिप्त]

√रेल्ल 58 8 8, 65 5 9, 82 10 9 flood

लइ 74 2 8, 75 14 9, 75 2 2, 3, 7, 88 10 2, 89 11 3 (particle with the meaning shades of granting, offering, appealing, inviting) come on, look up (G. ले)

लएँ 75 8 9 (see लइ) look! have the joy of it!

लय 77 5 3 गृहीत

°लकड° (for लकुड ?) 83 11 3, 83 12 1 काष्ठ (G. लाकडुं; cf. Sk. लकुट, लगुड stick)

लङ्खिय 79 4 5 pole-dancer (PSM लंख, लंखग)

°लच्छिय° 68 5 6 लक्षित

°लडह° 59 8 10 nom. prop. (cf. D. 7 17 लडह=रम्य, विदग्ध)

ललन्त 58 3 5, 60 1 5, 61 4 9 dangling

ललक्क° 75 17 8, 88 9 2 आह्वाननाद (Part II)

लसि-विवर 77 4 9 (?) gl. गुह्यविवर (cf. D. 7 18 लसइ=काम and लसुअ=तैल)

°लाडिया 71 9 7 damsel from Lāṭa

√लाव 61 3 5, 62 5 9 employ, apply (causative of ले; with sense contamination from लाग्)

°लीह 62 6 7 रेखा

√लुक्क 86 17 3 hide (Hc. 4 55)

°लुच्चय° 60 7 5 nom. prop.

√लुल 64 7 7 roll

°लुली 59 6 8 nom. prop.

√लुह् 62 6 9, 65 7 4, 78 15 9 wipe (Hc. 4 105)

लेक्ख 62 6 8 [लेख्य] a technical term in the gambling dice-game called अन्धिका (see कत्ति)

°लेहड 60 3 8 लम्पट greedy (D. 7 25; cf. D. 1 172 ओलेहड=अन्यासक्त, तृष्णापर)

लोट्टन्त 65 8 7, 65 9 4; लोट्टन्तय 64 13 9 rolling

लोट्टमाण 64 6 5 retreating

लोट्टाविय° 80 7 8 पातित

लोणिय 88 4 8, 89 11 5 नवनीत

°लोलि 83 9 9 'coil' or 'ear-ornament' ? (cf. √लुल् and G. लोळियुं 'sort of earring')

ल्हसिय 82 5 2 [ह्सित] स्रस्त (cf. Hc. 4 197)

√ल्हिक्क 67 12 6 hide (Hc. 4 55)

ल्हिक्क 78 12 9 गत disappeared (PSM; cf. Hc. 4 258 ल्हिक्क=नष्ट)

वइ 75 10 18 व्रतिन्

वइसणय 81 11 5 seat

√वइसर 62 9 3, 68 12 1 उपविश् (Part I)

√वइसार 74 16 5 उपवेशय् (Part I)

°वयर 64 5 6 प्रकर

वगलामुह 67 4 5 (=वडवामुख) वडवानल (cf. PSM. वलयामुह)

°वच्छ 64 8 9 वृक्ष

√वज्जर 58 15 6 83 20 5 कथ् (Hc. 4 2)

वज्जासणि 57 2 5 57 4 5, 67 1 6 [वज्राशनि] वज्राग्नि lightning bolt (see PSM s. v. असणि)

वट्टइ 70 11 10, 72 14 9, 73 13 9, 77 4 13, 82 8 3, 89 11 3 निश्चितम्

°वट्टय 73 5 7 (१) वर्त्मन्, (२) bowl (G. वाटको)

वट्टि (v. l. घट्ट, घट्टि) 82 6 4 देशविशेष(?)

वडहँ खेड्डहँ 90 12 7 (corrupt for पिढरखंडएँ ? cf. पीढरखंड at Vimalasūri's *Paumacariya* 77 64 and पिठरक्षत at Raviṣeṇa's *Padmapurāṇa* 80 140)

वड्डु 62 6 3, वड्डय 61 5 9, 67 14 8, 81 11 5 महत् (D. 7 29; H. बडा, G. वडुं)

वड्डुत्तण 57 2 8 महत्त्व

वड्डारय 77 15 9 महत्तर

वड्डिम 77 18 7 महत्ता

वढत्तण 88 6 12 gl. मुग्धत्व (cf. Hc. 48 4 422, 4, 15 वढ=मूढ)

°वत्तारुहण° 79 4 5 [वरत्रारोहक ?] rope dancer ?

वद्धाउस 63 10 2 बद्धाक्रोश or बद्धकूर्च ? (PSM. आउस=आक्रुश्; D. 1 65 आउस=कूर्च)

वन्तणि° 77 20 6 ?

वप्प 69 20 8, 80 3 9, 82 8 5, 88 1 2 पितृ, तात (D. 6 88 वप्प)

वप्पिकी 81 15 10 पैतृकी (Hc. 4 39 5 (6) वप्पीकी; G. बापीकी)

वप्पिह 62 10 6 चातक (D. वप्पीह 6 90; H. पपीहा, G. बपैयो)

°वमाल 58 1 8, 59 5 2; वमालि (f.) 73 8 4 कोलाहल; gl. कलकल (Part I)

°वमाल 63 3 5 समूह

°वमालिय 79 12 6 व्याप्त

√वम्फ (v. l. वंछ) 81 11 10 काङ्क्ष् (Hc. 4 192)

वम्हाण 67 12 3 ब्रह्मन्

°वरण 77 4 9 embankment

वराइण 76 3 9 वराक

वराहव (?) 72 14 6 राहु

वरि 78 2 7 उपरि (cf. M. वर)

√वलग्ग 61 2 8 [उपलग्न, अवलग्न] आरुह्, अवलग् (Hc. 4 206) वलग्ग 59 4 2, 61 3 1, 64 12 3; वलग्गय 73 1 8 अवलग्न

वलन्त 67 12 9 ज्वलत्

वला 74 13 4, 75 21 1, 77 16 1 बलात्

वलिमण्डएँ 68 9 1, 84 16 9 बलात्कारेण (Part I वलिवण्ड)

वल्लूरय 77 13 1 खाद्यविशेष ?

बवीस° 71 6 10 वाद्यविशेष

वाइ 64 8 1 [वाति] वायुपुत्र=हनुमत्

वाइय° 86 6 10 gl. निधानोत्पाटनधातुवादविवरप्रवेशकारिणः

वाइय 87 1 7 gl. मन्त्रवादिन्

वाओलि 65 8 6, 73 8 3 [=वातावली] वातालि, झंझावात

वायाल° 71 9 7 (१) वाचाल, (२) विट

वाणियकल 81 5 7 [वाणिजकला] वणिग्विद्या

°वार° 62 12 4 gl. बाण.

°वालव° 82 16 2 [वाडव] अग्नि

वालालुञ्छि 61 6 9, 74 13 5 केशाकेशि

वालाहिय 61 5 9 lake, pond; gl. सरोवर झीलरा (H. झीलर small pond) (cf. D. 7 39 वाहली=लघुजलप्रवाह; PSM वाहलिया; G. वहेळो)

√वावर 63 7 8, 66 3 5, 74 1 6 fight; वावरन्त 63 11 1 fighting

वावल्ल 75 17 4 आयुधविशेष

°वासण 68 5 3 gl. विशेषेण क्षेपनं

°वाहलिय 62 8 8 play ground (cf. PSM वाहियाली 'riding ground')

वाहित्त 72 15 6 व्याहृत

वाहिर-धिट्ठय 83 8 4 [वहिर्धृष्ट] shamelessly bold in public

वाहिर-विद्ध (?) 82 18 9 (Possibly corrupt for वाहिरधिट्ठ; see वाहिर धिट्ठय)

वाहिवन्त° (for वाहिरन्त ?) 70 9 1 व्याहरत्

√वुड्ड 66 3 5, 77 14 8 मस्ज् (Hc. 4 101)
वुड्डण° 76 10 3 मजन
वुण्ण° 61 8 3, 66 7 3, 69 13 4 त्रस्त (D. 7 94)
वूहि 74 2 8 ब्रूहि
°वेयडिय 62 5 4 खचित (cf. Hc. 4 89 वेअड)
वेयण्ड 65 10 5, 68 1 4, 74 9 9 गज
वेङ्गि-विसय° 73 6 5 वेङ्गीविषय
वेणी° 74 17 4 प्रवाह
वेल्लडिय 81 12 10, 81 8 10 a poor creeper (G. वेलडी)
°वेल्लहल 62 11 6 सुन्दर
वेहाविद्ध 72 1 1; वेहाविद्धय 65 3 1, 65 5 1, 66 1 1, 72 8 9 कोपाविष्ट (Part I)
°वोक्क 62 13 1, 64 4 9 boast (see भड-वोक्क)
वोद्दह 88 6 7 तरुण (gl. यौवन, तारुण्य) (D. 7 80 वोद्रह=तरुण; Hc. 8 2 80)
वोलीण 66 2 1 अतिक्रान्त
√वोल्ल 72 1 9 आक्रम् attack
वोल्ल (f.) 61 8 1, 65 7 6, 69 15 1, 79 5 1 talk
√वोहार 78 3 5 sweep (cf. H. बुहारना)
वोहित्थ 69 3 8, 74 6 10 (वहित्र influenced by वो° of वोढ) नौका (D. 6 96)
सइय° 69 1 2, 5 स्वकीय (?)
°सइत्तय 68 3 7 gl. स्वस्थ; 76 4 4 मुदित [D. 8 5 सइत्त=मुदित]
सइँ 87 2 10 सदा
सयणिज्ज 72 9 11 स्वजन; gl. बान्धव
°सयत्तण 76 1 7 [सय=स्वक+त्तण] relationship
सक 82 6 5 [शक] देशविशेष
सकियत्थ 81 15 9, 85 8 4 कृतार्थ
सकोमल 75 19 10 सुकोमल
सक्कन्दण 87 4 13 [संक्रन्दन] इन्द्र
°सक्कन्दिय° 81 2 9 see संकुन्दिअ

√संकार 88 op. st. संस्कारय्; संकारिय 88 9 14 संस्कारित, दग्ध
संकुन्दिअ (v. l. संकुंद्धिअ, संकुट्टिअ) 73 3 5 (?); सक्कन्दिअ at 81 2 9; कुद्दन्त (v. l. कुंदेंत, कुद्दत्त) at 79 4 8; used in connection with the activity of sort of dancers called फेन्द.
सङ्ख 74 7 3 gl. takes this to be a sort of weapon (प्रहरणविशेष), but it can be the conch generaly kept by all leading warriors of old
संगहण 77 6 6 gl. पुंश्चल-स्त्री-पुरुष-युगल
°सङ्घट्टण 61 6 9 संमर्दन
सच्च 69 18 7 [सत्य] promise
सञ्चल्ल 60 9 1 संचलित
सञ्चारिम° 79 12 2 mobile
सञ्जुय 64 8 6 संयुग
सञ्जोत्तिय° 60 10 6 (संयोक्त्रित) tethered
सणेह 57 1 5 स्नेह
°सण्ड° 86 6 4 [षण्ड] समूह
सन्तिहर 70 11 10, 71 3 9 शान्तिगृह
सन्थारय 80 12 9 [संस्तारक] दर्भशय्या
°सन्दाणवन्वतय 64 8 7 (१) स्यन्दनवत् (२) रोधनयुक्त
सप्पडिसय 68 3 5 characterized by a throat [cf. D. 6 17 पडिसाओ=घर्घरकण्ठः]
सम 73 1 9 gl. समुद्र
समकण्डिय 65 5 1 attacked with arrows in a concert
समणोहर 69 22 3 अति-मनोहर
समलद्ध 58 5 6 समालब्ध anointed with unguents
समल्लविय 68 13 5 समर्पित
√समल्लिय [सम् + आ + ली] 62 2 2 hide
समसुत्ती 70 11 7 [समसुप्ति] universal sleep ?
समुक्खय 57 7 2 समुद्गामित
समुद्धूसिय° 61 9 4 अत्यन्त-पुलकित (see Part II उद्धूसिय)

सुव 82 6 देशविशेष
से 71 15 6, 73 3 8 तस्य
सेउण-देस 69 6 3 देशविशेष
सेय-वड 74 6 10 श्वेतपट sail
सेरउ अच्छहि 88 5 2 मौनं भजस्व
°सेस° 79 4 2 निर्माल्य (Part I)
सोयामणि° 86 13 9 सौदामिनी
°सोमाल° 66 5 8 सुकुमार
सोमालिय° 74 17 6 gl. हस्तिशुण्डा
सोरट्ठिया 71 9 8 damsel from Saurāṣṭra
सोहलय 67 2 5 उत्सव (Old G. सोहलो)
°हक्क° (f.) 61 4 7 challange
हट्ट-सोह 81 15 2 आपणशोभा
हड्ड 61 4 8, 63 5 10, 63 9 3, 64 8 6, 76 6 2 अस्थि
हत्थियार 75 14 5 weapon (G. हथियार)
√हत्थुत्थल्ल 85 5 2 permit with the gesture of hand (Part II)
हरिवर° 90 4 4 gl. मण्डूक
°हल 69 3 9 anchor
हल 64 1 2 हल् consonant
हलप्फलय 65 3 9 प्रक्षोभ (cf. D. 8 59 हल्लप्फलिअ=शीघ्र, आकुलत्व)
हलिय 67 9 1 (D. 8 62; G. हलवुं, हालवुं)
हल्लोहलिहूअ(य) 75 8 7, 75 12 6 व्याकुलीभूत (cf. Hc. 4 396 हल्लोहल)
हवि 58 4 6, 59 9 8, 67 5 9, 78 3 4 अग्नि
हाणण 57 7 1 घातक
°हाल° 59 6 8 nom. prop.
हिण्डन्तय 61 8 9 roaming
हिण्डिव 82 6 4 देशविशेष
हिन्दोला 62 9 9 swing
हिलिहिलिहिलन्त 63 3 4 neighing
हिंस (हेष्) neigh; हिंसन्त 61 1 6; हिंसिय 66 2 8
हीर° 81 10 6, 85 7 9 सूचीमुखाभं दार्वादि वस्तु (D. 8 70)
हुडुक्क 71 6 6, °हुडुक्का° 63 1 5, 72 15 3 वाद्यविशेष
°हुलि° 58 6 6, 61 1 4 आयुधविशेष
°हुली 59 6 8 nom. prop. (cf. Hc. 4 143 हुल=क्षिप्)
हुल्लुर° (v. l. हुल्लर) 60 7 5 nom. prop.
°हूल° 59 7 10 nom. prop.
हेड° (v. l. हेडि) 60 7 2 nom. prop.
हेल 59 6 8 nom. prop.
हेवाइय 74 4 1, 82 11 4 (gl. गर्वनीतः) accustomed to (Part I, II)

Corrections and Alterations.

Page	Line	Correction
8	34–35	Every warrior sought out his match from the opposite side and
11	27	Trivmphal
12	30	complained
12	37	shattered
14	7	deer
17	9	Bhāmaṇḍala.
21	23	Variable
23	28	rhyme
23	28	moras
26	1	*Viṣamā*
26	23	(cancel the whole line)
29	32	„ „
32	40	illustration
„	43	metres
„	44 (end)	different
„	47 „	well
„	49 „	in
३	१३	सत्तुत्तमहणो
४	१४	˚हाणणो
६	४	˚देवँ पत्ति ज्जइ
„	१५	कलेहँवि
„	२३	2. P („ „) देइ
८	२८	णिवडेसइ
९	५	आसीविसु तुँहुं फणिन्दु
„	२५	2. PS विस˚
११	६	चक्कोहरुरह–
१२	८	थिर-थोर-
१३	१५	भड-वोक्केहिँ
„	२९	1 A ˚चक्केहिँ
१७	४	गय-गण्ड-वलग्गइँ
„	२८	15 A धण णउ
१८	२५	डवित्थ-डित्थ-
१९	९	–हालाहल

Page	Line	Correction
२०	८–९	All forms with final ˚एहिँ to be read as ˚ऍहिं
२३	१६	–कलहंस-
२५	१८	तुरङ्ग-थड
२८	२३	सम्माण-दाण-
२९	११	-भूरिणाऽरिणी
„	२८	11 A घया
३०	१४	णिट्ठुराइँ
३५	२०	अद्धरत्तें
३७	२२	णिसुणेवि
३९	२	विज्जुलेंहिँ
३९	९	धणें
४०	२	रह हय गय
४१	१९	जाहें
४६	२४	विसालहों
४७	१	–सच्छायहों
५०	३	सरइ (?)
„	१४	Metre requires-कुद्धेंण and –लुद्धेंण
५१	„	गलगज्जेंवि
५३	„	तो णिसियरु
„	२२	गिव्वाणरवण-
५४	१२	ओहाइय-
६१	८	राहवेंण
६६	१	Metre requires णाउं and राउं
७२	८	–लक्खणें
८०	११	विसल्लेंहें
८१	१८	अ तोरणिउ
८३	९	किङ्करेंहिँ
८४	१०	वइसेंरवि
८६	७	जलेण
„	९	shift '[१]' after line 11
८६	१२	पयट्टऍहिँ
„	१२	–रक्खसेंण

Page	Line	Correction
८८	१६-१७	Put the lines into inverted comas.
८९	७	सिद्ध व
९१	,,	महक्कव वँ
,,	last	Kaḍavaka S
९८	४	चप्पउ
१०१	१४	वुज्झेसउ (?)
१०२	२१	Metre requires जिव
१०२	१८	स-मुहु appears to be a mistake for स-रहु
१०४	१५	कुरुलइँ
१०६	२५	एक्कु मणु
१०९	४	ऍहु
११३	६	किय कालहों
१२३	२५	व राहवेण
१२६	४	छाया–
१३१	१	दुल्ललिऍण्णि
,,	२	°लिऍण्णि
,,	२६	4 A°लियएण. 5 PA °लियएण
१४१	२५	अथाहँ
१५१	१४	संतावियइँ
१६४	१२	वजमए
,,	१९	–सिय–
१६८	९	उच्चाइए
१७१	२२	मुहेहिँ
१७८	१८	मि (?)
,,	२१	Shift the figure 20 one line up
१८०	२४	पत्ताहों
१८१	७	किउ लक्खणेंण
१८७	२२	पेल्लावेल्लि
१९२	२५	A word of two mora is missing from the last verse-line

Page	Line	Correction
२०९	११	पइसन्तें
२१४	१५	कोडि दस
२१६	१८	अब्भिट्ट
२२५	१८	The first verse-line is short by two moras
२३३	२४	वसहद्धऍण
,,	२५	णिऍवि
२३८	७	सम्भुं सिरिभूइ विवाइउ
२४०	९	उवलद्धउ
२४२	९-१०	Read these as single verse-lines
,,	१०	°वरिन्देणं
२४३	२-३	Read these as single verse-lines
,,	१७-१८	ताहं, –रावणाहं
,,	१३	°क्कऍ थिय
२४५	२४	महरिसि
,,	२५	–भूसिओ
२४७	२	एत्थन्तरें
२५३	५	हुंअं तोहिँ
२५७	१९	एवँ
२५८	१८	ऍउ
२५९	२३	सोँ
२६६	२५	रुवन्तु
२७२	३०	महामोह–
२७५	११	The last verse-line is short by one mora
,,	२०	°सिरेण, °सरेण
२८८	१३	सुणेंवि
२८९	१	–थाणहों
३०१	७	ज्ञात्वा
,,	१०	at I̥

भारतीय विद्या भवन

अमृतं तु विद्या

बंबई